

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम सख्या

9028

काल न०

28071 मंगल

पण्ड

* श्रीहृदिः *

* सामवेद-संहिता *

(सायणाचार्य कृत भाष्यानुकूल)

मान्वय भाषानुवाद सहित

यमराजाशास्त्राचार्य नारदराजगोत्र पण्डित भ. ठानाथा मज

मनानवधमेयताका—सम्पादक

ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा गोद

द्वारा सम्पादित.

Sri Samvedsamhita

Edited Printed and Published

RAMS WARUP SHARMA

THE SANATADHARMI PRESS

MORADABAD

1911

मूल्य ३) रुपया

Price 3 Rs.

* श्रीहरिः *

सामवेद संहिता



(सायणाचार्य कृत भाष्यानुकूल)

सान्वय भाषानुवाद सहित

धरादावादनिवासि भारद्वाजगोत्र पण्डित भोजानाथात्मज

सनातनधर्मपताका—सम्पादक

ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा गौड़

द्वारा सम्पादित.

SAMVED SAMHITA



Edited Printed and Published

by

RAMSWARUP SHARMA

at

THE SANATANDHARM PRESS

MORADABAD,

1912

मूल्य ३) रुपया

Price 3 Rs.

॥ भीहरिः ॥

❖ भूमिका ❖



सनातनधर्मके प्रेमी सज्जनों ! लीजिये यह आपका सर्वस्वधन, आपके भवनको पवित्र करनेवाली और संसारभरके कल्याणकी साधन श्रीसामवेदसंहिता आपके पवित्र करकमलोंमें सादर समर्पित है, जिन सनातनधर्मपताकाके ग्राहक महानुभावोंके हाथमें यह उपहार पहुँचेगा, उनमेंसे कितने ही लोगोंको यह जिज्ञासा होना भी सम्भव है,

कि—इस अमूल्यरत्नके द्वारा हम अपना, क्या और किसप्रकार कल्याणसाधन करें, प्रियसज्जनों ! एक समय वह था, कि—हमारे पूर्वपुरुषा इस वेदशास्त्रको धारण करके संसारसंग्राममें पूर्णविजय पातेहुए सब प्रकारसे सफलमनोरथ हुआ करते थे, पुत्रैषणा, धनैषणा और लोकैषणाको सफल करनेमें वह सदा सिद्धहस्त रहते थे, इसीकारण उनको अवर्षा, सन्तानहीनता आदि कोई भी कष्टदशा शोक नहीं देती थी इस ही वेदके अनुष्ठानसे संसारभरके अजेय और जगद्गुरु बनेहुए थे, परन्तु आज उस ही वेदके होतेहुए उन ही महर्षियोंके वंशधर ऐसा कौनसा दुःख शेष है, जिसको नहीं भोगरहे हैं ? क्या आजकलके अग्रणी बननेवाले द्विज कभी इस बातके तत्त्वकी खोज करते हैं, आजकलका जगत् अन्तःसार शून्य होगया है बाहरी दृष्टि है सो भी नए प्रकाशसे ऐसी चौंथागई है, कि—उसके आगे तिलमिले आकर वस्तुका स्वरूप कुछका कुछ दीखनेलगा है, तभी तो वेदके माननेवालोंमें बहुतसे हमारे भाई वेदके अन्तःसारको वेदके अलौकिक तत्त्वको भूलकर उसको आजकलके प्रकृतिप्रेमी वैज्ञानिकोंके अनुभवका छोटो भाई बनाना चाहते हैं, अर्थात् मनुष्यके विचारस्फुरणरूप रेल तार आदिका स्मारकमात्र बना वेदके अलौकिक भावको अज्ञानकी गुफा मेंको ढकेलरहे हैं, संसारमें अहङ्कार भी वह वस्तु है कि—उसके प्रतापसे प्राणी हिरण्यकशिपुके भाई बनतेहुए ईश्वरीय इतिकर्तव्यतामें

भी दोषदृष्टि रखकर वेदोंके मंत्रोंका भी मनमाना अर्थ कर भारतके द्विजसमाजको अवनतिसागरकी अथाह तलोमें डुबोना चाहते हैं, पहिले महापुरुष शास्त्रोक्तविधिसे गर्भाधान कर स्वच्छ रजवीर्यसे उत्पन्न हुई सन्तानको वैदिक संस्कारोंसे सम्मार्जित करतेहुए वैदिक अनुष्ठानपूर्वक वेदाध्ययन कराते थे, वह वेदपाठी योगसाधनासे दिव्य दृष्टि पाकर वेदमंत्रोंका उच्चारण करतेहुए भारतीय प्रजाकी हरएक मनःकामनाको पूर्ण किया करतेथे, परन्तु अब भारतका वह उदयकाल नहीं है, भारतके मन्त्रपूत रुधिरकी जो रेड़ लगरही है, उसक स्मरण करनेसे भी रोमाञ्च खड़े होते हैं, ऐसे मलिनांतःकरणवाले वेदभाष्य या वैदिक अनुष्ठान करने बैठें तो क्या उससे कुछ लाभ होने की आशा कीजासकती है? कहाँ तो दिव्यदृष्टिवाले महापुरुष भाष्य और अनुष्ठान करके वेदका महत्व दिखा जगत्को चमत्कृत करते थे और कहाँ अब हियेकी दिव्यदृष्टिसे शून्य और नवीन प्रकाशके कारण बाहरकी शास्त्रीय दृष्टिको तिलांजलि देनेवाले विषमदृष्टि स्वार्थान्ध अपनेको वेदभाष्य का कर्त्ता वा वैदिकतत्त्वका आविष्कर्त्ता कहनेलगे, यदि उनको वेदका शत्रु, द्विजसमाजका शत्रु और प्रलापी कहाजाय तो कुछ अनुचित नही है, हमारे छोटेसे विचारके अनुसार हमारे पूर्वपुरुषा वेदको जिस दृष्टिसे देखते थे, आजकल उस दृष्टिसे देखनेवालोंका अभावसा हो गया, आजकलके द्विजोंका यह कहना, कि—हम वेदको मानते हैं, हम वैदिक हैं, और हमारी वेद पर श्रद्धा है, यह केवल वाणीका विनाद-मात्र है, वेद कोई कहानी या इञ्जीनियरीकी पुस्तक नहीं है, कि—जिसको बाँचकर आप मनोविनोद या कोई शिल्पविज्ञानकी प्राप्ति करके उसके माननेवाले बनवैटें! वेद अनुष्ठान ग्रन्थ है, प्यारे सनातन धर्मियों! वेदका अर्थमात्र बाँचलेनेसे तुम वेदके प्रेमी वा वैदिक नहीं होसकते, यदि सच्चा वैदिक बनना है तो पश्चिमकी ओरसे पूर्वको मुख करो, यदि सब नहीं तो प्रतिसैंकडा दश द्विजकुमार वेदोद्धारकी भारतोद्धारकी और अपने मनुष्यजन्मको सार्थक करनेकी सुध लें, यज्ञोपवीतको केवल सामाजिक रूढ़ि ही न समझें, किन्तु यज्ञोपवीत धारणके साथ २ समझलें कि—हमने अपने शरीरको वैदिक अनुष्ठान में दीक्षित करदिया, इस शरीरको सदा वेदसेवामें लगावेंगे, प्यारे

मित्रों ! यह वेदके मन्त्र और २ ग्रन्थोंमें लिखी अक्षरोंकी पंक्तियोंकी समान नहीं हैं, इनमें वह कल्याणमयी किरणें गुथी हुई हैं, जो तपस्वियों की साधनासे उद्गत होकर संसारभरका दुःखान्धकार दूर करती हैं, और ग्रन्थोंका केवल अर्थ ही कार्यसाधक होता है परन्तु वेदके सनातन कमवद्ध अक्षर ही यथावत् उच्चारित होने पर इष्टसिद्धि देते हैं, इसीकारण वेदके यथावत् उच्चारणके लिये उदात्त अनुदात्त आदि स्वरोंका बन्धन रक्खा है, वह स्वर अर्थानुगत होते हैं अथवा वेदका अर्थ ही स्वरानुगत होता है, इसलिये वेदका अर्थ स्वरमर्यादाके अनुसार ही ठीक होसकता है और वही सायण, उडबट, महीधर आदि ने लिखा है। उन सायणभाष्यादिके अनुसार ही यह अनुवाद लिख दिया गया है, इसमें मेरी अपनी कल्पना कुछ नहीं है, अब धर्मप्रेमियों से इतनी ही प्रार्थना है कि—वह अपनी सन्तानोंमेंसे एकाधिको अवश्य ही हरिद्वारके ऋषिकुलमें भेजकर वा किन्ही योग्य गुरुकी सेवामें रक्कर वेदाध्ययन करा वैदिकानुष्ठानकी परिपाटी चलातेहुए सच्चे वेदानुयायी होनेका परिचय दें।

इस अनुवादको मैंने कलकत्तेके प० जीवानन्द विद्यासागरके यहाँ छपी सायण भाष्यसहित सामवेदसंहिताके अनुसार लिखा है। आशा है इस ग्रन्थरत्नको पाकर हमारे धार्मिक पाठकोंको सन्तोष होगा।

भाद्रशुक्ला ११
विक्रमाब्द १९६६

} निवेदक—(ऋ० कु०) प० रामस्वरूप शर्मा
मुरादाबाद.

॥ हरिः ॐ ॥

सामवेदसंहिता

(आग्नेय पर्व)

सान्वय भाषानुवाद सहित

स १६

अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।
नि होता सत्सि वर्हिषि ॥ १ ॥ ४-५-३३

(अग्ने) हे अग्निदेव (वीतये) हविको भक्षण करनेके निमित्त (गृणानः) हमारे स्तुति किये हुए (आयाहि) आइये । और (हव्य-दानये) देवताओंको हवि पहुँचाने के निमित्त (होता) उनको बुलाने-वाले वनकर (वर्हिषि) विड़ेहुए कुशासन पर (निषत्सि) धिराजिये १

त्वमग्ने यज्ञाना ७ होता विश्वेषा ७ हितः ।

देवेभिर्मानुषे जने ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (त्वम्) तुम (विश्वेषाम्) सकल (यज्ञानाम्) यज्ञोंके (होता) होमको सिद्ध करनेवाले । अथवा (यज्ञानाम्) यजन के योग्य (विश्वेषाम्) देवताओंके (होता) आह्वान करनेवाले तुम (मानुषे) मनुष्य यजमान के विषयमें (देवेभिः) स्तुति करनेवाले ऋत्विजों करके (हितः) गार्हपत्य आदिरूपसे स्थापन कियेजाते हो २

आग्नें दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ ३ ॥

(होतारम्) देवताओंका भलेप्रकार आह्वान करनेवाले (विश्ववेद-सम्) सकल के ज्ञाता अथवा सकल धनके स्वामी (अस्य, यज्ञस्य, सुक्रतुम्) इस वर्तमान यज्ञको सुसिद्ध करनेवाले (दूतम्) देवताओं का दूतकर्म करनेवाले (अग्निम्) अग्निदेवको (वृणीमहे) भले प्रकार भजते हैं ॥ ३ ॥

अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया ।
समिद्धःशुक्र आहुतः ॥ ४ ॥

(द्रविणस्युः) अपने उपासकोंको धन देना चाहनेवाला वा अपने लिये हविरूप धनकी इच्छा वाला (समिद्धः) समिधा आदिसे प्रज्वलित किया हुआ (शुक्रः) प्रदीप्त (आहुतः) आहुतियें दिया हुआ (अग्निः) अग्नि देवता (विपन्यया) हमारी को हुई स्तुतियों से (वृत्राणि) बलसे जगत् को कष्ट देनेवाले राक्षसादिकों को वा बलात्कारसे जगत्को आच्छादित करनेवाले अज्ञानान्धकारों को (जङ्घनत्) नष्ट करै ॥ ४ ॥

प्रेष्ठ वो अतिथिष्ठं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् ।
अग्ने रथं न वेद्यम् ॥ ५ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (प्रेष्ठम्) स्तुति करनेवालों को धनदाता होने से परमप्रिय (अतिथिम्) अतिथिकी तुल्य सबके पृथक् (मित्रमिव प्रियम्) सखाकी समान प्रसन्नता देनेवाले (रथं न वेद्यम्) रथकी समान लाभके हेतु अर्थान् जैसे रथसे धन मिलता है तैसे स्तुतिकर्ता अग्निमें धन पाने हैं ऐसे (वः) पृथक् आपका (स्तुषे) स्तुतिसे प्रसन्न करता हूँ ॥ ५ ॥

त्वंनो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः ।
उत द्विषा मर्त्यस्य ॥ ६ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वम्) तुम (नः) हमें (महोभिः) बहु-तमा धन देकर (अरातेः) धन न देनेवालों से (उत) और ' बल देकर ' (द्विषः) द्वेष करनेवाले (मर्त्यस्य) मनुष्यों से (पाहि) रक्षा करो ॥ ६ ॥

एह्युषु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः ।
एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ ७ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (एहि) आइये (ते) तुम्हारे लिये (गिरः) स्तुतियें (इत्था) इसप्रकार (सु—ब्रवाणि) भले प्रकार उच्चारण करूंगा उनको सुनिये, (उ) और (इतरा.) असुरोंकी स्तुतियोंको

मुनिये । तथा आये हुए आप (एभिः) इन (इन्दुभिः) सोमरसोंसे (वर्धास) वृद्धिको प्राप्त हजिये ॥ ७ ॥

आ ते वत्सा मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात् ।

अग्ने त्वा कामये गिरा ॥ ८ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (वत्सः) वत्स (गिरा) स्तुति मे (ते) तुम्हारे (मनः) मनको (परमाच्चित्) परमोत्तम भी (सधस्थात्) दुर्लोक धामसे (आयमयत्) आकर्षण करता हुआ (त्वाम्) तुम्हें (कामये) चाहता हूँ अर्थात् आपका मन मेरी ओरको लगे यह प्रार्थना करता हूँ ॥ ८ ॥

त्वामग्न पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत ।

मधर्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ९ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (अथर्वा) अथर्वा (त्वाम्) तुमको (मधर्नः) मूर्धाकी समान धारण करनेवाले (विश्वस्य वाघतः) सकल जगत् के धारणकर्ता (पुष्करात् अग्नि) कमलके पत्तोंमें (निरमन्थत) अग्णियोंसे मथकर उत्पन्न करता हुआ ॥ ९ ॥

अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे ।

देवो ह्यसि नो दृशे ॥ १० ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (त्वम्) तुम (अस्मभ्यम्) हमारी (महे) वड़ी (ऊतये) रक्षाके लिये (विवस्वत्) स्वर्गादि लोकोमें विशेषरूपसे निवास के हेतु इस कर्म को (आभर) सिद्ध करो (हि) क्योंकि (नः) हमको (दृशे) दर्शन देने के निमित्त (देवः) प्रकाशवान् (असि) हो ॥ १० ॥

प्रथमाध्यायस्य प्रथम खण्ड समाप्त ५० ॥ ८५३ ॥

नमस्ते अग्ने ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ।

अमैरमित्रमर्दय ॥ १ ॥

(अग्ने देव) हे अग्निदेव ! (कृष्टयः) मनुष्य (ओजसे) बलके निमित्त (ते) तुम्हारे अर्थ (नमः) नमस्कार शब्दको (गृणन्ति) उच्चारण करते हैं । इसकारण मैं भी तुम्हें नमस्कार करता हूँ (अमैः) बलोंसे (अमित्रम्) शत्रुको (अर्दय) नष्ट करो ॥ १ ॥

दूतं वो विश्ववेदसꣳ हव्यवाहममर्त्यम् ।

यजिष्ठमञ्जसे गिरा ॥ २ ॥

हे अग्निदेव (विश्ववेदसम्) सर्वज्ञ (हव्यवाहम्) हवियों को देवताओंके समीप पहुँचानेवाले (अमर्त्यम्) अमर (यजिष्ठम्) यज्ञ के परम साधन (दूतम्) देवताओं के दूत (वः) तुम्हें (गिरा) स्तुतिकी वाणीसे (अञ्जसे) वृद्धि को प्राप्त करता हूँ ॥ २ ॥

उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः ।

वायोरनीके अस्थिरन् ॥ ३ ॥

हे अग्निदेव ! (हविष्कृतः) यजमानकी (गिरः) स्तुतियों (जामयः) वहिनों की समान (देदिशतीः) गुणकीर्त्तन करती हुई (त्वा, उप) तुम्हारे समीप उपस्थित होती हैं (वायोः, अनीके) वायुके समीप (अस्थिरन्) तुम्हें प्रज्वलित करती हुई स्थित होती हैं ॥ ३ ॥

उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् ।

नमो भरन्त एमसि ॥ ४ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (वयम्) हम अनुष्ठान करनेवाले (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) रातमें और दिनमें (धिया) बुद्धिसे (नमः भरन्तः) नमस्कार करते हुए (त्वा, उप) तुम्हारे समीप (एमसि) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

जराबोध तद्विविड्ढि विशे विशे यज्ञियाय ।

स्तोमं रुद्राय दृशीकम् ॥ ५ ॥

(जराबोध) हे स्तुतिसे बोध्यमान अग्ने (विशे विशे) प्रत्येक यजमानरूप प्रजा पर अनुग्रह करनेको (यज्ञियाय) यज्ञसम्बन्धी अनुष्ठान की सिद्धिके निमित्त (तत्) यज्ञस्थानमें (विविड्ढि) प्रवेश कर । यजमान भी (रुद्राय) तुम्हें कृपे अग्निके अर्थ (दृशीकम्) देखनेयोग्य (स्तोमम्) स्तुतिको, करता है ॥ ५ ॥

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे ।

मरुद्गिरश्च आगहि ॥ ६ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (तम्) उस (चारुम्) अङ्गवैकल्यरहित (अध्वरं प्रति) यज्ञकी ओर लक्ष करके तुम (गोपीथाय) सोमपान करनेके लिये (प्रह्वयसे) अधिकतासे आह्वान कियेजाते हो (मरुद्भिः, आगहि) देवताओं के सहित आइये ॥ ६ ॥

**अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः।
सम्राजं तमध्वराणाम् ॥ ७ ॥**

(वारवन्तम्) पंछुवाले (अश्वं न) घोड़ेकी समान (अध्वराणाम्) यज्ञोंके (सम्राजम्) स्वामी (तं त्वां अग्निम्) तुम्हें प्रसिद्ध अग्निको (नमोभिः) स्तुतियोंसे (वन्दध्या) बन्दना करनेको प्रवृत्त हुए हैं अर्थात् जैसे घोड़ा पंछुके शालोंसे पीड़ा देनेवाले मच्छुर आदिको दूर करदेता है तैसे ही तू भी ज्वालाओंसे हमारे विरोधियोंको हटा ॥ ७ ॥

श्रौर्वभृगुवच्छुचिं नम्रवानवदाहुवे ।

अग्निं चं समुद्रवाससम् ॥ ८ ॥

(श्रौर्वभृगवत्) श्रौर्वभृगु की समान (नम्रवानवत्) नम्रवान की समान (समुद्रवाससम्) समुद्र के मध्य में वर्त्तमान वाडवनामा (शुचिम्) शुद्ध (अग्निम्) अग्नि को (आहुवे) आह्वान करता हूँ ॥ ८ ॥

अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः ।

अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ ९ ॥

(मर्त्यः) मनुष्य (अग्निं इन्धानः) अग्नि को समिधाओं से प्रज्वलित करता हुआ । (मनसा) मानसिक श्रद्धा से (धियम्) कर्म को (सचेत) यथासमय करै (विवस्वभिः) ऋत्विजों के द्वारा (अग्निम्, इन्धे) अग्नि को प्रज्वलित करै ॥ ९ ॥

आदित्पत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्।

परो यदिध्यते दिवि ॥ १० ॥

(दिवि परः) बुलोक से ऊपर (यत्) जब, यह वैश्वानर अग्नि सूर्य रूप से (इध्यते) दीप्त होता है (आदित्) अनन्तर ही सकल जीव (पत्नस्य) चिरन्तन (रेतसः) गमन करनेवाले सूर्य के (वासरम्) निवास के हेतु भूत (ज्योतिः) प्रकाशवान् तेज को (पश्यन्ति) देखते हैं ॥ १० ॥

अग्निं वो वृधन्तनध्वराणां पुरुतमम् ।

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १ ॥

हे अन्विजों ! (वः) तुम (अध्वराणाम्) हिंसा न करने योग्य बलवानों के (नप्त्रे) बन्धु (सहस्वते) बलवान् (वृधन्तम्) ज्वाला-श्रोसे बढ़ते हुए (पुरुतमम्) बहुत अधिक (अग्निम्) अग्निकों (अच्छा) अभिगमन करो वा पूजा ॥ १ ॥

अग्निस्तिग्मेन शोचिपायथं सद्विध्वं न्यात्रि
णम् । अग्निर्नोविध्वं गते रथिम् ॥ २ ॥

(अथ, अग्नि.) यह अग्नि (तिग्मेन, शोचिपा) तीक्ष्ण तेजसे (विध्वं, अत्रिणम्) सकल भक्षक राजसादि को (नियंसन्) नष्ट करे (अग्निः) अग्नि (जः) हमें (रथिम्) धन (वसते) देय ॥ २ ॥

अग्ने मृड महाथं अस्पृथ आ देवयुं जनम् ।
इयेथ बर्हिरासदम् ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (मृड) हमें कुप को (सहान्, अग्नि) तुम भक्तान् हो (अयः) गमन करने वाले तुम (देवयुम्) देवताओं का दर्शन चाहनेवाले (जनम्) यज्ञपान के समीप (बर्हिः, आसदम्) दर्शासन पर विराजने को (आ-इयेथ) आने हो ॥ ३ ॥

अग्ने रक्षा णो अग्रहसः प्रतिस्म देव रोषतः ।
तपिष्ठैरजरो दह ॥ ४ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (नः) हमें (अग्रहसः) पापसे (रक्षा) रक्षा करो (देव) हे प्रकाशमान विभावसो ! (अजरः) जरारहित तुम (रोषतः) हिंसा करना चाहने वाले शत्रुओं को (तपिष्ठै.) अत्यन्त ताप देनेवाले तेजोंने (प्रति दह स्म) भस्म करो ॥ ४ ॥

अग्ने युंक्ष्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः
अरं वह त्याशवः ॥ ५ ॥

(देव, अग्ने) हे प्रकाशवान् अग्ने ! उन घोड़ों को अपने रथ में (युंक्ष्वा)

जोड़ो (ये हि,) जो (तव) तुम्हारे (आश्रयः) शीघ्रगामी (साधवः)
सुशील (अश्वासः) घोड़े (अरम्) ठीक (वहन्ति) तुम्हारे रथ को
लेजाते हैं ॥ ५ ॥

नित्वा नक्ष्य विश्पते, द्युमन्तं धीमहे वयम्
सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥

(नक्ष्य) उपासना करने योग्य (विश्पते) धनयते (आहुत)
अनेकों यजमानों से होमेहुए (अग्ने) हे अग्निदेव (द्युमन्तम्)
दीप्तिमान् (सुवीरम्) जिस की स्तुति करनेवाले कल्याण के भागी
होते हैं ऐसे (त्वा) तुम्हें (वयम्) हमने (निधीमहे) स्थापन
किया है ॥ ६ ॥

अग्निर्भूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ।
अपा २ रेता ३ सि जिन्वति ॥ ७ ॥

(भूर्धा) देवताओं में श्रेष्ठ (दिवः, ककुत्) द्युलोक से ऊंचा
(पृथिव्याः, पतिः) पृथिवी का स्वामी (अयं, अग्निः) पर अग्नि (अपां,
रेतासि) जलों के वीर्यरूप स्थावर जड़म प्राणियों को (जिन्वति)
प्रेरणा करता है ॥ ७ ॥

इयम् षु त्वमस्माक ३ सनिं गायत्रं नव्या ३ सम्
अग्ने देवेषु प्रवोचः ॥ ८ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (अस्माकम्) हमारे (इयम् षुम्) इय अनु-
ष्ठान किये जाते हुए (सनिम्) हविर्दान को (नव्याम्) अनिनर्वात्
(गायत्रम्) स्तुतिरूप वचन का (देवेषु) देवताओं के आगे
(प्रवोचः) कहा ॥ ८ ॥

तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्टदग्ने अङ्गिरः ।
स पात्रक श्रुधो हवम् ॥ ९ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (तं, त्वाम) उन आपको (गोपवनः) गोप-
वन (गिरा) स्तुतिसे (जनिष्टन्) उत्पन्न करता है या बढ़ाता है
(अङ्गिरः) हे सर्वत्र गमन करनेवाले (पात्रक) शोधक अग्निदेव !
(हवम्) आह्वानको (श्रुधि) सुनो ॥ ९ ॥

परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रीत् ।

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १० ॥

(वाजपतिः) अन्नोका पालक (कविः) अतीत विषयोंको देखने-
वाला (दाशुषे) हवि देनेवाले यजमानके अर्थ (रत्नानि) रमणीय
धनोंको (दधत्) देतेहुए (अग्निः) अग्निदेव (हव्यानि) हवियोंको
(पर्यक्रीत्) व्याप्त करते हैं ॥ १० ॥

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ ११ ॥

(केतवः) सूर्यकी किरणें (विश्वाय, द्रष्टुम्) सकल भुवनोंको देख-
ने को (त्यम्) प्रसिद्ध (जातवेदसम्) प्राणियोंके ज्ञाता (देवम्)
दीप्तिमान् (सूर्यम्) सूर्यको (उद्वहन्ति-उ) ऊपरको उठाता हैं ॥ ११ ॥

कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।

देवममीवचातनम् ॥ १२ ॥

हे उपासकों ! (अध्वरे) यज्ञमें (कविम्) मेधावी (सत्यधर्मा-
णम्) सत्यवचन रूप धर्मसे युक्त (देवम्) द्योतमान (अमीवचातनम्)
शत्रुओंके नाशक (अग्निम्) अग्निदेवको (उपस्तुहि) उपस्थित
होकर स्तुति करो ॥ १२ ॥

शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवधु पीतये ।

शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १३ ॥

(नः, शम्) हमारे पाप दूर होकर सुख प्राप्त हो (देवी, आपः,
अभिष्टये, भवन्तु) दिव्य जल हमारे यज्ञके अङ्ग बनै (नः, पानये, शं,
भवन्तु) हमारे पीनेके लिये सुखरूप हों (शम्) उत्पन्नहुए रोगों को
शान्त करनेवाले हों (योः) न उत्पन्न हुए रोगोंको दूर करें (नः,
अभि, स्रवन्तु) हमारे ऊपर अमृतरूपसे टपकें ॥ १३ ॥

कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वासि सत्पते ।

गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥

(सत्पते) हे सज्जनों के पालक अग्ने । (नूनम्) इस समय

(कस्य) कैसे मनुष्यके (धियः) कर्मोंके (परीणसि) ब्रह्म में (जिन्वसि) पहुँचा रहे हो (यस्य) जिस (ते) तेरे सम्बंधकी (गिरः) स्तुतियों (गोषाता) गौओंका लाभ करानेवाली [भवन्तु] हों । अर्थात् इस समय आप किस भगवद्भक्त का कार्यसाधन करते हुए कहाँ हो ? इस समय हमको गौओंको पानेकी इच्छा है ॥ १४ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य तृतीय खण्डः ४-२-१

यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्रप्र
वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्

हे स्नाताओं ! (वः च) तुम भी (यज्ञायज्ञ) सषयज्ञोंमें (दक्षसे) वृद्धिको प्राप्त (अग्नये) अग्निके अर्थ (गिरागिरा) स्तुति रूप वाणी करके [स्तुति करो], (वयम्) हम [अपि] भी (अमृतम्) मरणरहित (मित्रं, न) मित्रकी समान (प्रियम्) अनुकूल (जातवेदसम्) प्राणीमात्रके ज्ञात अग्निको (प्रप्रशंसिषम्) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

पाहि नो अग्न एकया पायू३त द्विती-
यया । पाहि गीर्भिस्तिसृभिर्ऊर्जा पते
पाहि चतसृभिर्वसो ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (नः) हमको (एकया) एक ऋचारूप वाणी से (उत) और (द्वितीयया) दूसरी ऋचासे (पाहि रक्षा करो, (ऊर्जाम्) बलोंके वा अन्नोंके (पते) स्वामिन् अग्ने ! (तिसृभिः) तीन (गीर्भिः) स्तुतियोंसे (पाहि) रक्षा करो (वसो) हे अग्ने ! (चतसृभिः) चार स्तुतियोंसे (पाहि) रक्षा करो ॥ २ ॥

बृहद्गिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । भर-
द्वाजे समिधाना यविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥

(देव) दानादि गुणयुक्त (यविष्ठ) अत्यन्त युवा (पावक) शोधन करने वाले (अग्ने) हे अग्ने (शुक्रेण) निर्मल (शोचिषा) तेज करके (भरद्वाजे) हमारे भ्राताके विषयमें (समिधानः) प्रखलित होते हुए तुम (बृहद्भिः) बड़े (तेजोभिः) तेजों करके (नः) हमारे निमित्त (रेवत्) धनयुक्त होकर (दीदिहि) दीप्त हूजिये ॥ ३ ॥

त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः । यन्ता-

रो ये मघवानो जनानामूर्वे दयन्त गोनाम् ४

(स्वाहुत) यजमानों के द्वारा भले प्रकार हवन किये हुए (अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वे) तुम्हारे (सूर्यः) प्रेरक स्तोत्र (प्रियासः) प्रिय (सन्तु) हों । (ये) जो (मघवानः) धनवान् (यन्तारः) देनेवाले (जनानाम्) हमारे पुरुषोंके (गोनाम्) गौओंके (ऊर्वम्) समूहको (दयन्त) देते हैं [वह भी आप के प्रिय हों] ॥ ४ ॥

अग्ने जरितर्विष्पतिस्तपानो देव

रक्षसः । अप्रोषिवान् गृहपते महाः

असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥ ५ ॥

(अग्ने देव) हे अग्निदेव ! (जरितः) स्तुति के योग्य (विश्पतिः) प्रजाओंका पालक (रक्षसः) रक्षसजातिका (तपानः) सन्तापदायक (असि) है (गृहपते) हैं यजमान के घरकी रक्षा करनेवाले अग्ने ! (अप्रोषिवान्) यजमान के घरको न त्यागनेवाले तुम (महान्) परमपूज्य (असि) हो । (दिवः) द्युलोकके (पायुः) रक्षक (दुरोणयुः) यजमानके घर सदा वर्तमान (असि) हो ॥ ५ ॥

अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधा अमर्त्य ।

आ दाशुषे जातवेदो बहा त्वमद्या देवा-

उषबुधः ॥ ६ ॥

(अमर्त्य) मरणधर्मरहित (जातवेदः) प्राणिमात्रके ज्ञाता (अग्ने) अग्निदेव ! (त्वम्) तुम (उषसः) उषा देवतासे विवस्वत) विशिष्ट निवासयुक्त (चित्रम्) नानाप्रकारके (राधः) धनको (दाशुषे) हवि देनेवाले यजमानके अर्थ (आवह) लाकर प्राप्त कराओ (अद्य) आज (उषबुधः) उषःकालमें जागेहुए (देवान्) देवताओंको (आवह) लाकर पहुँचाइये ॥ ६ ॥

त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधां असि चोदय ।

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं

तुचे तु नः ॥ ७ ॥

(वसो) व्यापक (अग्ने) अग्निदेव ! (चित्रः) दर्शनीय तुम
(ऊत्या) रक्षासहित (राधांसि) धन (नः) हमारे अर्थ (चोदय)
प्रेरणा करो (अस्य) इस लोकमें दीखतेहुए (राधः) धनके(रथीः)
प्रेरक (असि) हो [इसकारण हमारे अर्थ भी धनको प्रेरणा करिये
और] (नः) हमारे (तुये) पुत्रके अर्थ (गाधम्) प्रतिष्ठाको (तु)
शीघ्र (विदाः) दीजिये ॥ ७ ॥

त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातर्ऋतः कविः ।
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवा-
सन्ति वेधसः ॥ ८ ॥

(त्रातः) रक्षक (अग्ने) अग्निदेव (ऋत) सत्य (कविः) ज्ञान
दृष्टि (त्वमित्) तुमही (सप्रथाः) सबसे बड़े (असि) हो (समि-
धान) प्रज्वलित होतेहुए (दीदिवः) हे दीप्त अग्ने (विप्राः) मेधावी
(वेधसः) स्तुति करनेवाले (त्वाम्) तुमको (आविवासन्ति) उपा-
सना करते हैं ॥ ८ ॥

आ नो अग्ने वयोवृधं रथिं पावक
शंस्यम् । रास्वा च न उपमाते पुरु-
स्पृहं सुनीती सुयशस्तरम् ॥ ९ ॥

(पावक) शोधक (अग्ने) हे अग्निदेव ! (वयोवृधम्) अन्न को
बढ़ानेवाले (शंस्यम्) स्तुतिके योग्य (रथिम्) धनको (नः) हमारे
अर्थ (आभर) लाइये । (उपमाते) हे धृतकी समीपतावाले अग्ने
(नः) हमारे अर्थ (सुनीती) सुन्दर नीतिके द्वारा (पुरुस्पृहम्)
अनेकों के चाहने योग्य (सुयशस्तरम्) सर्वथा हमारा अपनी कीर्ति-
रूप धन (रास्व) दाजिये ॥ ९ ॥

यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम् ।
मघोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्रस्तोमा यन्त्वग्नये

(होता) देवताओंका आह्वान करनेवाला (मन्द्रः) आनन्द देने
वाला (यः) जो अग्नि (जनानाम्) यजमानोंको (विश्वा) सकल
(वसु) धन (दयते) देता है (अस्मै) ऐसे इस (अग्नये) अग्निके

अर्थ (मन्त्रोः) मदकारी सोमके (प्रथमानि) मुख्य (पात्रा, न) पात्रों की समान (स्तोमाः) स्तोत्र (प्रयन्तु) प्राप्त हों हैं ॥ १० ॥

५-२-२१ इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थं खण्ड

एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमाहुवे । प्रियं
चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ।

हे स्तोताओं ! (वः) तुम्हारे निमित्त (ऊर्जः) बलके (नपातम्) पुत्र वा रत्नक (अस्माकम्) हमारे (प्रियम्) प्यारे (चेतिष्ठम्) पूर्ण ज्ञाता (अरतिम्) स्वामी (स्वध्वरम्) सुन्दर यज्ञघाते (विश्वस्य) सकल यजमानोंके (दूतम्) दूत (अमृतम्) नित्य (अग्निम्) अग्निको (एना) इस (नमसा) स्तोत्रसे (आहुवे) आव्हान करता हूँ ॥ १ ॥

शेषे वनेषु मातृषु संत्वा मर्त्तास इन्धते ।

अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदि-

देवेषु राजसि ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (वनेषु) वनोंमें (मातृषु) माताओं में (शेषे) वर्त्तमान रहते हो, ऐसे (त्वा) तुम्है (मर्त्तासः) मनुष्य [मन्थनके द्वारा उत्पन्न करके] (समिन्धते) प्रज्वलित करते हैं । तब पूर्णरूपसे बढे हुए तुम (अनलसः) आलस्य रहित होकर (हविष्कृतः) यजमान के (हव्यम्) हविको (वहसि) वेद्यताओं के समीप पहुँचाते हो (आदिस्) अनन्तर (देवेषु) देवताओं में (राजसि) शोभा पाते हो ॥ २ ॥

अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन् ब्रतान्यादधुः

उपो षु जातमार्यस्य वर्द्धनमग्निं नक्षन्तु

नो गिरः ॥ ३ ॥

(यस्मिन्) जिस अग्निमें (ब्रतानि) कर्मोंको (आदधुः) यजमानोंने स्थापन किया (गातुवित्तमः) मागोंका पूर्ण ज्ञाता वह अग्नि (अदर्शि) दीखा (सुजातम्) भले प्रकार प्रकट हुए (आर्यस्य) भ्रष्ट वर्णके (वर्द्धनम्) बढ़ाने वाले (अग्निम्) अग्निको (नः) हमारी (गिरः) स्तुतिरूप वाणियों (उपोनक्षन्तु) प्राप्त हों ॥ ३ ॥

अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो षर्हि-
रध्वरे । ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते
देवा अत्रो वरेण्यम् ॥ ४ ॥

(उक्थे) स्तोत्र ही है शस्त्र जिस में ऐसे (अध्वरे) हिंसा रहित इस यज्ञ में (अग्निः) अग्नि (पुरोहितः) यज्ञसे आगे उत्तर वेदी में ऋत्विजों के द्वारा स्थापित किया गया [यः] जैसे (ग्रावाणः) पापाण सोमका रस निकालनेको आगे रखनेगए (बाहः) कुश आगे रखनेगए [ऐसा होने पर] (मरुतः) हे उनञ्चास मरुद्गणो ! (ब्रह्मणस्पते) हे स्तोत्रके रक्षक ब्रह्मणस्पति देव ! (देवाः) हे इन्द्रादि देवताओं ! (वरेण्यम्) वरणीय (अत्रः) रक्षाका (ऋचा) सूकरूप स्तुतिके द्वारा (वः) तुम्हारी शरण में आया हुआ मैं (यामि) याचना करता हूँ ॥ ४ ॥

अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीर-
शोचिषम् । अग्नि ५ राये पुरुमीढ श्रुतं
नरोऽग्निः सुदीतये छर्दिः ॥ ५ ॥

(पुरुमीढ) हे पुरुमीढ तू (शीरशोचिषम्) फली हुई ज्योति (अग्निम्) अग्निको (अवसे) रक्षाके अर्थ (राये) धनके अर्थ (गाथाभिः) मंत्ररूप वाणियों से (इडिष्वा) स्तुति कर (श्रुतम्) ऐसे सुनेहुए इसकी (नरः) अन्य यजमान भी अपने मनोरथ के निमित्त स्तुति करते हैं (अग्निः) वह अग्नि देवता (सुदीतये) मेरे अर्थ (छर्दिः) घर (प्रयच्छतु) देय ॥ ५ ॥

श्रुधि श्रुत्कर्णं वन्हिभिर्देवैरग्ने सया-
वभिः । आसीदतु वरिषि मित्रो अर्यमा
प्रातर्यावभिरध्वरे ॥ ६ ॥

(श्रुत्कर्णं) श्रवणसमर्थ कानोवाले (अग्ने) हे अग्निदेव हमारे वचन को (श्रुधि) सुनो [यः] जो (मित्रः) मित्र देवता (अर्यमा) अर्यमा देवता है वह (प्रातर्यावभिः) प्रातःकाल देवजन में जानेवाले देवताओं के साथ (सयावभिः) आहवनीय अग्निको समान गतिवाले

(बर्हिभिः) दाह देवताओं के साथ (अध्वरं) यज्ञके विषे (बर्हिषि कुशासत् पर (आर्सादतु) विराजमान होय ॥ ६ ॥

प्र देवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना । अनु
मातरं पृथिवीं वि वाष्टुमे तस्थौ नाकस्य शर्मणि ।

(देवः) दीनिमान (इन्द्रः) ऐश्वर्यवाला (देवोदासः) देवभक्तों करके आह्वान किया हुआ (अग्निः) अग्नि (मातरम्) सब शोकोंको धारण करनेवाली माना (पृथिवीम्) पृथिवीको (अनु प्र वि वाष्टुमे) देवताओंके भस्मीप हवि पहुँचानेको विशेष करके प्रवृत्त करता है, क्योंकि यजमान इसको (मज्मना न) बल करके माना [आजुहाव] पुकारता हुआ इसकारण यह (नाकस्य) स्वर्गके (शर्मणि) अपने स्थानपर (तस्थौ) स्थित हुआ ॥ ७ ॥

अध ज्मो अध वा दिवो बृहतो

रोचनादधि । अया वर्धस्व तन्वा

गिरा ममा जाता सुक्रता पूर्ण ॥ ८ ॥

हे इन्द्र (अध) इस समय (ज्मः) पृथिवीसे । अध वा । या (दिवः) अन्तरिक्षसे (बृहतः) बड़े (रोचनात् अधि) नष्टाओंके दीप्यमान स्वर्गसे [आगत्य] आकर (अया) इस (तन्वा) शरीर करके, तथा विस्तारवाली (ममा) मेरी (गिरा) स्तुतिसे (वर्धस्व) वृद्धिसे प्राप्त हो (सुक्रता) हे शोभनकर्ता इन्द्र ! (जाता) हमारे जीतने (पूर्ण) इच्छित फलोंसे पूर्ण करो ॥ ८ ॥

कायमानो वना त्वं यन्मातृजगन्तान् तत्ते
अग्ने प्रमृपे निवर्त्तनं यद्दूरं सन्निभुवः ६

(अग्ने) हे अग्निदेव (वना) वनोंको (कायमानः) इच्छा करता हुआ भी (त्वम्) तू (यत्) जो, उनको त्यागकर (मातृः) मातारूप (अपः) जलोंको (अजगन्) प्राप्त हुआ है अर्थात् जलोंमें प्रविष्ट होकर शान्तभावसे स्थित है (तन्) जिससे (ते) तेरा (निवर्त्तनम्) तहाँ अत्यन्त वास (न) नहीं (प्रमृपे) सहा जाता है, (यत्) क्योंकि (दूरं) दूरसे (सन्निभुवः) अदृश्यरूपसे रहकर भी (इह) इन हमारे अरली काष्ठोंमें (आभुवः) सब ओरसे प्रकट होजाते हो अर्थात् मथन करनेपर आप क्षणमात्रमें

हमारे समीप आजाते हैं, इस कारण आपके दूर रहनेको हम नहीं सह
सकते, क्योंकि —आपके विना तो कल्याणकारी यज्ञक्रिया ही लुप्त हो
जायगी ॥ ६॥

नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते ।
दीदेथ कष्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति
कृष्टयः ॥ १० ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (ज्योतिः) प्रकाशरूप (त्वाम्) तुम्हको
(शश्वते) अनेक प्रकारके यज्ञमानके अर्थ (मनुः) प्रजापति (नि-
दधे) देवयज्ञनगरानमें स्थापन करताहुआ (ऋतजातः) यज्ञके निमित्त
से उजाझ हुआ (उक्षितः) हवियोंसे तृप्त हुआ (कष्वे) कण्वके
निर्षे (दीदेथ) दीप्त हुएहो (यम्) जिसको (कृष्टयः) मनुष्य (न-
मस्यन्ति) नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥

इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड

देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्वासिचम् ।
उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो
देव ओहते ॥ १ ॥ ५-२-२२

(द्रविणोदाः) धनोंका दाता (देवः) अग्निदेवता (वः) तुम्हारीं
(पूर्णाम्) इध्रिसे पूर्ण (आसिचम्) चारों ओरसे सिंचित (सुचम)
सूक्तको (विवष्ट्वा) चाहे (वा) और (उत्सिञ्चध्वम्) सोमसे पात्र
को सींचा (वा) और (उपपृणध्वम्) होताके चमसको सोमसे
पूर्ण करो अर्थात् अग्निके निमित्त सोम अर्पण करो (आदित्) इसके
अनंतर ही (देवः) अग्नि (वः) तुम्है (ओहते) आहुति पहुँचाकर
पूर्णमनोरथ करता है ॥ २ ॥

प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । अच्छा
वीरं नर्थ्यं पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः २

(ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति देवता (प्रेतु) प्राप्त हो (सूनृता)
सत्य और प्रिय (देवी) वाग्देवता (प्रेतु) हमें प्राप्त हो (देवाः)
ब्रह्मणस्पति आदि देवता (वीरम्) शत्रुको [दूरे] निःशेषभाव से

दर करें। तिस (ननुष्यम्) मनुष्यों के हितकारी (पंक्तिराधसम्) ब्राह्मणोक्त हवि करके पंक्ति आदि के द्वारा सम्पन्न हुए (यज्ञम्) यज्ञके समीप (नः) हमें (अच्छा) अभिमुख करके (नयन्तु) पहुँचावें॥

ऊर्ध्व उ ष ण ऊतये तिष्ठा देवो न
सविता । ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यद-
ञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्वयामहे ॥ ३ ॥

हे यूपकाष्ठस्थित अग्निदेव (नः) हमारी (ऊतये) रक्षाके निमित्त (ऊर्ध्वः) ऊँचा होकर (सुतिष्ठा) सुन्दर प्रकार से स्थित हो (सविता, देवः न) सूर्य देवताकी समान (ऊर्ध्वः) ऊँचे पदपर स्थित होता हुआ (वाजस्य) अन्नका (सनिता) देनेवालाहो(यत्) क्योंकि (अञ्जिभिः) यज्ञसे यूपको अञ्जित करने वाले (वाघद्भिः) यज्ञको समाप्तिपर पहुँचानेवाले ऋत्विजों के साथ (विह्वयामहे) आह्वान करते हैं अर्थात् हम अन्नदान के लिये आपसे प्रार्थना करने हैं, इसकारण आप हमें अन्नदान दीजिये ॥ ३ ॥

प्र यो राये निनीषति मर्तो यस्ते वसो
दाशत् । स वीरं धत्ते अग्न उक्थशं
सिनं तमना सहस्रयोषिणम् ॥ ४ ॥

(वसो) व्यापक (अग्ने) हे अग्निदेव ! (यः) जो तुम्हारा भक्त (राये) धनके निमित्त (प्रनिनीषति) तुम्हें प्रसन्न करना चाहता है (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (ते) तुम्हारे अर्थ (दाशत्) हवि देना चाहता है (सः) वह मनुष्य (उक्थशंसिनम्) वेवपाटी (तमना) अपने द्वारा (सहस्रयोषिणम्) सहस्रों मनुष्योंका पालन करनेवाले अर्थात् बहुधनी (वीरम्) पुत्रको (धत्ते) धारण करता है ॥ ४ ॥

प्र वो यहं पुरुणां विशां देवयतीनाम् । अग्निं
सूक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे यं समिदन्य इन्धते

हे ऋत्विक् यजमानो ! (देवयतीनाम्) देवताओंकी शरण जाने वाले (पुरुणाम्) बहुत से (विशाम्) प्रजाकेऊपर (वः) तुम्हारे, अन्न-ग्रहके निमित्त (यहम्) महान् (अग्निम्) अग्निको (सूक्तभिः) सूक्त-

रूप (वचोभिः) वाणियों से (वृणीमहे) आराधना करते हैं (अन्य, इत्) अन्य ऋषि भी (यम्) जिस अग्निको (समिन्धते) भलेप्रकार से दीप्त करते हैं ॥ ५ ॥

अयमग्निः सुवीर्यस्थेशे हि सौभगस्य । राय
ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम् ६

(अयम्) यह यजन करनेयोग्य (अग्निः) अग्नि (सुवीर्यस्य) शोभन सामर्थ्ययुक्त (सौभगस्य) सौभाग्यका (हि) निश्चय (ईशे) स्वामी है, अर्थात् सर्वोको बल और आरोग्यका दाता होनेसे सौभाग्यदाता है (गोमतः) गौ आदि पशुयुक्त (स्वपत्यस्य) सुन्दर सन्तानका (रायः) धनका (ईशे) स्वामी है (वृत्रहथानाम्) शत्रुभूत पापोंके विनाशों का (ईशे) स्वामी है, अर्थात् हे अग्ने ! हम अपने किये कर्म तुम्हें समर्पण करते हैं, तुम्हारे अमुग्रह से हमें धन, जन, पशु आदिकी प्राप्ति होती है और हमारे पापोंका भी नाश होता है ॥ ६ ॥

त्वमग्ने गृहपतिस्त्वञ्छं होता नो अध्वरे : त्वं
पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम् ७

(अग्ने) अग्निदेव ! (नः) हमारे (अध्वरे) यज्ञमें (त्वम्) तुम (गृहपतिः) यजमान (त्वम्) तुम (होता) देवताओंका आह्वान करने वाले [अस्ति] हो (विश्ववार) हे सबके आराधन करनेयोग्य अग्ने (त्वम्) तुम (पोता) पोता नामवाले ऋत्विक् हो (प्रचेताः) उत्तम बुद्धिवाले तुम (वार्यम्) वरणीय हविको (यक्षि) यजन करो (च) और (यासि) हमको धन प्राप्त कराओ ॥ ७ ॥

सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्त्तास उतये ।

अपां नपातञ्छं सुभगञ्छं सुदञ्छं ससञ्छं

सुप्रसूर्तिमनेहसम् ॥ ८ ॥

हे अग्ने ! (सखायः) सोम घृतादि हवि देनेके कारण उपकारी होनेसे मित्ररूप (मर्त्तासः) मनुष्य, हम ऋत्विक् (अपांनपातम्) जलोंके नसा (कुभगम्) शोभन धनयुक्त (सुदंससम्) श्रेष्ठ कर्म करनेवाले (सुप्रसूर्तिम्) कर्मानुष्ठान करनेवालों को सुखपूर्वक प्राप्त

होने योग्य (अनेहसम्) उपद्रवरहित तुम्हें (ऊतये) रक्षा के लिये (बधूमहे) वरण करते हैं ॥ ८ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः कण्डः समाप्तः.

आजुहोता हविषा मर्जयध्वं निहोतारं
गृहपतिं दधिध्वम् । इडस्पदे नमसाराह-
तव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम् ॥ १ ॥

हे ऋत्विजों (आजुहोता) अग्निका आह्वान करो (हविषा) हवि करके (मर्जयध्वम्) सुखीकरो (इडः) भूमिकी (पदे) उत्तरवेदी में (होतारम्) देवताओंका आह्वान करनेवाले (गृहपतिम्) गृह-
क्षक अग्निको (निदधिध्वम्) पूर्णरूप से स्थापन करो (नमसा) नमस्कार वा हविसे युक्त (राहतव्यम्) दिया है हवि जिसे ऐसे (पस्त्यानाम्) यज्ञगृहों में (यजतम्) पूजनीय अग्निको (सपर्यता) आराधन करो ॥ १ ॥

चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मात-
राबन्वेति धातवे । अनूधा यदजीजनदधा
चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यं चरन् ॥ २ ॥

(शिशोः) बालरूप (तरुणस्य) तरुण अग्निका (वक्षथः) हवि को पहुँचाना (चित्र इत्) आश्चर्यभूत है (यः) जो उत्पन्न हुआ अग्नि (मातरौ) सबके निर्माता वा सबके माता समान द्यावापृथिवीको वा दोनों अरणियों को (धातवे) स्तन पीनेके लिये (न, अन्वेति) नहीं प्राप्त होता है (यद्) जो (अनूधाः) पेन रहित यह लोक (अजीजनत्) इस अग्नि को उत्पन्न करे [तब यदि स्तन पीनेको न जाय तो ठीक है, परन्तु सबकी अभिलाषा पूरी करनेवाले द्यावापृथिवी उत्पन्न करते हैं फिर भी यह स्तन पीनेको नहीं जाता, अतः इसका हविर्वहन आश्चर्य है] (अधचित्) उत्पत्तिके अनन्तरही (सद्यः) तत्काल (महि) बड़ेभारी (दूत्यम्) दूतकर्मको (चरन्) करताहुआ (चरन्) देवताओं को हवि पहुँचाता है ॥ २ ॥

इदं त एकं परि ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा

संविशस्व । संवेशनस्तन्वे ३ चारुरेधि प्रियो
देवानां परमे जनित्रे ॥ ३ ॥

हे मृत प्राणिन् ! (ते) तेरी (इदम्) यह अग्नि नामक ज्योति (एकम्) एक अंश है, अतः अपने देहव्यापी अग्निके अंशसे बाहर के अग्निमें मिलजा (ऊ) और (ते) तेरा (एकम्) एक वायु नामक अंश है, उस प्राणवायु नामक अंशसे बाहर के वायुमें मिलजा, शरीर में का अग्नि और प्राणवायु तथा बाहर के अग्नि और वायु एकरूप हैं, इसकारण अंश कहां (तृतीयेन) तीसरे (ज्योतिषा) आदित्य-नामक तेजसे अपने आत्माको (संविशस्व) मिला, क्योंकि—सूर्य-गत चैतेन्य और आत्मचैतेन्य में कोई भेद नहीं है (तन्वे) फिर शरीर ग्रहण करने के निमित्त (चारुः) कल्याणरूप होकर (प्रियः) उसके साथ प्रीति करता हुआ (देवानाम्) देवताओं के (परमे) उत्तम (जनित्रे) उत्पादक सूर्य में (संवेशनः) भलेप्रकार प्रवेश करने वाला (एधि) हो ॥ ३ ॥

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं
महे मा मनीषया । भद्रा हि नः प्रमतिरस्य
सद्यग्ने सख्ये मा रिषाम वयं तव ॥ ४ ॥

(अर्हते) पूजनीय (जातवेदसे) प्राणिमात्रके ज्ञाता (जातवेदसे) अग्नि के अर्थ हम (मनीषया) तीक्ष्ण बुद्धि से (इमम्) इस (स्तो-मम्) स्तोत्रको (रथं, इव) जैसे रथका संस्कार करता है तैसे (संमहेम) सम्यक् प्रकारसे पूजित करते हैं (अस्य) इस अग्नि के (संसदि) सम्यक् प्रकार सेवन में (नः) हमारी (प्रमतिः) श्रेष्ठ बुद्धि (भद्रा, हि) निःसन्देह कल्याणमयी और समर्थ होय (अग्ने) हे अग्निदेव (तव, सख्ये) तुम्हारे साथ हमारा मित्रभाव होनेपर हम (मा रिषामः) किसी से कष्ट न पावें अर्थात् आप हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ
जातमग्निम् । कविं सम्राजमतिथिं जनाना-
मासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ५ ॥

(दिवः) द्युलोक के (मूर्धानम्) शिरोभूत (पृथिव्याः) भूमि के (अरतिम्) स्वामी (वैश्वानरम्) सकल पुरुषोंके संबन्धी (ऋतम्) सत्य वा यज्ञके साधन (आ) सृष्टिकी आदि में उत्पन्न हुए (कविम्) भूत विषयों के ज्ञाता (सम्राजम्) भले प्रकार विराजमान (अतिथिम्) यजमानों का हव्य पहुँचाने के निमित्त निरन्तर गमन करने वाले अथवा अतिथिकी समान पूज्य (आसन्) देवताओं के मुखरूप (पात्रम्) रत्नक अथवा मुखरूप से धारण करनेवाले अग्निको (नः) हमारे यज्ञमें (देवाः) ऋत्विजोंने वा देवताओं ने (आजनयन्त) अरणियों में से उत्पन्न किया ॥ ५ ॥

वित्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जन-
यन्त देवाः । तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजय-
न्त्याजिं न गिर्ववाहो जिग्युरश्वाः ॥ ६ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (त्वत्) तुमसे (उक्थेभिः) स्तोत्र, यज्ञ और हविया करके (देवाः) स्तोता अपने मनोरथों का (व्यजनयन्त) नानाप्रकार से उत्पन्न करते हैं (पर्वतस्य) मेघके (पृष्ठात्) ऊपरके भागसे (आपः, न) जलोंको जैसे । और (गिर्ववाहः) स्तुतिरूप वाणियोंके अनुसार चलनेवाले हे अग्ने, स्तुति करने वाले (तम्) तिस प्रसिद्ध (त्वा) तुम्हको (वाजयन्ति) बलवान् करते हैं अथवा तुमसे अन्न चाहते हैं और तुम्हें (सुष्टुतयः) सुन्दर स्तुतिरूप वेदवाणियें (जिग्युः) वशमें करलेती हैं (अश्वाः) घोड़े (आजिं, न) जैसे शीघ्र ही संग्रामको वशमें करलेते हैं ॥ ६ ॥

आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रश्च होतारश्च सत्य-
यज्ञश्च रोदस्योः । अग्निं पुरा तनयित्ना रचि-
त्ताद्विरप्यरूपमवसे कृणुध्वम् ॥ ७ ॥

हे ऋत्विक् और यजमानो ! (अध्वरस्य) यज्ञके (राजानम्) अधिपति (होतारम्) देवताओंका आह्वान करनेवाले (रुद्रम्) शत्रुओंको रुलानेवाले (रोदस्योः) द्यौवा पृथिवीके (सत्ययज्ञम्) अन्न के दाता अथवा आनन्दस्वरूप सत्यको प्राप्त करानेवाले (हिरण्यरूपम्) सुवर्णकी समान कान्तिमान् (अग्निम्) अग्निको (वः) तु-

म्हारी (अवसे) रक्षाके लिये (तमयित्नाः) बज्रकी समान (अचि-
त्तान्) मरण से (पुरा) पहिलै ही (आकृणुध्वम्) चारों ओरसे
हवियोंके द्वारा आराधन करो ॥ ७ ॥

इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं
घृतेन । नरो हव्येभिरीडते सबाध अग्निरग्र
मुषसामशोचि ॥ ८ ॥

(राजा) दीप्त (अर्थः) स्वामी वा हवियोंका प्रेरणा करनेवाला
(अग्निः) अग्नि (नमोभिः) स्तुतियोंके साथ (समिन्धते) प्रदीप्त
होता है (यस्य) जिस अग्निका (प्रतीकम्) रूप (घृतेन, आहुतम्)
घृत करके चारों ओरसे होमा हुआ होता है । और जिसको (नरः)
मनुष्य, (सबाधः) बाधाओंको प्राप्त होकर (हव्येभिः) हवियों
के साथ (ईडते) स्तुति करते हैं । वह (अग्निः) अग्नि (उषसाम्)
उषःकालसे (अग्रम्) पहिले (आ अशोचि) सब ओरसे दीप्त
होता है ॥ ८ ॥

प्र केतुना वृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो
रोरवीति । दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामु-
पस्थे महिषो ववर्द्ध ॥ ९ ॥

(अग्निः) अग्नि (वृहता) बड़े (केतुना) ज्ञान करके युक्त हो
(आ) इस समय (रोदसी) घावा पृथिवीको (प्रयाति) प्राप्त होता
है और देवताओंको बुलाने के समय (वृषभः) वृषभकी समान
(रोरवीति) अत्यन्त शब्द करता है (दिवश्चित्) अन्तरिक्ष लोकके
भी (अन्तात्) समीपसे (उपमाम्) मेघके समीप (उदानट्) प्रका-
शमय आदित्यरूप होता हुआ ऊपरको फलजाता है (अपाम्) वृष्टि-
रूप जलोंके (उपस्थे) स्थान अन्तरिक्षमें विद्युतरूपसे (महिषः)
महान् (ववर्द्ध) बढ़ता है ॥ ९ ॥

अग्निं नरो दीधितिभिररण्यार्हस्तच्युतं जन-
यत प्रशस्तम् । दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम् १०

(नरः) ऋत्विज् (प्रशस्तम्) अत्यन्त स्तुति किये हुए (दूरेद-

शम्) दूर से दीखते हुए (गृहपतिम्) घरों के रक्तक (अथव्युम्) अगम्य (हस्तच्युतम्) हाथों से उत्पन्न हुए अग्निको (दीधितिभिः) अंगुलियों से (जनयत) उत्पन्न करते हैं ॥ १० ॥

इति प्रथमाध्यायस्य समस्तः खण्डः

**अबोधयग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवा-
यतीमुषासम् । यद्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः
प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १ ॥**

(अग्निः) यह अग्नि (जानानाम्) अध्वर्यु आदिकोंकी (समिधा) समिधाओंसे (अबोधि) प्रज्वलित हुआ (धेनुम, इव) अग्निहोत्र की गौके निमित्त जैसे प्रातःकालमें जागाजाता है तैसे (आयतीम्) आतेहुए उषासम्) उषःकालके समय सावधान रहना होता है । और प्रज्वलित हुए अग्निकी (भानवः) लपटें (यद्वा) बड़े (वयाम्) शाखाओंको फैलातेहुए वृद्धोंकी समान (उज्जिहानाः) अपने स्थान को त्यागती हुई (अच्छ) भलेप्रकार (नाकम्) अन्तरिक्ष पयन्त (प्रसस्रते) फैलती हैं ॥ १ ॥

**प्रभूर्जयन्तं महां विपोधां मूरैरमुरं पुरां दर्माणं
नयन्तं गीभिर्विना धियं धा हरिश्मश्रुं न वर्मणा
धनर्चितम् ॥ २ ॥**

हे स्तुति करनेवाले ! तू (जयन्तम्) असरसेनाको जीतनेवाले (महाम्) बड़े (विपोधाम्) मेधावियोंको धारण करनेवाले (मूरैः) मूढ़ों करके अधिष्ठित (पुराम्) शरीरोंके (दर्माणम्) आदर के साथ रक्तक (अमुरम्) अमूढ़ अग्निको (प्रभूः) स्तुति करने को समर्थ हो (गीभिः) स्तुतियोंसे (वना) आराधना करने योग्य (नयन्तम्) धनोंको प्राप्त करानेवाले (वर्मणा) कवचसमान लपटोंसे युक्त (हरिश्मश्रुं न) हरितवर्णकेशबालेकी समान (धनर्चितम्) प्रसन्न करनेवालाला है स्तोत्र जिसका ऐसे अग्निके निमित्त (धियम्) पूजन क्रिया को (धाः) करो ॥ २ ॥

शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी

द्यौरिवासि । विश्वा हि माया अवसि स्वधा-
वन् भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ३ ॥

(पूषन्) हे पूर्वा देवता (ते) तुम्हारा (शुक्रम्) शुक्र वर्ण
(अन्यत्) एकदिन होता है, तथा (ते) तुम्हारा (यजतम्) प्रकाश से
जानने योग्य स्वयं कृष्णवर्ण (अन्यत्) रात्रिनोमक अन्य दिन होता
है, इसप्रकार (विषुरूपे) शुक्ल कृष्ण होनेसे नानाप्रकारके (अहनी)
दिन, तुम्हारी महिमासे होते हैं। अथवा हे पूषन् ! तुम्हारा एकरूप
निर्मल है जो दिन होनेका कारण है और दूसरा एक रूप है जो केवल
यजनीय है, प्रकाशक नहीं है, रात्रिका उत्पादक है, इसकारण ही
विषुव कहिये विषमरूप दिन और रात होतेहैं, क्योंकि—दिन और
रात्रिका कर्त्ता सूर्य ही है (द्यौः इव) आदित्यकी समान प्रकाशक
(असि) है (हि) क्योंकि (स्वधावन्) हे अन्नवाले पूष देव !
(विश्वाः) सकल (मायाः) प्रज्ञाओंको (अवसि) रक्षा करता है,
इस कारण तू सूर्यकी समान ही है, ऐसे (ते) तेरा (भद्रा) कल्या-
णरूप (रातिः) दान (इह) हमारे विषय में (अस्तु) हो ॥ ३ ॥

इडामग्ने पुरुदं ससं, सनिं गोः शश्वत्त
मं, हवमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो
विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥ ४ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (पुरुदंसम्) बहुत हैं काम जिसकेपेसी (गोः)
गौओंकी (सनिम्) देनेवाली (इडाम्) इडानामक गोरूप देवताको
(शश्वत्तमम्) निरन्तर (हवमानाय) हवन करतेहुए मुझ यजमान
के अर्थ (साध) साधन कर, और (नः) हमारा (सूनुः) पुत्र (तनयः)
पौत्र (स्यात्) हो, पेसी जो (ते) तुम्हारी (सुमतिः) सुन्दर बुद्धि
है वह (विजावा) सफल (अस्मे) हमारी (भूतु) हो ॥ ४ ॥

प्रहोता जातो महान्नभोविन्नृषद्वा सीददपां
विवर्त्ते । दधयो धायी सु ते वया *सि यन्ता
वसूनि विधते तनूपाः ॥ ५ ॥

(यः) जो (नृषद्वा) होताओं के समीपस्थानवाला अग्नि (अपाम्)
अन्तरिक्ष के (विवर्त्ते) प्रदेश में विद्युतरूप से स्थित हुआ, वह

इस समय (होता) यजमान के होमको सुसिद्ध करनेवाला (जातः) हुआ है (महान्) गुणों से पूजनीय (नभोधित्) अन्तरिक्षका ज्ञाता (प्रसीदत्) वेदी में प्रसन्न होता है वह (दधत्) हवियोंको धारण करता हुआ (सुधायी) वेदीमें सम्यक् प्रकार से स्थापन किया गया । हे स्तोतः ! वह अग्नि (विधत्ते) उपासना करते हुए (ते) तेरे अथ (वयांसि) अन्नको (वसूनि) धनोंको (यन्ता) प्रेरणा करनेवाला (तनूपाः) शरीरका रक्षा करने वाला [भवतु] हो ॥ ५ ॥

प्रसमाजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृष्टीनामनु
माद्यस्य । इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्द-
द्वारा वन्दमाना विवष्टु ॥ ६ ॥

(असुरस्य) बलवान् (पुंसः) वीरके (कृष्टीनाम्) मनुष्यों के (अनुमाद्यस्य) स्तुतियोग्य (तवसः) बलवान् (इन्द्रस्य इव) इन्द्र की समान उस अग्नि के (प्रशस्तम्) उत्तम (सम्राजम्) भले प्रकार विराजमान स्वरूपको [प्रस्तौतु] स्तुति करो (वन्दद्वारा) स्तुति आदि (वन्दमाना) सबके बखाने हुए कर्मोंको (प्रविवष्टु) अधिकता से चाहो ॥ ६ ॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइवेत्सुभृतो
गर्भिणीभिः । दिवेदिव ईड्यो जागृवद्भिर्हवि-
ष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥ ७ ॥

(जातवेदाः) सब विषयोंके ज्ञानवाला (अग्निः) अग्नि (गर्भिणीभिः) गर्भिणिया करके (सुभृतः) भले प्रकार धारण किया हुआ (गर्भ इव इत्) गर्भ जैसे, तिसी प्रकार (अरण्योः) अरणियों में (निहितः) देवताओंने यज्ञके निमित्त स्थापन किया, वह अग्नि (हविष्मद्भिः) हवियोंके लिये हुए (जागृवद्भिः) कर्मानुष्ठानमें सावधान (मनुष्येभिः) हम मनुष्यों करके (दिवे दिवे) प्रतिदिन (ईड्यः) स्तुतिरूप वाणियोंसे स्तुति करने योग्य है ॥ ७ ॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि
पृतनासु जिग्युः । अनु दह सहमूरान्कयादो मा
ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ ८ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (सनात्) विरकालसे (यातुधा-
तान्) राक्षसोंको (मणसि) बाधा देते हो, तो भी (त्वा) तुमको
(पृतनासु) संग्रामोंमें (रक्षांसि) राक्षस (नजिग्युः) नहीं जीत-
सकते, वह तुम इस समय (अनु) क्रमसे (सहमूरान्) मारक व्यापार-
रूप मूल सहित (कयादः) मांसभक्षी राक्षसोंको (वह) तेजसे भस्म
करो (ते) तुम्हारी (दैव्यायाः) दिव्य (हेत्याः) लपटरूप आयुध
से (मा मुञ्चत) न छूटें ॥ ८ ॥

प्रथमाध्यायस्य अष्टम खण्डः समाप्तः

४-१-३

अग्न ओजिष्ठमाभर बुन्नमस्मभ्यमधिगो ।

प्र नो रायेपनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम् ॥१॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (ओजिष्ठम) परम बलवान् (बुन्नम्)
कटक हुएडतादि करके सर्वत्र प्रकाशयान् धन (अस्मभ्यम्) हमें
(आभर) नान्यत्र दीजिये (अधिगो) नहीं एकती है गति जिसकी
पैसे हे अग्ने (पनीयसे) रतुनियोग्य (राये) धन करके (नः) हमें
(प्र) प्रकर्ष करके युक्त करो (वाजाय) अन्नके लिये (पन्थाम्)
मार्गोंको (रत्सि) दो ॥ १ ॥

यदि वीरो अनुष्यादग्निमिन्धीत मर्त्यः ।

आजुह्वद्व्यमानुपक् शर्म भक्षीत दैव्यम् २

(यदि) जब, मनुष्यके (वीरः) पुत्र (स्थात्) होय तब वह (मर्त्यः)
मनुष्य (अग्निम्) अग्निका (इन्धीत) प्रदीप्त करे (अनु) फिर
(आनुपक्) अविच्छिन्न (त्वम्) हथिको (आजुह्वत्) अभिमुख
होकर हमें (दैव्यम्) दिव्य (शर्म) सुखको (भक्षीत) भोगे ॥ २ ॥

त्वेपस्ते धूम ऋष्वति दिवि सञ्चुक्र आततः ।

सूरो न हि युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥३॥

हे अग्ने ! (त्वेषः) प्रज्वलित हुए (ते) तुम्हारा (शुकः) निर्मल
स्वेतवर्ण (धूमः) धुआँ (दिवि) अन्तरिक्ष में (आततः) फैलता
हुआ (ऋष्वति) मेषरूपसे परिणत होजाना है और (पावक) हे
शोधक अग्ने ! (सूरः, न) सूर्यकी समान (कृपा) अभिमुख करस-
कनेवाली स्तुतिसे प्रशंसा किये हुए तुम (युता) दीप्तसे (हि)
निश्चय (रोचसे) प्रकाशित होते हो ॥ ३ ॥

त्व १९, हि क्षैतवचशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे ।
 त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥४॥

हे अग्ने ! (हि) निश्चय (त्वम्) तू (क्षैतवत्) सुखतेहुए काठ सहित (यशः) अन्नको (मित्रः, न) दिनके अभिमानी मित्र देवता की समान (पत्यसे) प्राप्त होता है, इसकारण (विचर्षणे) सबके द्रष्टा ! (वसो) हे व्यापक अग्ने (त्वम्) तू (श्रवः) यजमानके घर अन्नको (पुष्टिं, न) पुष्टिको भी (पुष्यसि) बढ़ाता है ॥ ४ ॥

प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः ।

विश्वे यस्मिन्नमत्ये हव्यं मर्त्तसि इन्धते ॥५॥

(पुरुप्रियः) बहुनोंका प्रिय (विशः) यजमानों के घर धन स्थापन करनेवाला (अतिथिः) यजमानों के घर सदा जानेवाला (अग्निः) अग्नि (प्रातः) प्रातःकाल के समय (स्तवेत) स्तुति किया जाता है (अमत्ये) अमरणधर्मी (यस्मिन्) जिस अग्नि में (विश्वे) सब (मर्त्तसि) मनुष्य (हव्यम्) हव्यको (इन्धते) स्थापन करतेहैं ५

यद्वाहिष्ठं तदग्नेये बृहदर्चं विभावसो ।

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६ ॥

(वाहिष्ठम्) अधिकता से पहुँचाने वाला (यत्) जो स्तोत्र है (तन्) वह (अग्नेये) अग्निके अर्थ कियाजाना है, इसकारण (विभावसो) हे प्रभारूप धनवाले अग्ने (बृहत्) बहुतसा धन और अन्न (अर्चं) हमें दीजिये, क्योंकि (त्वत्) तुमसे (महिषी) बहुत से (रयिः) धनको (उदीरते) पाते हैं ॥ ६ ॥

विशो विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्

अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥७॥

हे ऋत्विज और यजमानो ! (वः) तुम (वाजयन्तः) अन्नकी इच्छा करते हुए (विशोविशः) सब प्रजाके (पुरुप्रियम्) अधिक प्रिय (अतिथिम्) पूज्य (अग्निम्) अग्निको, स्तुति से आराधन करो, मैं भी (वः) तुम्हारे निमित्त (दुर्यम्) घरके हितकारी अग्नि को (शूषस्य) सुखके लाभार्थ (मन्मभिः) मनन करने लोच्य स्तोत्ररूप (वचः) वाणियोंसे (स्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥ ७ ॥

बृहद्वयो हि भानवेर्च्चा देवायाग्नये ।

यं मित्रं न प्रशस्तये मर्त्तासो दधिरे पुरः ॥ ८ ॥

यज्ञ में (भानवे) दीप्तिमान् (अग्नये) अग्निके अर्थ (बृहत्) बड़ा (वयः) हविरूप अन्न दिया जाता है (हि) इस कारण तुम भी (देवाय) प्रकाशवान् अग्नि के अर्थ (अर्च) दो (मर्त्तासः) मनुष्य (यम्) जिस अग्निको (मित्रं न) मित्रकी समान (प्रशस्तये) श्रेष्ठ स्तुतिके लिये (पुरः दधिरे) सत्कार करते हैं ॥ ८ ॥

अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम् ।

यः स्म श्रुतर्वन्नाक्षे बृहदनाकि इध्यते ॥ ९ ॥

(वृत्रहन्तमम्) पापोंके अतिशय नाशक (ज्येष्ठम्) प्रशंसनीय (आनवम्) मनुष्यों के हितकारी (अग्निम्) अग्निको (अगन्म) हम प्राप्त हुए (यः) जो अग्नि ((आक्षे) ऋत्तपुत्र (श्रुतर्वन्) श्रुतर्वन् के निमित्त (बृहत्) महान् (अनीकः) ज्वाला समूह रूप होकर (इध्यतेस्म) प्रज्वलित किया गया ॥ ९ ॥

जातः परेण धर्मणा यत्सवृद्धिः सहाभुवः ।

पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (परेण) उत्तम (धर्मणा) आधान आदि कर्म करके (जातः) प्रकट हुएहो (यत्) जो (सवृद्धिः) ऋत्विजों के साथ (अभुवः) भूमि संबन्धी यज्ञमें रहता है (यत्) जिस अग्निका (कश्यपः) कश्यप (पिता) पिता (श्रद्धा) श्रद्धा-देवी (माता) माता (मनुः) मनु (कविः) स्तोता हुआ ॥ १० ॥

सोमश्च राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे ।

आदित्यं विष्णुश्च सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्

(राजानम्) ईश्वर (सोमम्) सोमको (वरुणम्) वरुण को (अग्निम्) अग्निको (आदित्यम्) अदिति के पुत्र (विष्णुम्) विष्णु को, (सूर्यम्) सूर्यको (ब्रह्माणम्) ब्रह्माको (च) और (बृहस्पतिम्) बृहस्पति को (अन्वारभामहे) रक्षाके लिये आह्वान करते हैं ॥ ११ ॥

इत एत उदारुहन् दिवः पृष्ठान्यारुहन् ।

प्रभूर्जयो यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २ ॥

(एते) यह (भूर्जयः) हरियों वाले (आङ्गिरसः) आङ्गिरस (यथा) जैसे (उम्) मार्ग करके (द्याम्) युक्तोक्तको (प्रययुः) प्राम हुए, जैसे कि (पथा) मार्गके द्वारा मनुष्य ग्राम आदिको जाते हैं जैसे ही (इतः) भूमिसे (उदारुहन्) ऊपरको गए और आकर (दिवः) स्वर्ग के (पृष्ठानि) स्थानोंपर (आरुहन्) चढ़ें ॥ २ ॥

राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि ।

ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा हां प्राय पृथिवी ३

(अग्ने) हे अग्निदेव (त्वा) तुम्हें (महे) महत्त्वसे (राये) धन-दान के लिये (समिधीमहि) भले प्रकार से प्रार्थना करने हैं (वृषन्) वरदानों की वर्षा करनेवाले अग्ने ! (महेने) बहुत (हां प्राय) हवन-रूप अग्निहोत्रके लिये (द्यावा, पृथिवी) द्यावापृथिवीका (ईडिष्वा) स्तुति करो ॥ ३ ॥

दधन्वे वा यदीमनु वोचद्ब्रह्मेति वेरु तन् :

परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत् ॥ ४ ॥

(वा) अथवा (ईम) इस गद्यको (अनु) लक्ष्य करके (दधन्वे) अध्वर्यु आदि (ब्रह्म) होत्रको (अनुवोचत्) उच्चारण करते (तन्) उस समयको (वेः, उ) जानना हुआ है । वह अग्नि (विश्वानि) सब (काव्याः) बुद्धिमान् ऋत्विजों के सकल कर्तव्यों (नेमिः) नेमि (चक्रमित्) पहियेको जैसे नश में करे रहता है जैसे (पर्यभुवत्) अपने वशमें रखता है ॥ ४ ॥

प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्परिः ।

यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युवज वीर्यम् ॥ ५ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (हरसा) अपने तेजसे वा क्रोध से (यातुधानस्य) राक्षसके (हरः) हरणशील (बलम्) बलको (विश्वतः) सब ओरसे (परि) फैले हुएका (प्रतिशृणाहि) नष्टकरो (रक्षसः) राक्षसके (वीर्यम्) पराक्रमको (न्युवज) विशेषरूपसे तोड़दो ॥ ५ ॥

त्वमग्ने वसूँऽरिह रुद्राँऽ, आदित्याँऽ, उत ।

यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम् ॥ ६ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (त्वम्) तुम (इह) इस कर्ममें (वसून्) वसुओंको (रुद्रान्) रुद्रोंको (आदित्यान्) आदित्योंको (उत) और (स्वध्वरम्) शोभनयागयुक्त (मनुजातम्) प्रजापति से उत्पन्न किये हुए (घृतप्रुषम्) जलको लीचनेवाले (जनम्) अन्य देवताको (यज) यजन करा ॥ ६ ॥

पुरु त्वा दाशिवाँऽ, वोचेऽरिग्ने तव स्विदा ।

तादस्यैव शरण आ महस्य ॥ ७ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (महस्य) तू (तादस्य) शिक्तकस्वामीके (शरणम्) दामकी समान (तव स्विदा) तुम्हाराही (अरिः) सेवक में (त्वा) तमसे (पुरु) यहजने (दाशिवान्) पुत्र धन आदि वरदाताँको (वोचे) कहनाहूँ ॥ ७ ॥

प्र होत्रे पूर्य वचोऽग्नये भरता बृहत् ।

विषां ज्योतीँऽपि विध्रते न वेधसे ॥ ८ ॥

यजमान होता आदि से कहनाहूँ, कि-हो होता आदिकों । (धियाम्) अध्वर्यु आदि विषाँको (ज्योतीँपि) सत्कर्मोंके अनुष्ठानसे प्राप्त हुए नैजों को (विध्रते) निमित्तरूपसे करनेवाले (वेधसे) जगतके विधाता (होत्रे) देवताओंका आह्वान करनेवाले (अग्नये) अग्निके अर्थ (बृहत्) बड़े (पूर्यम्) पुरातन (वचः) स्तोत्रको (प्रभरता) संपादन करो २

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो ।

अस्मे देहि जातवेदो माहि श्रवः ॥ ९ ॥

(सहसायहो) बलके पुत्र (अग्ने) हे अग्ने (गोमतः) अनेकोंगौओंसे युक्त (वाजस्य) अन्नके (ईशानः) ईश्वर तुम हो, इसकारण (जातवेदः) प्राणिमात्रके अन्तर्यामी अग्ने ! (अस्मे) हमें (माहि) बहुतसा (श्रवः) अन्न (देहि) दो ॥ ९ ॥

अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज ।

होता मन्द्रो विराजस्यति सिधः ॥ १० ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (यजिष्ठः) विशेषरूपसे यजन करनेवाला तू (अश्वरे) यज्ञमें (देवयते) अपने कर्ममें देवताओंको चाहनेवाले यजमानके निमित्त (देवान्, यज) देवताओंका यजन करो (होता) देवताओंका आह्वान करनेवाले (मन्द्रः) यजमानको आनन्द देनेवाले तुम (स्निधः) शत्रुओंको (अति) अतिक्रमण करके (विराजसि) विशेषरूपसे शोभायमान होते हो ॥ ४ ॥

जज्ञानः सप्त मातृभिर्मधामाशासत श्रिये ।

अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥

(ध्रुवः) स्थिर (अयम्) यह अग्नि (रयीणाम्) धनोंका (आचिकेतस्) अनुशासन करना जानता है (सप्त) सात (मातृभिः) अपने में हवि डालनेवाली जिह्वाओं करके (सह) सहित (जज्ञानः) प्रकट हुआ है, ऐसा यह अग्नि (मधाम्) कर्मके विधाता सोमको (श्रिये) सेवाके निमित्त (आशासते) अनुशासन करता है ॥ ५ ॥

उत स्या नो दिवा मतिरदितिरुत्या गमत ।

सा शन्ताता मयस्करदप सिधः ॥ ६ ॥

(उत) और (स्या) वह पूर्वोक्त (मतिः) स्तुति करने योग्य (अदितिः) अदिति (उत्या) रक्षासहित (दिवा) दिनमें (नः) हमें (अगमत) प्राप्त हो और आकर (शन्ताता) शान्त करनेवाले (मयः) सुखको (सा) वह अदिति (करत्) कर्म (स्निधः) शत्रुओंको (अप) दूरकरै ६

ईडिष्वा हि प्रतीव्या ३ यजस्व जातवेदसम् ।

चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम् ॥ ७ ॥

(प्रतीव्य) शत्रुओंमें प्रतिकूलभावसे जानेवाले अग्निको (हि) ही (यजस्व) स्तुति करो (चरिष्णुधूमम्) सर्वत्र विचरता है धुआं जिसका ऐसे (अगृभीतशोचिषम्) जिसकी दीप्तिको राक्षस नहीं पकड़सकते ऐसे (जातवेदसम्) सकल प्राणियोंके ज्ञाता अग्निको (यजस्व) हवियोंसे पूजो ॥ ७ ॥

न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यः ।

यो अग्ने ददाश हव्यदातये ॥ ८ ॥

(मर्त्यः) मनुष्य (रिपुः) शत्रु (मायया चन) माया करकै भी (तस्य) तिसका (न ईशीत) ईश्वर नहीं बनसकता कि (यः) जो (हव्यदातये) हवियोंको ग्रहण करनेमें समर्थ (अग्नये) अग्निके अर्थ (ददाश) हवि देता है ॥ ८ ॥

अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्
द्रविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम् ॥ ९ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (त्यम्) उस प्रसिद्ध (वृजिनम्) कुटिल (रिपुम्) पापकारी (दुराध्यम्) खांटे अभिप्रायवाले (स्तेनम्) हिंसकको (द्रविष्ठम्) बहुत दूर (अपास्य) फँको । (सत्पते) हे सज्जनोंके पालक अग्ने ! हमारे (सुगम्) सुगमतासे पाने योग्य सुख को (कृधि) करो ॥ ९ ॥

श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते ।
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १० ॥

(वीर) हे शत्रुओंके विनाशक ! (विश्पते) हे यजमानों के पालक अग्ने ! (नवस्य) इस समय कियेजानेके कारण नवीन (मे) मेरे (स्तोमस्य) स्तोत्रादिको (श्रुष्टी) सुनकर (मायिनः) मायावी (रक्षसः) कर्ममें विघ्नकरनेवाले राक्षसोंको (तपसा) ताप देनेवाले तेजसे (निदह) अत्यन्त भस्म करिये ॥ १० ॥

प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतान्वे बृहते शुक्र-
शोचिषे । उपस्तुतासो अग्नये ॥ ११ ॥

(उपस्तुतासः) हे उपस्तोताओं ! तुम (मंहिष्ठाय) परम दाता (ऋतान्वे) यज्ञवाले वा सत्यवाले (बृहते) महान् (शुक्रशोचिषे) दीप्ततेजवाले (अग्नये) अग्निके अर्थ (प्रगायत) स्तोत्र पढ़ो ॥ ११ ॥

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति
वाजकर्मभिः । यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ १२ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वम्) तू (यस्य) जिस यजमानके (सख्यम्) मित्रभावको (आविथ) प्राप्त होता है (सः) वह यजमान (तव) तेरी (सुवीराभिः) श्रेष्ठ पुत्रादिवाली (वाजकर्मभिः) अन्न और बलोंकी रक्षा करनेवाली (ऊतिभिः) रक्षाओंसे (प्रतरति) बढ़ता है

तं गर्द्धया स्वर्णं देवासो देवमरतिं दध-
न्विरं । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३ ॥

हे स्तोतः ! (स्वर्णम्) स्वर्ण में देवताओं को हवि पहुँचाने वाले (तम्) तिस अग्निको (गर्द्धया) स्तुति कर (देवासः) ऋत्विज (देवम्) दानादि गुणयुक्त (अरतिम्) जिस इष्टदेवकी (दधन्विरं) स्तुति आदि से उपासना करते हैं और उस अग्निके द्वारा (देवत्रा) देवताओंको (हव्यम्) हवि (आ ऊहिषे) पहुँचाने हैं ॥ ३ ॥

मानो हृषीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्र-
शस्त एपः । यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥

हे ऋत्विगों के सारथ ! (न.) हमारे गजमें मे (अतिथिम्) अति-
थिकी समान प्यास अग्निकी (मा हृषीथाः) मन लगाने करो (यः) जो
(अतिः) अति (हृषीता) उत्तमतासे देवताओं का आह्वान करने-
वाला (स्वध्वरः) सुन्दर यज्ञवाला होता है (एपः) यज्ञ (पुरुप्रशस्तः)
अनेकोंसे स्तुति किया हुआ (वसु.) पत्तनोपलब्ध होता है ॥ ४ ॥

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा गतिः सुभग
भद्रो अध्वरः । भद्र उत प्रशस्तयः ॥ ५ ॥

(आहुतः) हवियों से लग किया हुआ (अग्निः) अग्नि (नः)
हमारा (भद्रः) कल्याणरूप हो (सुभग) हे सुन्दर भजन वाले ! हमें
(भद्रा) कल्याणरूप (गतिः) दान प्राप्त हो (भद्रः) कल्याणकारी
(अध्वरः) यज्ञ प्राप्त हो (उत) और (भद्राः) कल्याणरूप (प्रश-
स्तयः) स्तुतियें प्राप्त हों ॥ ५ ॥

यजिष्ठं त्वा वष्टमहे देवं देवत्रा होतारमम-
त्यम् । अर्यं पञ्जरय सुकतुम् ॥ ६ ॥

हे अग्ने ! यजिष्ठम्) छेप लक्षा (देवत्रा) देवताओंमें (देवम्)
अधिकतारा दान करनेवाले (होतारम्) देवताओंको बुलानेवाले
(अमत्यम्) अविनाशो (अर्यम्) इस (पञ्जरय) यज्ञके (सुकतुम्)
अप्य कर्ता (त्वा) तुम्हें (वष्टमहे) भजते हैं ॥ ६ ॥

यद्गने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सद्ने कं
चिदत्रिणम् । मन्युं जनस्य दूढयम् ॥ ७ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (तत्) उस (द्युम्नम्) यशको (आभर)
हमें दो कि (यत्) जब (आसद्ने) यक्षमण्डपमें वर्तमान (कश्चित्)
किसी भी (अत्रिणम्) भक्षण करनेवाले राजसादिको (सासाहा)
अप्यन्त तिरस्कारयुक्तकरो तथा (दूढयम्) पापबुद्धि शत्रुको (जनस्य)
जनके (मन्युन्) क्रोधको भी तिरस्कारयुक्त करो ॥ ७ ॥

यद्वा उ विश्वपतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे
विश्वेदग्निः प्रति रक्षां॑सि सेधति ॥ ८ ॥

(विश्वपति) यजमानोका पालन करनेवाला (शितः) हवियोंसे तीक्ष्ण
कियाहुआ (अग्निः) अग्नि (सुप्रीतः) भलेप्रकार प्रसन्न हुआ (मनुषः)
मनुष्यके (विशे) घर जब जाता है तब (अग्निः) अग्नि (विश्वा इत्)
उसको पीड़ा देनेवाले सब ही (रक्षांसि) राजसोंको (प्रतिसिसेधति)
नष्ट करवेताहै (उ) यह बात प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

प्रथमाध्यायस्य द्वादश खण्ड- समाप्तः

(अथ ऐंद्रं पर्व)

तद्दो गाय सुते सचा पुरुदूताय सत्वने ।
शं यद्गवे न शाकिने ॥ १ ॥ ४-१-२५

हे स्तोताओं ! (वः) तुम (सुते) सोमके अभिषुत होनेपर (पुरु-
दूताय) बहुतसे यजमानोसे आह्वान कियेहुए (सत्वने) शत्रुओं को
घटानेवाले अथवा धनोंके देनेवाले इन्द्रके अर्थ (नन्) स्तोत्रको (सचा)
इकट्ठे होकर (गाय) गान करो (यत्) जो स्तोत्र (शाकिने) शक्ति-
मान् इन्द्रको (गवे न) गौको भुसकी समान (शम्) सुखदायक
होता है ॥ १ ॥

यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः ।
तेन नूनं मदे मदः ॥ २ ॥

(शतक्रतो) सैंकड़ों प्रकारका ज्ञान रखनेवाले हे इन्द्र ! (द्युम्नि-
तमः) परमयशस्वी (यः) जो (मदः) सोम (नूनम्) निश्चय पहिले
ही (ते) तुम्हारे लिये हमने अभिषुत किया है (तेन) उस हमारे

दिये हुए सोमसे (नूनम्) इस समय (मदे) उसके पीनेसे आपको प्रसन्नता होनेपर हमें भी (मदेः) धन आदि देकर आप हापत कीजिये॥

गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा ।

उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३ ॥

(गावः) हे गौओं ! तुम (अघटे) महावीर के प्रति (उपवद्) प्राप्त हुआये (यज्ञस्य) धर्मयाग के साधनभूत (रप्सुदाः) मंत्रके द्वारा दुहने योग्य गौ और बकरियोंके दूध (मही) बहुतसे आवश्यक हैं, और इस महावीर के (उभा) कर्णस्थानीय दो रुक्म (हिरण्यया) सुवर्ण और रजतके हैं ॥ ३ ॥

अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे ।

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥

यज्ञकर्त्ता अपनेसे कहै कि—(श्रुतकक्ष)हे वेद प्रिय आत्मन् (अश्वाय) इन्द्रके दिये हुए अश्वके निमित्त (अरम्) पूर्णरूपसे (गवे) गौओंके निमित्त (अरम्) पूर्णरूपसे (इन्द्रस्य) इन्द्रसंबंधी (धाम्ने) गृहकी प्राप्ति के निमित्त (अरम्) पूर्णरूपसे (गायत) वैदिक म्नुतिकी गानकर ॥४॥

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे ।

स वृषा वृषभो भुवत् ॥ ५ ॥

यजमान कहते हैं, कि—(तम्) उस (महे) बड़े (वृत्राय हन्तवे) जलोंको रोकनेवाले वृत्रासुरके नाशक (इन्द्रम्) इन्द्रको (वाजयामसि) बलवान् करते है (वृषा) धनोंका दाता (सः) वह इन्द्र (वृषभः) हमें धन देनेवाला (भुवत्) होय ॥ ५ ॥

त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः ।

त्व सन् वृषन् वृषेदसि ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वम्) तू (सहसः) दूसरोंका तिरस्कार करने वाले (बलात्) बलसे (ओजसः) हृदयमें के धैर्यसे (अधिजातः) प्रसिद्ध हुआ है (वृषन्) हे वरदानोंकी घर्षा करनेवाले (सन्) श्रेष्ठ (त्वम्) तू (वृषा-इत्-असि) इच्छित फलोंकी घर्षा करनेवाला है ६

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयद्भूमिं व्यवर्त्तयत् ।

चक्राण ओपशं दिवि ॥ ७ ॥

(यज्ञः) यजमानोंके कियेहुए यज्ञने (इन्द्रम्) इन्द्रदेवताको (अषट्-
यत्) बढ़ाया, (यत्) क्योंकि (दिवि) अन्तरिक्षमें मेघको (ओ-
पशम्) फैलःहुआ (चक्राणः) करतेहुए उस इन्द्रने (भूमिम्) पृथि-
वीको (व्यवर्त्तयत्) वर्षा आदिके द्वारा बढ़ाया ॥ ७ ॥

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत् ।

स्तोता मे गोसखा स्यात् ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यथा) जैसे (त्वम्) तू (एक इत्) अकेलाही
(वस्वः) धनका स्वामी है, ऐसेही (अहम्) मैं (यत्) जो (ईशीय)
पेश्वर्ययुक्त होऊँ तो (मे) मेरा (स्तोता) स्तोता (गोसखा) गौओं
सहित (स्यात्) हो ॥ ८ ॥

पन्यं पन्यमित्सोतार आ धावत मघाय ।

सोमं वीराय शूराय ॥ ९ ॥

(सोतारः) हे सोमका रस निकालनेवाले अध्वर्युओं ! (मघाय)
प्रसन्न करनेयोग्य (वीराय) पराक्रमी (शूराय) शूर इन्द्रके अर्थ (पन्यं
पन्यं इत्) सर्वत्र प्रशंसाके योग्य (सोमम्) सोमको (आ धावत)
अर्पण करो ॥ ९ ॥

इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपूर्णमुदरम् ।

अनाभयिन् ररिमा ते ॥ १० ॥

(वसो) हे अन्तर्यामिन् इन्द्र ! (इदम्) इस वर्त्तमान (मुनम्) अमि-
ष्य कियेहुए (अन्धः) सोमरूप अन्नको (पिवा) पियो, जिससे कि
(उदरम्) तुम्हारा पेट (सुपूर्णम्) सम्यक् पूर्ण हो (अनाभयिन्)
हे सब ओरसे निर्भय इन्द्र ! (ते) तुम्हारे अर्थ (ररिमा) वह सोम
अर्पण करते हैं ॥ १० ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।

उद्वेदाभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ ॥

(सूर्य) हे सूर्यस्वरूप श्रेष्ठ वीर इन्द्र (श्रुतामघम्) जिसका धन सर्वदा देनयोग्य प्रसिद्ध है, इसीसे (वृषभम्) याचकोंके निमित्त धनकी धर्षा करनेवाले (नर्यापसम्) मनुष्योंका हितकारी कर्म करने वाले (अस्तारम्) उदारस्वभाव (इदम्) ऐसे अपने प्रभावको तुम (उधेवि) चारों ओरसे प्रकाशित करते हो (घ) यह प्रसिद्ध है ॥१॥

यद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभिसूर्य ।

सर्वं तदिन्द्र ते वशे ॥ २ ॥

(वृत्रहन्) हे जलोंको रोकनेवाले मेघके नाशक (सूर्य) हे सूर्य-रूप इन्द्र (अद्य) आजके दिन जो कुछ पदार्थ समूह (अभि) उन्नत-दशामें (उदगाः) प्रकाशित किया है (इन्द्र) हे इन्द्र (तत्) वह (सर्वम्) सब (ते) तेरे (वशे) वशमें है ॥ २ ॥

य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम् ।

इन्द्रः स वो युवा सखा ॥ ३ ॥

(यः) जो इन्द्र (तुर्वशम्) तुर्वशको (यदुम्) यदुको शत्रुओंके द्वारा बुर फँके जानेपर (सुनीती) श्रेष्ठ नान्तिके द्वारा (परावतः) निस्स बुर देशसे (आनयत्) लौटा लाया (युवा) तरुण (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र (नः) हमारा (सखा) मित्र हो ॥ ३ ॥

मान इंद्राभ्या ३ दिशः सूरौ अक्तुष्वा यमता

त्वा युजा वनेम तत् ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (आदिशः) चारों ओरसे शस्त्र वरसाने वाला (सूरः) सर्वत्र विचरनेवाला राजस्य (अक्तुषु) रात्रियोंमें (नः) हमारे (मा अभ्यागमयन्) अभिमुख होकर न आसकै । और आजाय तो (तत्) उस राजसको हम (त्वायुजा) तेरी सहायतासे (वनेम) नष्ट करें ॥ ४ ॥

एन्द्र सानसिंरयि सजित्वान सदासहम् ।

वर्षिष्ठमूतये भरा ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (सानसिम्) सम्यक् प्रकार भोगने योग्य (सजित्वानम्) समानशत्रुओंपर विजय

वित्तानेवाले (सदासहम्) सदा शत्रुओंका तिरस्कार करनेके साधन
(वर्षिष्ठम्) बहुतसे (रथिम्) धनको (आभर) दीजिये ॥ ५ ॥

इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे ।

युजं वृत्रेषु वज्रिणम् ॥ ६ ॥

(वयम्) हम (अर्भे) थोड़ासा धन होनेपर (इन्द्रम्) इन्द्रको
(महाधने) बहुतसे धनके निमित्त (युजम्) सहायक (वृत्रेषु)
धनलाममें शिघ्र डालनेवालोंको निवारण करनेके लिये (वज्रिणम्)
वज्रधारी (इन्द्रम्) इन्द्रको (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ ६ ॥

अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे ।

तत्राददिष्ट पौंस्यम् ॥ ७ ॥

(इन्द्रः) इन्द्र (कद्रुवः) कद्रुके (सुतम्) निकालेहुए सोमरसको
(अपिबत्) पीताहुआ (सहस्रबाह्वम्) सहस्रबाहुको [अहनत्]
मष्ट करता हुआ (तत्र) उससमय (पौंस्यम्) इन्द्रकी वीरता
(आददिष्ट) प्रकाशित हुई ॥ ७ ॥

वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन् ।

विद्धी त्वाऽस्य नो वसो ॥ ८ ॥

(वृषन्) हे मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले (इन्द्र) इन्द्र (त्वायवः)
तेरी कामना करनेवाले हम तुम्हको (अभि प्र नोनुमः) अभिमुख
होकर बहुत २ प्रणाम करते हैं (वसो) हे व्यापक इन्द्र (अस्य)
इस (नः) हमारे स्तोत्रको (विद्धी) समझ लीजिये ॥ ८ ॥

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥

(ये) जा (आ घा) निश्चय अभिमुख होकर (अग्निम्) अग्नि
का (इन्धते) दीप्त करते हैं (येषाम्) जिनका (युवा) सदा तरुण
(इन्द्रः) इन्द्र (सखा) मित्र होता है वह (आनुषक्) क्रमसे
(बर्हिः) कुशाओंको (स्तृणन्ति) आच्छादान करते हैं ॥ ९ ॥

मिन्धि विश्वा अप द्विषःपरिबाधो जही मृधः

धसु स्पार्हं तदा भर ॥ १० ॥

हे इन्द्र (विश्वाः) सम्पूर्ण (द्विषः) द्वेष करनेवाली शत्रुसेनाओं को (अप भिन्धि) विदीर्ण करो (घाधः) नाश करनेवाले (मूधः) संग्रामोंको (परिजही) नष्ट करो, तदनन्तर उनके (स्पार्हम्) स्पृह करने योग्य (तत्) उस प्रसिद्ध (वसु) धनको (आभर) हमें लाकर दो ॥ १० ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः

इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान् ।

नियामं चित्रमृञ्जते ॥ १ ॥ २-३-१२

(एषाम्) इन मरुतोंके (हस्तेषु) हाथोंमें स्थित (कशाः) अपने २ बाहनोंको ताड़न करनेके कोड़े (यद् वदान्) जो ध्वनि करते हैं उस ध्वनिको (इहेव) यहाँ ही स्थित होकर (शृण्वे) सुनता हूँ, वह ध्वनि (यामम्) संग्राम में (चित्रम्) नानाप्रकारकी शूरताको (मृञ्जते) अत्यन्त शोभित करता है ॥ १ ॥

इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः

पुष्टावन्तो यथा पशुम् ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (सोमिनः) सोमरस लियेहुए (सखायः, इमे, उ) निःसन्वेह यह हमारे पुरुष (पुष्टावन्तः) पाशधारी (पशुं यथा) जैसे पशु की ओरको देखा करते हैं तैसे ही प्रकार चित्त होकर (त्वा) तुम्हें (विचक्षते) विशेषरूपसे देख रहे हैं ॥ २ ॥

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः।

समुद्रायेव सिन्धवः ॥ ३ ॥

(विशः) वैश्वीहुई (विश्वाः) सब (कृष्टयः) प्रजापति (अस्य) इस इन्द्रके (मन्यवे) क्रोधके निमित्त वा मननके साधन स्तोत्रके निमित्त (समुद्राय, सिन्धवः, इव) जैसे समुद्रकी ओरको बहनेवाली नदियों स्वयं ही भुक्त होती चली जाती हैं, तैसे ही (संनमन्त) भलेप्रकारसे आप ही नमती चली जाती हैं ॥ ३ ॥

देवानामिद्वो महत् तदा वृणामिहे वयम् ।

वृणामस्मभ्यमूतये ॥ ४ ॥

हे देवताओं (देवानाम्) सब ओरसे अपने तेजके द्वारा दीप्यमान आपका (इत्) ही (महत्) पूजनीय (अत्रः) पालन है (वृष्णाम्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले आपके निजधनरूप (तन्) उस पालनका (वयम्) हम यजमान (अस्मभ्यम् ऊतये) अपनी रक्षाके लिये (आ वृणीमहे) चारों ओरसे प्रार्थना करते हैं ॥ ४ ॥

सोमानाः स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ।

कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ ५ ॥

(ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मणस्पति देव ! तुम (सोमानाम्) सोमका रस निकालनेवाले मुझ अनुष्ठाताको (कक्षीवन्तम्) जैसे कि कक्षीवान् देवताओंमें प्रधान है (यः) जो कक्षीवान् (औशिजः) उशिजका पुत्र है उसकी समान ही मुझ (स्वरणम्) देवताओंमें प्रकाशवाला (कृणुहि) करिये ॥ ५ ॥

बोधन्मना यदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः ।

शृणोतु शक्र आशिषम् ॥ ६ ॥

(वृत्रहा) वृत्रासुरका नाशक (भूर्यासुतिः) जिसके निमित्त बहुत से देशोंमें सोमका रस निकालाजाता है ऐसा (नः) हमारे (बोधन्मनाः) सर्वदा मनोरथोंको जाननेवाला (इद्) ही (अस्तु) होय (शक्रः) संग्राममें शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ वह इन्द्र (आशिषम्) हमारी स्तुतिको (शृणोतु) सुनै ॥ ६ ॥

अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीःसौभगम् ।

परादुःस्वप्नयः सुव ॥ ७ ॥

(सवितः देव) हे सूर्यदेव (नः) हमें (अद्य) इस यज्ञके दिन आज (प्रजावत्) पुत्रादि सहित (सौभगम्) धन (सावीः) दीजिये (दुःस्वप्नयम्) खोटे स्वप्नकी समान दुःखदायक दारिद्र्यको (परासुव) दूर करों

क्वाऽस्य वृषभो युवा तुविश्रीवो अनानतः ।

ब्रह्मा कस्तः सपर्याति ॥ ८ ॥

(सः) वह (वृषभः) मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला (युवा) नित्य तरुण (तुविश्रीवः) घड़ीहुई प्रीवाघला (अनानतः) कभी भी किसी

कौ न नमनेवाला इन्द्र (क) कहां है इस बातको कौन जानता है ?
(कः) कौन (ब्रह्मा) स्तोता (तम्) उस इन्द्रको (सपर्यति) पूजता है ॥ ८ ॥

उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम् ।

धियो विप्रो अजायत ॥ ९ ॥

(गिरीणाम्) पर्वतोंके (उपहरे) प्रदेशमें (च) और (नदीनाम्) नदियोंके (सङ्गमे) सङ्गम पर (धिया) की हुई स्तुतिसे (विप्रः) मेधावा इन्द्र (अजायत) स्तुतिके सुननेको प्रकट होता है ॥ ९ ॥

प्रसम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं

गीर्भि नरं नृषाहं मष्टंहिष्ठम् ॥ १० ॥

(चर्षणीनाम्) मनुष्योंमें (सम्राजाम्) भलेप्रकार विराजमान अथवा मनुष्योंके अधीश्वर (गीर्भिः) स्तोत्रोंकरके (नव्यम्) स्तुति करने योग्य (नरम्) नेता नृषाहम्) शत्रु मनुष्योंका निरस्कार करने वाले (मष्टिष्ठम्) परम दाता (इन्द्रम्) इन्द्रको (प्रस्तोता) अधिक स्तुति करो ॥ १० ॥

अपादु शिप्रयन्धससः सुदक्षस्य प्रहोषिणः।

इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥

(शिप्री) सुंदर डोड़ावा सुन्दर पगड़ीवाला (इन्द्रः) इन्द्र (प्रहोषिणः) अधिकताके साथ देवताओंके निमित्त हवि होमनवाले (सुदक्षस्य) सुदक्षके (यवाशिरः) यवोंके साथ पकेहुए (इन्द्रोः) सोमलतासे सब पात्रोंमें टपकते हुए (अन्धसः) सोमरूप अन्नको (उ) निश्चय (अयात्) पीतायुआ ॥ १ ॥

इमा उ त्वा पुरुवसोभि प्र नोनवुर्गिरः ।

गावो वत्सं न धेनवः ॥ २ ॥

(पुरुवसा) हे बहुत धनवाले इन्द्र (त्वा, अभि) तुम्हारे ओरको (इमाः) यह हमारी (गिरः) स्तुतियें (प्रनोनवः) अधिकतासे चार २ आकर प्राप्त होती हैं गाव धेनवः, वत्सं, न) जैसे कि—धेनु गोएं अपने घर बँधेहुए बछड़ेके समीप आपहँचती हैं ॥ २ ॥

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् ।

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥

(अत्रा ह) इसही (गोः) गमन करनेवाले (चन्द्रमसः) चन्द्रमा के (गृहे) मण्डलमें (त्वष्टुः) त्वष्टा नामक आदित्यका (अपीच्यम्) रात्रिमें अन्तर्धान हुआ जो अपना (नाम) तेज है वह सूर्यकी किरणों हैं (इत्था) इसप्रकार (अमन्वत) माना गया है अर्थात् जलमय स्वच्छ चन्द्रमण्डलमें प्रतिबिम्बित हुई सूर्यकी किरणें वही चेष्टा करती हैं, कि—जो सूर्यमण्डलमें करती हैं, सूर्यका तेज दिनकी समान रात में भी चन्द्रमण्डलमें प्रविष्ट हो अन्धकारका नाश करके सबको प्रकाशित करदेता है, ऐसे तेजवाला सूर्य इन्द्रही है, क्योंकि वारह आदित्यों में इन्द्रकी भी गिनती है, इसकारण दिनरात का प्रकाशक इन्द्रही है ॥३॥

यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः ।

तत्र पूषा भुवत्सचा ॥ ४ ॥

(यत्) जब (वृषन्तमः) अतिशय वर्षा करनेवाला (इन्द्रः) इन्द्र (रितः) जातेहुए (महीः) बहुतसे (अपः) वर्षा के जलोंको (अनयत्) इस लोक में पहुँचाता है (तत्र) उस समय (पूषा) पोषक देवता (सचा) सहायक (भुवत्) होता है ॥ ४ ॥

गौर्धयति मरुतांश्रुवस्युर्माता मघोनाम् ।

युक्ता वह्नी रथानाम् ॥ ५ ॥

(मघोनाम्) धनवान् (मरुताम्) मरुतोंकी (माता) रचने वाली माता (रथानाम्) मरुतोंकी (वह्निः) बड़वाओंसे वहन कराने वाली (युक्ता) सर्वत्र पूजित (गौः) पृथिनरूपा गौ (श्रवस्युः) अन्नकी कामना करती हुई (धयति) अपने पुत्रोंका पोषण करती है ॥ ५ ॥

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ ६ ॥

(मदानाम्) सोमोंके (पते) स्वामिन् इन्द्र ! (हरिभिः) सैंकड़ों सहस्रों घोड़ों सहित (नः) हमारे यक्षमें (सुतं उपयाहि) निचोड़े हुए सोमको पीनेके लिये शीघ्र आइये [उप नो हरिभिः सुतम्, ऐसा मंत्रमें दूसरी बार आदरार्थ कहा है] ॥ ६ ॥

इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं वृधन्तो अध्वरे ।
अच्छावभृथमोजसा ॥ ७ ॥

(अध्वरे) हमारे यज्ञमें (वृधन्तः) हवियोंसे इन्द्रको बढ़ातेहुए (इष्टाः) यज्ञ करनेवाले सात (होत्राः) होता (अवभृथं अच्छु) यज्ञान्त स्नान होने पर्यन्त (ओजसा) अपने तेजसे सम्पन्न होकर (इन्द्रम्) इन्द्रको (असृक्षन्) आहुतिदान करतेहुए ॥ ७ ॥

अहमिद्वि पितुप्परि मेधामृतस्य जग्रह ।
अहं,सूर्य इवाजनि ॥ ८ ॥

(अहम्, इन्) मैंने ही (पितुः) पालनकर्ता (ऋतस्य) सत्यस्वरूप इन्द्रकी (मेधाम्) अनुग्रहरूपा बुद्धिको (परिजग्रह) ग्रहण किया है (हि) ऐसा होने कारण ही मैं (सूर्यः, इव, अजनि) जैसे सूर्य प्रकाश करता हुआ प्रकट होता है तैसेही मैं भी प्रकट हुआ हूँ ॥ ८ ॥

रेवतीर्नः सधमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः ।
क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ ९ ॥

(जुमन्तः) अन्नवाले हम (याभिः) जिन गौओंसे (मदेम) हर्षित होते हैं (इन्द्रे, सधमादे) इन्द्रके हमारे साथ हर्षयुक्त होनेपर (नः) हमारी वह गौएं (रेवतीः) दूध घी आदि धनवालीं (तुविवाजाः) अधिक बलवती (सन्तु) हों ॥ ९ ॥

सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम् ।
देवत्रा रथ्योर्हिता ॥ १० ॥

(देवत्रा) देवताओं में (रथ्यः) रथके योग्य (आहता) सवार होनेवाला (सोमः) सोम (पूषा च) सूर्य भी (विश्वासाम्) सकल (सुक्षितीनाम्) श्रेष्ठ मनुष्यों करके इन्द्रके निमित्त किये हुए हवियोंको (चेततुः) जानै ॥ १० ॥

द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थं खंड समाप्त

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत ।
विश्वासाहं शतक्रतुं मं हिष्ठं चर्षणीनाम् १

हे ऋत्विजों-(वः) तुम (विश्वासाहम्) सकल शत्रुओंका तिर-
स्कार करनेवाले-(शतक्रतुम्) विचित्रकर्मा (चर्षणीनाम्) मनुष्यों
के (मंहिष्ठम्) परमः धनदाता (अन्यसः) सोमरूप अन्नको (आ
पातम्) अभिमुख होकर पीनेवाले(इन्द्रम्) इन्द्रको (अभि प्र गायत)
विशेषरूपसे स्तुति करो ॥ १ ॥

प्र व इन्द्राय मादनं, हर्यश्वाय गायत ।

सखायः सोमपावने ॥ २ ॥

(सखायः) हे सखाओं (वः) तुम (हर्यश्वाय) हरि नामक
अश्ववाले (सोमपावने) सोमपान करनेवाले (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ
(मादनम्) प्रसन्न करनेवाला स्तोत्र (प्रगायत) गाओ ॥ २ ॥

वयमु त्वा तदिदृथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः ।

कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वायन्तः) तुम्है अपना बनानेकी इच्छा करते
हुए (सखाय) मित्ररूप (वयम्) हम (तदिदृथाः) केबल आपकी
स्तुति करनेको ही अपना कर्त्तव्य मानतेहुए (त्वा) तुम्हारी स्तुति
करते है (कण्वाः उ) कण्वगोत्री हमारे पुत्र भी (उक्थेभिः) वेदम-
न्त्रोंसे (जरन्ते) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः ।

अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ ४ ॥

(मद्वने) प्रसन्नस्वभाव (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (सुतम्) निचो
ड़ेहुए सोमको (नः) हमारी (गिरः) स्तुतियें (परि ष्टोभन्तु) सोम
की सर्वथा प्रशंसा करे, तदनंतर (कारवः) स्तुति करनेवाले (अर्कम्)
सबके पूजनीय सोमको (अर्चन्तु) पूजे ॥ ४ ॥

अयन्त इन्द्र सोमो निपूतो अधिबर्हिषि ।

एहीमस्य दवा पिव ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे निमित्त (अयं सोमः) यह सोम
(बर्हिषि अधि) वेदी पर विछेहुए कुशों पर (निपूतः) पवित्रे से
शुद्ध किया गया (इदम्) इस समय (अस्य) इस सोमके समीप(पहि)

आओ, और आकर जहाँ रसरूप सोमका हवन किया जाता है उस स्थान पर (द्रव) शीघ्र जाओ, तदनन्तर उस सोमको (पिव)पियो ५

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे ।

जुहमसि द्यविद्यवि ॥ ६ ॥

(सुरूपकृत्नुम्) सुरूप कर्मके कर्ता इन्द्रको (ऊतये) अपनी रक्षा के निमित्त (गोदुहे) गौ दुहनेके निमित्त (सुदुघाम् इव) सुन्दर दूधवाली गौको जैसे पुकारते हैं तैसे (द्यविद्यवि) प्रतिदिन (जुह-मसि) आह्वान करते हैं ॥ ६ ॥

अभि त्वा वृषभा सुते सुतथं,सृजामि पीतये ।

तृम्पा व्यश्नुही मदम् ॥ ७ ॥

(वृषभ) हे मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले इन्द्र (त्वा) तुम्है (सुते) सोमका अभिषव होनेपर उस (सुतम्) अभिषव कियेहुए सोमको (पीतये) पीनेके लिये (अभिसृजामि) अर्पण करता हूँ (तृप्यम्) तृप्त करनेवाले (मदम्) आनन्ददायक सोमको (व्यश्नुहि) विशेष-रूपसे ग्रहण करो ॥ ७ ॥

य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः ।

पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारेनिमित्त (सुतः) निचोड़ा हुआ जो (सोमः) सोम (चमसेषु) चमस नामक पात्रों में (चमूषु) ग्रह नामक पात्रोंमें (आ) पूर्णरूपसे भराहुआ है (अस्य) इस सोमको (त्वम्) तुम (पिव इत्) अवश्य पियो, हे इन्द्र ! तुम (ईशिषे) ईश्वर हो ॥ ८ ॥

योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ।

सखाय इन्द्रमूतये ॥ ९ ॥

(योगे योगे) प्रत्येक कर्मके आरंभमें प्रवेश होनेके समय (वाजे वाजे) कर्म विघातकोंके साथ सांग्रम होनेपर (तवस्तरम्) अतिबलवान् (इन्द्रम्) इन्द्रको (ऊतये) रक्षाके निमित्त (सखाय) मित्रोंकी समान प्रीति करनेवाले हम (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ ९ ॥

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत ।

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १० ॥

(स्तोमवाहसः) स्तोमको पहुँचानेवाले (सखायः) हे सखा ऋत्विजों ! (आ तु आ) अतिशीघ्र (इत) आओ, और आकर (निषीदत) विराजो (इद्रंम्) इद्रंको (अभिप्रगायत) सब प्रकारसे स्तुति करो ॥ १० ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड

इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानाम्पते ।

पिवा त्वास्य गिर्वणः ॥ १ ॥

हे (राधानाम्) धनोंके (पते) स्वामिन् ! (गिर्वणः) स्तुतियोंसे प्रार्थना करने योग्य इन्द्र (ओजसा) बलसे युक्त हुए तुम (इदम्, अनु) इस क्रमसे (ओजसा) बलके द्वारा पत्थरों से (सुतम्) निकाले हुए (अस्य) इस सोमको (तु) शीघ्र (पिब हि) पियो ॥१॥

महां इन्द्रः परश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे ।

द्यौर्न प्रथिना शवः ॥ २ ॥

(नः) हमारा (इन्द्रः) यह इन्द्र (महान्) शरीरसे बड़ा है (परः) गुणों करके श्रेष्ठ है (वज्रिणे) वज्रधारी इन्द्रके अर्थ (महित्वम्) पूर्वोक्त दो प्रकारका गौरव सर्वदा (अस्तु) हो, और (द्यौर्न) द्युलोक की समान (शवः) इन्द्रका सेनारूप बल (प्रथिना) अधिक प्रसिद्ध हो ॥२॥

आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रामं सं गृभाय ।

महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (महाहस्ती) बड़े २ हाथोंवाला तू (तु) इसी समय (नः) हमें देनेके लिये (क्षुमन्तम्) स्तुतिके योग्य (चित्रम्) नानाप्रकारके (ग्रामम्) ग्रहण करनेके योग्य धनको (दक्षिणेन) दाहिने हाथसे (आ संगृभाय) अभिमुख होकर ग्रहण करो ॥ ३ ॥

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे ।

सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ ४ ॥

(गोपतिम्) गौश्रोंके स्वामी (सत्यस्य) यज्ञके (सूनुम्) पुत्र (सत्पतिम्) यजमानोंके फलक (इन्द्रम्) इंद्रको (गिरा) स्तुति से (अभि श्रन्) पूर्ण रीतिसे पूजा (यथा विदे) जैसे कि-वह हमारे स्तुति करनेको और यज्ञमें अवश्य जाना चाहिये इस बातको जान-जाय ॥ ४ ॥

कया नश्चित्र आ भुवदूर्ता सदावृधः सखा ।

कया शचिष्ठया वृता ॥ ५ ॥

(सदा वृधः) सर्वदा वृद्धिको प्राप्त (चित्रः) विचित्रगुणोंवाला (सखा) मित्र इन्द्र (कया) किस (ऊर्ता) तृप्तिसाधक कर्मसे (नः) हमारे (आ भुवन्) अभिमुख होय (शचिष्ठया) समझकर कियेहुए (कया वृत्ता) किस वर्त्तावसे अभिमुख होय ॥ ५ ॥

त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्वायतम् ।

आच्यावयस्युतये ॥ ६ ॥

यजमान कहै कि—हे स्तोतः ! (सत्रासाहम् बहुनोंका निस्कार) करनेवाले (वः) तुम्हारे (विश्वासु) सकल (गीर्षु) स्तोत्रोंमें (आयतम्) फैलेहुए (त्यम्, उ) उस इन्द्रको ही (ऊनये) हमारी रक्षाके लिये (आच्यावयसि) अभिमुख करके भेजो ॥ ६ ॥

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिंद्रस्य काम्यम् ।

सनिं मेधामयासिषम् ॥ ७ ॥

(मेधाम्) बुद्धिको पानेके निमित्त (अद्भुतम्) आश्चर्य करनेवाले (इन्द्रस्य प्रियम्) इन्द्रके प्यारे (काम्यम्) चाहने योग्य (सनिम्) धनके दाता (सदसस्पतिम्) सदसस्पति देवताको (अयासिषम्) प्राप्त हुआ हूँ ॥ ७ ॥

ये ते पन्था अघो दिवो येभिर्व्यश्वमरयः ।

उत श्रोपन्तु नो भुवः ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! (दिवः) बुलाकके (अधः) नीचे (ये) जो (पन्थानः) मार्ग हैं, (येभिः) जिन मार्गोंसे (विश्वम्) सकल जगतको (परयः) प्राप्त हुआ हूँ (ते) वह मार्ग यजमानोंके स्तुति करने योग्य हैं (उत) और (नः) हमारे (भुवः) निवासस्थानोंका यजमान सुनै ॥ ८ ॥

भद्रं भद्रं न आ भरेषमूर्जः शतक्रतो ।

यद्रिन्द्रं मृडयासि नः ॥ ६ ॥

(शतक्रतो) सैंकड़ों कर्म करनेवाले (इन्द्र) हे इन्द्र (भद्रं भद्रं) परमसुखदायक धन (नः) हमें (आभर) दीजिये, तथा (इषं ऊर्जम्) बलवान् अन्न दीजिये (नः) हमें (यम्) जो (मृडयासि) मृख देना चाहते हो तो धन आदि दो ॥ ६ ॥

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः ।

उत स्वराजो अश्विना ॥ १० ॥

(अयम्) यह (सोमः) सोम (सुतः) मरुतोंके लिये हमारे द्वारा संस्कार किया गया (अस्ति) है, तिससे (अस्य) इस सोमको (स्वराजः) अपने तेजसे दीप्यमान (मरुतः) मरुत् प्रातःकालके समय (पिबन्ति) पीते हैं (उत) और (अश्विनः) अश्विनीकुमार भी प्रातःसवनमें पीते हैं ॥ १० ॥

द्वितीयध्यायस्य षष्ठ खण्डः समाप्तः

ईङ्ख्यन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते ।

वन्वानासः सुवीर्यम् ॥ १ ॥

(ईङ्ख्यन्तीः) स्तुति आदिके द्वारा इन्द्रको प्राप्त होता हुई (अपस्युवः) अपने कर्मको चाहती हुई इन्द्रकी मातायें (जातम्) प्रकट हुए (तम्) उस इन्द्रको (उपासते) सेवती हैं (सुवीर्यम्) सुन्दर वीरतायुक्त धनको (वन्वानासः) उस इन्द्रसे प्राप्त करती हैं ॥ १ ॥

न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि ।

मंत्रश्रुत्यं चरामसि ॥ २ ॥

(देवाः) हे इन्द्रादि देवताओं ! तुम्हारे विषयमें (न कि इनीमसि) हम कुछ भी हानि नहीं करते (न कि योपयामसि) और विप्रगत अनुष्ठानसे मोहित भी नहीं करते हैं (मंत्रश्रुत्यम्) मंत्रोंमें अनेकों वाक्योंसे वर्णन किये हुए तुम्हारे विषयके कर्मको (चरामसि) आचरण करते हैं ॥ २ ॥

दोषो आगाद्बृहद्वायुमद्गामन्नार्थवर्ण ।

स्तुहि देवः सवितारम् ॥ ३ ॥

(बृहद्वायु) हे बृहत् सामका गान करनेवाले (युमद्गामन्) हे प्रकाशयुक्त गमन करनेवाले (आर्थवर्ण) आर्थवर्ण तू (दोषः) ऋत्विक् यजमानके अपराधसे जो कोई दोष (आगात्) आवे, उसको दूर करनेकेलिये (सवितारम्) सविता (देवम्) देवको (स्तुहि) स्तुति कर ॥ ३ ॥

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः ।

स्तुषे वामश्विना बृहत् ॥ ४ ॥

(एषः) यह हमें दीखतीहुई (प्रिया) सबकी प्रसन्नताकी कारण (अपूर्व्या) पहिले मध्यरात्र आदि समयमें न रहनेवाली इस समय की (उषा) उषा देवता (दिवः) द्यूलोकसे आकर (व्युच्छति) अन्धकारका नाश करती है (अश्विनौ) हे अश्विनीकुमारों ! (वाम) तुम्है (बृहत्) बहुत (स्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीर्नव ॥ ५ ॥

(अप्रातिष्कृतः) प्रतिकूल शब्दरहित (इन्द्रः) इन्द्र (दधीचः) आर्थवर्ण दधीचि ऋषिकी (अस्थभिः) पसुली शिर आदिकी हड्डियोंसे (नव) नौ (नवतीः) नवम् अर्थात् नौ वार नवम्, आठसौ दस (वृत्राणि) असुरोंको (जघान) मारताहुआ [इस मन्त्र पर शाक्यायनि इतिहास करने हैं, कि—आर्थवर्ण दधीचिको जीवित देखते ही असुरोंकी पराजय होजाती थी, जब वह दधीचि स्वर्गको पधारगए तब असुरोंने सब पृथिवीको जीतलिया और इन्द्र असुरों साथ युद्ध न करसके तब इन्द्रने उन ऋषिको खोजते हुए सुना कि—वह स्वर्गवासी होगए, इसपर तहाँके निवासियोंसे बूझा कि—यहाँ उनके शरीरमें का कुछ बचा भी है तब उत्तर मिला कि—हाँ उनका घोड़ेके आकारका शिर है, जिस शिरसे उन्होने अश्विनीकुमारोंको मृत्युविद्या सिखाई थी, परन्तु यह नहीं मालूम कि—वह शिर कहाँ है, इस पर इन्द्रने कहा कि—उसको ढँढो, तब सर्वोंने ढँढा, उसको

कुरुक्षेत्रकी भूमिमें शर्यणावत् सरोवर में पाया, और उसशिरकी हड्डियोंसे इन्द्रने असुरोंका वध किया। असुरोंने जब पहिले देवताओं को जीता था तब प्रथम त्रिलोकीके देवताओंको जीतनेके लिये आसुरी माया तीन प्रकारकी हुई फिर वह भूत भविष्यन् वर्त्तमान तीनोंकाल के देवताओं को जीतनेके लिये हर एक त्रिगुण होकर नौ होगई, फिर उत्साह आदि तीनोंशक्तियोंके भेदसे त्रिगुणी होकर सत्ताईस हुई, फिर सत्त्व आदि तीनों गुणोंके भेदसे त्रिगुणी होनेपर ईक्यासी हुई, वह इक्यासी गुणी माया जब दशों दिशाओंमें भिन्न रूपसे रही तब आठसौ दश होगई, उनही मायारूपी आठसौ दश आवरण करनेवाले असुरों को इन्द्रने मारा] ॥ ५ ॥

इन्द्रे हि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।

महा० अभिष्टिरोजसा ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (एहि) इस कर्ममें आओ, और आकर (विश्वेभिः) सब (सोमपर्वभिः) सोमरसरूप (अन्धसः) अज्ञों करके (मत्सि) प्रसन्न हजिये, तदनन्तर (ओजसा) बलसे (महान्) बड़े होकर (अभिष्टिः) शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले हजिये ॥ ६ ॥

आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्द्धमा गहि ।

महान्महीभिरुतिभिः ॥ ७ ॥

(वृत्रहन्) हे शत्रुओंके नाशक इन्द्र तुम (नः) हमारे समीप (आ तू) शीघ्र आओ । हे इन्द्र ! महान् हुएतुम (महीभिः) बड़ी (उतिभिः) रक्षाओं के साथ (अस्माकम्) हमारे (अर्द्धम्) समीप (आ गहि) आओ ॥ ७ ॥

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्त्तयत् ।

इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ ८ ॥

(अस्य) इस इन्द्रका (तत्) वह प्रसिद्ध (ओजः) बल (तित्विषे) प्रदीप्त हुआ (यत्) जिस बलसे यह (इन्द्रः) इन्द्र (उभे रोदसी) थावां पृथिवी दोनों को (चर्मैव) चर्मकी समान (समवर्त्तयत्) वर्त्तता है अर्थात् जैसे कोई चर्मको कभी खोललेंगा है और कभी तै करलेता है तेसे ही द्युलोक और भूलोक इन्द्रके अधीन हैं ॥ ८ ॥

अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम् ।
वचस्ताच्चिन्न ओहसे ॥ ६ ॥

हे इन्द्र (अयम्, उ) यह भी दृश्यमान सोम (ते) तुम्हारे लिये तयार किया है, जिस सोमको (समतसि) निरन्तर सम्यक् प्रकार से प्राप्त होते हो (कपोत इव) जैसे कवूतर पत्नी (गर्भधारिणीम्) गर्भ धारण करनेवाली कपोतीको प्राप्त होता है (तच्चिन्त्) तिसी कारणसे (नः) हमारे (वचः) वचनको (ओहसे) प्राप्त होता है ६

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्र न आयूँषि तारिषत् ॥ १० ॥

(वातः) वायु (नः) हमारे (हृदे) हृदयके अर्थ (शम्भु) रोग-शान्ति करनेवाले (मयोभु) सुख देनेवाले (भेषजम्) औषध वा जलको (आ वातु) प्राप्त करावै, और (नः) हमारी (आयूँषि) आयुओंको (प्रतारिषत्) बढ़ावै ॥ १० ॥

द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः समाप्तः

यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा ।
न किः स दभ्यते जनः ॥ १ ॥

(प्रचेतसः) श्रेष्ठ ज्ञानवाले (वरुणः) वरुण देवता (मित्रः) मित्र देवता (अर्यमा) अर्यमा देवता (यम्) जिस यजमानको (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह यजमान (जनः) पुरुष (न किः दभ्यते) किसीसे भी हिंसित नहीं होता ॥ १ ॥

गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया ।
वरिवस्या महानाम् ॥ २ ॥

हे इन्द्र (यथा) जैसे (पुरा) पहिले हमारे यज्ञमें गौ आदि देनेको आप आये थे तैसे ही अब (नः) हमें (सु—गव्या) सुन्दर गौ देने की इच्छा करकै (उ) और (अश्वया) अश्वदानकी इच्छा करकै (उत) और (रथया) रथ देनेकी इच्छा करकै (महानाम्) प्रतिष्ठा करानेवाले धनोंको देनेके लिये (वरिवस्या) आइये ॥ २ ॥

इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम् ।

एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारी (इमाः) यह (पृश्नयः) श्रेष्ठ वर्णकी (ऋतस्य) सत्य, इंद्र और यज्ञकी (पिप्युषीः) बढ़ानेवाली गौण (घृतम्) टपकनेवाले (एनाम्) इस (आशिरम्) दूधको (दुहते) पात्रमें पूर्ण करदेती हैं ॥ ३ ॥

**अया धिया च गव्यया पुरुणामन् पुरुष्टुत ।
यत्सोमे सोम आभुवः ॥ ४ ॥**

(पुरुणामन्) हे अनेकों नामवाले (पुरुष्टुत) हे अनेकों से स्तुति कियेहुए इंद्र (सोमे सोमे) मेरे सब सोमयागोंमें तुम (यद्) जब (आभुवः) उसके पीनेको आये तब हम (अया) इस (गव्यया) अपने अर्थ गौओंको चाहनेवाली (धिया) बुद्धिसे युक्त हों अर्थात् जब आप सोम पियें तब हम गौ आदि धनसे युक्त हों ॥ ४ ॥

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धिया वसुः ॥ ५ ॥

(पावका) पवित्र करनेवाली (वाजिनीवती) अन्नदायक शक्ति- (धियावसुः) कर्मसे प्राप्त होने योग्य धनकी कारणरूप (सरस्वती) सरस्वती देवी (वाजंभिः) देनेयोग्य अन्नों सहित (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञको (वष्टु) चाहै और उसको पूर्ण करै ॥ ५ ॥

क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात् ।

स नो वसून्या भरत् ॥ ६ ॥

(नाहुषीषु) मानुषी प्रजाओं में (इमम्) इस (इन्द्रम्) इन्द्रको (कः) कौन (तर्पयात्) तृप्त करसकता है (सः) वह मानुषी प्रजाओं से तृप्त करनेको अशक्य इन्द्र (नः) हमारे यज्ञमें तृप्त होकर (वसूनि) धनोंको (आभरत्) देय ॥ ६ ॥

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम् ।

एदं बर्हिः सदो मम ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र तुम (आयाहि) आओ, हमने (ते) तुम्हारे निमित्त

(सुपुमा-हि) सोमका अभिपव किया है, ऐसे (इमम्) इस सम्पादन कियेहुए (सोमम्) सोमको (पिब) पियो, तुम्हारे निमित्त स्थापन किये (मम) मेरे (इदम्) इस (बर्हिः) वैदीपर विछेहुए कुशासन पर (आसद्ः) विराजमान हूजिये ॥ ७ ॥

महि त्रीणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः ।

दुराधर्षं वरुणस्य ॥ ८ ॥

(मित्रस्य) मित्रका (अर्यम्णः) अर्यमाका (वरुणस्य) वरुणका (त्रीणाम्) तीनोंका (द्युक्षम्) दीप्त (दुराधर्षम्) दूसरोंसे वाधित न होनेवाला (महि) बड़ा (अरवः) रक्षण, हमारा (अस्तु) हो ॥ ८ ॥

त्वावतः पुरुवसो वयमिन्द्र प्रणेतः ।

स्मसि स्थातर्हरीणाम् ॥ ९ ॥

(पुरुवसो) बहुत धनवाले (प्रणेतः) कर्मोंको उत्तमतासे पार लगानेवाले (हरीणाम्) हरिनामक अश्वोंके (स्थातः) अधिष्ठाता (इन्द्र) हे इन्द्र (त्वावतः) तुम्हारेनिज (वयम्) हम (स्मसि) ह ९ द्वितीयाध्यायस्य अष्टम खण्ड. समाप्तः

उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः ।

अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १० ॥

हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्है (सोमाः) सोम (उत्) उत्तम (मदन्तु) प्रसन्नता दै (अद्रिवः) हे वज्रधारिन् इन्द्र ! तम हमें (राधः) धन (कृणुष्व) दो, और (ब्रह्मद्विषः) ब्राह्मणोंके द्वेषियोंको (अवजहि) नष्ट करो ॥ १० ॥

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे ।

इन्द्र त्वादातमियशः ॥ ११ ॥

(गिर्वणः) हे स्तुतियों से प्रार्थना करने योग्य इन्द्र ! (नः) हमारे (सुतम्) सम्पादन किये हुए इस सोमको (पाहि) पियो, क्योंकि (मधोः) मदकारी सोमकी (धाराभिः) धाराओंसे (अज्यसे) सींचे जानेहो (इन्द्र) हे इन्द्र (त्वादातं इत्) तुम्हारा शुद्ध किया हुआ ही (यशः) अन्न हमारे पास होता है ॥ ११ ॥

सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा उपो नु स सर्पयन् ।

नः देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥ ३ ॥

हे ऋत्विक् यजमानो ! (इन्द्रः) इन्द्र (सदा) सर्वदा (उपो नु) तुम्हारे समीप (सर्पयन्) वार२ प्रार्थना करता हुआ (वः) तुम्है (आचर्कृषत्) यज्ञानुष्ठानके निमित्त करना चाहता है (नः) हमारा (वृतः) वरण किया हुआ (इन्द्रः) इन्द्र (देवः) देव (शूरः) शूर है ॥३॥

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ।

न त्वा मिन्द्राति रिच्यते ॥ ४ ॥

हे इन्द्र (इन्दवः) हमारे दिव्येहुए टपकते हुए सोम (सिन्धवः, समुद्र, इव) बहनेवाली नदियें जैसे समुद्र को प्राप्त होती है तैसे (त्वा) तुम्हें (आचिश्नन्तु) प्राप्त नों, इसकागण (इन्द्र) हे इन्द्र ! कोई भी देवता धनसे या बलसे (न अतिरिच्यते) तुम्हारी अपेक्षा बड़ा नहीं होसकता ॥ ४ ॥

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः ।

इंद्रं वाणीरनूषत ॥ ५ ॥

(गाथिनः) गाथे जातेहुए सामसे युक्त उद्गाता (इन्द्रम्, इत्) इन्द्रको ही (बृहत्) बृहत् सामके द्वारा (अनूषत) स्तुति करते हैं (अर्किणः) अर्चनके मन्त्रों सहित होता (अर्केभिः) उक्थरूप मंत्रों से स्तुति करते हैं और जो शेष अध्वर्यु है वह (वाणीः) यजुरूप वाणियों से (इन्द्रम्) इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥

इंद्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभु रयिम् ।

वाजी ददातु वाजिनम् ॥ ६ ॥

(इन्द्रः) हमसे इसप्रकार स्तुति किया हुआ इन्द्र (ऋभुक्षणम्) सर्वों में श्रेष्ठ (रयिम्) दाता (ऋभुम्) सोमपानसे अमर हुए ऋभु नामक देवताको (नः) हमें (इषे) अन्नके लिये (ददातु) दो, तथा (वाजी) बलवान् इन्द्र (वाजिनम्) बलवान् छोटे भाईको हमें अन्न की प्राप्तिके निमित्त (ददातु) दो ॥ ६ ॥

इन्द्रो अङ्गमहद्भयमभी षदप चुच्युवत् ।
स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७ ॥

(स्थिरः) किसीसे चलायमान न होसकनेवाला (विचर्षणिः) विश्वका द्रष्टा (इन्द्रः) इन्द्र (महत्) अधिक (भयम्) भयको (अङ्गः) शीघ्र (हि) निश्चय (अभीपत्) तिरस्कृत करता है (अपच्युवत्) दर भी करता है ॥ ७ ॥

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः ।
गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८ ॥

(गिर्वणः) हे ऋचाओंसे स्तुति करनेयोग्य इंद्र ! (सुते सुते) सोम का अभिषव होनेपर (इमाः) यह हमारी (गिरः) स्तुतियें (धेनवः) दूध देनेवाली (गावः) गौएँ (वत्सं न) जैसे शीघ्र ही बछड़ेके समीप पहुँचती हैं तैसे ही (त्वा) तुम्है (नक्षन्ते) प्राप्त होती हैं ॥ ८ ॥

इन्द्रानु पूषणावयः सख्याय स्वस्तये
हुवेम वाजसातये ॥ ९ ॥

(इन्द्रा पूषणा) इन्द्र और पूषा देवताको (नु) आज ही (वयम्) हम (स्वस्तये) कल्याणरूप (सख्याय) मित्रभावके निमित्त (वाजसातये) अन्न और जलकी प्राप्तिके लिये (हुवेम) आह्वान करते हैं

न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्
न क्येवं यथा त्वम् ॥ १० ॥

(वृत्रहन्) वृत्रासुरके नाशक (इन्द्र) हे इंद्र ! इन्द्रलोकमें भी (त्वत्) तुमसे (उत्तरः) उत्तम (न कि अस्ति) नहीं है (ज्यायान्) तुमसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है. हे इंद्र ! (त्वम्) तुमलोकमें (यथा) जैसे प्रसिद्ध हो (एवम्) ऐसा एक भी (न कि अस्ति) नहीं है १०
द्वितीय अध्यायका नवम खण्ड समाप्त

तरणिं वो जनानां व्रदं वाजस्य गोमतः ।
समानमु प्र शंसिषम् ॥ १ ॥

हे हमारे पुरुषों (वः) तुम (जनानाम्) पुत्र पौत्रादिकोंके (तरणिम्) तारक (त्रदम्) शत्रुओंको भय देनेवाले (गोमतः) पशुओंवाले (वाजस्य) अन्नके दाता इन्द्रको (समानम् उ) निरन्तर ही (प्रशंसिषम्) स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत ।

सजोषा वृषभं पतिम् ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते गिरः) तेरी स्तुतियोंको (असृग्रम्) मैंने रचा है, वह स्तुतिये स्वर्ग में स्थित (वृषभम्) मनोरथों की वर्षा करनेवाले (पतिम्) सोमपीने वाले (त्वाम् प्रति) तुम्हारे समीप (उदहासत) पहुँचीं (सजोषाः) उनको तुमने सेवन किया ॥ २ ॥

सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा ।

मित्रास्पान्त्यद्रुहः ॥ ३ ॥

(यम्) जिसको (अद्रुहः) दौहन करनेवाले (मरुतः) मरुत् (यम्) जिसको (अर्यमा) अर्यमा (मित्राः) मित्र देवता (पान्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह (मर्त्यः) यजमान (सुनीथः) सुन्दर यज्ञ वा सुन्दरःनेत्रोंवाला होता है (घ) यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥

यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने परामृतम् ।

वसु स्पार्हं तदा भर ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! तुमने (वीडौ) किसीसे चलायमान न होसकने वाले पुरुषमें (तन्) जो धन (यत्) जो (स्थिरे) स्वयं अचल पुरुष में (यत्) जो (पर्शाने) असहन में (परामृतम्) स्थापित किया (तन्) वह (स्पार्हम्) चाहने योग्य (वसु) धन (आभर) हमें दीजिये ॥ ४ ॥

श्रुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम् ।

आशिषे राधसे महे ॥ ५ ॥

(श्रुतम्) प्रसिद्ध (वृत्रहन्तमम्) अतिशय करके वृत्रासुरके नाशक (शर्धम्) परमवेग वाले इन्द्रको (चर्षणीनाम्) मनुष्यों में (वः) तुम्हारे (महे) बहुत से (राधसे) अन्नके लिये (प्र आशिषे) अन्न करके विशेषरूप से अर्पण करता हूँ ॥ ५ ॥

अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः ।

अर ५ शक्र परेमणि ॥ ६ ॥

(शूर) वीर (इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तेरी (श्रवसे) कीर्तिके सुननेको (अरम्) पर्यायरूपसे (गमेम) प्रवृत्त हों (शक्र) हे इन्द्र ! (त्वावतः) तेरी समान (परेमणि) श्रेष्ठ अन्य देवता की कीर्तिको भी (अरम्) पर्यायरूप से प्राप्त हों ॥ ६ ॥

धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम् ।

इंद्रं प्रातर्जुषस्व नः ॥ ७ ॥

यजमान कहता है कि—(इन्द्र) हे इन्द्र (धानावन्तम्) भुने हुए यववाले (करम्भिणम्) दधिमिले सत्तुआँवाले (अपूपवन्तम्) यज्ञीय पुरोडाशसे युक्त (उक्थिनम्) स्तुति कियेहुए (नः) हमारे इस सोम को (प्रातः) प्रातःकाल के सवनमें (जुषस्व) सवन करो ॥ ७ ॥

अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्त्तयः ।

विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८ ॥

कहते हैं, कि—पहिले इन्द्रने सब असुरोंको तो जीतलिया परन्तु नमुचि को न पकड़ सका, किन्तु युद्ध करतेमें उस असुरने ही इन्द्र को पकड़लिया उस समय इन्द्रसे कहा कि यदि रातमें वा दिनमें सूखे वा गीले शस्त्रसे मुझै न मारनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं तुझै छोड़दूँ इस प्रतिज्ञा पर छोड़ेहुए इन्द्रने दिन और रातमें सन्धिकाल में सूखे और गीले दोनोंसे धिलदारण भागोंके शस्त्रसे उसका शिर काटा इसका ही आभास इस मंत्रमें है, कि—(यत्) जब (विश्वाः) सब (स्पृधः) डाह करनेवाली असुरोंकी सेनाओंको (अजयः) जीतलिया, तव (इन्द्रः) इन्द्रने (अपां फेनेन) वज्ररूप हुए जलके भागोंसे (नमुचेः) नमुचि नामक असुरका (शिरः) शिर (अवर्त्तयः) काटलिया ॥ ८ ॥

इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः ।

तेषां मत्स्व प्रभवसो ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे लिये (इमे) यह (सोमाः) सोम (सुतासः) सम्पादन किये हैं (च) और (ये) जो (सोत्वाः)

सम्पादन कियेजायँगे (प्रभूवसो) हे बहुतसे धनवाले इंद्र (तेषाम्) उन सब सोमरसोंसे (मत्स्व) प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥

तुभ्य ० सुतासः सोमाः स्तीर्णं बर्हिर्विभावसो
स्तोतृभ्य इंद्र मृडय ॥ १० ॥

(विभावसो) दीप्तिरूप धनवाले इन्द्र (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (सोमाः) सोम (सुतासः) सम्पादन करे हैं (बर्हिः) कुशासन (स्तीर्णम्) विछाया है, इसकारण (इन्द्र) हे इन्द्र! तुम कुशासन पर बैठकर सोमोंको पीकर (स्तोतृभ्यः) हम स्तुति करनेवालोंको (मृडय) सुख दीजिये ॥ १० ॥

द्वितीयाध्यायस्य दशम. खण्डः समाप्त

आ व इंद्रं कृविं यथा वाजयंतः शतक्रतुम् ।
मंहिष्ठं सिञ्च इंद्रुमिः ॥ १ ॥

(वाजयन्तः) अन्नको चाहनेवाले हम, हे ऋत्विक् यजमानो ! (वः) तुम्हारे (शतक्रतुम्) सैंकड़ों पराक्रम करने वाले (मंहिष्ठम्) परम पूज्य (इंद्रम्) इंद्रको (कृविं यथा) जैसे खेतीको जलसे सींचते हैं तिसप्रकार (इंद्रुमिः) सोमोंसे (आसिञ्चे) सब ओरसे सींचकर तृप्त करते हैं ॥ १ ॥

अतश्चिद्रं न उपा याहि शतवाजया ।
इषा सहस्रवाजया ॥ २ ॥

(इंद्रं) हे इंद्र ! (अतश्चित्) द्युलोकसे ही (शतवाजया) सैंकड़ों प्रकारके बलसे युक्त (सहस्रवाजया) सहस्रों प्रकारके अन्नसे युक्त (इषा) अन्नरसको साथमें लियेहुए (नः) हमारे (उपयाहि) अभिमुख होकर पास आइये ॥ २ ॥

आ बुंदं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्विमातरम् ।
क उग्राः केहा शृण्विरे ॥ ३ ॥

(जातः) उत्पन्न हुआ (वृत्रहा) इंद्र (बुन्दम्) वाणको (आददे) ग्रहण करताहुआ, और उस वाणको लेकर (उग्राः) बल दिखानेवाले (के के) कौन कौन (इह) इस जगत्में (शृण्विरे) विख्यात हुए हैं यह बात अपनी मातासे (विपृच्छात्) बूझताहुआ ॥ ३ ॥

बृवदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्तमूतये ।

साधः कृण्वंतमवसे ॥ ४ ॥

(ऊतये) लोककी रक्षाके लिये (सृप्रकरस्तम्) फैलेहुए बाहुको (अवसे) लोकोंके पालन के लिये (साधः) साधक धन (कृण्वन्तम्) अर्पण करनेहुए (बृवदुक्थम्) महान् स्तुतिवाले इंद्रको (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ ४ ॥

ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान् ।

अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५ ॥

दिनका अभिमानी देवता (मित्रः) मित्र, रात्रिका अभिमानी देवता (वरुणः) वरुण (विद्वान्) पहुँचाने योग्य उत्तम स्थानको जानताहुआ (नः) हमें (ऋजुनीती) सरल गतिके द्वारा (नयति) अभिमत फल प्राप्त कराता है (देवैः) अन्य देवताओंके साथ (सजोषाः) समान प्रीतिवाला (अर्यमा) दिनरातका विभाग करनेवाला सूर्यभी हमें सरल मार्गसे उस स्थान पर पहुँचावे ॥ ५ ॥

दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्चितत् ।

वि भानुं विश्वथातनत् ॥ ६ ॥

(दूरात्) दूर, आकाशके पूर्वी भागमें (इह, सतः, इव) समीपमें वर्त्तमानसी (अरुणप्सुः) प्रकाशस्वरूपा उषा (यत्) जब (अशिश्चितत्) प्रकाश फैलाती है, तब (भानुम्) क्षीप्तिको (विश्वथा) अनेकों प्रकारका (व्यतनत्) करती है ॥ ६ ॥

आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् ।

मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ ७ ॥

(सुक्रतू) हे शोभन कर्मवाले मित्रावरुण ! (नः) हमारे (गव्यूतिम्) गौओंके निवासस्थानको (घृतैः) घृतके साधन दूधसे (आ उक्षतम्) सब ओरसे सींचो अर्थात् हमें दूधवाली गौएँको (रजांसि) हमारे पारलौकिक निवासस्थानोंको (मध्वा) मधुर दुग्धसे सींचो ७

उदुत्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत ।

वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ ८ ॥

(त्वे) उन प्रसिद्ध (गिरः सूतवः) घाणीको उत्पन्न करनेवाले मरु-
तोंने, जोकि तालु ओष्ठ आदिमें विचरकर शब्दको उत्पन्न करते हैं तिन
वायुओंने (यज्ञेषु) अपने यज्ञोंके होनेपर (काष्ठाः) जलोंको (उत्, उ)
उत्कर्ष करके (अलत) विस्तारित किया और जलको फैलाकर
उसको पीनेके लिये (वाथाः) रँभातीहुई गौओंको (अभिक्षु) घुटनों
के बल (पातवे) जानेको प्रेरणा किया ॥ ८ ॥

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् ।

समूढमस्य पांशुसुले ॥ ९ ॥

(विष्णुः) भ्रिविक्रमावनार धारण करनेवाले भगवान् (इदम्) इस
दृश्यमान सब जगत्को (विचक्रमे) विशेषरूपसे लाँघतेहुए, उससमय
(त्रेधा) तीनप्रकारसे (पदम्) चरणको (निदधे) स्थापन करतेहुए
(अस्य) इन विष्णुके (पांशुले) धूलियुक्त चरणस्थानमें (समूढम्)
यह सब जगत् सम्यक् प्रकारसे अन्तर्गत होगया ॥ ९ ॥

द्वितीयाध्यायस्य एकादशः खण्ड समाप्त ।

अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांशुसमुपेरय ।

अस्य रातौ सुतं पिब ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (मन्युषाविणम्) क्रोधसे सोमका रस निकालनेवालेको
(अतीहि) त्यागदे और तहां (सुषुवांसम्) सुन्दर प्रकारसे रस
निकालनेवालेको (उपेरय) भेजो (अस्य) इस यजमानके (रातौ)
यज्ञसंबंधी दानमें (सुतम्) संपादित सोमको (पिब) पियो ॥ १ ॥

कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते ।

तदिध्यस्य वर्धनम् ॥ २ ॥

(महे) महान् (प्रचेतसे) श्रेष्ठ ज्ञानवाले (देवाय) इन्द्रदेवताके
अर्थ (कदु) हमारा कुत्सित (वचः) स्तोत्ररूप वचन (शस्यते)
प्रशंसित हो अर्थात् हमारे यथार्थरूपसे न हुए भी स्तोत्रको इन्द्रदेव
अनुग्रह करके स्वीकार करें (तदित्) वह ही (अस्य) इस यजमान
का (वर्धनम्) वृद्धिका साधन है ॥ २ ॥

उक्थञ्च न शस्यमानं नागो रयिराचिकेत ।

न गायत्रं गीयमानम् ॥ ३ ॥

(अगोः) स्तुति न करनेवालेका (अयिः) शत्रु इन्द्र (शस्यमानम्) होताके पढ़ेहुए (उक्थं च) स्तोत्रको भी (आचिकेत) जानता है, (न) इस समय प्रस्तोता आदिके गायेहुए (गायत्रम्) गायत्र साम को जानता ही है, इसकारण हम भी उस इन्द्रकी स्तुति करतेहैं ॥ ३ ॥

इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्टो वाजानाम् च वाजपतिः ।

हरिवांसुतानां सखा ॥ ४ ॥

(वाजानाम्) अन्नोमें (वाजपतिः) उत्तम अन्नका स्वामी (हरि-वान्) हरिनामक घोडेघाला (इन्द्रः) इन्द्र (उक्थेभिः) होताओंके बोलेहुए स्तोत्रोंसे (मन्दिष्टः) अत्यन्त तृप्त हुआ (सुतानाम्) सोमों का (सखा) मित्रवत् प्रीतिकर्ता हो ॥ ४ ॥

आ याहुप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः ।

महां इव युवजानिः ॥ ५ ॥

हेइन्द्र हमारे (सुतम्) संपादनकियेहुए सोमको (उपयाहि) आकर ग्रहण कीजिये और (वाजेभिः) औरोंके हविरूप अन्नोंसे (मा हृणी-यथाः) लोभमें नपड़िये (युवजानिः) युवति स्त्रीवाला (महान् इव) प्रभु जैसे अर्थात् जैसे रूपवती स्त्रीवाला राजा अन्य स्त्रियों पर चित्त नहीं डुलाता किंतु अपनी नवयौवनाके पास ही आता है ॥ ५ ॥

कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आ अव श्मशा रु-
धद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ ६ ॥

(वसा) हे व्यापक इन्द्र ! (स्तोत्रम्) हमारे कियेहुए स्तोत्रको (हर्यते) चाहतेहुए आपको (श्मशा) कृत्रिम नदीकी समान (वाता-प्याय) जलदानके निमित्त (दीर्घम्) फैलेहुए (सुतम्) सम्पादित सोमके प्रति (कदा) कब (अवारुधत्) रोकोगे और रोककर कब (वाः) वारण करोगे ॥ ६ ॥

ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूं रनु ।

तवेदं सख्यमस्तृतम् ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ब्राह्मणात्) ब्रह्मसंबंधी (राधसः) धनभूत पात्र से (सोमम्) सोमको (ऋतून अनु) देवताओंके पीछे (पिब) पियो

क्योंकि (तव) तुम्हारा (इदम्) यह (सख्यम्) देवताओंके साथ मित्रभाव (अस्तृतम्) अविच्छिन्न है ॥ ७ ॥

वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः ।
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥

(गिर्वणः) वाणियोंसे प्रार्थना करनेयोग्य (इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे भी (वयं घा) हम निश्चय (स्तोतारः) स्तुति करनेवाले (स्मसि) हों (सोमपाः) हे सोम पीनेवाले इन्द्र ! (त्वम्) तुम (नः) हमें (जिन्वसि) तृप्त करते हो ॥ ८ ॥

एन्द्र पृशु कासु चिन्मृष्णं तनूषु धेहि नः ।
सत्राजिदुग्र पौंशस्यम् ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (पृशु) संपृक्त (कासुचित्) किन्ही (नः) हमारे (तनूषु) अङ्गोंमें (नृष्णम्) बलको (आ धेहि) स्थापन करो (उग्र) हे पूर्णबल इन्द्र ! (सत्राजिन्) बारह दिनमें यज्ञोंके द्वारा वशमें होते हुए (पौंशस्यम्) पुरुषके हिनकारी फलको (आ धेहि) दो ॥ ९ ॥

एवा ह्यसि वीरपुरेवा शूर उत स्थिरः ।

एवा ते राध्यं मनः ॥ १० ॥

हे इन्द्र ! तुम (वीरयुः) युद्धमें वीर शत्रुओंको मारनेकी कामनावाले (एव) ही (असि) हो (हि) यह बात प्रसिद्ध है, इसी कारण तुम (शूरः) शूर हो (उत) और (स्थिरः) संग्रामोंमें धैर्यधारी हो, एक स्थान पर स्थिर रहकर ही शत्रुओंका सहार करते हो, ऐसा होनेसे (ते) तुम्हारा (मनः) मन (राध्यम्) स्तुतियोंसे आराधना करने योग्य है ॥ १० ॥

द्वितीयाध्यायस्य द्वादश खंड समाप्त

द्वितीयोऽध्यायश्च समाप्त

अथ तृतीयोऽध्यायः

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः

(शूर इन्द्र) हे शूर इन्द्र (अस्य) इस (जगतः) जंगमके (तस्थुषः)

स्थावरके (ईशानम्) स्वामी (स्वर्शाम्) सबके दृष्टा (त्वा) तुम्हें (अदुग्धाः) बिना दुर्गां दूधभरे पैनवालीं (धेनवः इव) गौओंकी समान, सोमभरे अमस लियेहुए हम (अभि नोनुमः) वार २ प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः ।

त्वां वृत्रेष्विद्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः २

(कारवः) स्तुति करनेवाले हम (वाजस्य) अग्निके (सातौ) दानके निमित्त (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वामिद्धि) आपको ही (हवामहे) स्तुतियोंसे पुकारते हैं, हे इन्द्र ! (सत्पतिम्) सज्जनोंके पालक आपको (नरः) अन्य मनुष्य भी (वृत्रेषु) शत्रुओंके होनेपर (हवन्ते) उनको जीतनेके निमित्त आह्वान करते हैं और (अर्वतः) अश्वसंबंधी (काष्ठासु) सप्रामोमें युद्धकी इच्छासे आपको ही पुकारते हैं इसकारण हम भी आपको ही पुकारते हैं ॥ २ ॥

अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे ।

यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुःसहस्रेणैव शिक्षति

(पुरुवसुः) पशु आदि बहुतसे धनवाला (यः) जो (मघवा) इन्द्र (जरितृभ्यः) स्तुति करनेवाले हमारे अर्थ (सहस्रेणैव) सहस्र संख्या के धनसे मानो (शिक्षति) शिक्षा देनाहै अर्थात् हमें पशु आदि बहुत सा धन देता है, (यथाविदे) जैसे हम जानै तिस प्रकार हे ऋत्विजों (वः) तुम (सुराधसम्) शोभनधनयुक्त (इन्द्रम्) इन्द्र देवताको (अभि) अभिमुख होकर (प्रार्च) अधिकतासे पूजो ॥ ३ ॥

तं वो दस्ममृतापहं वसोर्मन्दानमन्धसः । अभि

वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥ ४ ॥

हे ऋत्विक् यजमानों (दस्मम) दर्शनीय (ऋतीषहम्) बाधक शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले (वसोः) दुःखको दूर करनेवाले (अन्धसः) सोमरूप अन्नके पीनेसे (भंदानम्) प्रसन्न होतेहुए (वः) तुम्हारे पूजनेयोग्य इन्द्रको (स्वसरेषु) गोशालाओंमें (धेनवः) गौएँ (वत्सं न) जैसे पशुओंको देखकर शब्द करती है तिसीप्रकार (गीर्भिः) स्तुतिरूपा वाणियोंसे (अभि नवामहे) प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

तरोभिर्वो विद्वसुमिन्द्र सवाध ऊतये ।

बृहद्वायन्तःसुतसोमे अध्वरे हुवे भरं नकारिणम्

हे ऋत्विजो ! (वः) तुम (तरोभिः) वेगवान् घोड़ोंवाले (विद्व-
द्वसुम्) धन देनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (सवाधः) बाधाओंको प्राप्त
हुए (ऊतये) रक्षाके लिये (बृहन्) बृहत्सामको (भायन्तः) गातेहुए
आराधन करो, हम भी (सुतसोमे) संपादन किया है सोम जिसमें
ऐसे (अध्वरे) यज्ञमें (भरम्) पाषण करनेवाले (कारिणम्) अपने
हितकारीको जैसे पुत्रादि आराधना करने हैं तैसे (हुवे) आह्वान
करते हैं ॥ ५ ॥

तरणिरित्तिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा । आ व
इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुदुवम् ॥ ६ ॥

(तरणिरित्) युद्धादिमें त्वरा करनेवाला पुरुष (युजा) सहाय-
भूत (पुरन्ध्या) बड़ी बुद्धिसे (वाजम्) अन्नको (सिपासति) प्राप्त
होता है (सुदुवम्) सुंदर काष्ठवाला (नेमिम्) पहियेकी पुट्टीको
(तष्टा इव) जैसे बर्दई नष्ट करलेता है तैसे हे यजमानो (पुरुहूतम्)
अनेकीसे आह्वान कियेहुए (इन्द्रं) इन्द्रको (गिरा) स्तुति करके (वः)
तुम्हारे निमित्त (आ नमे) अभिमुख करता हूँ ॥ ६ ॥

पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। आपि
नो बोधि सधमाद्ये वृधेऽस्मात् अवन्तु ते धियः

(इन्द्र) हे इन्द्र (रसिनः) रसवाले (गोमतः) गौके दूध घृतादि
से युक्त (मः) हमारे (सुतस्य) सम्पादन किये हुए सोमको (पिवा)
पियो और पीकर (मत्स्व) प्रसन्न हूजिये और (सधमाद्ये) जिस में
शीघ्र ही देवता प्रसन्न होते हैं ऐसे यज्ञ में (आपिः) धनादि देनेवाले
तुम (बन्धुः सन्) बान्धव बनतेहुए (नः) हमारी (वृधे) वृद्धिके
निमित्त (बोधि) सावधान हूजिये (ते) तुम्हारे (धियः) अनुग्रह
करनेवाले विचार हम सेवकोंकी (अवन्तु) रक्षा करें ॥ ७ ॥

त्वष्टं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये। उद्वावृषस्व
मघवनं गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (हि) निश्चय (त्वम्) तुम दाताहो इसकारण
(वसुत्तये) मुझे धन देनेके अर्थ (एहि) आओ और आकर (चेरवे)
सदाचारवाले मुझे (भगम्) धन (विदाः) दो (मघवन्) हे इन्द्र!
(गविष्टये) गौओंकी इच्छा करनेवाले मुझे (उद्वावृषस्व) गोधनसे
सीचो (इन्द्र) हे इन्द्र अश्व चाहनेवाले मुझे (उन्) अश्वधन से
सीचो अर्थात् मुझे धन, गौएँ और घोड़े दो ॥ ८ ॥

न हि वश्रमं च न वशिष्ठः परिमथंसते अस्मा
कमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः

हे मरुतो ! (वशिष्ठः) वशिष्ठ (वः) तुम्हारे चिबै (चरमं चन)
छोटैको भी (नहि परिमंसते) लोडकर स्तुति नहीं करता है किन्तु
सबकी ही स्तुति करता है (अद्य) आज (अस्माकम्) हमारे (सुते)
सोमकी सम्पादन होनेपर (मरुन्) सोमकी इच्छा करनेहुए (विश्वे)
सब (सचा) इकट्ठे होकर (पिबन्तु) पियें ॥ ९ ॥

मा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत ।
इन्द्रमितस्तोता वृषणसचा सुते मुहुःकथा च
शंसत ॥ १० ॥

(सखायः) हे स्तोताओं (अन्यन्) इन्द्रके स्तोत्रसे अन्य स्तोत्रको
(मा चिद्विशंसत) मत उच्चारण करो (मा रिषण्यत) बुरा जीण
मत होओ (सुते) सोमका सम्पादन होनेपर (वृषणम्) मनोरथोंकी
वर्षा करनेवाले (इन्द्रमित्) इन्द्रको ही (सचा) इकट्ठे होकर (स्तोत)
स्तुति करो (उक्था च) इन्द्रविषयक शब्दोंको भी (मुहुः) बार बार
(शंसत) उच्चारण करो ॥ १० ॥

इति तृतीयधारास्य प्रथम खंड

न किष्टं कर्मणा न शयश्चकार सदावृधम् इन्द्रं
न यज्ञैर्विध्वंसं पृथ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा १

(यः) जो यजमान (नदावृधम्) सदा बढ़ानेवाले (विश्वगूर्तिम्)
सबके स्तुति करनेवाले (ऋभ्वसन्) बड़े (ओजसा) बल करके
(अधृष्टम्) किरासे न दपनेवाले (न) और (धृष्णुम्) शत्रुओं
का धमकानेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (यज्ञैः) यज्ञोंसे अनुकूल (चकार)

करचुकता है (तम्) उसको (कर्मणा, नकिः, नशत्) दुःख देना
आदि कर्मसे नहीं दबाता है ॥ १ ॥

न ऋते चिदभिश्चिपःपुरा जत्र्युभ्य आतृदः।
सन्धाता सन्धिं मघवा पुरुवसुर्निष्कर्त्ता विद्-
तं पुनः ॥ २ ॥

(यः) जो इन्द्र (अभिश्चिपः) जोड़नेकी सामग्रीके (ऋतेचित्)
विना भी (जत्र्युभ्यः) ग्रीवाओंसे (आतृदः) शंघर निकलनेसे (पुरा)
पहिले (सन्धिम्) जोड़ने योग्य वस्तुको (सधाता) जोड़नेवाला
होता है (मघवा) धनवान् (पुरुवसुः) अनेकों पेशव्योंवाला वह इन्द्र
(विद्मत्) कटकर अलग हुएको (पुनः) फिर (निष्कर्त्ता) संस्कार
करदेता है ॥ २ ॥

आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये ।
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये

(इन्द्र) हे इन्द्र (ब्रह्मयुजः) स्तोत्र पढ़कर हमारे दिये हुए हविसे
युक्त (केशिनः) ग्रीवापर लंबे केशोंवाले (हिरण्यये) सुवर्णके बने-
हुए (रथे) रथमें (युक्ताः) आगे पीछे जुने हुए (आ सहस्रमशतम्)
सहस्रों और सैंकड़ों (हरयः) घोड़े (त्वा) तुम्है (सोमपीतये)
सोमपान करनेके लिये (आ वहन्तु) हमारे यज्ञमें लायें ॥ ३ ॥

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।
मा त्वा केचिन्नियेमुरिन्न पाशिऽनाति
धन्वेव ताष्टं इहि ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (मन्द्रैः) आनन्द देनेवाले (मयूररोमभिः) मोर
केसे रोमोंवाले (हरिभिः) घाड़ों सहित तुम (धन्वेव) जैसे वटोड़ी
मरुदेशको शीघ्र ही लांघजाते हैं तैसे (तान्) उन गमनके प्रतिबन्ध-
कोंको (अति) लांघकर (आयाहि) आइये (इत्) और (पाशिनः
न) जैसे हाथमें पाश लिये हुए व्याधे पक्षियोंको पकड़ते हैं तैसे (त्वा)
तुम्है (मा नियेमुः) कोई न रोकै (एहि) आइये ॥ ४ ॥

त्वमद्ग प्रशं०सिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् । न
त्वदन्या मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः

(अद्ग वशिष्ठ) हे जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ इन्द्र ! (देवः) प्रकाशित हो-
तेहुए तुम (मर्त्यम्) अपनी स्तुति करनेवाले मनुष्यको (प्रशंसिषः)
इसने भलेप्रकार स्तुतिकी इसप्रकार प्रशंसा करने हा (मघवन् इन्द्र)
हे धनवान् इन्द्र ! (त्वदन्यः) तुमसे अन्य कोई भी (मर्दिता) सुख
देनेवाला (नास्ति) नहीं है, इसकारण तुम्हारे अर्थ यह (वचः)
स्तुतिरूप वचन (ब्रवीमि) उच्चारण करता हूँ ॥ ५ ॥

त्वमिन्द्र यशा अस्यूजषी शवसस्पतिः । त्वं
वृत्राणि हृष्यस्यप्रतीन्येक इत्पूर्वनुत्तश्चर्षणी
धृतिः ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (शवसस्पतिः) बलका पालन करनेवाले (ऋजीषी)
पूजित सोमको प्राप्त होनेवाले (त्वम्) तुम (यशा) यशस्वी (असि)
हो, क्योंकि—(अप्रतीनि) बड़े २ बलवान् भी जिनके सम्मुख न आवें
ऐसे (पुरु) बहुतसे (वृत्राणि) राक्षसोंको (अनुत्तः) किसीके बिना
प्रेरणा किये ही (चर्षणीधृतिः) यजमानोंके रक्षक तुम (एक इत्)
अकेले ही (हस्मि) नष्ट करदेने हो ॥ ६ ॥

इन्द्रमिहेवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं०स-
मीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ७ ॥

(देवतानये) देवताओंके निमित्त किये जानेवाले यज्ञके अर्थ (इन्द्र-
मिन्) सब देवताओंमें इन्द्रको ही (हवामहे) आह्वान करते हैं
(अध्वरे प्रयति) यज्ञके होते में (इन्द्रम्) इन्द्रको आह्वान करते हैं
(समीके) यज्ञके सपूर्ण होनेपर अथवा संग्राम के समय (वनिनः)
आराधना करनेवाले हम (इन्द्रम्) इन्द्रको आह्वान करते हैं (धनस्य)
धनके (सातये) लाभके निमित्त (इन्द्रम्) इन्द्रका ही आह्वान करते
हैं इसकारण हे इन्द्र शीघ्र आइये ॥ ७ ॥

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्द्धन्तु या मम ।
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत

(पुरुवसो) हे बहुत धन वाले इन्द्र ! (मम) मेरी (इमाः) यह (याः) जो (गिरः) स्तुतिरूप वाणियों हैं (त्वा) तुम्है (वद्धन्तु) बढ़ावें (पावकवर्णाः) अग्निकी समान तेजस्वी (शुचयः) शुद्ध (विपश्चिनः) विद्वान् (स्तोमैः) स्तोत्रोसे (अभ्यनृपत) स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥

उदुत्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ।
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो
रथा इव ॥ ९ ॥

(सत्राजितः) सदा शत्रुओंको जीतनेवाले (धनसा) अधिक धन वाले (आक्षितोतयः) जयरहित है रक्षा जिनकी पेसे (वाजयन्तः) अन्नकी इच्छावाले रथ जैसे इधर उधर जाते हैं तैसे ही, (त्ये) प्रसिद्ध (मधुमत्तमाः) अन्यन्त मधुर (गिरः) श्रेष्ठ वचन (स्तोमासः) षड्विष्ववमान् आदि स्तोत्र भी (ईरते) तुम्हारे निमित्त उच्चारण कियेहुए ऊपरको फैलते हैं ॥ ९ ॥

यथा गौरी अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम् ।
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु
सुसचा पिब ॥ १० ॥

(गौरः) गौरः मृग (तृष्यन्) प्यासा होकर (अपा) जलोंसे (कृतम्) पूर्ण कियेहुए (इरिणम्) तृणरहित तडागस्थान पर (यथा) जैसे (आवैति) अभिमुख होकर जाता है तैसे ही (आपित्वे) बन्धुभावके (प्रपित्वे) प्राप्त होने पर (इन्द्र) हे इन्द्र तुम (नः) हमारे पास (तूयम्) शीघ्र (आगहि) आओ, और आकर (कण्वेषु) हम कगवों में (सचा) सबके इकट्ठे होकर सपादन करेहुए सोमको (सुपिब) सुन्दरता से पियो ॥ १० ॥

तृतायाध्यायस्य द्वितीय खण्ड

शग्ध्युषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि
(शचीपते, शूर, इन्द्र) हे शचीपति पराक्रमी इन्द्र ! (विश्वाभिः)

सकल (ऊतिभिः) रत्नाओं सहित (शग्धि) इच्छित बरदान दो (भगं न) हमारे भाग्यकी समान (यशसम्) यशस्वी (वसुविदम्) धन देनेवाले (त्वा) तुम्हें (परिचरामि) आराधन करता हूँ ॥ १ ॥

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वाः असुरेभ्यः । स्तो
तारमिन्मघवन्नस्य वर्द्धय ये च त्वे वृक्तवर्हिषः

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (स्वर्वान्) स्वर्गवाले तुमने (याः) जिन(भुजः) भोगने के धनोंको (असुरेभ्यः) बलवान राक्षसों से (आभरः) उन को मारकर लिया है, इसकारण (मघवन्) हे धनवान् इन्द्र! (अस्य) इस लाये हुए धनके दानसे (स्तोतारमिन्) अपनी स्तुति करनेवाले को ही (वर्द्धय) बृद्धिवाला करो (च) और (ये) जो यजन करने वाले (त्वे) तुम्हारे अर्थ (वृक्तवर्हिषः) कुशासन विछाते हैं, उनको भी धनसे बढ़ाओ ॥ २ ॥

प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो ।

वरूथ्ये वरुणे व्रथं वचःस्तोत्रं राजसु गायत

(ऋतावसो) हे यज्ञधन ! (मित्राय) मित्र देवताके अर्थ (सच-थ्यम्) सेवायोग्य (व्रथम्) यज्ञशालामें होनेवाले (वचः) स्तोत्रको (प्रार्यम्णे) अर्पणमा देवताके अर्थ (वरूथ्ये) यज्ञशालामें स्थित (वरुणे) वरुणके अर्थ (राजसु) इनके विराजमान होनेपर (प्रगायत) गाओ ॥३॥

अभि त्वा पूर्णपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः ।

समीचीनास ऋभवः समस्वरन् रुद्रा गृणन्त

पूर्व्यम् ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (आयवः) स्तुति करनेवाले मनुष्य (पूर्वपीतये) सब देवताओंसे प्रथम सोम पीनेके निमित्त (स्तोमेभिः) स्तोत्रों से (त्वाम् अभि) तुम्हारी स्तुति करते हैं (समीचीनासः) इकट्ठे हुए (ऋभवः) सवोंने (समस्वरन्) भले प्रकार तुम्हारी ही स्तुति की (रुद्राः) रुद्रके पुत्र मरुतोंने (पूर्व्यम्) तुम पुरातन पुरुष की ही (गृणन्त) स्तुति की ॥ ४ ॥

प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत । वृत्रं

हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ ५ ॥

(मरुतः) हे स्तोताओं ! (बृहते) महान् (वः) तुम्हारे अपने इन्द्रके अर्थ (ब्रह्म) सामरूप स्तोत्रको (प्रार्चत) उच्चारण करो, तब (वृत्रहा) पापका नाशक (शतक्रतुः) इन्द्र (शतपर्वणा) सौ धारों-वाले (वज्रेण) वज्रसे (वृत्रम्) पापको (हनति) नष्ट करै ॥ ५ ॥

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम् । येन
ज्योतिरजन यन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ६

(मरुतः) हे मितभाषी स्तोताओं ! (वृत्रहन्तमम्) अत्यन्त पाप-नाशक (बृहत्) बृहत्सामको (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (गायत) गाओ (अनावृत्रः) सत्यको बढ़ानेवाले देवता वा ऋषि (देवाय) दीप्तिमान् इन्द्रके अर्थ (देवम्) दिव्य (जागृवि) सबको जगानेवाले (ज्योतिः) सूर्यको (येन) जिस सामके द्वारा (अजनयन्) उत्पन्न करतेहुए ॥ ६ ॥

इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्यो-
तिरशीमहि ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (नः) हमें (क्रतुम्) कर्म वा ज्ञान (आभर) दो और (यथा) जैसे (पिता) पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रोंको धन देता है तैसे (नः) हमें (शिक्त) धन दो (पुरुहूत) हे इन्द्र ! (यामनि) यज्ञमें (जीवाः) हम जीव (ज्योतिः) सूर्यको (अशीमहि) प्रतिदिन प्राप्त हों

मा न इन्द्र परा वृणग्भवानः सधमाद्ये । त्वं

न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक्त्

(इन्द्र) हे इन्द्र (नः) हवि देनेवाले हमें (मा परावृणक्) मत त्यागो, तुम (नः) हमारे (सधमाद्ये) आनन्दके कारणभूत यज्ञमें सोमपानके अर्थ (भय) प्राप्त होओ (इन्द्र) हे इन्द्र (नः) हमें (त्वमिन्) तुम ही (ऊती) रक्षामें स्थापित करो (त्वम्) तुम (नः) हमारे (आप्यम्) वधु हो (इन्द्र) हे इन्द्र (नः) हमें (मा परावृणक्) मत त्यागो ॥ ८ ॥

वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रस्रवणेपु वृत्रहन् परि स्तोतार
आसते ॥ ६ ॥

(वृत्रहन्) हे इन्द्र (त्वा) तुम्है (वयम्) हम (घ) निश्चय (सुना-
वन्तः) सोमका सम्पादन कियेहुए (आपः, न) जलोंकी समान नमे
हुए प्राप्त होते हैं (पवित्रस्य) पवित्र सोमके (प्रस्रवणेपु) रस निकलते
में (वृक्तवर्हिषः) आसन विछाने वाले (स्तोतारः) स्तोता भी तुम्हारी
(परिआसते) उपासना करते हैं ॥ ६ ॥

यदिन्द्र नाहुपीष्वा आजो नृम्णं च कृष्टिषु ।
यद्वा पञ्चक्षितीनां युम्नमा भर सत्रा विग्धानि
पौ ३ स्या ॥ १० ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (नाहुपीषु) मानुषी (कृष्टिषु) प्रजाओंमें (आजः)
बल (च) और (नृम्णम्) धन है (यद्वा) और जो (पञ्च) पाँच
(क्षितीनाम्) भूमियोंका (युम्नम्) दमकता हुआ अन्न है वह सब
हमारे अर्थ (आ भर) दो, तथा (सत्रा) लड़े (विग्धानि) सब
(पौ ३ स्या) बलोंको भी दो ॥ १० ॥

इति तृतीयाध्यापस्य तृतीय खण्ड

सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोविता ।

वृषा ह्युग्रशृण्विषेपरावति वृषो अर्वावति श्रुतः

(उग्र) हे दर्पवाले इन्द्र ! तुम (सत्यम्) सत्य (इत्था) इसप्र-
कार (वृषेत्) इच्छित वरदानों की वर्षा करनेवाले हो (वृषजूतिः)
सोमरसका संचन करनेवालोंसे आह्वान किये हुए (नः) हमारे (अविता)
रक्षक होते हो (वृषाहि) तुम वरदान देनेवाले ही (शृण्विषे) सुने
जाते हो (परावति) दूर भी (वृषेव) वरदानोंकी वर्षा करनेवाले ही हो
(अर्वावति) समीपमें भी (वृषः) मनोरथ पूरक (श्रुतः) सुनेगए हां ॥ ११ ॥

यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन् ।

अतस्त्वागीभिर्द्युगदिन्द्र केशिभिः सुतावा ३

आ विदासति ॥ २ ॥

(शक्र) हे इन्द्र ! (यत्) जब (परावति) दूर धुलोकमें (असि) होते हो और (वृत्रहन्) हे इन्द्र ! (यत्) जब (अर्वावति) उससे समीप अन्नरिक्त देश में होते हो (अतः) इसलोक में (इन्द्र) हे इन्द्र अपनी कान्ति से सर्वत्र फैलनेवाली (केशिभिः) केशवाले घोड़ों की समान स्थित (गीर्मिः) स्तुतियों से (त्वा) तुम्है (सुतवान्) सोम संपादन करनेवाला यजमान (आविवासति) अपने यज्ञमें बुलाता है ॥३॥

**अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा वि-
चेतसम् । इन्द्रं नाम श्रुत्य * शाकिनं वचो यथा**

हे उद्राता आदि (वः) तुम अथवा हे यजमानो (व) तुम्हारे हित के लिये (अन्धसः) सोमके (मदेषु) सम्पादन करते समय (वीरम्) शत्रुओंको भयदेनेवाले (नाम) शत्रुओंको नमानेवाले (विचेतसम्) विशिष्ट बुद्धिवाले (श्रुत्यं) सर्वत्र स्तुतियोग्य (शाकिनम्) शक्तिमान् (इन्द्रम्) इन्द्रको (महा) बड़ी (गिरा) स्तुतिसं (वचः) तुम्हारी वाणी (यथा) जिसप्रकार प्रवृत्त होती हैं तैसे (गाय) गाओ ॥३॥

इन्द्रं त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये ।

**छर्दिर्यच्छ मघवद्भयश्च मह्यं च यवया दिद्यु-
मेभ्यः ॥ ४ ॥**

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्रिधातु) तिमँजले (त्रिवरूथम्) शीत, धूप और वर्षाका वारण करनेवाले (स्वस्तये) कल्याण के लिये (छर्दिः) छुये हुए (शरणम्) गृहको (मघवद्भयः) हविरूप धनवाले हमारे यजमानोंको (मह्यम्, च) मुझें भी दो (एभ्यः) इनके समीपसे (दिद्युम्) शत्रुओंके छड़े हुए दीप्तिमान् आयुधको (यवया) अलग करदो ॥४॥

आयन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

**वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागं न
दीधिमः ॥ ५ ॥**

हे हमारे पुरुषों ! (आयन्त इव सूर्यम्) जैसे आश्रयमें रहनेवाला किरणें सूर्यका सेवन करती हैं तैसे (इन्द्रस्य) इन्द्रके (विश्वेत्) सकल धनोंको (भक्षत) सेवन करो, वह इन्द्र (वसूनि) जिन धनोंको (जाते)

उत्पन्नहानेपर (जनिमानि) उत्पन्नहोजानेपर (ओजसा) बलसे (करोति) करना है, इसमेंसे (भाग न) पिताके धनमेंके भाग की समान उन धनोंको (प्रतिदीधिमः) हम धारण करें ॥ ५ ॥

न सीमदेव आप तादिषं दीर्घायो मर्त्यः ।

एतग्वा चिद्य एतशा युयोजत इन्द्रो हरी यु-
योजते ॥ ६ ॥

(दीर्घायो) हे चिरञ्जीव इन्द्र ! वह (अदेव) इन्द्रनामक देवता से रहित (मर्त्यः) मर्याधर्म मनुष्य (नोम्) सब (तन्) प्रसिद्ध अन्नको (न आप) नहीं प्राप्त होता है (यः) जो मनुष्य इस इन्द्रके तुम्हारे अभिमत स्थान में जानेके निमित्त (एतग्वाचित्) विचित्र वर्णके घोड़ेवाला है (यः) जो (एतशाः) घोड़ोंको (युयोजते) जोड़ता है (इन्द्र.) इन्द्र (हरी) हरिनामक घोड़ोंको (युयोजते) यज्ञमें जाने के निमित्त रथमें जोड़ता है, उसका जो स्तुति नहीं करता वह उस को नहीं पाता है ॥ ६ ॥

आनो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूपत् ।

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन परमज्या ऋची-
षम् ॥ ७ ॥

हे सोताओं (विश्वासु) नव (समत्सु) असुरोंके साथ युद्धोंमें (हव्यम्) जिसको अपना रक्षाके निमित्त गध देवता अवश्य बुलाते हैं ऐसे (इन्द्रम्) इन्द्रके निमित्त (नः) हमारे यज्ञमें (ब्रह्माणि) स्तोत्रों को (उपभूपत्) शोभित और प्रेरित करो (वृत्रहन) हे पापनाशक ! (परमज्याः) युद्धोंमें शत्रुओंका वध करनेके लिये जिसके पास अविनाशी प्रत्यञ्चा है (ऋचीषम्) हे स्तुतियोंसे अभिमुख करनेयोग्य देव (सवनानि) प्रातःस्वन आदि तीन (ब्रह्माणि) स्तोत्रोंको (उपभूपत्) अलंकृत करो ॥ ७ ॥

तवेदिन्द्रावसं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम् ।

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गो-
षु वृण्वते ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (अवमम्) भूमिका नीची श्रेणीका (वसु) धन (तवेत्) तेरा ही है (त्वम्) तुम (मध्यमम्) चाँदी सोना आदि मध्यम धनको (पुष्यसि) पुष्टकरने हो (विश्वस्य) सम्पूर्ण (परमस्य) रत्न आदि श्रेष्ठ धनके (सत्रा) सत्य ही (राजसि) राजा हो (त्वाम्) तुम्है (गोषु) गौ आदि धनश्वेतेमें (नकि वर्णयते) कोई भी वारण नहीं करसकते ॥ ८ ॥

क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ।

अलर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगा-
सिषुः ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र पहिले (क्व) कहां (इयथ) गपथे (क्वेत् अस्मि) और इस समय कहां हो (पुरुत्राचित् हि) बहुतोंमें (ते) तुम्हारा (मनः) मनजाता है (युध्म) हे युद्धकुशल (खजकृत्) वे युद्ध करनेवाले (पुरन्दर) हे असुरोंके नाशक (अलर्षि) आइये (गायत्रा) गानेमें कुशल हमारे स्तोता (प्रगासिषु) स्तुति आदिको गाते हैं ९

वयमेनामिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम् । तस्मा

उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते १०

(वयम्) हम यजमान (एतम्) इस वज्रधारी इन्द्र को (इदा) इस समय (ह्यः) कलके बीनेहुए दिनमें (इह) इन दिनोंमें (अपीपेमे) सोमसे तृप्त करचके हैं (तस्मात् उ) निम्न कारणसे ही (अद्य) आजके (सवने) सवनमें (सुतम्) सम्पादन कियेहुए सोमको (भर) धारण करो (नूनम्) इस समय (श्रुते) स्तुतिको सुनने पर (आभूषत) शोभायमान करो ॥ १० ॥

तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्तः ।

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः ।

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे

(यः) जो इन्द्र (चर्षणीनाम्) मनुष्योंका (राजा) स्वामी है (रथेभिः) रथोंसे (याता) यात्रा करता है (अधृगुः) जिसकी समान कोई गमन नहीं करसकता (विश्वासां) सकल (पृतनानाम्) सेनाओंका (तरुता) पार लगानेवाला है, (यः) जो (वृत्रहा) पापका

नाशक है उस (ज्येष्ठम्) सबके बड़े महाभाग इंद्रकी (गृणे) स्तुति करता है ॥ २ ॥

यत इन्द्र भयामहे ततो ना अभयं कृधि ।

मघवञ्छ्रिधि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि
मृधो जहि ॥ २ ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! हम (यत) तिम हिसकने (भयामहे) डरते है (ततः) तिससे । न) हमें (अभयम् - अभय / कृधि) करो (मघवन्) हे उग्र ! (श्रिधि) हमें अभय देनेकी शक्ति रखने हो (तव) तुम्हारी (ऊतये) रक्षाके लिये (द्विषः) हमारे शत्रुओंकी (विजहि) नष्ट करो (मृधः) हमारे हिसकोंकी (वि) जष्ट करो ॥ २ ॥

वास्तोष्पते ध्रुवा म्थूणां सत्रां सोम्यानाम्
द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां
सखा ॥ ३ ॥

(वास्तोष्पते) हे गृहपते ! (म्थूणां) उसके आश्रयका खंभा (ध्रुवा) स्थिर हो (सोम्यानाम्) सोमका सम्पादन करनेवाले हमको (असत्रम्) कथे आदि शरीरकी रक्षा करनेवाला पल प्राप्त हो (द्रप्सः) सोम पीनेवाला (शश्वतीनाम्) बहुतसी (पुराम्) असुरोंकी नगरियोंका (भेत्ता) विदारण करनेवाला (इंद्र) इन्द्र (मुनीनाम्) हम ऋषियोंका (सखा) मित्ररूप हो ॥ ३ ॥

वण्महां असि सूर्य्य वडादित्य महां असि
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम म्हा देव महा-
ं असि ॥ ४ ॥

(सूर्य्य) हे प्रेरक इन्द्र ! तुम (महान्) तेज करके अधिक (असि) हो (वट्) यह बात सत्य है (अदित्य) हे अदितिके पुत्र ! तुम (महान्) बलसे अधिक (असि) हो (वट्) यह बात सत्य ही है (महः) महान् (सतः) होनेवाले (ते) तुम्हारी (महिमा) महिमा (पनिष्टम) स्तोत्राओंसे स्तुतिकी जाती है (देव) हे सूर्यदेव (म्हा) वीर्यसे भी (महान्) बड़े (असि) हो ॥ ४ ॥

अश्वी रथी सरूप इहोमांशं, यदिन्द्र ते सखा।
श्वान्नभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैर्याति
सभामुप ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (यत्) जब (ते) तुम्हारा (सखा) मित्ररूप पुरुष होजाता है तब (इत्) अवश्य ही (अश्वी) घोड़ोंवाला (रथी) रथोंवाला (सरूपः) सुन्दर रूपवाला (गोमान्) बहुतसी गौश्रोंवाला होता है और (श्वान्नभाजा) शीघ्र प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ धनसहित (वयसा) अन्न करके (सदा) सर्वदा (सचते) युक्त होता है अर्थात् शीघ्र ही धन और अन्न पाता है तदनन्तर (चन्द्रैः) सबको प्रसन्न करनेवाले स्तोत्रोंमें युक्त होकर (सभाम्) जिनकी सभा आदिमें (उपयाति) जाता है ॥ ५ ॥

यद्वाव चन्द्र ते शतं शतं भूमिरुत स्युः। न
त्वावजिन्त्सहस्रांशुं, सूर्या अनु न जातमष्ट
रोदसी ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (यत्) यदि (वावः) तुलोक (शतम्) सैकड़ों (स्युः) हो तो भी (त्वा) तुम्हें (न) नहीं (अनु अष्ट) व्यापस कते अर्थात् आपकी वयसा नहीं करसकते (उत) और (भूमि) भूमि (शतम्) सौ हो तो भी आपकी मूर्त्तिका प्रतिनिमित्त बनानेमें पर्याप्त नहीं होसकती (जिन्त्स) हे वज्रधारी ! (सहस्रांशुः) सहस्रों (सूर्याः) सूर्य (त्वा) आपको (न) प्रकाशित नहीं करसकते अर्थात् आपकी प्रभाके सामने सहस्रोंसूर्योंको प्रभा भी दबजाती है (जातम्) उत्पन्न हुए पदार्थों में ये कोई पदार्थ भी आपको नहीं व्यापसकता (रोदसी) छावावृथिर्वा आपको नहीं व्यापसकते, क्योंकि—तुम सबसे ही बड़े हो ॥ ६ ॥

यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा दृयसे नृभिः ।

सिमापुरु नृपूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ।

(इन्द्र) हे इन्द्र (यत्) यदि (प्राक्) पूर्वदिशामें वर्त्तमान (वा) या (अपाक्) पश्चिम दिशामें वर्त्तमान (उदक्) उत्तर दिशामें वर्त्त-

मान (न्यक्) नीचे वर्त्तमान (नृभिः) स्तुति करनेवाले मनुष्यों करके (इयमे) अपने २ कार्यके लिये आह्वान कियेजाते हो (सिम) हे श्रेष्ठ इन्द्र ! तो भी (आनये) आनवके विषयमें (पुरु) बहुत (नृपूतः) उन के स्तुति करनेवालोंसे प्रेरणा कियेहुए (अस्मि) होते हो अर्थात् स्तोता आपको राजाको हित करनेके निमित्त प्रेरणा करते हैं और (प्रशर्ध) हे अधिकतासे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले इन्द्र ! (तुर्वशे) तुर्वशके विषयमें भी स्तोताओंसे आह्वान कियेजाते हो ॥ ७ ॥

कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति । श्रद्धाहि
ते मघवन् पाय्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति

(वसो इन्द्र) हे व्यापक इन्द्र ! (तम्) तिन प्रसिद्ध (त्वा) तुम्है (कः) कौन मनुष्य (आदधर्षति) धमकी देसकता है ? (मघवन्) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे अर्थ जो (श्रद्धा) श्रद्धायुक्त हुआ यजमान (वाजी) हविवाला होता है वह (पाय्ये दिवि) सोम सम्पादनके दिन (वाजम्) हविरूप अन्नको (सिषासति) देना चाहता है ॥ ८ ॥

इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वतीभ्यः । हित्वा
शिरो जिह्वया रारपच्चरत्रिंशत्पदा न्यक्रमीत्

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि देवताओं ! (अपान) चरणरहित (इयम्) यह उपा (पद्वतीभ्यः) चरणवाली (सुप्ताभ्यः) प्रजाओंसे (पूर्वा) प्रथम (आगात्) आती है, तथा प्राणियोंके (शिरः) शिरको (हित्वा) त्यागकर (जिह्वया) प्राणियोंमें स्थित उनकी वाक् इन्द्रियके द्वारा (रारपन्) अत्यन्त शब्द करनी हुई (चरत्) ऐसी वर्त्ताव करती हुई उपा (त्रिंशत्) तीस मुहूर्तोंको (न्यक्रमीत्) एक दिनमें ही लौघ-लेती है यह सब वीरगा तुम्हारी हा है ॥ ९ ॥

इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरुतिभिः । आ-
शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (नेदीयः) बहुत समीपकी हमारी यज्ञशाला में (मितमेधाभिः) परिमित बुद्धियोंके और (ऊतिभिः) रक्षाओंके साथ (एदिहि) अवश्य आओ (शन्तम) हे परमसुखरूप (शन्तमाभिः) परमसुखरूप (अभिष्टिभिः) प्राणियोंके साथ (आ) आओ (स्वापे) हे वन्धो (स्वापिभिः) सुखदायक प्राणियोंके साथ (आ) आओ १०

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्। आश
जेतारं हेतारं रथी ममतृत्तं तुप्रियावृधम्॥

हे हमारे पुरुषों ! (वः) तुम (अजरम्) जराग्रहित (प्रहेतारम्) शत्रुओंके प्रेरक (अप्रहितम्) किसीके भी न भेजेहुए (आशुम्) वेग-
वान (जेतारम्) शत्रुओंको जीतनेवाले (हेतारम्) यज्ञभवनमें पहुँ-
नेवाले (रथीतमम्) रथियोंमें श्रेष्ठ (अतृत्तम्) जिनको कोई नहीं
मारसकता ऐसे (तुप्रियावृधम्) जलको बढ़ानेवाले इन्द्रको (ऊतये)
रक्षाके निमित्त (इतः कुरुत) आगे करो ॥ १ ॥

मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन् ।
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप
श्रुधि ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वा) तूहैं (वाघतश्चन) यजमान भी (अस्मत्) हम
से (आरे) दूर (मो निरीरमन्) रमण न करावे, इस कारण तुम
(आरात्ताद्वा) दूर रहकर भी (नः) हमारे (सधमादम्) यज्ञको
(आगहि) प्राप्त हुआये (वा) या (इह) यहां (सन्) वर्तमान होते
हुए (उपश्रुधि) हमारी स्तुतिकी सुनिये ॥ २ ॥

सुनोत सोमपाठने सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

पचता पक्तीरवसे कृणुध्वामितृणन्नितृणते मयः

हे मेरे पुरुषों ! (वज्रिणे) वज्रधारी (सोमपाठने) सोमपान करने
वाले (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (सोमम्) सोमको (सुनोत) समपादन
करो (अवसे) इन्द्रको तृप्त करनेके निमित्त (पक्तीः) पुरोडाशोंको
(पचता) पकाओ (कृणुध्वामितृ) इन्द्रको प्रसन्न करनेवाले कर्म करो
क्योंकि इन्द्र (मयः) सुख (तृणन्नितृ) यजमानको देताहुआ ही (तृणते)
हवियोंको ग्रहण करता है ॥ ३ ॥

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तच्छं हूमहे वयम् ।

सहस्रमन्यो तु विनृष्ण सत्पते भवा समत्सु

नो वृधे ॥ ४ ॥

जो इन्द्र (सत्राहा) शत्रुओंका वध करता है (विचर्षणिः) विशेष-
रूपसे सबको देखनेवाला है, उस इन्द्रको हम (हमहे) स्तुति के
पदोंसे आह्वान करते हैं (सहस्रमन्यो) हे शत्रुओंका नाश करनेको
सर्वसे प्रकार के कोपसे युक्त (तुविन्मण) हे बहुधन (सन्पते) हे
सज्जनों के गालक (समन्सु) संग्रामों में (नः) हमारी (वृधे) बुद्धि
के अर्थ (भव) वृद्धिये ॥ ४ ॥

शर्चीभनः शर्चीवसूदिवा नक्तं दिशस्यतम् ।
मा वा०रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्रातिः
कदा चन ॥ ५ ॥

(शर्चीवसू) हे हमारे विद्येदुप ज्योतिष्टोम आदि कर्मकोही धनमानने
वाले आश्वनीकुमारों ! नक्त (शर्चीभिः) हमारे यज्ञरूप कर्मोंसे (दिवा-
स्यतम्) रात्रि (दिशस्यतम्) अशिमत्फलदा (वाम) तुम्हाग
(रातिः) रात्र (कदाचन) कभी कभी (सोपदस्यत्) उपजीव्य न हो और
(चनास्मद्रातिः) हमारा भी (रातिः) रात्र (कदाचन) कभी उपजीव्य न
हो (कदाचन) आप सदा ही (रातिः) रात्र (कदाचन) कभी हम सदा आप
के निमित्त यज्ञदि करते रहे ॥ ५ ॥

वपु० कदाच माहुषं स्तोता जरेत मर्त्यः ।
आदिधन्देन वरुणं विण गिरा धर्त्तारं विव्र-
तानाम् ॥ ६ ॥

(वपु० कदाच) जिन किसी समय जो (माहुषं) हवि देनेवाले
यजमानके यज्ञ से लिये (मर्त्यः) मनुष्य (स्तोता) स्तुति करनेवाला
(जरेत) स्तुति करै (आदित्) नदनन्तर ही (वरुणम्) पापों को
दूर करनेवाले (विव्रतानाम्) नाना प्रकारके कर्मों के (धर्त्तारम्)
श्रावण करनेवाले वरुण नामके देवताको (वपा) विशेष रक्षा करने
वाली (गिरा) स्तुतिसे (धन्देन) स्तुति करै ॥ ६ ॥

पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । यः
सामिश्लो हय्यीयो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिर-
ण्ययः ॥ ७ ॥

(इन्द्राय) हे इन्द्र ! (मेध्यातिथे) हे यज्ञमें अतिथि बनने वाले (अन्धसः) पिथे हुए सोमका (मदे) आनन्द आनेपर तुम हमारा (गाः) गौओंको (पाहि) रक्षा करो (यः) जो (इन्द्रः) इन्द्र (हर्यां) हरि नामक घोड़ोंको (संमिश्रः) रथमें जोतता है (वज्री) वज्रधारी है (हिरण्ययः) हितकारी और रमणीय है (हिरण्ययः) सुवर्ण के रथवाला है ॥ ७ ॥

उभयं शृणवन्न न इन्द्रो अर्वागिदं वचः ।

सत्राच्या मघवान्त सामर्पातये धिया शविष्ठ

आ गमत ॥ ८ ॥

(उभयम्) स्तोत्र और शक्य दोनों प्रकारका (न) हमारा (इन्द्र वचः) यह वचन (अर्वात्) साम्य कश्चित्काल हीकर (इन्द्रः) इन्द्र (शृणवन्) सुन (न) नहीं (परादीयसे) वैचता है (अर्वात्) दश करने वाली (धिया) बुद्धि (शविष्ठ) धनवाला (अर्वात्) अन्यन्त बलवान् इन्द्र (सामर्पातये) सामर्पात के (धिया) धिया आवे ॥ ८ ॥

महे च न त्वाद्रिषः परा शुक्राय दीयसे ।

न सहस्राय नानुताय वज्रियो न शताय शता-

मघ ॥ ९ ॥

(अद्रिषः) हे वज्रवाले इन्द्र ! (महे च) महान भी (शुक्राय) मृत्यु के लिये मैं तुम्हें (न) नहीं (परादीयसे) वैचता हूँ (अर्वात्) दश सहस्रके लिये (न) नहीं वैचता हूँ (शतामघ) दश हजार धनवाले (शताय) अपरिमित धनके लिये भी नहीं वैचता अर्थात् चाहें जितना धन मिलजाय परंतु मैं हवियोंके द्वारा आपका पूजन त्यागना नहीं चाहता ॥ ९ ॥

वस्यां इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः ।

माताच मे हृदयथःसमा वसा वसुत्वनाय राधसे

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (तुम् (मे) मेरे (पितुः) पितासे भी (वसुत्वा-

म्) अधिक धनवान् हो (उन) और (अभुञ्जतः) पालन न करने हुए (भ्रानुः) मेरे भ्रातासे अधिक धनवान् हो, (वसो) हे व्यापक (मे) मेरी (माता) माता (च) और तुम भी (समा) समान होकर (वस्तुत्वनाथ) धनवान् होनेके निमित्त (राधसे) अन्नके लिये (हृदयथ.) मुझे प्रतिष्ठित करो ॥ १० ॥

तृनायाधराश्वन पण्ड सण्ड समाप्त्

इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः ।
ताश्चा मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां
याह्योक आ ॥ १ ॥

(वज्रहस्त) हे वज्रधारी (दध्याशिरः) दहीमें मिलेहुए (इमे) यह (सोमासः) सोम (इन्द्राय) तुम्हारे निमित्त (सुन्विरे) संपादन कियेगए थे (तान्) उन सोमोंको (मदाय) आनन्दके निमित्त (पीतये) पीनेको (अोकः) यज्ञमण्डपमें (आ) अग्निमुख (हरिभ्याम्) अश्वोंके छतर (आयाहि) आतये ॥ १ ॥

इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्वा उक्थिनः ।
मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तो-
त्राय गिर्वणः ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे (मदाय) हर्षके निमित्त (उक्थिनः) स्तोत्रयुक्त (इमे) यह (सोमाः) सोम (चिकित्वा) दीखते हैं और (मधोः) प्रसन्नता देनेवाले सोमको (पपानः) अधिकतासे पीनेहुए हमारी (गिरः) स्तोत्ररूप वाणियोंको (उपशृणु) सुनिये (गिर्वणः) हे स्तुतियोंसे प्रार्थना करनेयोग्य इन्द्र ! (स्तोत्राय) स्तुति करनेवाले मुझे (रास्व) इच्छित फल दीजिये ॥ २ ॥

आश्त्वाद्य सर्वदुवाश्च हुवे गायत्रवेपसम् ।

इन्द्र धेनुश्चसुदुधामन्यामिषमुरुधारामरं कृतम्

(इन्द्र) हे इन्द्र (अद्य) इस समय (सर्वदुधाम्) अधिक दूध देनेवाली (गायत्रवेपसम्) प्रशंसनीय वेगवाली (सुदुधाम्) सुखसे दुहने योग्य (अन्याम्) विलक्षण प्रकारकी (उरुधाराम्) जिसके स्तनोंमें

से अनेकों दुग्धधारा निकलती हैं ऐसी (इयम्) चाहनेयोग्य (धेनुम्) धेनुरूप (अरमुकृतम्) शोभा देनेवाले इन्द्रको (तु) शीघ्र (आहुवे) आह्वान करता है ॥ ३ ॥

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः ।
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न कष्टदा मि-
नाति ते ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (बृहन्त) बलसे बड़े (वीडवः) बलवान् दृढ़ (अद्रयः) पर्वत भी (त्वा) तुम्हें (न) नहीं (वरन्ते) बलसे निवारण करसकते हैं (स्तुवते) स्तुति करनेवाले (मावते) मुझसे पुरण को (यन्) जो (वसु) धन (शिक्षसि) देते हो (ते) तुम्हारे (नन्) उस धनको (नकिः) कोई नहीं (आ मिनाति) रोकसकता है ॥४॥

क ईं वेद सुते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे । अयं
यः पुरोविभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ५

(सुते) सोमरसके सम्पन्न होनेपर (सचा) अन्विजोंके साथ (पिवन्तम्) सोमको पीतेहुए (ईम्) इस इन्द्रको (को वेद) कौन जानता है ? अर्थात् कोई नहीं जानता (कन्) कितने (वयः) अन्न को (दधे) धारण करता है (यः अयम्) जो यह इन्द्र (शिप्री) वेग-वाला (चन्धसः) सोमसे (मन्दानः) आनन्दित होताहुआ (ओजसा) बलसे (पुरः) शत्रुओंके नगरो को (विभिनत्ति) नष्ट करता है ॥५॥

यदिन्द्र शासा अत्रतं च्यावया सदसम्परि ।

अस्माकमशुं मघवन् पुरुस्पृहं वसव्ये अधि
वर्हय ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यन्) क्योंकि (शासः) तुम यज्ञके विज्ञकर्त्ताओंको दण्ड देते हो इसकारण (सदसः) हमारा यज्ञशाला के (परि) चारों ओर वर्त्तमान (अत्रतम्) यज्ञकर्मके धिरोधीवते (च्यावया) दूर निकाल दो और (मघवन्) हे धनपते ! (पुरुस्पृहम्) बहुतोंके चाहने योग्य (अस्माकम्) हमारे (अशुम्) सोमको (वसव्ये) निवास योग्य स्थान में (अधिवर्हय) अधिक बढ़ाओ ॥ ६ ॥

त्वष्टा नो देव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः। पुत्रै-
भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टं त्रामणं वचः७

(त्वष्टा) रूपका अभिमानी त्वष्टा देवता (पर्जन्यः) मेघका अधि-
ष्ठात्री देवता (ब्रह्मणस्पतिः) मंत्राभिमानी ब्रह्मणस्पति देवता (पुत्रैः
भ्रातृभिः) अपने पुत्र और भ्राताओं सहित (अदितिः) देवमाता
अदिति (नः) हमारे (दुस्तरम्) विघ्नकर्त्ताओंके कारण तरनेको
अशक्य (त्रामणम्) रक्षा करने योग्य (वचः) यज्ञीय स्तुतिकी (नु)
शीघ्र (पातु) रक्षाकरे ॥ ७ ॥

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्रसि दाशुषे ।
उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नु ते दानं देवस्य
पृच्यते ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! तू (कदाचन) कभी भी (स्तरीः) हिंसक (न
असि) नहीं है (दाशुषे) हवि देनेवाले यजमानके अर्थ (सश्रसि)
ऋत्विजोंको प्राप्त कराते हो (मघवन्) हे धनवन (देवस्य) प्रकाश
स्वरूप (ते) तुम्हारा (भूयः) बहुतसा (दानम्) दान (उपोपेन्
पृच्यते) हमारे समीप आकर प्राप्त हांताहै ॥ ८ ॥

युंक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः ।
अर्वाचीनो मघवन्त सोमपीतय उग्र ऋष्वेभि-
रा गहि ॥ ९ ॥

(वृत्रहन्तम) हे सर्वथा पापका नाश करनेवाले इन्द्र ! (हि)
निश्चय (हरी) अपने घोड़ोंको (युंक्ष्वा) रथमें जोड़ो (मघवन्)
हे धनवन (उग्रः) प्रकट बलवाले तुम (अर्वाचीनः) हमारे अभि-
मुख (ऋष्वेभिः) दर्शनीय (महद्भिः) महत्तोंके साथ (परावतः)
दूर द्युलोकसे (आगहि) आइये ॥ ९ ॥

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन् वज्रिन् भूर्णयः ।
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि
(वज्रिन्) हे वज्रधारी ! (न्याम्) जिन तुम्है (भूर्णयः) हवि

अर्पण करनेवाले (नरः) कर्मकर्त्ता यजमानोने (इदा) आज (ह्यः) पहिले दिन (अपीप्यन्) सोम पिलाया था (इंद्र) हे इंद्र (सः) वह तुम (स्तोमवाहसः) स्तोत्र पढ़नेवाले हमारे स्तोत्रको (इह) इम यज्ञमें (श्रुधि) सुनो (स्वसरम्) हमारे स्थानमें (आगहि) आइये
तृतीयाध्यायस्य सप्तम खण्ड समाप्त

प्रत्यु अदर्श्यायत्पू३ च्छन्ती दुहिता दिवः ।
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति
सूनरी ॥ १ ॥

(आंयती) आती हुई (उच्छन्ती) अन्धकारोंको दूर करती हुई (विप्रः) सूर्यकी पुत्री उषा (प्रत्यदर्शित उ) सबोंने निश्चितरूप देखी (चक्षुषा) दर्शनसे (मही) बड़े भारी रात्रिके अन्धकारको (उप-उ-वृणुते) दूर करती है (सुनरी) मनुष्योंकी श्रेष्ठ नेत्र रूप उषा (ज्योतिः) प्रकाश को (कृणोति) करती है ॥ १ ॥

इमा उ वां दिविष्टय उस्मा हवन्ते अश्विना ।
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विशथंहि ग-
च्छथः ॥ २ ॥

(इमाः) यह (दिविष्टयः) द्युलोकमें नाउनेवालीं प्रजाएं (उ) ऋत्विज भी (अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! (उस्मौ) व्यापक (वाम) तुम्हें (हवन्ते) आह्वान करते हैं (अयम्) यह मैं भी (शचीवसू) हे कर्मको धन माननेवाला (वाम्) तुम दानो को (अवसे) अपनी रक्षाके लिये अथवा तुम दानोंको तृप्त करनेके लिये (अह्वे) आह्वान करता हूँ (हि) क्योंकि तुम (विश्विशम्) अपनी स्तुति करनेवाले प्रत्येक यजमानके समीप (गच्छथः) जाते हो ॥ २ ॥

कूष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मर्त्यः । धनता
वामश्रया क्षयमाणो ऽशुनेत्यमु आद्वन् यथा

(देवा) प्रकाशवान् (अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! (कूष्ठः) भूमण्डल पर निवास करनेवाला (कः) कौन (मर्त्यः) मनुष्य (वाम्) तुम्हारा (तपानः) प्रकाशक होता है ? (वाम्) तुम्हारे निमित्त (अश्रया) सोमरस निकालनेके पापाणों कहकै (ध्रता) कूटेद्रुप

(अंशुना) सोमसे (क्षयमाणः) थकाहुआ यजमान (आद्वन् यथा) यथेच्छ अन्न रसादि खानेवाले राजाकी समान (इत्थम्-उ) इसप्रकार ही ऐश्वर्यवान् होता है ॥ ३ ॥

अयं वां मधुमत्तमःसुतः सोमो दिविष्टिषु ।
तमश्विना पिबतं तिरो अह्वयं धत्तथं रत्नानि
दाशुषे ॥ ४ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! (वाम्) तुम्हारे (दिविष्टिषु) यज्ञोमें (मधुमत्तमः) अन्यन्तमधुस (अयम्) यह सोम (सुतः) सम्पादन कियागया है (तिरो अह्वयम्) पहिले दिन सम्पादन किये हुए सोमको (पिबतम्) पियां (दाशुषे) हवि देनेवाले यजमानको (रत्नानि) अष्ट धन (धत्तम्) दो ॥ ४ ॥

आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या ।
भूर्णिं मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न या-
चिषत् ॥ ५ ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! (भूर्णिम्) भरणकर्ता (मृगं न) सिंहकी समान (त्वा) तुम्है (सवनेषु) यज्ञोमें (सोमस्य) सोमके (गल्दया) रससे (ज्या) विजयशील स्तुति करके भी युक्त (अहम्) मैं (सदा) सर्वदा (याचन्) याचना करताहुआ (आचुक्रुधम्) क्रोधको दृग् करता हूँ (कः) कौन पुरुष (ईशानम्) अपने स्वामीसे (न) नहीं (याचिषत्) याचना करता है ? अर्थात् सब ही स्वामीसे याचना करते हैं, इसी कारण मैं भी अपने स्वामी आपसे याचना करता हूँ, कि—ऐसी कृपा करिये, जिससे मुझे किसीके ऊपर क्रोध न आवे ५

अध्वर्यो दावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति ।
उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम
वृत्रहा ॥ ६ ॥

(अध्वर्यो) हे यज्ञके नेता अध्वर्यु ! तू (सोमम्) सोमको (दावया) उत्तरवेदी नामक स्थानपर पहुँचा क्योंकि (इन्द्रः) इंद्र (पिपासति) पाना चाहता है (वृषणा) युवा (हरी) घोड़ों को (नूनम्) आज

(उपोयुयुजे) सारथिने रथमें जोड़ा है (वृत्रहा) वृत्रामुरके नाशक इंद्र (आजगाम) आगए ॥ ६ ॥

अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कर्नायसः ।

पुरूवसुर्हि मघवन् वभूविथ भरे भरे च हव्यः ७

(इंद्र) हे इंद्र (ज्यायः) हे सबसे बड़े इंद्र ! (इपतः) याचना किये हुए (तन्) प्रसिद्ध धन (कर्नायसः) मुझ छोटेको (अभ्याभरः) सब ओरसे लाकर दीजिये (मघवन्) हे धनवान् ! (पुरूवसुः) बहुतों से याचना करने योग्य (वभूविथ) हुए हो (भरे भरे) प्रत्येक संग्राम में (हव्यः) आह्वान करने योग्य और हवि देनेयोग्य भी हुए हो ॥ ७ ॥

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहर्माशीय । स्तोता-
रमिदधिपे रदावसो न पापत्वाय रंसिपम् ८

(इंद्र) हे इंद्र (यत्) जिसका पगले (त्वम्) तुम (यावतः) जितने धनके (ईशिपे) स्वामी हो (एतावत्) उतने ही धनका (अहम्) मैं (ईशीय) स्वामी होऊँ (रदावसो) हे धन देनेवाले इंद्र ! तिससे मैं (स्तोतारम्) अपने सामनात करनेवाले स्तोताको (इत् दधिपे) धन देकर अवश्य रखसकू (पापत्वाय) वृथा नष्ट करनेको (न) नहीं (रंसिपम्) दूँ ॥ ८ ॥

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ।

अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः

(इंद्र) हे इंद्र (त्वम्) तुम (प्रतूर्तिषु) संग्रामों में (विश्वाः) सब (स्पृधः) युद्ध करनेवाली शत्रुओंकी संताओंको (अभ्यस्मि) तिरस्कार करते हो (तूर्य) हे शत्रुओंके नाशक इंद्र ! (त्वम्) तुम (अशस्तिहा) देवी आपत्तियों के नाशक हो (जनिता) हमारे शत्रुओंकी आपत्ति उत्पन्न करनेवाली हो (वृत्रतूः) सकल शत्रुमूह का नाश करनेवाले (अस्मि) हो (तरुष्यतः) हमारे विघ्नकर्ताओं का निवारण करते हो ॥ ९ ॥

प्र यो रिरिक्ष औजसा दिवः सदोभ्यस्परि :

नत्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्वं
ववक्षिथ ॥ १० ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! जो तुम (दिवः) द्युलोकके (सदाभ्यः) स्थानोंसे (आजसा) बल करके (प्ररिगित्तं) अधिकता करके श्रेष्ठ होते हो और हे इंद्र ! (पार्थिवम्) पृथिवीपर उन्पन्न हुआ (रजः) लोक (त्वा) तुम्है अपने बड़े शरीरसे (न विव्याच) व्याप्त नहीं करसका ऐसे बलवान् तुम हमें (विश्वम्) विश्वको (अति) त्यागकर (वव-दित्थ) धारण करो अर्थात् हमें सबसे श्रेष्ठ बनाओ ॥ १० ॥

इति तृतायाध्यायस्य अष्टम ऋषेः समाप्त

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो ज-
नुषेमुवाच । बोधामसि त्वा हर्यश्च यज्ञैर्बोधा
न स्तोममन्धमो मदेपु ॥ १ ॥

(देवम्) प्रकाशमय (गोऋजीकम्) गोघृत दुग्धादिसे संस्कार किये हुए (अन्धः) सोमरूप अन्नको (असावि) संपादन क्रिया (ईम्) यह (इंद्र) इंद्र (अस्मिन्) इस संपादन किये हुए सोमरूप अन्नमें (जनुषा) स्वभावसे ही (न्युवोन्) अन्यन्त तत्पर होता है (हर्यश्च) हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हें (यज्ञैः) स्तोत्र और तवियोंसे (बोधामसि) बोध कराते हैं (अन्धसः) सोमके (मदेपु) मदीमें (नः) हमारे (स्तोमम्) स्तोत्रको (बोध) जानो ॥ १ ॥

योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरु-
हूत प्रयाहि । असो यथा नाऽविता वृधश्चि-
द्ददो वसूनि ममदश्च सोमैः ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे (सदने) विराजमान होनेके निमित्त (योनिः) स्थान (अकारि) गचागया (पुरुहूत) हे अनेकोंके आह्वान किये हुए इन्द्र (नृभिः) नेता मरुतोंके साथ (तम्) उस स्थान पर (आ प्रयाहि) आइये (नः) हमारे (यथा) जैसे (अविता) रक्षक (वृधश्चिन्) वृद्धि करनेवाले (असः) होओ हमें (वसूनि) धन (ददः) दीजिये (च) और (सोमैः) हमारे सोमोंसे (ममदः) आनन्दित हजिये ॥ २ ॥

अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान् बद्ध-
धानाः अरम्णाः । महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्वः

सृजद्वारा अथ यद्दानवान् हन् ॥ ३ ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! (त्वम्) तुमने (उत्सम्) जलभरे मेघको (अर्द्धः) विदीर्ण किया है, फिर (खानि) मेघमेंके जल निकलनेके द्वारोंको (व्यसृजः) विशेषरूपसे रचा है (बद्धधानान्) बाधा देनेवाले (अर्थावान्) जलवाले मेघोंको (अरम्णः) टपकाया है (यन्) जिन तुमने (महान्तम्) बहुतसे (पर्वतम्) मेघोंको (व्यसृजन्) विवृत किया है (धाराः) जलकी धाराओंको छोड़ा है (यन्) जब (दानवान्) दानवोंको (अथहन्) विनष्ट किया है ॥ ३ ॥

सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चि-
त्तुविनृष्ण वाजम् । आ नो भर सुवितं यस्य
कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ ४ ॥

(इंद्र) हे इंद्र (सुष्वाणासः) सोमका अभिषेक करनेवाले हम (त्वा स्तुमसि) तुम्हारी स्तुति करते हैं (तुविनृष्णा) हे बहुत धनवाले इंद्र (वाजम्) सुन्दर पुरोडाशरूप अन्न (सनिष्यन्तः) विभाग करके देने हुए हम स्तुति करते हैं, इस कारण (नः) हमें (सुचित्तम्) प्राप्त होनेयोग्य श्रेष्ठ धनको (आभर) दीजिये (यस्य) जिस धनको अतिप्रिय होनेसे (कोना) कामना करते हो वह धन हमें दो (त्वोताः) तुम्हारे रत्नों कियेहुए (तना) बहुतसे धनोंको (त्मना) स्वयं ही (सह्याम) आपके अनुग्रहसे पाते हैं ॥ ४ ॥

जगृह्णा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते
वसूनां । विद्महा हि त्वा गोपतिः शूर गोनाम-
स्मभ्यं चित्रं वृषणं रथिं दाः ॥ ५ ॥

(वसूनाम्) बहुतसो धनोंमें (वसुपते) हे धनोंके स्वामी (ते) तुम्हारे (दक्षिणं हस्तम्) दाहिने हाथको (वसूयवः) धनकी इच्छा करनेवाले हम (जागृह्ण) ग्रहण करते हैं (शूर) हे पराक्रमी ! (गोनाम्) बहुतसी गौश्रोंमें (त्वा) तुम्हें (गोपतिम्) गौश्रोंका स्वामी (विद्मः) जानते हैं, इस कारण हमें (चित्रम्) अनेकप्रकार के (वृषणम्) मनोरथोंके परक (रथिम्) धनको (दाः) दो ॥ ५ ॥

इन्द्रं नरो नेमदिताहवन्ते । यत्पार्या युनजते

धियस्ताः । शूरो नृपाता श्रवसश्च काम आ
गोमति ब्रजे भजा त्वं नः ॥ ६ ॥

(यत्) जब (पार्याः) युद्धमें रक्षा के कारणभूत (ताः) प्रसिद्ध (धियः) कर्म (युनजते) प्रयोग किये जाते हैं तब (नरः) यज्ञ वा संग्राम करनेवाले मनुष्य (पेमधिता) यज्ञ वा संग्राममें (इन्द्रम्) जिस इन्द्रको (हवन्ते) आवाहन करते हैं वह (शूरः) वीर (नृपाता) मनुष्योंको विभाग करके यथास्थान पर खड़ा करनेवाले तुम (श्रवसः) अन्न वा बलके (चकाने) चाहने पर (गोमति) गौआदि पशुओंसे युक्त (ब्रजे) गोठमें (नः) हमें (भज) भागों करो ॥ ६ ॥

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो
नाधमानाः । अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मु-
मुग्ध्याश्स्मान्निधयेव वद्धान ॥ ७ ॥

(वयः) गमन करने वाली (सुपर्णाः) मुख्य देता है पडना जिन का पेंसी (प्रियमेधाः) यज्ञमें देने करने वाली (ऋषयः) देखनेवाली (नाधमानाः) प्रज्ञाकी याचना करती हुई सूर्यकी किरणें (इन्द्रम्) इन्द्रको (उपसेदुः) प्राप्त हुई (इन्द्र) हे इन्द्र (ध्वान्तम्) अंधकारको (अपध्वान्ति) दूर करो (चक्षुः) तेजको (पूर्धि) पूर्ण करो (निधया इव वद्धान) पशियोंसे जैसेहुएसे (अस्मान्) हमें (मुमुग्धि) दुःखियों ॥ ७ ॥

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तः । हृदा वेनन्तो अ-
भ्यचक्षत त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं
यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥ ८ ॥

(सुपर्णम्) सुन्दर है पतन जिसका (पतन्तम्) अन्तरिक्षमें जाते हुए (हिरण्यपक्षम्) सुवर्णके पक्षीवाले (वरुणस्य) जलाभिमानी देवताके (दूतम्) दूत (यमस्य) नियामक विद्युताग्नि के (योनौ) स्थान अन्तरिक्षमें (शकुनम्) पक्षीरूपसे वर्तमान (भुरण्युम्) वर्षा आदिके द्वारा सब जगत्का पोषण करनेवाले (त्वा) तुम्हें (हृदा) मनसे (वेनन्तः) चाहतेहुए स्तोता (नाके) अन्तरिक्ष की ओरको (अभ्यचक्षत) देखते हैं, तब तुम जाते हो ॥ ८ ॥

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुखो
वेन आवः । म बुध्न्या उपमा अस्य विष्टाः
सतश्च यानिमसतश्च विवः ॥ ६ ॥

पूर्व मन्त्रमें वर्णन किया हुआ (वेनः) वेन नामक गन्धर्व (पुर-
स्तान्) पूर्वकाल में (जज्ञानम्) उत्पन्न हुए अथवा ज्ञानवान (ब्रह्म)
ब्रह्मण जातिरूप (प्रथमम्) आद्य शरीरको (विसीम्) सुखसे आनन्द
सूचक शब्द करता हुआ (अतः) इस सबको दीखती हुई (सुखम्)
श्रेष्ठ कान्ति में (आवः) रक्षा करता हुआ अर्थान् ब्राह्मण शरीरको
बड़ी कान्तिमान् करदिया (सः) वह गन्धर्व (बुध्न्याः) अन्तरिक्ष
में की (अस्य, उपमा.) इस शरीरकी कान्ति की समान अद्विष्ट
आदिके प्रकाशरूप कान्तियों को (विष्टाः) विशेषरूप से स्थापन करता
हुआ तथा । सतः) इस समय विद्यमान (च) आंग (असतः) आंग
का होने वाले इस समय अविद्यमान (यानिम) उत्पत्तिके कारणको
या निवासस्थानको (विवः) निःसन्न करता हुआ ॥ ६ ॥

अपूर्व्या पुरुतमान् यस्मै महे वीराय तवसे
तुराय । विरप्सिने वज्रिणे शन्तमानि वचा-
१११ स्यस्मै स्थविराय तस्थुः ॥ १० ॥

(महे) महान् (वीराय) अनेको शत्रुओं का नाश करनेवाले (तवसे)
बलवान् (तुराय) शीघ्रता करनेवाले (विरप्सिने) विशेषरूपसे स्तु-
तिके योग्य (वज्रिणे) वज्रधारी (स्थविराय) वृद्ध (अस्मै) इस
इन्द्रके अर्थ (अपूर्व्या) नवीन (पुरुतमानि) बहुत १ (शन्तमानि)
परम सुखदायक (वचाभिः) स्तुतिरूप वचनोंको (तक्षः) स्तोत्रा
उच्चारण करते हैं ॥ १० ॥

नृतीयाधरायस्य नवमः खण्ड समाप्त

अव द्रप्सो अ११ शुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो
दशभिः सहस्रैः । आदत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त-
मप स्त्रीहितं नृमणा अधद्राः ॥ १ ॥

(दग्धः) शीघ्र गमन करनेवाला (दशभिः सहस्रैः) दश सहस्र असुरोंके साथ (इयानः) चढ़ाई करता हुआ (कृष्णः) कृष्णनामकः असुर (अंशुमती) अंशुमती नदीपर (अवातिष्ठत्) आकर प्राप्त होगया, तदनन्तर (शच्या) अपने कर्म वा प्रज्ञानसे (धमन्तम्) जगत् को भयदायक शब्द करनेवाले (तम्) उस कृष्णासुरको (इन्द्रः) इन्द्र मरुतों सहित (आवत्) प्राप्त हुआ (अथ) इसके अनन्तर (नृमणाः) ऋत्विजों में एकतान होकर जिसका मन लगरहा है ऐसा इन्द्र (स्नीहितिम्) हिंसा करनेवाला उसकी सेनाको (अपद्राः) घथ करता हुआ अर्थात् उसको मारकर उसकी सेनाको भी मार डाला ॥ १ ॥

वृत्रस्य त्वा श्वसथादीपमाणा विश्वे देवा
अजहुर्ये सखायः । मरुद्भिरिन्द्र सख्यन्ते अ-
स्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! तेरे (ये) जो (विश्वे देवाः) विश्वे देवता पहिले (सखायः) युद्धमें सहायता करनेवाले मित्रथ, वह सब देवता (वृत्रस्य) वृत्रासुरके (श्वसथात्) सबको आने हुए देखकर वृत्रासुरने जो श्वास छोड़ा था उससे भयभीत होकर (ईपमाणाः) चारों ओरको भागतै हुए (त्वा) तुम्हें (अजहुः) छोड़ गए थे, ऐसा होने पर हे इन्द्र ! (मरुद्भिः) तेरा साथन छोड़नेवाले मरुतोंके साथ (ने) तेरा (सख्यन्ते) मित्रभाव (अस्तु) हो (अथ) फिर (इमाः) इन (विश्वाः) सब (पृतनाः) शत्रु सेनाओं को (जयासि) अपने बलसे जीतोगे ॥ २ ॥

विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं प-
लितो जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या
ममार स ह्यः समान ॥ ३ ॥

कालस्वरूप इन्द्रकी स्तुति कीजाती है, कि—(विधुम्) युद्ध आदि क विधाता तथा (समने) संग्राम में (बहूनाम्) बहुतसे शत्रुओं के (दद्राणम्) भगानेवाले भी (युवानम्) युवा पुरुषको इन्द्रकी कृपा से (पलितः) बड़ा पुरुर (जगार) निगलजाता है अर्थात् जीनलेता है, यह तथा आगे कहींहुई भी (देवस्य) कालस्वरूप इन्द्रकी (महित्वाद्या) महत्वभरी (काव्यम्) सामर्थ्यको (पश्य) देख, हे जीवान्मन् । जो जराको प्राप्त हुआ (अथ) आज (ममार) मरता है (सः) वह (ह्यः) दूसरे दिन (समान) अन्य जन्म धारण करके संसारमें आजाता है ॥ ३ ॥

त्वष्टं ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभ-
वः शत्रुरिन्द्र । गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो
विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥ ४ ॥

हे इन्द्र (त्वम् ह) तुम निश्चय (त्यन्) ऐसा पगक्रम करनेवाले हो, कि—(जायमानः) प्रकट होतेही (अशत्रुभ्यः) शत्रुरहित (सप्तभ्यः) कृष्ण वृत्र नमुचि आदि सात असुरों के अर्थ (शत्रुः) शत्रु (अभवः) हुए वा सात पुरोंको नष्ट करनेवाले हुए अथवा सात होतावाले यज्ञों में विघ्न करनेवालों के शत्रु हुए, और हे इन्द्र ! तुमने (गूढे) अन्ध-कारसे ढकेहुए (द्यावापृथिवी) द्युलोक और भूलोकको (अन्वविन्दः) सूर्यरूप में प्रकाशित करके पाया तथा (विभुमद्भ्यः) गौरवयुक्त (भुवनेभ्यः) लोकोंसे (रणम्) रमणको (धाः) धारण करते हो ॥३॥

मेडिं न त्वा वज्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं
वृषभं स्थिरप्स्तुम् । करोप्यर्ष्यं स्तरुषीर्दुव-
स्युरिन्द्र द्युक्षं वृत्रहणं गृणीषे ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (दुवस्युः) स्तुति आदि आराधना की इच्छा करतेहुए तुम (अर्ष्यः) हमारे शत्रुओंको क्षीण (तरुषीः) हमें विजय पानेवाला (करोपि) करते हो, इसकारण (मेडिं न) जिस प्रकार वृष्टिकारिणी वाणीकी वर्षा के निमित्त प्रार्थना करते हैं, तैसे ही (वृत्रहणम्) मेघोंके प्रेरक (द्युक्षम्) द्युलोकमें वर्त्तमान (पुरुधस्मानम्) बहुतसे जलोंके धारक वा अनेकों शत्रुओंके नाशक (वृषभम्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले (स्थिरप्स्तुम्) स्थिररूप (वज्रिणम्) वज्रधारी (भृष्टिमन्तम्) शत्रुओंको भूनेवाले (त्वा) तुम्है (गृणीषे) स्तोत्र पढ़कर मनाता हूँ ॥ ५ ॥

प्र वा महेमहेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं
कृणुध्वम् । विशः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥ ६ ॥

हे हमारे पुरुषों ! (वः) तुम (महेवृधे) बहुतसे धनोंकी वृद्धि करनेवाले (महे) महान् इन्द्रके अर्थ (प्रभरध्वम्) सोम अर्पण करो (प्रचेतसे) श्रेष्ठ ज्ञानवान् इन्द्रके अर्थ (सुमतिम्) श्रेष्ठ स्तुति (प्र-कृणुध्वम्) करो । हे इन्द्र ! (चर्षणिप्राः) मनोरथोंसे प्रजाओंको पूर्ण

करनेवाले तुम (पूर्वाः) हवि समर्पण करनेवाली (विशः) प्रजाओंको (प्रचर) अभिमुख होकर प्राप्त होओ ॥ ६ ॥

शु ११, हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं
वाजसातौ । शृण्वन्तमुप्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृ-
त्राणि सञ्जितं धनानि ॥ ७ ॥

हम (वाजसातौ) अन्न की प्राप्ति करानेवाले (अस्मिन्) इस (भरे) योधाओंका विजयलक्ष्मी प्राप्त करानेवाले सग्रामम (शुनम्) उत्साहसे बड़े हुए (मघवानम्) धनवान् (नृतमम्) सकल जगत्के सर्वोपरि नेता (इन्द्रम्) इन्द्र हा (हुवेम) यज्ञके निमित्त आह्वान करते हैं । तथा (शृण्वन्तम्) हमारा स्तुतिका सुननेवाले (उग्रम्) शत्रुओंको भयदायक (समत्सु) संग्राममें (वृत्राणि) राक्षसा का (घ्नन्तम्) मारनेवाले (धनानि) शत्रुओं के धनाको (सञ्जितम्) जीतनेवाले तुम्हें (ऊतये) रक्षाके लिये हम बुलाते हैं ॥ ७ ॥

उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्र ११, समर्थ्य महया
वशिष्ठ । आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोप-
श्रोता म ईवता वचा ११, सि ॥ ८ ॥

(श्रवस्या) अन्नकी इच्छा करके (ब्रह्माण्यै) स्तोत्र और हवियों को सब ऋषि इन्द्रके अर्थ (उदैरत) अर्पण करो (वशिष्ठ) हे जितेन्द्रियोंमें प्रतिष्ठित तू भी (समर्थ्य) यज्ञमें (इन्द्रम्) इन्द्रका (महया) स्तोत्र और हविसं पूज और (यः) जो इन्द्र (विश्वानि) लोकोंका (श्रवसा) अन्न और कीर्तिसं (श्रोतान) बढ़ाना हुआ वह (ईवतः) उपासना करने वाले (मे) मेरे (वचांसि) वचनोंको (उपश्रोता) सुने ॥ ८ ॥

चक्रं यदस्यापवानिषत्तमुतो तदस्मै मध्विञ्चच्छ
द्यात् । पृथिव्यामातीषितं यदूधः पयो गोष्व-
दधा ओषधीषु ॥ ९ ॥

(अस्य) इस इन्द्रका (चक्रम्) आयुध (अप्सु) अन्नरिक्त में (आ) सब ओर (निषत्तम्) मेघके हननके निमित्त स्थित था (उतो)

और वह भी (अस्मै) इस इन्द्रके अर्थ (मध्वित्) जल को भी (चच्छ्रयात्) बरसे करना है (पृथिव्यां) पृथिवीमें (अतिषितम्) छोड़ा हुआ (यदूधः) जो जल है वह (पयोमोषु) ओषधियोंमें (आदधा) थापन करता है ॥ ६ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य दशम खण्डः समाप्तः

त्यमेषु वाजिनं देवजुतं स होवानं तरुतारं
रथानाम् । अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुखं स्व-
स्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥

(त्यम्) उस प्रसिद्ध (वाजिनम्) अन्नयुक्त वा बलवान् (देवजुतम्) साम लानेके निमित्त देवताओंके प्रणया क्रिये हुए (स होवानम्) शक्तिमान (रथानाम्) औरोंके रथोंको लगानेमें (तरुतारम्) तारनेवाले (अरिष्टनेमिम्) नीचे आयुधवाले । (पृतनाजम्) शत्रुसंज्ञाओंको जाननेवाले (आशु) शीघ्रगामी (तार्क्ष्यम्) तृप्तमें उत्पन्न हुए सुपर्णोंको (स्वस्तये) कल्याणके लिये (इह) इस कर्ममें (हुवेम) वारंवार बुलाते हैं ॥ १ ॥

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहव
शूरमिन्द्रम् । हुवे नुशक्रं पुरुहूतमिन्द्र-
मिदं हविर्मघवा वेत्विन्द्रः ॥ २ ॥

(त्रातारम्) शत्रुओंसे रक्षा करनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (हुवे) आह्वान करताहूँ (अवितारम्) मनोरथोंमें नृतन करनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको आह्वान करताहूँ (हवे हवे) सकल सग्रामोंमें (सुहवम्) सुखसे बुलानेयोग्य (शूरम्) वीर (शक्रम्) सकल कार्योंमें समर्थ (पुरुहूतम्) जिसको अनेकोंने रक्षाके लिये बुलाया ऐसे (इन्द्रम्) इन्द्रको आह्वान करताहूँ (मघवान्) धनवान् वह इन्द्र (इन्द्रम्) इस (हविः) हविको (वेत्) भक्षण करै ॥ २ ॥

यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरीणां श्रथ्यां श्वि-
व्रतानाम् । प्र श्मश्रुभिर्दाधुवदूर्ध्वदा भुवद्वि
सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥ ३ ॥

(वज्रदक्षिणम्) दाहिने हाथमें वज्रधारण करनेवाले (दिवृतानाम्) रथोंको लेजाना आदि अनेकों कर्म करनेवाले (हरीणाम्) हरि नामक घोड़ोंको (रथ्यम्) वशमें रम्बकर चलानेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (यजामहे) सोमरूप हवियोंसे पूजते हैं । वह इन्द्र सोमपानके अनंतर (श्मश्रुभिः दोधुवत्) अपनी दाढ़ीमूछोंको बार बार कँपाताहुआ (ऊर्ध्वधाः) ऊपर (अत्रिभुवत्) प्रकट होना है (सेनाभिः) और अपनी देवसेनाओंसे (भयमानः) शत्रुओंको भयभीत करता हुआ (राधः) नाना प्रकारका धन (वि) स्तुति करनेवालोंको देता है । ३।

सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभम्
सुवज्रम् । हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता
मघानि मघवा सुराधाः ॥ ४ ॥

हम स्तुति करनेवाले (सत्राहणम्) अनेकों शत्रुओंको मारनेवाले (दाधृषिम्) अत्यन्त धमकाबेवाले (तुम्रम्) शत्रुओंको भगानेवाले (महान्) बड़े (अपारम्) विनाशरहित (वृषभम्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले (सुवज्रम्) श्रेष्ठ वज्रको धारण करनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रकी स्तुति करते हैं (यः) जो इन्द्र (वृत्र हता) वृत्रासुर का वध करता है (उत) और (वाजम् सनिता) अन्नका दाता होता है (सुराधाः) श्रेष्ठ धन वाला (मघवा) जो इन्द्र (मघान दाता) धनोंका दाता होता है ॥ ४ ॥

यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त्त उगणा वा मन्य
मानस्तुरो वा । क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रा-
भीष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥ ५ ॥

(यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (नः) हमें (वनुष्यन्) मारनेकी इच्छा करता हुआ (अभिदाति) चढ़ाई करके आता है और जो (मन्यमानः) अपनेको बहुत मानता हुआ मनुष्य (क्षिधी) क्षयकारी (युधा) आयुधलेकर (शवसा) बेगसे (उगणाः) श्रेष्ठ समूहरूप (तुरः) प्रहार करनेवाली हमारी प्रजाओंके ऊपर चढ़ाई करके आता है (त्वोताः) तुम्हारे रक्षा करेहुए (वृषमणः) वृषकी समान आचरण करनेहुए हम (तम्) उसको (अभीष्याम) तिरस्कृत करें ॥ ५ ॥

यं वृत्रेषु क्षितय स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो

हवन्ते । यः शूरसातो यमपामुपज्मन्यं विप्रा-
सो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ ६ ॥

(वृत्रेषु) युद्धोंमें (स्पर्धमानाः) क्रोधयुक्त (क्षितयः) मनुष्य (यम्) जिसको (हवन्ते) पुकारते हैं (युक्तेषु) आयुध उठेहुए सं-
ग्रामोंमें (तुर्यन्तः) परस्पर हिंसा करते हुए पुरुष (यम्) जिसको
पुकारते हैं (शूरसातो) योधाओंका विभाग होनेपर वा योधाओंकी
प्राप्तिके लिये (यम्) जिसको पुकारते हैं (अपाम्) जलोंकी प्राप्तिके
विषयमें (यम्) जिसको पुकारते हैं (उपज्मन्) वर्षाकी प्राप्तिके
लिये (यम्) जिसकी शरणमें जाते हैं (विप्रासः) बुद्धिमान् यज-
मान (वाजयन्ते) जिसको हवि अर्पण करके बलवान् करते हैं (सः)
वह (इन्द्रः) इन्द्र है ॥ ६ ॥

इन्द्रा पर्वता बृहता रथेन वामीरिप आ वहत
ः सुवीराः । वीतः हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धथां
गीर्भिरिडया मदन्ता ॥ ७ ॥

(इन्द्रापर्वता) हे इन्द्र और पर्वत (बृहता) बड़ (रथेन) रथ
में आकर (वामी) प्रार्थना करनेयोग्य (सुवीराः) श्रेष्ठ पुत्रों सहित
(इयः) अन्नोंको (आवहन) दो (देवा) हे प्रकाशदान इन्द्र पर्वत
(अध्वरेषु) हमारे यज्ञोंमें (हवियोंका (वीत) भक्षण करो तथा
(इडया) हमारे दियेहुए अन्नसे (मदता) प्रसन्न होतेहुए तुम (गीर्भिः)
स्तुतिरूप हमारी वाणियोंसे (वर्धथाम्) बढ़ो ॥ ७ ॥

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरयत्स-
गरस्य बुध्नात् । यो अक्षेणैव चक्रियौ शची-
भिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत वाम् ॥ ८ ॥

(इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (अनिशितसर्गाः) निरंतर उच्चस्वरसे उच्चारण
की हुई जो (गिरः) स्तुतियाँ हैं उनसे (सगरस्य) अंतरिक्षके (बुध्नात्)
स्थानसे (अपः) जलोंको (प्रेरयत्) प्रेरणा करता है (यः) जो इन्द्र
(शचीभिः) यज्ञादि कर्मोंसे (पृथिवीम्) पृथिवीको (उत) और
(वाम्) धुलोक को भी (चक्रियौ अक्षेण इव) रथके पाँहये जैसे

धुरेसे थमे रहते हैं तैसे (विष्वक्) सब ओर से (तस्तम्भ) स्तम्भित करता हुआ ॥ ८ ॥

आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरु
चिदर्णवां जगम्याः । पितुर्नपातमा दधीत वेधा
अस्मिन् क्षये प्रतरां दाद्यानः ॥ ९ ॥

हे इन्द्र (सखायः) स्तोता (सख्या) प्रिय स्तुतियों से (त्वा) तुम्है (आववृत्युः) अभिमुख करते हैं, क्योंकि तुम (निरः) उड़नेवाले होकर (पुरु) विस्तारवाले (अर्णवम्) अतरिजमेको (जगम्याः) चले-गए थे (अस्मिन्) इस (क्षये) निवासस्थानरूप यज्ञ में (प्रतराम्) अन्यन्त (दाद्यानः) तेजसे दमकता हुआ (वेधा) विधाता इन्द्र (पितुः) मेरे पिताके (नपातम्) पौत्रको अर्थात् मेरेपुत्रको (आदधीत) देया ॥ ९ ॥

को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो
भामिनो दुहृणायन् । आसन्नेषामप्सुवाहो
मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥ १० ॥

(अद्य) आज इस कर्मने (ऋतस्य) यज्ञमें जानेवाले इन्द्रके रथ के (धुरि) जुपमे (गाः) जुड़दुए (शिमीवतः) वीरताके काम करने वाले (भामिनः) तेजस्वी (दुहृणायन्) शत्रुओंके असह्य क्रोध से युक्त (अप्सुवाहः) यज्ञादिकर्ममें इन्द्रको लेजानेवाले (मयोभून) सुखदायक अश्वोंको वा उनकी लगामोंको (आसन) मुखसे उच्चारण कियेहुए स्तोत्रके द्वारा (वाः) कौन (युङ्क्ते) नियुक्त करसक्ता है ? अर्थात् कोई नहीं रोकसकता (यः) जो यजमान (एषाम्) इनघोड़ों की (भृत्याम्) रथको लेजाने की क्रियाकी (अमृणधत्) स्तुति करता है (सः) वह यजमान (जीवात्) आयुष्मान् होता है ॥ १० ॥

तृतीयाध्यायस्य एकादश खण्ड समाप्त ॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः ।

ब्रह्माणस्त्वा शतकृत उदशमिव येभिरे ॥ ११ ॥

(शतकृतो) हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्है (गायत्रिणः) उद्गाता (गायन्ति) स्तुति करते हैं (अर्किणः) पूजन के मंत्र बोलते हुए होता (अर्कम्)

पूजनीय इन्द्रकी (अर्चन्ति) मंत्रों से प्रशंसा करते हैं (ब्रह्माणः) अन्य ब्राह्मण (वशमिव) जैसे बांसकी नाकपर नाचनेवाले नट दृढ़ बांसको ऊँचा करते हैं तैसें (त्वा) तुम्है (उद्योमिरे) उन्नति पर पहुँचाते हैं ॥१॥

**इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त समुद्रव्यचसं गिरः ।
रथीतमथं, रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् २**

(विश्वाः) सकल (गिरः) हमारी स्तुतियोंने (समुद्रव्यचसम्) समुद्रकी समान महान् (रथीनाम्) योधाओं में (रथीतमम्) श्रेष्ठ योधा (वाजानाम्) अन्नों के (पतिम्) स्वामी (सत्पतिम्) सज्जनों के पालक (इन्द्रम्) इन्द्रको (अवीवृधन्) बढ़ाया ॥ २ ॥

इमामिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममर्त्यं मदम् ।

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन् धारा क्रतस्य सादने ३

(इन्द्र) हे इन्द्र (इमम्) इस (ज्येष्ठम्) परम प्रशंसनीय (मदम्) आनन्ददायक (अमर्त्यम्) अन्य मर्त्योंकी समान नष्ट न करने वाले (सुतम्) सम्पादन किये हुए सोमको (पिव) पियो (ऋतस्य) यज्ञ के (सादने) मण्डप में वर्त्तमान (शुक्रस्य) दीम सोमकी (धाराः) धाराएँ (त्वा अभ्यक्षरन्) तुम्हारे अभिमुख हाकर चलीआरही हैं ॥३॥

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः ।

राधस्तन्नो विद्वम उभयाहस्त्या भर ॥ ४ ॥

(चित्र) विचित्र गुणसम्पन्न (अद्रिवः) वज्रधारी (विद्वमो) प्राप्तधन (इन्द्र) हे इन्द्र (यन्) जो (त्वादातम्) तुम्हारे देनेयोग्य (राधः) धन (इह) इस लोकमें (मे) मेरे (नास्ति) नहीं है (तन्) वह धन (नः) हमें (उभयाहस्त्या) दोनों हाथों से (आभर) दो ॥४॥

श्रुधीं हवं तिरश्च्या इद्रं यस्त्वा सपर्यति ।

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूधिं महाष्टं असि ॥५॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (यः) जो (त्वा) तुम्है (सपर्यति) हवियों से आराधन करता है उस (तिरश्च्या) मुझ तिरश्च्य की (हवम्) स्तुतिको (श्रुधि) सुनो और सुनकर तुम (सुवीर्यस्य) श्रेष्ठ वीरता वा श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त (गोमतः) गौ आदि पशु सहित (मयः) धन देकर (पूधिं) हमें पूर्ण करो (महान् असि) तुम सब देवताओं से गुणवान् हो ॥ ५ ॥

असावि सोम इंद्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि ।
आत्वा पृणक्त्विन्द्रियच्छं रजः सूर्यो न रश्मिभिः

(इंद्र) हे इंद्र (ते) तुम्हारे नामत्त (सोमः) सोम (असावि) संपादन किया गया (शविष्ठ) हे परमवली ! (धृष्णः) हे शत्रुओंका निरस्कार करने वाले (आगहि) इस देवयजन के स्थान में आओ (सूर्यः, रश्मिभिः, रजः, न) जैसे सूर्य किरणों से अन्तरिक्षको पूर्ण करता है, तैसे (इन्द्रियम्) सोमपान से उत्पन्न हुई बड़ीभारी शक्ति (त्वा) आयेद्वए तुम्हें (आपृणक्तु) पूर्ण करें ॥ ६ ॥

ऐंद्र याहि हस्तिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥

(इंद्र) हे इंद्र (कण्वस्य) कण्वकी (सुष्टुतिम्) श्रेष्ठ स्तुति के समीप (हरिभिः) अश्वों के द्वारा (उपायाहि) आइये (अमुष्य) इस के (दिवः) द्युलोक के (शासनः) शासन करने पर, हम सुख पाते हैं (दिवावसा) हे दीन हविवाले इंद्र ! (दिवम्) स्वर्ग को (यय) जाइये ॥ ७ ॥

आत्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः ।

अभि त्वा समनूपत गावां वत्सं न धेनवः ॥८॥

(गिर्वणः) वेद मंत्रों से स्तुति करने योग्य हे इंद्र ! (सुतेषु) सोम रसांका संपादन होने पर (गिरः) हमारी स्तुतिकी वाणियों (रथी-रिच) जैसे रथों रथों जाकर वीरों के पहुँचने योग्य स्थानपर पहुँचजाता है तैसेही (त्वा आस्थुः) शीघ्रही तुम्हारे अभिमुख पहुँचती है । हे इंद्र ! हमारी वाणियों (त्वा अभि) तुम्हारे अभिमुख होकर (वत्सं, धेनवः, गावाः न) जैसे प्रेममें जग गौएँ रंभाती हुई बछड़े की ओर को जाती है तैसे (समनूपत) तले प्रकार स्तुति करतीहैं॥८॥

एतो न्विन्द्रश्च, स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वा २ स २ शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु ६

पहिले किसी समय इंद्रने वृत्रादि असुरों का वध करके समझा कि—मैं ब्रह्महत्या आदि के दोष से लित होगया हूँ और उस दोषकी

दूर करन के लिये इन्द्रने ऋषियोंसे कहा, कि—तुम मझै अपने सामसे शुद्ध करो, तब ऋषियोंने सामसे शुद्ध किया, फिर उस पवित्र हुए इंद्रको यज्ञादि कर्म में साम आदि हविदिया, यह तत्त्व शाठ्यायनक ब्राह्मण में कहा है, यही विषय इस मंत्रसे सूचित होता है। ऋषियोंने परम्पर कहा, कि—(नु, एत, उ) शीघ्र ही आश्रा और आकर (शुद्धेन, साम्ना) शुद्ध करनेवाले सामके द्वारा (शुद्धः, उक्थैः) तथा शुद्ध करनेवाले मंत्ररूप शस्त्रों से (शुद्धम्) शुद्ध हुए इन्द्रकी (स्त्वाम) स्तुति करे, तदनन्तर (वावृध्वंसम्) पापरहित होने के कारण बड़े हुए उस इंद्रको (शुद्धः) स्तोत्रों से (आशीर्वात) गोबुग्धादि संसस्कार किया हुआ सोम (ममत्तु) आनन्ददायक होय ॥ ६ ॥

यो रयिं वो रयितमो यां युम्नेद्युम्नवत्तमः ।

सोमः सुतः स इंद्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ १० ॥

(इन्द्र) हे इंद्र (यः) जो (रयितमः) अत्यन्त धनवान् है (यः) जो (युम्नेः) प्रकाशवान् यज्ञोंमें (युम्नवत्तमः) परमयशस्वी है (सः) वह (सोमः) सोम (वः) तुम्हारे उपासकों को (रयिम्) धन देता है (स्वधापते) हे सोमरूप अन्नकेपालक इन्द्र! (सुतः) अभिपुत्र होनापर वह सोम (ते) तुम्हारा (मदः) मदकारी (अस्ति) होता है ॥ १० ॥

तृतीयध्यायस्य द्वादश खण्डः, तृतीयाध्यायस्य समाप्त ॥

चतुर्थ अध्याय

प्रत्यस्मै पिपीपते विश्वानि विदुषे भर ।

अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥ १ ॥

हे अर्ध्रयों (नरः) कर्ममें नेता तुम (अस्मै) इस (पिपीपते) सोमको पीनेकी इच्छा करनेवाले (विश्वानि) सकल जाननेयोग्य घस्तुओंको (विदुषे) जाननेवाले (अरङ्गमाय) ठीक २ पहुँचनेवाले (जग्मये) यज्ञोंमें जानेवाले (अपश्चादध्वने) सबसे आगे पहुँचनेवाले इन्द्रको (प्रति भर) सोम अर्पण करो ॥ १ ॥

आ नो वयोवयःशयं महांतं गह्वरेष्ठां महान्तं

पूर्विनेष्ठाम् । उग्रं वचो अपावधीः ॥ २ ॥

(वयस्य) हे मित्ररूप इन्द्र (अयम्) ऐसा नू (महान्तम्) बहुत

से (गृहरेष्टम्) पर्वतकी गुफामें वर्त्तमान (नः) हमारे (वयः) सोमरूप अन्नको (आ हर) लाकर (महान्तम्) बहुतसे (पूर्विनेष्टाम्) पहिलेही संसारमें वर्त्तमान (उग्रम्) भृश व्यासके कारण भयानक (वचः) हमारे वचनको (अपावधीः) नष्ट करो अर्थात् हमें देव-योनिमें पहुँचाओ ॥ २ ॥

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्त्तयामसि ।

तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम् ॥३॥

(शविष्ठ) हे परमशक्ती इन्द्र ! (ऊतये) अपनी रक्षाके लिये (सुम्नाय) सुखके लिये (रथं यथा) जैसे रथको भ्रमण कराते हैं तैसे (तुविकूर्मिमृ) विचित्रपराक्रमी (मृतीषहम्) हिंसकोंका निरस्कार करनेवाले (सत्पतिम्) सज्जनोंके पालक (त्वा इन्द्रम्) तुम इन्द्रको (वर्त्तयामसि) भ्रमण कराते हैं ॥ ३ ॥

स पूर्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे ।

यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे ॥४॥

(सः) वह इन्द्र (पूर्यः) मुख्य (महोनाम्) पूज्य यजमानोंके (क्रतुभिः) यज्ञोंके द्वारा (वेनः) उनके हवियों को चाहता हुआ (आनजे) आता है (यस्य) जिस इन्द्रके (द्वारा) प्रातिके उपाय रूप (धियः) क्रमोंको (देवेषु-पिता) देवताओंमें सबका पालक (मनुः) मनु (आनजे) प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वाम् ।

पिबंतो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥५॥

(यदि) जिस यज्ञमें (रथेषु) रथोंमें (भ्राजमानाः) दीप्यमान (आशवः) शीघ्रगामी तुम्हारे मरुत (आवहन्ति) तुम्हें अभिमुख करके पहुँचाते हैं (तत्र) तिस यज्ञमें (मदिरम्) मदकारी (मधु) रसीले सोमको (पिबन्तः) पीतेहुए (श्रवांसि) अन्नोंको (कृण्वते) वृष्टि के द्वारा उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसरूपतिम् ।

इन्द्र विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम् ॥६॥

हे ऋत्विक् यजमानो ! (पः) तुम्हारे अथ (त्वम्) उनही (अप्रह-
रणम्) भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाले (श्रवस्यः) बलके (पतिम्)
पालक (विश्वासाहम्) सकल शत्रुओंके विरस्ताप देनेवाले (नग्म्)
मेता (शचिष्ठम्) यज्ञादि फर्में स्थित (विनमरन्म्) विषय ही है
धन जिनका ऐसे इन्द्रकी (गृणीषे) स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥

दधिक्रावणां अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः।

सुरभि नो मुखा करत्प्र न आयुःप्रितारिपत् ७

(जिष्णोः) जलशील (अश्वस्य) अश्वरूपधारी (वाजिनः) देववान्
(दधिक्रावणः) दधिक्रावणा नामक अग्निदेवताकी स्तुतिज्ञो (अकारि-
षम्) करता है वह अग्निदेव (नः) हमारी (मुखा) सुरा आदि इन्द्र-
योंको (सुरभि) शक्तिसम्पन्न (करत्प्र) करे (नः) हमारे (आयु-
ःप्रि) आयुओंको (प्रतारिपत्) बढ़ावे ॥ ७ ॥

पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत ।

इंदो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः॥८॥

(इन्द्रः) यह इन्द्र (पुराम्) शत्रुओंके नगरोंका (भिन्दुः) तोड़ने
वाला (युवा) सदानरण (कविः) बुद्धिमान् (अमितौजा) पर-
मवली (विश्वकर्मणः) सकल कामकाण्डका (धर्ता) पोषणकर्ता
(वज्री) यजमानकी रक्षार्थ सदा वज्र धारण करनेवाला (पुरुष्टुतः)
अनेकोंसे स्तुति किया हुआ (अजायत) हुआ ॥ ८ ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः

प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्दद्दीरायेन्दवे ।

धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १ ॥

हे अश्वर्यु आदिकों ! (वः) तुम (त्रिष्टुभम्) तीनों स्तोत्रोंमें युक्त
(इषम्) अन्नकी (वन्दद्दीराय) वीणोंकी प्रशंसा करनेवाले (इन्दवे)
इन्द्रके अर्थ (प्रप्र) पढ़े आओ, और वह इन्द्र (वः) तुम्हें (मेधसा-
तये) यज्ञानुष्ठानके निमित्त (पुरन्ध्या) परमप्रज्ञायुक्त (धिया) कर्म
से (आविवासति) परिचर्या करना है अर्थात् इच्छित फल देकर
तुम्हारा सन्कार करता है ॥ १ ॥

कश्यपस्य स्वर्विदो यायाहुः सयुजाविति ।

ययोर्विश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥२॥

(करग्रपस्य) सर्वज्ञ इन्द्रके (योः) के अर्थ हैं (ययोः) जिन अश्वों का (विश्वम्, अपि) सबती (व्रतम्) कर्म (यज्ञम्) यज्ञके प्रति है (इति) ऐसा (निचाय्य) निश्चय करके (यद्युजौ) साथही जोड़े जाते हैं ऐसा (स्वविदः) स्वर्गको पानेवाले (धीराः) पुरुष (आहुः) कहते हैं ॥ २ ॥

अर्चत प्रार्चत नरः प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चतु पुत्रका उत पुरमिद् धृष्णवर्चत ॥ ३ ॥

(नरः) हे कर्मों के नेता अश्वर्षु आदिकों ! तुम (अर्च) इन्द्रकी पूजा करो (प्रार्चत) विशेषरूप से पूजा करो (प्रियमेधासः) हे यज्ञके प्रेमियों (अर्चत) पूजा (उत) और (पुत्रकाः) हे पुत्रों ! (पुरमिद्) मत्तो के मनोरथों को अर्चण ही पूर्ण करनेवाले (धृष्णु) शत्रुओंको धमकानेवाले इन्द्रको (अर्चन्तु अर्चत) बारबार पूजन करो ॥ ३ ॥

उक्थमिन्द्राय शशंस्यं वर्धनं पुरुतिःपिधे ।

शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्सस्येषु च ॥ ४ ॥

(पुरुतिःपिधे) अनेकों शत्रुओंको नाश करनेवाले (इन्द्राय) इन्द्र के अर्थ (वर्धनम्) वृद्धिका साधन (उक्थम्) मंत्ररूप शस्त्र (शक्रः) इन्द्र (नः) हमारे (सुतेषु) पुत्रोंके (च) और (सस्येषु) मित्रों के (यथा) जिसप्रकार (रारणत्) अन्यन्तशब्द करके, तिसप्रकार (शस्यम्) प्रशंसा करने योग्य है ॥ ४ ॥

विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः ।

एवैश्च चर्पणीनामूती हुवे रथानाम् ॥ ५ ॥

(विश्वानरस्य) शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करनेवाले (अनानतस्य) शत्रुओं से न नमनेवाले (शवसः) बलके (पतिम्) स्वामी इन्द्रको हे मत्तो ! (वः) तुम्हारे (चर्पणीनाम्) सैनिकोंके (एवैः) गमनो सहित (रथानाम्) रथोंकी (ऊती) रथा के निमित्त (हुवे) आह्वान करना है ॥ ५ ॥

सघा यस्ते दिवो नरोधिया मर्त्तस्य शमतः ।

उती सबृहतो दिवो द्विषा अथं हो न तरति ६

(शमतः) कर्मानुष्ठान सं शान्त अपने मार्गमें चलनेवाले (मर्त्तस्य) मनुष्यों में (दिवः) द्योतन आदि गुणयुक्त (ते) तुम्हारा (धिया) स्तुति करनेसे (नरः) मनुष्य (सखा) स्तोता होता है (सः) वह मनुष्य (यः) जो (बृहतः) महान् (दिवः) प्रकाशवान् तुम्हारी (ऊती) रक्षासे (द्विषः) शत्रुओंको (अहां न) पापकी समान (तरति) लोथजाता है ॥ ६ ॥

विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो ।

अथा नो विश्वचर्षणे युम्नं सुदत्रमं हय ७

(शतक्रतो इन्द्र) हे विचित्रपराक्रमी इन्द्र ! (विभोः) बहुतसे (राधसः) धनका (ते) तुम्हारा (रातिः) दान (विभ्वी) बड़ाभारी है (अथ) इस कारण (विश्वचर्षणे) सबको दृष्टा (सुदत्र) मङ्गलमय दान करनेवाले हे इन्द्र ! (नः) हमें (युम्नम्) धन (महय) दी-जिये ॥ ७ ॥

वयश्चिने पतत्रिणो द्विषाच्यतुप्पादर्जुनि ।

उपः प्रारन्नृतं रनु दिवो अन्तभ्यस्परि ॥ ८ ॥

(अर्जुनि उपः) हे शुभ्रवर्ण उपा देवते ! (ते) तेरे (ऋतुन अनु) सर्वत्र प्रकाशरूप गमनके अनन्तर (द्विषात्) मनुष्य आदि (चतुप्पाद्) गों आदि (पतत्रिणः) पतनोंवाले (वयश्चिने) पत्नीभी (दिवः) अन्त-भ्यः) आकाशके प्रान्तोंसे (परि) ऊपर (प्रारन्नृतः) यथच्छ विचरते हैं ॥ ८ ॥

अर्म ये देवा स्थन मध्य आ राचने दिवः ।

कह्व ऋतं कदमृतं का प्रत्ता व आहुतिः ॥ ९ ॥

(देवाः) हे इन्द्रादि देवताओं ! (ते) जो (अमी) यह तुम (दिवः) दीप्त सूर्यके (आरोचने) प्रकाशित होनेपर (मध्ये) अन्तरिक्षलोक में (स्थन) होते हो देसे (वः) तुम्हारे स्तोत्रके विषय का (ऋतम्) सत्य (कत्) कहां है (अर्नतम्) अनृत (कत्) गों है (वः) तुम्हारी (प्रत्ता) पुगतन (आहुतिः) आहुति (का) कौनसी है अर्थात् तुम्हारा दान क्या हुआ ? ऐसे दुःखके अनुभव से मुझे अनुमान होता है कि-मेरे किये हुए यज्ञ तुम्हें प्राप्त नहीं हुए ॥ ९ ॥

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते ।
वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ १० ॥

होता और उद्गाता (याभ्याम्) जिन ऋक् और सामसे (कर्माणि) स्तोत्र आदि कर्मानुष्ठान (कृण्वते) करने हैं (ऋचं साम) उस ऋचा और सामका (यजामहे) हम पूजन करते हैं (ते) वह ऋक् साम (सदसि) ऋत्विक्षमसामे (विराजतः) स्तोत्रादिग्रन्थों में प्रकाशित होते हैं (देवेषु) इन्द्रादि देवताओं में (यज्ञम्) यज्ञीयभागको (वक्षतः) पहुँचाने हैं ॥ १० ॥

चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः खण्डः समाप्तः ।

विष्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजुस्ततक्षु
रिन्दं जजनुश्च राजसे । ऋत्वे वरे स्थेमन्यां
मुग्मिमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम् ॥ १ ॥

(विष्वाः) बहुतसी फैली हुई (नरः) यदाई करनेवाली (पृतनाः) सेनाएं (सजुः) परस्पर इकट्ठी होकर (अभिभूतरम्) शत्रुओं का अन्यत्त निरस्वार करनेवाले (इन्द्राः) इन्द्रको (ततक्षुः) आयुधवाला कानी हुई (च) और स्तोत्रा (राजसे) अपने प्रकाशक अर्थ, सूर्यान्ना इन्द्रको (जजनुः) स्तोत्र आदिके द्वारा अपने दक्षमें प्रकट करते हुए (उग्र) और (ऋत्वे) अपने वृत्रवध आदि कर्मक अर्थ (वरे) श्रेष्ठ (स्थेमनि) स्थिर स्थानपर स्थित (आसुरम्) अशुरोंकी राजनेवाले (उग्रम्) तीव्रस्व स्वर (आजिष्ठम्) परमनेजस्वी (तरसम्) बली (तरस्विनम्) यज्ञताप इन्द्रकी धनसाधिके लिये स्तुति करते हैं ॥१॥

अने दक्षानि प्रथमाय मन्यन्तेऽहन्यदस्युं
नर्यं विधरपः । एतं यत्त्वा रोदसी धावता-
मनुभ्यजान्ते अजमात्पृथिवी चिदादिवः ॥२॥

(अहिन) ने दक्षानि रत्न ! (ते) तुम्हारे (प्रथमाय) मुख्य (मन्यन्ते) जो भयो (अहन्यदस्युं) धरता करते हैं (यतः) जिस कोपसे (दस्युम्) कर्मोंके विधरपों अशुरको (अहनः) मारा (नर्यम्) निःशेषभाषसे उन्मत्ता वध करके (अपः) भेदोंमें दकेहुए जलों को

(दिवेः) इस लोकमें पहुँचाया (यन्) जब (उभे) दोनों (गेदकी)
यावापृथिवी (त्वां अनुधावताम्) तुम्हारे अधीन होने हैं, उससमय
(पृथिवीचिन्) विस्तारवाला अन्तर्गित भी (ते) तुम्हारे (शुष्मा-
न्) बजमें (+यन्नात्) अयमीत होता है ॥ २ ॥

समेत विश्वा श्राजसा पतिं देवो य एक इन्द्र-
रतिथिर्जनानाम् । स पूर्वो नूतनमाजिगीषं
तं वर्तनीरनु वावृत एक इत् ॥ ३ ॥

(विश्वाः) हे सकल प्रजाओं ! (दिवः) स्वर्ग के (श्राजसा ,
यनव (पतिम्) स्वामी इन्द्रका (समेत) स्तोत्र और हविसे मत्ते-
प्रकार प्राप्त होआ (यः) जो इन्द्र (एक इत्) अकेला ही (जनानाम्)
यजमानोंका (अतिथि) अतिथिका समान प्रिय (भूः) होता है
(पूर्व्यः) पुरातन (नः) वह इन्द्र (आजिगीषन्तम्) अपने शत्रुओं
का जीतनेकी इच्छा करनेवाले (नूतनम्) इस समयके स्तोताओं
(एक इत्) एक ही (वर्तनीः) विजयके मार्ग पर (अनुवावृते)
चलाता है अर्थात् विजय कराता है ॥ ३ ॥

इमे न इन्द्र ते वयं पुरुषृत ये त्वारभ्य
चरामसि प्रभूवसो । न हि त्वदन्यो गिर्वणो
गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति नद्वय सो वचः । ४ ।

(प्रभूवसो) अति प्रभूतवर्ण (पुरुषृत) अनेकों यजमानोंमें स्तुति
किये हुए (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ये) जो हम (त्वारभ्य) तुम्हारा
आश्रयकारमें आलम्बन करके (चरामसि) यजमें प्रवृत्त होते हैं (ते-
इमे वयम्) वह हम (ते) तुम्हारे हैं (गिर्वणः) हे मंत्रोंमें स्तुति
करनेयोग्य ह इन्द्र ! (त्वदन्यः) तुझमें अन्य कोई भी (गिरः) स्तुतियों
को (न हि) नहीं (सघन्) प्राप्त होता है (तन्) तिससे (नः) हमारे
(वचः) स्तोत्रको (क्षोणीरिव) जैसे पृथिवी अपनेमें उत्पन्न हुए
प्राणिमात्रको स्वीकार करती है तैसे (प्रतिद्वय) स्वीकार करिये ॥ ४ ॥

चर्षणीधृतं सघवानमुक्थ्या ३ मिन्द्रं गिरो

बृहतीरभ्यनूपत । वावृधानं पुरुहूतथ
सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवे दिवे ॥ ५ ॥

(बृहतीः) बृहती (गिरः) हमारे स्तोत्रकी वाणियों (चर्पणी-
धृतम्) इच्छित फल देकर मनुष्योंके पोषण करनेवाले (मघवानम्)
धन वा यज्ञवाले (उक्त्यं) प्रशमनीय (वावृधानम्) बल धन आदि
सम्पदासे प्रतिक्षण बढ़नेवाले (पुरुहनम्) अनेकोंके पुकारेहुए (अ-
मर्त्यम्) अमर (सुवृक्तिभिः) सुन्दर स्तुति वाक्योंसे । दिवे दिवे
जरमाणम्) प्रतिदिन स्तुति कियेहुए (इन्द्रम्) इन्द्रको (अभ्यनूपत)
सब ओर से स्तुति करो ॥ ५ ॥

अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वर्युवः सधीचीर्वि-
श्वा उशतीरनूपत । परि प्वजन्त जनयो
यथा पतिं मर्यं न शन्ध्यं मघवानमूनये ॥ ६ ॥

(यथा) जैसे (जनयः) स्त्रिये (मर्यं पतिम्) मनुष्य पति को (न) और
जैसे (शन्ध्यम्) शुद्ध दोषरहित (मघवानम्) मघवाज को (जनये)
रक्षाके लिये (परिष्वजन्त) आलिंगन करना है जैसे (स्वर्युवः)
स्वर्गसे मिलनेवाली (सधीचीः) इन्द्रकी हुई (विश्वाः) व्याप (उशतीः)
कामना करती हुई (मतयः) स्तुति (इन्द्रम्) इन्द्रको (अच्युत-
नूपत) चारों ओरसे स्तुति करती है ॥ ६ ॥

अभि त्यं मेपं पुरुहूतसृष्टिमयमिन्द्रं गीर्भिस-
दता वस्वो अर्णवम् । यस्य द्यावो न विच-
रन्ति मानुषं भुजे मथं हिष्टमभि विप्रमर्चन ७

(त्यम्) प्रसिद्ध (मेपम्) शत्रुओंके स्वर्धा करनेवाले (पुरुहूतम्)
अनेकों यज्ञमानोंके पुकारेहुए (सृष्टिमयम्) वेदमन्त्रोंसे रचिता स्तुति
(वस्वो अर्णवम्) धनोंके निवासस्थान इन्द्रको है स्तोत्राश्री (गीर्भिः)
स्तुतियोंसे (अभिमदत) अभिवृत्त होकर प्रसन्न करो (यस्य) जिस
इन्द्रके (मानुषम्) मनुष्योंके हितकारी कर्म (द्यावः न) सबकी
हितकारी सूर्यकी किरणोंकी समान (विचरन्ति) विशेषरूपसे वर्त-
मान होते हैं (भुजे) भोगके निमित्त (महिष्टम्) अत्यन्त बढ़ेहुए
(विप्रम्) मेधावी इन्द्रको (अभ्यर्चन) पूजा ॥ ७ ॥

त्यश्च सुमेपं महया स्वर्विदंश्च शतं यय
सुभैवः साकमीरते । अत्यं न वाजश्च हवनस्य-
दृष्टं रथमन्द्रं वदत्यामवसे सुवृत्तिभिः ॥ ८ ॥

(यस्य) जिसकी (सुभैवः) श्रेष्ठ भूमिसे (साकम्) साथ(ईरते)
प्राप्त होती है (त्यम्) उस (मेपम्) सबुझोंसे स्पर्धा करनेवाले (स्वर्वि-
दम्) धनके दाता (रथम्) रथकी समान अभीष्टस्थान पर पहुँचाने
वाले (अत्यं वाजं) गमन के साधन घोड़ेकी समान (हवनस्यदम्)
यागस्थान से शीघ्रता से पहुँचानेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (शवले) रक्षा
के लिये (सुवृत्तिभिः) श्रेष्ठ स्तुतियों से (महयम्) पूजा (शतम्) सौ
(आवृत्त्याम्) प्रदत्तियाँ करता है ॥ = ॥

घृतवती भुवनानामभिधियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे
सुपेशसा वावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा
विष्कमिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ९ ॥

(वावापृथिवी) द्युलोक और पृथ्वी लोक (घृतवती) जलवाले
(भुवनानाम्) भूतोंके (अभिधिया) आश्रय करने योग्य (ऊर्वा)
विस्तीर्ण (पृथ्वी) बहुत कार्यरूप से प्रसिद्ध (मधुदुधे) जल को
पूजित करनेवाले (सुपेशसा) सुन्दररूपवाले (वरुणस्य) ईश्वरकी
सर्वनियामक शक्तिके (धर्मणा) धारण करनेसे (विष्कमिते) ठहरे
हुए (अजरे) निम्न (भूरिरेतसा) बहुत बीजवाले हैं ॥ ९ ॥

उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव ।

महान्तं त्वा महीनाश्च सम्राजं चर्षणानाम् ।

देवी जनित्र्यजीजनद्द्रा जनित्र्यजीजनत् १०

(इन्द्र) हे इन्द्र (उभे रोदसी) वावापृथिवी दोनोंको (यन्) जो
तुम (उपा इव) जैसे उपा अपने प्रकाशसे सब जगत् को पूर्ण कर-
देती है तैसे (आपप्राथ) अपने तेजसे पूर्ण करने हो ऐसे (महताम्)
देवताओंके भी (महान्तम्) बड़े (चर्षणानाम्) मनुष्योंके (सम्रा-
जम्) ईश्वर (इन्द्रम्) इन्द्र (त्वा) तुम्हें (देवी जनित्रां) देवमाता अदिति

देवी (अजीजनत्) उत्पन्न करती हुई. (अजीजनत्) ऐसे पुत्रको उत्पन्न करती हुई उसकारण वह (भद्रा) श्रेष्ठ (जनित्री) जननी है ॥ १० ॥

प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा
निरहन्त्यजिश्वना । अस्यवो वृषणं वज्रद-
क्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि ॥ ११ ॥

हे ऋत्विजों ! (मन्दिने) स्तुति के योग्य इन्द्रके अर्थ (पितुमत्) हविरूप अन्नसे युक्त (वचः) स्तुतिको (प्राचक्ष) अधिकतासे उच्चारण करो (यः) जिस इन्द्रने (ऋजिश्वना) ऋजिश्वाको साथ लेकर (कृष्णगर्भाः) कृष्णनामा असुर की गर्भवती स्त्रियोंको (निरहन) कृष्णासुर सहित निःशेषरूपसे मारदियो (अस्यवो) रक्षा भी इच्छावाले हम (वृषणम्) मनोरथों की वर्षा करनेवाले (वज्रदक्षिणम्) दाहिने हाथ में वज्रधारी (मरुत्वन्तम्) इन्द्रको (सख्याय) भिक्षुकी समान अनुकूलता करने के लिये (हुवेम) बुलाते हैं ॥ ११ ॥

चतुर्थोऽध्यायस्य तृतीयः खण्ड समाप्तः ॥

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम् ।
विदे वृधस्य दक्षस्य महान्हि षः ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (सोमेषु सुतेषु) सोमोंके निष्पन्न होनेपर उनको पीकर (वृधस्य) वर्धक (दक्षस्य) बलके (विदे) लाभार्थ (क्रतुम्) कर्मकर्ताको (उक्थ्यम्) स्तोताको भी (पुनीषे) पवित्र करतेहो (षः) वह तुम इन्द्र (महान्हि) अचश्य ही महान् हो ॥ १ ॥

तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ।

इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ २ ॥

हे स्तोताओं ! (पुरुहूतम्) अनेकोंके पुकारेहुए (पुरुष्टुतम्) बहुतोंके स्तुति कियेहुए (तमु) उस इन्द्रकी ही (प्रगायत) अभिमुख होकर बारबार स्तुति करो (तविषम्) महान् इन्द्रकी (गीर्भिः) मंत्रों से (आविवासत) आराधना करो ॥ २ ॥

तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम् ।

उलोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम् ॥ ३ ॥

(अद्रिवः) हे वज्रधारी इन्द्र (ने) तुम्हारे (तम्) उस (वृषणम्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले (पृञ्चु) वैरिसम्बन्धी मन्त्रामोने (साम-हिम्) शत्रुओंका निरस्कार करनेवाले (लोककृत्नुम्) लोकोंके कर्त्ता (उ) और (हरिश्रियम्) हरिनामक अश्वों के सेवनीय (मदम्) सोमपानजनित हर्षको (गृणीमसि) प्रशंसा करते हैं ॥ ३ ॥

यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये ।

यद्दामरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ४ ॥

(इद्) हे इद् (विष्णवि) विष्णुके सोमपान के निमित्त आने पर दूसरे के यागमें (यत्) यद्यपि (सोमम्) सोमको पीनेके (यद्वा) और यद्यपि (आप्त्ये त्रिते) आतके पुत्र त्रितके यज्ञमें सोम पीते हां (यद्वा) और यद्यपि (मरुत्सु) मरुतों के सोमपानके निमित्त आने पर अन्यके यज्ञमें (मन्दसे) साम पीकर प्रसन्न होतेहो तथापि हमारे ही (समिन्दुभिः) श्रेष्ठ सोमोंसे प्रसन्न हूजिये ॥ ४ ॥

एदु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्यसः ।

एवाहि वीरस्तवत सदावृधः ॥ ५ ॥

(अध्वर्यो) हे यज्ञ के नेता ऋत्विक् ! (मधोः) मदकारी (अन्यसः) सोमके (मदिन्तरम् इत्) अत्यन्त आनन्द देनेवाले सोमरस को ही (आसिञ्च) इन्द्रके निमित्त टपकाओ (वीरः) समर्थ (सदावृधः) सर्वदा हवियोंसे बढ़ानेयोग्य यह इन्द्र (एव) ही (स्तवते हि) स्तोत्रादि से स्तुत कियाजाता है ॥ ५ ॥

एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सोम्यं मधु ।

प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ ६ ॥

हे ऋत्विजों ! (इन्दु) टपकनेवाला सोम (इन्द्राय) इन्द्र के अर्थ (आसिञ्चत) अभिमुख होकर सींचो, तदनन्तर (सोम्यम्) सोम-मय (मधु) मदकारी रसको (पिवाति) इन्द्र पियै और पीकर वह इन्द्र (महित्वना) अपनी महिमासे (राधांसि) अन्न (प्रचोदयते) स्तुति करनेवालों को अधिकतासे देय ॥ ६ ॥

एतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम् ।

कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्यंक इत् ॥ ७ ॥

(सखायः) हे मित्ररूप ऋत्विजा ! (इत्) शीघ्र हो (एत)
आओ (स्तोम्यम्) स्तोम के योग (नरम्) अर्थात् नेता (नम्) उस
इन्द्र की (स्तवाम) स्तुति कर (इत्) जो इन्द्र (एक पद्य) अकेला
हो (विश्वाः) सकल (कृष्टीः) शत्रु (कृष्टीः) का (अभ्यस्ति)
तिरस्कार करता है ॥ ७ ॥

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।

ब्रह्मकृते विपश्चिने पत्नस्यवे ॥ ८ ॥

हे उद्गामायों ! (विप्राय) भेषजी (बृहते) महान् (ब्रह्मकृते)
अन्न के कारक (विपश्चिने) विप्रा (पत्नस्यवे) स्तुति चाहनेवाले
(इन्द्राय) इन्द्र के अर्थ (बृहत्) उन्मत्तको (गायत) गाओ ॥८॥

य एक इद्विदयते वसु मर्त्याय दासुषे ।

ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९ ॥

(य) जो इन्द्र (एक इन्द्र) अकेला ही (दासुषे) हवि समर्पण
करनेवाले (मर्त्याय) मनुष्यके अर्थ (वसु) धन (विदयते) विशेष
रूपसे देता है (अप्रतिष्कृतः) प्रतिकूलशब्दरहित वह (इन्द्रः) इन्द्र
(अङ्ग) शीघ्र (ईशानः) सब जगत्का स्वामी होता है ॥ ९ ॥

सखाय आशिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे ।

स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे ॥ १० ॥

(सखायः) हे मित्ररूप ऋत्विजों ! (वज्रिणे) वज्रधारी इन्द्र के
अर्थ (ब्रह्म) स्तोत्रको (आशिषामहे) प्रार्थना करते हैं (वः) तुम
सबोंके ही निमित्त (नृतमाय) सर्वोपरि नेता (धृष्णवे) शत्रुओंको
भय देनेवाले इन्द्रके अर्थ मैं ही (सुस्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तमं खण्डं समाप्तं

गूणे तदिन्द्र ते शत्रु उपमां देवतातये ।

यद्धसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे (तत् शवः) प्रसिद्ध बलकी (उपयाम्) समीप में (देवतातये) यजमान वा यज्ञके निमित्त (गृणे) स्तुति करना हूँ (यत्) क्योंकि (शचीपते) हे इन्द्र ! (ओजसा) बलसे (वृत्रम्) वृत्रको (हंसि) नष्ट करने हो ॥ १ ॥

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन् ।

अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! तुम (यस्य) जिम्मे सोमके (मदे) पीनेसे हर्ष उत्पन्न होनेपर (त्यत्) उस (शम्बरम्) शम्बरानुरको (दिवोदासाय) दिवोदास के अर्थ (रन्धयन्) मारतेहो (सः) वह (अयम्) यह (सोमः) सोम (ते) तुम्हारे निमित्त (सुतः) सम्पादन किया है इसकारण तुम (पिव) पियो ॥ २ ॥

एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य ।

गिरिर्न विश्वतः पृथुः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥

(प्रिय) सबके प्रिय (सत्राजिन्) शत्रुओंको जीतनेवाले (अगोह्य) जिनका कोई भी तिरस्कार न करे (इन्द्र) हे इन्द्र ! (गिरिर्न) पर्वतकी समान (विश्वतः) सब शीघ्रसे (पृथुः) बटे (दिवः) स्वर्गके (पतिः) ईश्वर भी तुम (नः) हमारे समीप (आगति) आउये ॥ ३ ॥

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ट चेतति ।

येना हंसि न्याश्रितो तमीमहे ॥ ४ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (यः) जो तुम (सोमपातमः) अधिकतारसे सोम पीनेवाले हो (शविष्ट) हे पशुबली ! उन सोम पीनेवाले तुम्हारा जो (मदः) मद (चेतति) पृथक्पृथक् अति कारीके करणको जानता है (येन) जिस सोम पीनेके मदसे (अत्रियम्) राक्षसादिगो (निहन्सि) दुर्गति पृथक् मारते हो (तम्) तुम्हारे उक्त मदकी (इमहे) शर्यना करने हे ॥ ४ ॥

तुचे तुनाय तत्सु नो दाधीय आयुर्जीवसे ।

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ ५ ॥

(सुमहसः आदित्यासः) हे श्रेष्ठ नेजवाले अत्रिजिह्वा पुत्र देवताओं ! (नः) हमारे (तुचे) पुत्रके अर्थ (तुनाय) पौत्रके अर्थ (जीवसे)

जीवनके अर्थ (दाघीयः) बड़ी (तत्) प्रसिद्ध (आयुः) आयु (सु
कृणोतन) शोभन प्रकारसे दो ॥ ५ ॥

वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम् ।

अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६ ॥

(वज्रहस्त) हे वज्रधारी इन्द्र (निऋतीनाम्) विघ्नकर्ता राज-
सोंके (परिवृजम्) दूर करनेको (वेत्था हि) तुम ही जानते हो,
इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि—(अहरहः) प्रतिदिन (शुन्ध्युः) सूर्यो
दय होनेपर ब्राह्मण अपने कर्मको करके शुद्ध होते हैं ऐसा शुद्धिका
हेतु आदित्य (परिपदां इव) चारों ओर उड़नेवाले पक्षियोंका जैसे
अर्थात् जैसे प्रतिदिन सूर्यका उदय होनेपर पक्षी अपने स्थानको
त्यागकर चारों ओरको चलेजाते हैं तैसेही हे इन्द्र ! तुम्हारे बलका
प्रकाश होनेपर शत्रु अपने नगरोंको त्याग कर भागजाते हैं ॥ ६ ॥

अपामीवामपस्त्रिधमपसेधत दुर्मतिम् ।

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ ७ ॥

(आदित्यासः) हे आदित्यो ! (अपमीवाम्) रोगको (अपसेध-
त) हमारे समीपसे हटाओ (स्त्रिधम्) वाधा देनेवाले शत्रुको (अप)
हमसे दूर करो (दुर्मतिम्) हमें दुःख देना विचारनेवालेको (अप)
हमसे दूर करो (नः) हमें (अंहसः) पापसे (युयोतन) अलग
करो ॥ ७ ॥

पिवा सोमामिन्द्र मन्दतु त्वा यन्ते सुपाव हर्य-

श्वादिः । सोतुर्वाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (सोमम्) सोमको (पिवा) पियो, वह सोम
(त्वा) तुम्है (मन्दतु) आनन्द देय (हर्यश्व) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे
निमित्त (सोतुः) सोम संपादन करनेवाले की (वाहुभ्याम्) रस्मि-
योंसे (नार्वा न) घोड़ा जैसे (सुयतः) सुन्दरताके साथ ग्रहण क्रि-
याहुआ (अयम्) यह (अदिः) पापाण (सुपाव) सोमको संपा-
दित करता हुआ ॥ ८ ॥ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चम खण्ड समाप्त

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिंद्रं जनुषा सना-

दसि । युधे दापित्वमिच्छसे ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वम्) तुम (अनुषा) जन्मसे ही (अभ्रातृव्यः) शत्रुरहित (अना) नियन्तासे रहित (सनात्) सनातनसे (अनापिः) बान्धवरहित हों और जब तुम (आपित्वम् इच्छसे) किसी बान्धव की इच्छा करते हो, तब (युधेत्) युद्ध करते हुए स्तुति करनेवालोंके सखा होजाते हो ॥ १ ॥

यो न इन्द्रमिदं पुरा प्र वस्य आदिनाय
तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥

(सखायः) हे मित्ररूप ऋत्विक् यजमानो ! (वः) जो इन्द्र (पुरा) पहिले (इद्रम्) इस (प्रवस्य) श्रेष्ठ धनको (नः) हमारे अर्थ (प्रणिनाय) अधिकतासे देनाहुआ (तमु) उसही धनके लानेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (वः) तुम्हें धन प्राप्त होनेके अर्थ (ऊतये) रक्षाके अर्थ भी (स्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥

आ गन्ता मारिष्यत प्रस्थावानो माप
स्थात समन्यवः । दृढा चिद्यमयिष्णवः ॥ ३ ॥

(प्रस्थावानः) हे प्रस्थान करनेवाले मरुतों ! (आगन्त) हमारे समीप आइये (मारिष्यत) न आनेसे हमें हानि न पहुँचाइये (समन्यवः) समान तेजवाले (दृढाचित्) दृढ़ पर्वनादिकोंको भी (यमयिष्णवः) नियममें रखनेवाले हे मरुतों ! (मापस्थात) हमें त्याग कर अन्यत्र न रहो ॥ ३ ॥

आ याह्वर्यामन्देवेऽश्वपते गोपत उर्वरापते ।
सोम २ सोमपते पिव ॥ ४ ॥

(अश्वपते) हे अश्वोंके स्वामी ! (गोपते) हे गौओंके स्वामी (उर्वरापते) हे सकल अन्नोंसे भरी भूमिके स्वामी इन्द्र ! (इन्द्रवे) प्रकाशवान् आपके अर्थ (अग्म्) यह सोम प्रस्तुत किया है (आयाहि) आइये (सोमपते) हे सोमके स्वामी ! (सोमम्) सोमको (पिव) पीजिये ॥ ४ ॥

त्वया ह स्वियुजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ
ब्रुवीमहि । सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ ॥

(वृषभ) हे मनोरथ पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! (गोमतः) गौ आदि पशुधनवाले (जनस्य) भक्तके (संस्थे) स्थान वा युद्धमें (श्वसन्तम्) हमारे ऊपर अधिक क्रोध होनेके कारण श्वास लेतेहुए शत्रुको (युजा, त्वया ह, स्वित्) तुम्हारी सहायतासे ही (प्रतिब्रुवीमहि) हम उत्तर देसकेंगे अर्थात् शत्रुको हटासकेंगे ॥ ५ ॥

गावश्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मरुतः

सबन्धवः । रिहते ककुभो मिथः ॥ ६ ॥

(समन्यवः) हे समान तेजवाले मरुतों ! (गावश्च) तुम्हारीमाता रूप गौएँ भी (सजात्येन) समान जातिकी होनेसे (सबन्धवः) समान बान्धवोंवाली होतीहुई (ककुभः) पूर्वादि दिशाओंको प्राप्त होकर (मिथः) परस्पर (लिहते) चाटती हैं ॥ ६ ॥

त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णः शतक्रतो

विचर्षणे । आ वीरं पृतनासहम् ॥ ७ ॥

(शतक्रतो) विविधपराक्रमी (विचर्षणे) हे अनेकों दृष्टिवाले इंद्र (त्वम्) तुम (नः) हमें (ओजः) बल (नृम्णम्) धन (आभर) दो (वीरम्) वीरतायुक्त (पृतनासहम्) सैन्याओंका निरस्कार करने वाले तुम्हें (आ) आह्वान करते हैं ॥ ७ ॥

अधा हीन्द्रुर्गिर्वण उप त्वा काम ईमहे

ससृग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ८ ॥

(गीर्वणः) हे इंद्र ! (अधा हि) इस समय (त्वा) तुम्हारे समीप (कामः) इच्छित पदार्थोंको (ईमहे) याचना करते हैं और (उपससृग्महे) आपको स्तुतियोंसे युक्त करते हैं, इस पर दृष्टांत कहते हैं, कि- (उदेव ग्मन्तः) जैसे जलसहित जातेहुए पुरुष(उदभिः) अञ्जलिसे जल उछालकर समीपके पुरुषोंको क्रीड़ामें संयुक्त करते हैं।

सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे

विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ९ ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! (गोश्रीते) गौके दूध घी से मिलेहुए (मदिरे) हर्षदायक (विवक्षणे) स्वर्गमें पहुँचानेवाले (ते) तुम्हारे (मधौ) सोमके समीप (वयो यथा) इकट्ठे होकर बैठेहुए पक्षियोंकी समान

हम (त्वा अभि नोनुमः) तुम्हारे अभिमुख होकर वारंवार प्रणाम करते हैं ॥ ६ ॥

वयमु त्वामपूर्व्यं स्थूरं न कञ्चिद्भरन्तोऽवस्यवः
वज्रिन् चित्रं छं हवामहे ॥ १० ॥

(वज्रिन्) हे वज्रधारी (अपूर्व्यं) तीनोंसवनोमें प्रकट होनेसे नवीन इंद्र ! (भरन्तः) सोमरूप अन्नसे आपका पोषण करते हुए हम (चित्रम्) विविधरूपवाले (त्वामु) आपको ही (अवस्यवः) अपनी रक्षाके अर्थ चाहतेहुए (हवामहे) आह्वानकरते हैं (स्थूरं न) जैसे कि—अन्न आदिसे अपने घरको भरनेवाले अधिक गुणी (कञ्चिन्) किसी मनुष्यको बुलाने हैं ॥ १० ॥

चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खण्डः, समाप्त ॥

स्वादोरित्था विपूवतो मधोः पिवन्ति गौर्यः ।
या इन्द्रेण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभथा
वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ १ ॥

(स्वादोः) रसयुक्त (इत्था) इसप्रकार (विपूवतः) सब यज्ञोंमें काम आनेवाले (मधोः) मीठे सोमको (गौर्यः) स्वेतवर्णकी गौएँ (पिवन्ति) पीती हैं (याः) जो गौएँ (वृष्णा, सयावरीः) मनोरथों की वर्षा करनेवाले इन्द्रके साथ गमन करतीहुई (मदन्ति) प्रसन्न होती हैं (शोभथाः) शोभाको प्राप्त होती हैं (वस्वाः) दूध देतीहुई निवास करनेवाली वह गौएँ (स्वराज्यम् अनु) अपने स्वामीके राज्य में स्थित रहती हैं ॥ १ ॥

इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्द्धनम् ।
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहि-
मर्चन्तनु स्वराज्यम् ॥ २ ॥

(शविष्ठ वज्रिन्) हे वज्रधारी बलवान् इन्द्र ! (इत्था हि) इस प्रकार शास्त्रोक्त रीतिसे (सोमे) तुम्हारे सोमको ग्रहण करलेने पर (मदः) स्तुति करनेवाला (वर्द्धनम्) तुम्हारी वृद्धि करनेवाले (ब्रह्म) स्तोत्रको (चकार) करताहुआ, इसकारण तुम (स्वराज्यम् अनु,

अर्चन्) अपने राज्यमें अपना स्वामित्व प्रकट करनेहुए (ओजसा) बलके द्वारा (पृथिव्याः) पृथ्वीसे (अहिम्) वृत्रासुरको (निःशशाः) पूर्णरूप से शासन करा अर्थात् उसको बध न करके भूमण्डलसे निकाल दो २

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।

तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु
प्र नोऽविषत् ॥ ३ ॥

(वृत्रहा, इन्द्रः) वृत्रासुरका नाशक इन्द्र (मदाय) हर्षके लिये (शवसे) बलके लिये (नृभिः) यज्ञ हर्ताओंमें (वावृधे) बढ़ाया गया क्योंकि स्तुति करनेसे देवतामें बल आता है (तमिन्) उस ही (महत्सु) आजिपु) घडे २ संग्रामोंमें (अर्भे) छोटे संग्रामोंमें (ऊतीम्) रक्षा करनेवाले इन्द्रको (हवामहे) आह्वान करते हैं (सः) हमारा आह्वान किया हुआ वह इन्द्र (वाजेषु) स ग्रामोंमें (नः) हमारी (प्राविषत्) अधिकतासे रक्षा करे ॥ ३ ॥

इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन् वीर्यम् ।

यद्द त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीरच-
न्ननु स्वराज्यम् ॥ ४ ॥

(अद्रिवन् वज्रिन् इन्द्र) हे मेघरूप वाहनवाले वज्रधारी इन्द्र ! (तुभ्यमित्) तुम्हारी ही (वीर्यम्) सामर्थ्य (अनुत्तम्) शत्रुओंसे निरस्कृत नहीं हुई है (यद्द) जिस सामर्थ्यके द्वारा निश्चय (स्वराज्यम् अनु अर्चन्) अपने राज्यमें अपनी प्रभुता दिखातेहुए तुमने (मायिनम्) मायावी (मृगम्) मृगरूपधारी (त्यं वृत्रम्) उस वृत्रासुरको (तव मायया) अपनी मायासे ही (अवधीः) मार डाला है, इसकारण ही तुम्हारी वीरता प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥

प्रेह्यभीहि धृष्णुहि नते वज्रो नि यथं सते ।

इन्द्र नृम्णथं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अ-
पोऽर्चन्तनु स्वराज्यम् ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (प्रेहि) प्रकर्षके साथ चढ़ाई करो (अभीहि)

अभिमुख जाकर मारने योग्य शत्रुओं को पकड़लो (धृष्णुहि) उन शत्रुओंका निररकार करनेपर (ते) तुम्हारा (वज्रः) वज्र (न नियंसते) शत्रुओंसे नहीं रुकता है (ते) तुम्हारा (शवः) वल (नृस्यम्) मनुष्योंको नमानेवाला है (हि) ऐसा है इसकागणमे (स्वराज्यम् अनु अर्चन्) अपने राज्यमें ही अपनी प्रभुता दिखाने हुए (वृत्रं हनः) असुरको मारो (अपः जयाः) फिर उसके रोके हुए जलोंको जीतकरलो ५

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम् ।

युंक्ष्वा मदच्युता हरी कथं हनः कं वसौ दधो-
ऽस्माथं इन्द्र वसौ दधः ॥ ६ ॥

रहस्यका पुत्र गोतम कुरु सूजय राजाओंका पुरोहित हुआ था। उन राजाओंका शत्रुओंके साथ युद्ध होनेपर गोतम ऋषिने इस सूक्त से इन्द्रकी स्तुति करके अपने यजमानोंके विजयकी प्रार्थना करी थी, यही बात इस मंत्रमें है, कि—

(यन्) जय (आजयः) सग्राम (उदीरते) आरम्भ होते हैं उस समय (धृष्णवे) जो शत्रुओंको जीतता है उसके अर्थ (धनम्) धन (धीयते) स्थापन किया जाता है अर्थान् जीतनेवालेको धन मिलता है (इन्द्र) हे इन्द्र ! ऐसे बुद्धोंके चलनेपर (मदच्युता) शत्रुओंके गवको नष्ट करनेवाले (हरी) घोंड़ोंको (युञ्क्व) जोड़ों और (कम्) किसी अपनी आराधना न करनेवाले राजाको (हनः) मारो (कम्) किसी अपनी आराधना करनेवाले राजाको (वसौ) धनमें (दधः) स्थापन करो अर्थान् हार जान तुम ही देनेहो अतः हे इन्द्र ! हमारे राजाओंको (वसौ) धनमें (दधः) स्थापन करो ॥ ६ ॥

अक्षन्नमीमदन्त ह्रव प्रिया अधूपत ।

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती

योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (अक्षन्) यजमानोंने तुम्हारे दिये हुए अन्नोंको खाया और खाकर (हि) निश्चय (अमीमदन्त) नृम हुए (प्रियाः, अधूपत) परमोत्तम रसका स्वाद लेकर उसको कहनेमें असमर्थ हाकर उन्होंने आनन्दके कारण अपने शिर हिलाये, तदनंतर (स्वभानवः) तेजसे दिपते हुए (विप्राः) बुद्धिमान ऋषिजीने (नविष्ठया मती)

अतिनवीन स्तुतिसे (अस्तोपन) स्तुति करी, इसकारण (ते, हरी)
अपने हरि नामक घोड़ोंको (नु) शीघ्र (योज) रथमें जोड़ो ॥ ७ ॥

उपो षुशृणुही गिरो मघवन्मातथा इव । कदा
नः सूनृतावतः कर इदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र
ते हरी ॥ ८ ॥

(मघवन् इव) हे धनवान् इव ! (गिरः) हमारी स्तुतियोंको (उपो)
समीप आकर (सुशृणुहि) सम्यक् प्रकारसे सुनो (अतथा इव)
और तुम पहिले जैसे थे उसके विपरीत मतबनो अर्थात् पहिले जैसा
अनुग्रह करते थे तैसा हा करते रहिये और (नः) हमें (सूनृतावतः)
स्तुतिरूप प्यारी और सन्य वाणीसे युक्त (कदाकरः) कब करोगे,
तुम (अर्थयासइत्) हमारी की हुई स्तुतियोंको स्वीकार करते ही
हो, इसकारण (ते हरी) अपने घोड़ोंको (नु) शीघ्र (योज) अपने
रथमें जोड़ो ॥ ८ ॥

चन्द्रमा अप्स्वा३न्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं
मे अस्य रोदसी ॥ ९ ॥

(अप्सु) अन्तरिक्षमेंके जलमय मण्डलमें (अन्तः) भीतर वर्त्तमान
(सुपर्णः) सुपुम्ना नामक सूर्यकी किरणसे युक्त (चंद्रमाः) चंद्रमाः
(दिवि) द्युलोकमें (आधावते) एकसमान गतिसे शीघ्र गमन करता
है, उस चंद्रमासे सम्बंध रखनेवाली (हिरण्यनेमयः) हे सुवर्णकी
समान नोकोंवाली अथवा हित और रमणीय प्रांतवाली (विद्युतः)
प्रकाशवान् किरणों ! (वः) तुम्हारे (पदम्) चरणरूप (अग्रम्)
अग्रभागको न(विन्दन्ति) कूपसे टकी होनेके कारण मेरी इन्द्रियें नहीं
पासकती हैं, इसकारण आप मुझै कूपमेंसे निकालिये (द्यावापृथिवी)
हे द्युलोक और पृथ्वीलोकके अभिमानी देवताओं (मे) मेरे (अस्य)
इस स्तोत्रको (वित्तम्) जानो ॥ ९ ॥

प्रति प्रियतमं, रथं वृषणं वसुवाहनम् ।
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषतिप्रति

माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ १० ॥

(अश्विनौ) हे अश्विनी कुमारों ! (वाम) तुम्हारे (प्रियतमम्) अतिप्यारे (वृषणम्) फलोंकी वर्षा करनेवाले (वसुवाहनम्) धन ढोनेवाले (रथम्) रथको (स्तोता) स्तुति करनेवाला (ऋषिः) ऋषि (स्तोमेभिः) स्तोमों से (प्रतिप्रतिभूषति) शोभित करता है, इसकारण (माध्वी) हे मधुविद्या के जाननेवालों (श्रुतम्) सुनो ॥ १० ॥

चतुर्थाध्यायस्य सप्तम खण्ड. समाप्त ।

आ ते अग्ने इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् ।

यद्द स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीषधं
स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥

(अग्ने देव) हे अग्नि देव ! (द्युमन्तम्) दाक्षिमान् (अजरम्) जरारहित (ते) तुम्हें (आ इधीमहि) सब ओरसे प्रज्वलित करते हैं (यद्द) निश्चय (ते) तेरी (स्या) वह (पनीयसी) स्तुति के योग्य (समिद्) दाप्ति (द्यवि) द्युलोक में (दीदयति) दमकती है (स्तोतृभ्यः) हम स्तुति करनेवालोंको (इयम्) अन्न (आभर) दो ॥१॥

आग्निं न स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । शीरं
पावकशोचिषं विवो मदे यज्ञेषु स्तीर्णवर्हिषं
विवक्षसे ॥ २ ॥

हे अग्ने (न) इससमय (स्ववृक्तिभिः) अपनीकी हुई निर्दोष स्तुतियों से (होतारम्) देवताओं को बुलानेवाले वा होमको सुसिद्ध करने वाले (वः) तुम्हारे (यज्ञेषु) यज्ञों में (स्तीर्णवर्हिषम्) जिसके निमित्त कुशोंका आसादन किया गया है ऐसे (शीरम्) औषधादि में सर्वत्र व्याप्त (पावकशोचिषम्) शुद्ध करनेवाली है दीप्ति जिसकी ऐसे (त्वा अग्निम्) तुम्हें अग्नि (विमदे) सोमपान से विशेष हर्षप्राप्त होने के निमित्त (आवृणीमहे) अभिमुख होकर आराधना करते हैं (विवक्षसे) हे अग्ने ! तुम महान् हो ॥ २ ॥

महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती ।

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये

सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३ ॥

(अद्य) आज इस यागके दिन (उषः) हे उषादेवि ! (दिवित्मती) दीप्तिवाली तू (नः) हमें (महे राये) बहुत से धनके अर्थ (बोधय) प्रकाशित कर अर्थात् प्रकाश होनेपर यज्ञके द्वारा धनकी प्राप्ति हाँसकती है (यथाचित्) जैसे (नः) हमें (अबोधयः) पहिले प्रकाशित किया था (सुजाते) हे श्रेष्ठ जन्मवाली ! (अश्वसूनृते) हे सत्य प्रिय स्तुतिवाली (वाय्ये) वयके पुत्र (सत्यश्रवसि) मुझ सत्यश्रवा पर अनुग्रह कर ॥ ३ ॥

भद्रं नो अपिवातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ।
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो
न यवसे विवक्षसे ॥ ४ ॥

हे सोम (विवक्षसे) तुम महान् हो इसकारण (अन्धसः) सोम संबन्धी वस्तुओंके (विमदे) विशेष हर्षवायक होने पर तुम (नः) हमारे (मनः) मनको (दक्षम्) अन्तरात्माको (उता) और (क्रतुम्) प्रज्ञानको (भद्रम्) कल्याण (वातय) पहुँचाओ अर्थात् ऐसी कृपा करो, कि—मेरा मन शुभ सङ्कल्प किया करै, मेरा अन्तरात्मा शुभकारी हो और मेरा ज्ञान शुभ निश्चय करै (अथा) और स्तोत्रा (तं) तुम्हारे (सख्ये) मित्रभाव में रमण करै (यवसे, रणाः, गावः, न) जैसे कि घासमें गौएं प्रेमके साथ रमण करती हैं ॥ ४ ॥

क्रत्वा महाशं अनुष्वधं भीम आ वावृते शवः ।
श्रिय ऋष्य उपाकयोर्नि शिप्री हरिवां दधे ह-
स्तयोर्वज्रमायसम् ॥ ५ ॥

(क्रत्वा) प्रज्ञासे (महान्) बड़ा (भीमः) शत्रुओंको भय देनेवाला इन्द्र (अनुष्वधम्) सोमरूप अन्नका पान होनेपर (शवः) अपने बलका (आ वावृते) अभिमुख होकर दिखाता है, तदनन्तर (ऋष्यः) देखने प्राण्य (शिप्री) बड़ी नासिका वा टौड़ीवाला (हरिवान्) हरिनामक अश्वोंसे युक्त इन्द्र (उपाकयोः) समीपवर्ती (हस्तयोः) हाथोंमें (आयसं वज्रम्) लोहे के वज्रको (श्रिये) सम्पदाके लिये (निदधे) धारण करना है ॥ ५ ॥

स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदं ।
यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्रं चिकेतति
योजान्विन्द्रं ते हरी ॥ ६ ॥

(सघा) वह मित्रभूत इन्द्र (वृषणम्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले (गोविदम्) गौश्रोंकी प्राप्ति करानेवाले (रथं अधितिष्ठाति) रथपर चढ़े, हे इन्द्र (यः) जो रथ (हारियोजनम्) धानाश्रोंसे युक्त (पूर्णम्) सोमसे भरे (पात्रम्) पात्रको (चिकेतति) ज्ञापित करता है (ते) अपने (हरी) घोड़ोंको (जु) शीघ्र (योज) रथमें जोड़ो ॥ ६ ॥

अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ।
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन
इषं स्तोतृभ्य आभर ॥ ७ ॥

(यः) जो (वसुः) उपासकोंका धन है (अस्तम्) घरकी समान सबके आश्रय (यम्) जिस अग्निको (धेनवः) गौएँ (यन्ति) तृप्त करनेको जाती हैं (अस्तम्) जिस आश्रयरूप अग्निको (आशवः) शीघ्रगामी (अर्वन्तः) अश्व प्राप्त होते हैं (अस्तम्) जिस आश्रयरूपको (नित्यासः) नित्य उपासना में लगेहुए (वाजिनः) हविलिये हुए यजमान प्राप्त होते हैं (तम् अग्निं मन्ये) उस अग्निकी मैं स्तुति करता हूँ (स्तोतृभ्यः) हम स्तुति करने वालोंको (इषम्) अन्न (आभर) दो ॥ ७ ॥

न तमं ह्येन दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम् ।
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति
द्विषः ॥ ८ ॥

(देवासः) हे देवताश्रों ! (सजोषसः) एक समान प्रसन्न हुए (अर्यमा) शत्रुओंको दण्ड देनेवाला अर्यमा (मित्रः) रक्षा करनेवाला मित्र (वरुणः) पापोंका नाशक वरुण (अतिद्विषः) शत्रुओंके पारकरके (यम्) जिसको (नयति) उन्नतिके पदपर पहुँचादेते हैं (तं मर्त्यम्) उस मनुष्यको (अंशः) पाप (न) नहीं (दुरितम्) उसका फलरूप दुर्गति (न) नहीं (अष्ट) क्यापते हैं ॥ ८ ॥

चतुर्थाध्यायस्य अष्टमः खण्डः समाप्तः

परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूषणे
भगाय ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (स्वादुः) स्वादरसवाला नू (इन्द्राय) इन्द्र के अर्थ (मित्राय) मित्र देवताके अर्थ (पूषणे) पूषाके अर्थ (भगाय) भग देवताके अर्थ (परिप्रधन्व) सब पात्रों में पूर्णरूपसे बरस ॥१॥

पर्यु षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ २ ॥

हे सोम ! (सु) भले प्रकार (वाजसातये) हमें अन्न देनेके अर्थ (परिप्रधन्व) चारों ओरसे पात्रोंमें पूर्ण हो (सक्षणिः) सहन शील तुम (वृत्राणि) शत्रुओंपर (परि) चढ़कर जाओ (नः) हमारे (ऋणया) ऋणोंको नाश करनेवाले तुम (द्विषः) शत्रुओंको (तरध्वै) पार होने के निमित्त वा मारनेको (ईरसे) चढ़कर जाते हो ॥ २ ॥

पवस्व सोम महांतसमुद्रः पिता देवानां
विश्वाभिधाम ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम (महान्) गौरववाला (समुद्रः) रसरूपसे बहने वाला (पिता) सबका पालन करने वाला तू (देवानाम्) देवताओं के (विश्वा) सब (धाम) स्थानों की ओर को (पवस्व) पात्रोंको पूर्ण कर ॥ ३ ॥

पवस्व सोम महे दक्षायश्वो न नित्तो वाजी
धनाय ॥ ४ ॥

(सोम) हे सोम (अश्वो न) अश्वकी समान (नक्तः) जलों से शुद्ध कियाहुआ (वाजी) वेगवाला तू (महे) बड़े (दक्षाय) बलके अर्थ (धनाय) धनके निमित्त (पवस्व) पात्रोंको पूर्णकर ॥४॥

इन्दुःपविष्ट चारुर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय ५

(चारुः) कल्याणरूप (कविः) बुद्धिवर्धक (इन्द्रः) सोम (अपां उपस्थे) जलोंके भीतर (भगाय) सेवनीय धनके अर्थ (मदाय) हर्षके निमित्त (पविष्ट) क्षरित होता है ॥ ५ ॥

अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्थ-
राज्ये वाजां अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥

(सोम) हे सोम (सुतम्) संपादन क्रियेदुप (त्वा) तुमै (अभि
मदामसि हि) क्रमसे स्तुत करते हैं, (पवमान) हे पृथमान सोम
वह नू (महे) वडे (समर्थराज्ये) मनुष्यों सहित अपने राज्यकी
रक्षा करनेको (वाजान्, अभि, प्रगाहसे) शत्रुओंकी सेनाओं पर चढ़ाई
करके जाते हैं ॥ ६ ॥

क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा
स्वश्वाः ॥ ७ ॥

(व्यक्ताः) कान्तियुक्त (नरः) प्रभुता करनेवाले (सनीडाः) स-
मान स्थानवाले (मर्याः) मनुष्योंकी हित करनेवाले (अथा) और
(स्वश्वाः) श्रेष्ठ घोड़ोंवाले (इमम्) ऐसे (के) कौन (रुद्रस्य)
दीनतापूर्वक प्रार्थना करनेवालेके अपन होते हैं ? ॥ ७ ॥

अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदि
स्पृशम् । ऋध्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥

(अग्ने) हे अग्ने (अद्य) आजके दिन हम ऋत्विज् आदि (ओहैः)
इन्द्रादिकां प्राप्त करनेवाले (स्तोमैः) स्तोत्रोंसे (अश्वं) घोड़ेकी
समान हवि पढ़ूँचानेवाले (क्रतुं न) कर्त्ताकी समान अर्थान् उपकार
करनेवाले (भद्रम्) कल्याणरूप (हृदिस्पृशम्) परमप्रिय (तम्)
प्रसिद्ध तुमहै (ऋध्यामः) वृद्धियुक्त करते हैं ॥ ८ ॥

आविर्मर्या आ वाजं वाजिनो अगमं देवस्य
सवितुः सवम् । स्वर्गां अर्वन्तो जयत ॥९॥

(मर्याः) मनुष्योंके हितकारी (आविः) प्रकाशनान् (वाजिनः)
हविपानेवाले देवता (सवितुः) प्रेरक देवके (सवम्) संपादनीय
(वाजम्) अन्नरूप सोमको (गमन्) प्राप्तदुप, इसकारण हेयजमानो !
(स्वर्गम्) स्वर्गको (अर्वन्तः) घोड़ोंको (जयत) जीतो ॥ ९ ॥

पवस्व सोम दुम्नी सुधारो महां अवीनामनु
पूर्व्यः ॥ १० ॥

(सोम) हे सोम (घुम्नी) अन्नवाला वा यशस्वी (सुधारः) शोभनधारयुक्त (पृर्व्यः) पुगतन (महान्) बड़ा तृ (अवीनाम्) रोमोंसे (अनुपवस्व) क्रमसे संपादित हो ॥ १० ॥

चतुर्थाध्यायस्य नवमः खंड समाप्तः

विश्वतोदावन् विश्वतो न आ
भर यं त्वा शविष्टमीमहे ॥ १ ॥

(विश्वतो दावन्) हे सर्वत्र शत्रुओंका छेदन और भक्तोंको दान देनेवाले इंद्र ! तुम (विश्वतः) सब ओरसे (न.) हमें (आभर) इच्छित पदार्थ दो (शविष्टम्) अन्यन्त बलवान् (यं त्वाम्) जिन आप के समीप (ईमहे) अभीष्टकी याचना करते हैं ॥ १ ॥

एष ब्रह्मा य ऋत्विष्य इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे २

(ऋत्विष्यः) वसंत आदि ऋतुमें प्रकट होनेवाला (यः) जो इंद्र (नामश्रुतः) अपने नामसे प्रसिद्ध है (एषः) यह (ब्रह्मा) स्तोत्रोंके मनोरथोंको बढ़ानेवाला है तिसकी मैं (गृणे) स्तुति करता हूँ ॥२॥

ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अर्के-

रवर्द्धयन्नहये हन्तवा उ ॥ ३ ॥

(अहये हंतवै) वृत्रासुरको मारनेके निमित्त (अर्केः) प्रशंसा योग्य स्तोत्रोंसे (महयन्तः) पजते हुए (ब्रह्माणः) ब्राह्मण (इन्द्रम्) इंद्रको (अवर्द्धयन्) प्रसन्न करते हैं ॥ ३ ॥

अनवस्ते रथमश्वाय तक्षु-

स्त्वष्टा वज्रं पुरुहूत युमन्तम् ॥ ४ ॥

हे इंद्र (अनवः) मनुष्य (ऋभवः) देवता (ते) तेरे (अश्वाय) घोड़ोंके अर्थ (रथम्) रथको (ततक्षुः) रचते हुए (पुरुहूत) हे अनेकोंके पुकारे हुए इंद्र (त्वष्टा) विश्वकर्मा (वज्रम्) वज्रको (युमन्तम्) प्रकाश युक्त करता हुआ ॥ ४ ॥

शं पदं मघथं रयीषिणो न काम-

मवतो हिनोति न स्पृशद्रयिम् ॥ ५ ॥

(रयीषिणः) हवि अर्पण करनेवाले पुरुष (शम्) सुखको (पदम्) स्थानको (मघम्) धनकोमा पाते हैं (अवतः) इन्द्रके निमित्त यज्ञादि न करनेवाला पुरुष (न हिनोति) दानादि करने को समर्थ नहीं होता है (कामिम्) अपने इच्छित (रयिम्) धनको (न स्पृशन्) स्पर्शभी नहीं करसकता है ॥ ५ ॥

सदा गावः शुचयो विश्वधा-

यसः सदा देवा अरेपसः ॥ ६ ॥

(गावः) इन्द्रकी शरण जानेवाले (सदा) सर्वदा (शुचयः) निर्मल (विश्वधायसः) विश्वभरका पोषण करनेकी शक्तिवाले (सदा) सर्वदा (देवाः) दानादि गुण युक्त (अरेपसः) पाप रहित भी होतेहैं ६

आ याहि वनसा सह गावः

सचन्त वर्त्तन्ति यदूधभिः ॥ ७ ॥

(उपः) हे उपादेवी ! (वनसा सह) चाहनेयोग्य तेजके साथ (आयाहि) आओ (गावः) उपाकी वाहन गौण (वर्त्तन्तिम्) रथ को (सचन्त) सेवन करती हैं (यत्) जो गौण (ऊधभिः) बड़ेर पेंनों से युक्त है ॥ ७ ॥

उप्र प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः

पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (मधुमति) मधुरता युक्त (प्रक्षे) राजाके बनायेहुए गूलड़के चमसमे (ते क्षियन्तः) तुम्हारे समीप स्थितहुए हम (रयिम्) रमणीय अन्नको (पुष्येम) परोसते हैं (धीमहे) और तुम्हारा ध्यान भी करते हैं ॥ ८ ॥

अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आ

स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥ ९ ॥

(स्वर्काः) सुन्दर अन्न वा स्तोत्रवाल (मरुतः) मरुत (अर्कं) पूजने योग्य इन्द्रको (अर्चन्ति) हवि और स्तोत्रोंसे पूजते हैं (युवा) निन्य तरुण (श्रुतः) प्रसिद्ध (स इन्द्रः) वह इन्द्र (आस्तोभति) उनके शत्रुओंको चढ़ाई करके मारता है ॥ ९ ॥

प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय

विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ १० ॥

(विप्राः) हे ब्राह्मण! (वृत्रहन्तमाय) अतिशयकरके वृत्रके नाशक (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (यं यम्) उम् स्तोत्र को (प्रगायत) अधिकता से पढ़ो (यम्) जिस स्तोत्र को (जुजोषते) प्रसन्न होकर स्वीकार करता है ॥ १० ॥

इति चतुर्थाध्यायस्य दशमः खण्डः समाप्तः

अचेत्यग्निश्चिकितिर्हव्यवाङ्मन सुमद्रथः ॥ १ ॥

(हव्यवाङ्) हवियोंको पहुँचानेवाला (चिकितिः) विशेष वृद्धिमान् (सुमद्रथः) श्रेष्ठ हवियोंसे युक्त (रथः न) रथवाँ समान पहुँचानेवाला (अग्निः) अग्नि (अचेति) हवि देनेवाले यजमानको जानता है ॥ १ ॥

अग्ने त्वं नो अन्तम उत

त्राता शिवो भुवो बरुध्यः ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्नि (बरुध्यः) सेवा करने योग्य (त्वम्) तू (नः) हमारा (अन्तमः) अधिक समीपस्थ (उत) और (त्राता) रक्षक (शिवः) सुखदायक (भुवः) हो ॥ २ ॥

भगो न चित्रो अग्निर्महोनां दधाति रत्नम् ॥ ३ ॥

(महोनाम्) बड़ोंमें (भगो न) सूर्य की समान (चित्रः) विचित्र गुणोंवाला वा पूजनीय (अग्निः) अग्नि, यज्ञ करनेवालोंको (रत्नम्) श्रेष्ठ धन (दधाति) देता है ॥ ३ ॥

विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वासन् यदि वेह नूनम्

(विश्वस्य) सब शत्रुओंको (प्रस्तोभः) नष्ट करता है (यदि वा) और (इह) इस यज्ञमें (नूनम्) निश्चय (पुरोवासन्) पूर्वदेशमें स्थित हुआ यह अग्नि ऋत्विजों से स्तुतिक्रिया जाता है ॥ ४ ॥

उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्त्त-

यति वर्त्तानिधं सुजातता ॥ ५ ॥

(उषाः) यह उषा (स्वसुः) अपनी वहिन रातके (तमः) अन्ध-
कारको (अपसंवर्तयति) अपने तेजसे दूर करती है (सुजातता)
अपने श्रेष्ठ प्रकाशको भी (वर्त्तनिम्) रथपर पहुँचाता है ॥ ५ ॥

इमा नु कंभुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ६

(इमाः) इन दीखनेवाले (भुवनाः) लोकोंको (नु) शीघ्र (कम्)
सुख पानेके लिये (सीषधेम) वशमें करना है (इन्द्रः) इन्द्र (च)
और (विश्वे) सकल (देवाश्च) देवता भी स्तुतिसे प्रसन्न होकर मेरे
इस कामको सिद्ध करें ॥ ६ ॥

वि स्तुतयो यथा पथा इन्द्र त्वयन्तु रातयः ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वन्) तुमसे (रातयः) दान (पथा स्तुतयः यथा)
जैसे राजमार्गसे छोटे-रे मार्ग निकलने है तैसे (वियन्तु) प्राप्त हों ७

अथा वाजं देवहितं सनेम

मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ८ ॥

(अथा) इस स्तुति से (देवहितम्) इन्द्र देवताके दियेहुए (वाजम्)
अन्नको (सनेम) हम भोगों (सुवीराः) सुन्दर पुत्रोंसे युक्त हम (शत-
हिमाः) सकड़ों हेमन्त ऋतुओं पर्यन्त (मदेमः) प्रसन्न रहें ॥ ८ ॥

ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः

पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (मित्रः) मित्र देवता (वरुणः) वरुण देवता तुम
सब (ऊर्जा) बलसहित (इडा) अन्न (पिन्वते) हमें दो (नः)
हमारे (इषम्) अन्नको (पीवरीम्) शनिक (कृणुहि) करो अर्थात्
बहुतसा अन्न दो ॥ ९ ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥

क्योंकि (इन्द्रः) इन्द्र (विश्वस्य) सब लोकोंका (राजति) ईश्वर
होता है इस कारण प्रधानरूपसे इन्द्रको ही अभिमुख करके कहा है ? ०

चतुर्थाध्यायस्य एकादश ऋषि समाप्त

त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तृविशुष्म-

स्तृम्पत्सोममपिवद्विष्णुना सुतं यथावशम् ।

स ईं ममाद् महि कर्म कर्त्तवे महामुरुं
सैन्यं सश्रद्देवा देव २ सत्य इन्द्रुः सत्यमिन्द्रम् १

(महिपः) पूजनीय (सुविशुभः) बहुत बलवाला (नृम्पत्) तप्त होता हुआ इन्द्र (त्रिकद्रकंपु) ज्योति गौ और आयुनाम वाले दिनोंमें (सुनम्) सम्पादन किये हुए (यवाशिरम्) यवकं सत्तुओंसे मिले हुए (सोमम्) सोमको (विष्णुना) विष्णुके साथ (यथावशम्) जैसे पहिले इच्छा कीथी तिसीप्रकार (अपिवत्) पीता हुआ (सः) वह पिया हुआ सोम (महि) बड़े (कर्म) वृत्रवध आदि कर्मको (कर्त्तवे) करनेके लिये (महाम्) बड़े (उरुम्) विस्तार वाले (ईम्) इस इन्द्रको (ममाद्) मद युक्त करना हुआ (सत्यः) श्रेष्ठ (इन्द्रुः) टपकता हुआ (देवः) दीप्तिमान् (सः) वह सोम (सत्यम्) सत्यरूप (देवम्) सोम चाहनेवाले (एनं इन्द्रम्) इस इन्द्र को (सश्रत्) व्याप्त हो ॥ १ ॥

अयं सहस्रमानवो दृशः

कवीनां मतिज्योतिर्विधर्म ।

ब्रध्नः समीचीरुपसः समैरयदरेपसः

सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः ॥ २ ॥

(सहस्रमानः) सहस्रों मनुष्योंवाला (वृषः) दर्शनीय (कवीनाम्) बुद्धिमानोंका (मतिः) माननीय (विधर्म) विधाता (ज्योतिः) तेजःस्वरूप (अयम्) यह (ब्रध्नः) सूर्य (समीची) निर्मल (अरेपसः) अन्धकाररूप पापरहित (सचेतसः) समान चित्तवाली (उपसः) इन उपाओं को (समैरयन्) भलेप्रकार प्रेरणा करता है तदनन्तर (स्वसरे) दिनमें (मन्युमन्तः) प्रकाशवाले चन्द्रमा आदि (गोः) सूर्यके तेजसे (चिताः) तेजहीन होते हैं ॥ २ ॥

एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा

विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः ।

हवामहे त्वा प्रथस्वन्तः सुतेष्वपुत्रासो न

पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (परावतः) स्वर्गरूप दूरदेश से (नः अच्छु उप-
याहि) हमारे समीप श्रेष्ठरूपसे आइये, नहीं दृष्टान्त कहते हैं कि—
(अयं न) जैसे यह अग्नि और सुसिद्ध सोम प्राप्त हुआ है (सत्पतिः
विदधानि इव) जैसे ऋत्विजोंका पालक यजमान यज्ञशालाओं में
आता है (अस्ता, सत्पतिः राजा इव) जैसे तारागणोंका पालनकर्त्ता
चन्द्रमा अपने धामको प्राप्त होता है (पयस्वन्तः, न्वा, सुतेपु, आ हवा-
महे) हवि लियेहुए हम यजमान तुम्हें सोम सम्पन्न होनेपर अभिमुख
होकर आह्वान करते हैं (पुत्रासः, वाजसातये, पितरं, न) पुत्र बल
वा अन्नकी प्राप्तिके लिये जैसे पिताको पुकारते हैं तैसे (वाजसातये
मँहिष्ठम्) सग्राम में जय पानेके लिये तुम्हें पुकारते हैं ॥ ३ ॥

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं, सत्रा

दधानमप्रतिष्कृतं श्रवांसि भूरि ।

मँहिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्त्त

राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री ॥ ४ ॥

(मघवानम्) धनवान् (उग्रवम्) किसीसे न दबनेवाले (सत्रा)
मन्व्य (भूरि) बहुतसे (श्रवांसि) बलोंके (दधानम्) धारण किये
(अप्रतिष्कृतम्) जिसको शत्रु न रोकसके ऐसे (तम्) उस पूर्व मंत्रों
में वर्णन कियेहुए (इन्द्रम्) इन्द्रको (जोहवीमि) बारंबार आह्वान
करना है (मँहिष्ठः) परमपूज्य (यज्ञियः) यज्ञके योग्य इन्द्र (गीर्भिः)
हमारी स्तुतियोंसे (आववर्त्त) यज्ञके अभिमुख हो रहा है, तदनंतर
(वज्री) वज्रधारी इन्द्र (राये) धनके अर्थ (विश्वा) सब ही (सु-
पथा) सुमार्गोंको (कृणोतु) करै अर्थात् हमें सब दिशाओं से धन
प्राप्त होय ॥ ४ ॥

अस्तु श्रौषट् पुरो अग्निं धिया दध आ नु

त्यच्छर्द्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे ।

यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे ।

अध प्रनूनमुप यन्ति धीतयो देवाः अच्छ न

धीतयः ॥ ५ ॥

हे इन्द्र मैं (पुरः) आगैकी उत्तरें वेदी में (अग्निम्) आहवनीय नामक अग्निको (धिया) प्रणयन आदिकर्म से (दधे) धारण कर चुका हूँ (त्वन् दिव्यं शर्धः) उस दिव्य बलवान् अग्निको (नु) शीघ्र (आवृणीमहे) अभिमुख होकर आराधना करते हैं (इद्रवायु) इन्द्र और वायुको (वृणीमहे) प्रार्थना करते हैं (यद्ध) जो (विवस्वते नव्यसे) धनवान् नवीन यजमानके अर्थ (नाभा) भूमिके नाभिरूप देवयजन स्थानमें (सन्दाय) परस्पर मिलकर (क्राणा) मनोरथसिद्धि करने वाले होते हैं (श्रौपत् अस्तु) इस स्तुतिका अग्रण हो (अघ) अननर (नः) हमारे (धीतय) स्तुति आदि कर्म (प्रनृनम्) अवश्य ही (उपर्यन्ति) नुम्हें प्राप्त होते हैं और (देवान् अच्य न) मानों अग्नि आदि देवताओंके अभिमुख प्राप्त होनेको (धीतयः) हमारे कर्म प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे

मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत् ।

प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवमे

भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥ ६ ॥

(एवयामरुत्) इस नामके ऋषिकी (गिरिजाः) वागीसे उत्पन्न हुई (मतयः) स्तुतियें (मरुत्वते) मरुन्महित (विष्णवे) व्यापक (महे) महान् (वः) तुम इन्द्रको (प्रयंतु) प्राप्त हों और (प्रयज्यवे) अधिकतासे यजन करने योग्य (सुखादये) सुंदर आभरणवाले (तवमे) बलवान् (भन्ददिष्टये) स्तुतिरूप इष्टिवाले (धुनिव्रताय) मघाका चालनरूप कर्मवाले (शवसे) गमनशील (शर्धाय) मरुतोंके बलको (प्र) प्राप्त हों ॥ ६ ॥

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषाः सि

तरति सयुग्वभिः सूरौ न सयुग्वभिः ।

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः ।

विश्वा यद्रूपा परियास्यूकभिः सप्तास्योभिर्ऋ-

क्वभिः ॥ ७ ॥

(पुनानः) पवित्र करताहुआ सोम (हरिगया) हरे वर्ण की (अया) इस (रुचा) प्रकाशवती धारामे (विश्वा) सकल (द्वेषामि) द्वेषकर नेवाले राक्षसोंको (तरति) विनष्ट करता है (मूरःन) जैसे सूर्य (सगुम्बभिः) मिलीहुई किरणोंसे अन्धकारोंको नष्ट करता है (पृष्ठस्य) तिम जगन्को धारण करनेवाले सोमकी (धारा) धारा (रोचते) दीप्त होतीहै (पुनानः) पवित्र करताहुआ (हरिः) हरे वर्णका सोम (अरुणः) दमकता है (यन्) जो सोम (समास्येभिः) रसलानेवाले (ऋक्वभिः) स्तोत्राओंसे (ऋक्वभिः) तैजोसे (विश्वा) सब (रूपाणि) रूपोंको (परिग्याति) व्यापता है ॥ ७ ॥

अभि त्यं देवश्च सवितारमोष्योः कविक्रतु-
मर्चामि सत्यसवश्च रत्नधामभि प्रियं मातिम्
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥ ८ ॥

(कविक्रतुम्) सर्वज्ञ (सत्यसवम्) सच्ची प्रेरणा करनेवाले (रत्न-
धाम) रमणीय धनोके देनेवाले (अभिप्रियम्) सब ओरसे प्रिय
(मातिम्) स्तुतिके योग्य (न्यम्) उन (सवितारम्) प्रेरक (देवम्)
देवको (अर्चामि) पूजता हूँ (यस्य) जिस सविताकी (भा) दीप्ति
(ऊर्ध्वा) ऊँची होकर (ओगयोः) छाया पृथिवीमें (अदिद्युतत्) अत्यन्त
दीप्त होतीहै (सवामनि) जिसका आविर्भाव होनेपर (अमतिः) सब
का कान्ति अत्यन्त दिपतीहै (सुक्रतुः) वह सुन्दर कर्मवाला (हिरण्य-
पाणिः) सविता देवता (कृपा) दया करके (स्वः) स्वर्गके निमित्त
(अमिमीत) इस सोम का मान करता है ॥ ८ ॥

अग्निश्च होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोःसूनुश्च
सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम् ।
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा ।
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशो-
चिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ ९ ॥

(अग्निम्) सकल देवसेनाओंमें अग्रणी या यज्ञोंमें आगे कियेजाने वाले अग्निको (होतारम्) हमारे यज्ञमें देवताओंका आह्वान करनेवाला वा होमको सुसिद्ध करनेवाला (दास्वन्तम्) अधिक धन देनेवाला (वसोःसहसः) सबके प्रशंसनीय बलका (सूनुम्) पुत्र (जातवेदसं विप्रं न) विद्याओंके ज्ञाता बुद्धिमान् ब्राह्मणकी समान (जातवेदसम्) परममान्य (मन्ये) मानता हूँ (यः देवः) ऐसे गुणोंवाला जो अग्नि देवता (स्वध्वरः) भलेप्रकार यज्ञका निर्वाह करता हुआ (ऊर्ध्वया) ऊँची और श्रेष्ठ (देवाच्या) देवताओंका पूजन करनेवाली वा देवताओंके प्रति कहीहुँ (कृपा) सामर्थ्यरूप कृपा करके अर्थान् देवताओंके अर्थ हवि पहुँचाने की इच्छा करके (शुक्रशोचिप) दीप्ततेजस्वी (आजुह्वानस्य) चारों ओरसे होमेजातेहुए (सर्पिप.) ग्रीके (विभ्राष्टिम् अनु) विशेषरूपसे भस्म होनेपर स्वीकार करता है ॥ ६ ॥

तव त्यन्नर्थं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं

पृथ्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम् ।

यो देवस्य शवसा प्रारिणा अमुरिणन्नपः ।

भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदे-

दूर्जं शतक्रतुर्विदेदिषम् ॥ १० ॥

(नृतः) सबको नचानेवाले अर्थात् प्रेरणा करनेवाले (इन्द्र) हे इन्द्र (नर्थम्) मनुष्योंका हितकारी (प्रथमम्) पहिलेका (पृथ्यम्) पुरातन (तव) तुम्हारा (त्यत्) वह प्रसिद्ध (अपः) कर्म (दिवि) स्वर्ग में (प्रवाच्यम्) विशेषकर देवताओं से प्रशंसा पाने योग्य है । वह कर्म यह है कि तुमने (देवस्य) विजय चाहने वाले असुर के (असु) प्राणको (शवसा) बलसे (रिणन्) नष्ट करते हुए (अपः) उसके रोकेहुए जलों को (अरिणः) प्रेरणा करी, वह तुम (विश्वम्) व्याप्त (अदेवम्) अंधकाररूप असुरका (ओजसा) बलसे (अभिभुवः) तिरस्कार करो (शतक्रतुः) इन्द्र (ऊर्जम्) बलको (इषम्) हविरूप अन्नको (विदेत्) पावै ॥ १० ॥

चतुर्धाध्यायस्य द्वादश खण्ड चतुर्धाध्यायश्च समाप्त द्वितीयं ऐन्द्रं पर्वं च समाप्तम्

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्रूम्याददे ।

उग्र० शर्म महि श्रवः ॥ १ ॥

पञ्चम अध्याय—पवमानपर्व

(सोम) हे सोम (ते) तेरे (अन्धसः) रसका (उच्चा) ऊपर (जातम्) जन्म हुआ है (दिवि) द्युलोकमें (सन्) विद्यमान (उग्रम्) प्रभावशाली (शर्म) सुखको (महि) बहुत (श्रवः) अन्नको (भूम्या-ददे) भूमिमें जन्मनेवाले हम पाते हैं ॥ १ ॥

स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २ ॥

(सोम) हे सो (इन्द्राय पातवे) इंद्रके पीनेको (सुतः) संपादन किया हुआ तू (स्वादिष्टया) परम स्वाद्युक्त (मदिष्टया) परम हर्ष देनेवाली (धारया) धारसे (पवस्व) क्षरित हो ॥ २ ॥

वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः ।

विश्वा दधान आजसा ॥ ३ ॥

हे सोम ! तुम (वृषा) स्तानाओंके मनोरथोंका वर्ग करते हुए (धारया) अपनी धारासे (पवस्व) कलशमें आइये (च) और आने पर जब हम तुम्हें इंद्रको अर्पण कर नय (मरुत्वते) जिसके मरुत् सहायक हैं ऐसे तिस इंद्रके निमित्त (विश्वा) सकल धनोंको (आजसा) अपने बलसे (दधानः) धारण करते हुए (मत्सरः) मदकारी होओ ३

यस्ते मदो वरेण्यस्तना पवस्वान्धसा ।

देवावीरघशशंसहा ॥ ४ ॥

हे सोम (ते) नेग (देवावीः) देवताओंका इच्छित (अघशंसहा) राक्षसोंका नाशक (वरेण्य) परमश्रेष्ठ (मदः) हर्षदायक (यः) जो (रसः) रस है (तेन) उस (अन्धसा) आदरयोग्य रससे (पवस्व) कलशमें आओ ॥ ४ ॥

तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः ।

हरिरेति कनिकदत् ॥ ५ ॥

ऋत्विज् (तिस्रः) ऋक् आदि भेदसे तीनप्रकारकी (वाचः) स्तु-

तियोंको (उदीरते) उच्चारण करने हैं (धेनवः) दूधसे तृप्त करने वाली (गावः) गौणं (मिमन्ति) दुहनेके निमित्त रंभाती हैं (हरिः) हरा सोम (कनिक्कदत्) शब्द करता हुआ (एति) कलशमें जाता है ॥ ५ ॥

इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः ।

अर्कस्य योनिमासदम् ॥ ६ ॥

(इन्दो) हे सोम (मधुमत्तमः) अन्यन्त मधुर तू (अर्कस्य योनिम्) पूजनीय यज्ञस्थानमें (आसदम्) निराजमान होनेको (मरुत्वते) इंद्र के अर्थ (पवस्व) कलशमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥

असाव्यं शर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः ।

श्येनो न योनिमासदत् ॥ ७ ॥

(गिरिष्ठाः) पर्वतमें उत्पन्न हुआ (अंगुः) सोम (मदाय) हर्षके अर्थ (असावि) संपादन किया गया (अप्सु) जलोंमें (दत्तः) वृद्धि को प्रदान होता है (श्येनः न) जैसे श्येन पत्नी बनने आकर अपने स्थान में स्थित होता है तैसे ही यह सोम (योनिमासदत्) अपने स्थान में स्थित होता है ॥ ७ ॥

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे ।

नरुद्र्यो वायवं मदः ॥ ८ ॥

(हरे) हे पाप हरनेवाले स्वाम ! (दक्षसाधनाः) बलका साधक (मदः) मद्यकारी तू (देवेभ्यः पीतये) उच्छादि देवताओं के पीनेके निमित्त (नरुद्र्यः) वायु देवताके पीनेके निमित्त (पवस्व) कलश में प्राप्त हो ॥ ८ ॥

पारं स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत् ।

मदेषु सर्वदा असि ॥ ९ ॥

(सोमः) यह सोम (पवित्रे) शुद्ध पात्रमें (पर्यत्तरत्) पूर्ण होगा है (गिरिष्ठाः) पर्वत पर उत्पन्न हुआ (स्वानः) संपादन किया जाना हुआ तू (मदेषु) सोना आदिकोंमें (सर्वदा असि) सकल अर्थाशोंका दाता है ॥ ९ ॥

परि प्रियादिवः कविर्वयांशसि नप्त्योर्हितः ।

स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ १० ॥

(कविक्रतुः) बुद्धिचर्चक सोम (नप्योः) अग्निपवणके फलकामें (हिन) स्थापित हुआ (दिवः) दुलोकके (प्रिया) प्यारे (वर्यासि) जानेवालोंको (स्वानैः) अध्वर्युओंके सहित (परियाति) प्राप्त होता है
पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मयोनाम् ।

सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥

(मदच्युतः) आनन्दको वरमानेवाले (सोमासः) सोम (सुताः) अभिपुत्र होनेपर (मयोनाम्) निवाले (नः) हमारे (विदथे) यज्ञ में (श्रवसे) अन्न और कीर्तिके निमित्त (अक्रमुः) पात्रोंमें प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः ।

वनानि महिषा इव ॥ २ ॥

(विपश्चितः) बुद्धिचर्चक (सोमासः) सोम (अपः ऊर्मयः) जलकी तरङ्गोंकी समान (महिषाः वनानि इव) जैसे पशु वनमें जाते हैं तैसे (प्र नयन्त) पात्रोंमें प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधो नो यशसे जने ।

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ३ ॥

(इन्दो) हे सोम (सुतः) सीचाहुआ नृ (वृषा) मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला होता हुआ (पवस्व) धारामें पात्रमें प्राप्त हो (जने) देशमें (नः) हमें (यशसः) यशवाला (कृधि) कर (विश्वाः) सय (द्विषः) शत्रुओंको (अपजहि) नष्ट कर ॥ ३ ॥

वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे ।

पबमान स्वर्दशम् ॥ ४ ॥

हे सोम तू (हि) निश्चय (वृषा) इच्छितफलोंकी वर्षाकरनेवाला (असि) है, इसकारण (पबमान) हे पवित्र करनेवाले सोम ! (स्वर्दशम्) सयके द्रष्टा (भानुना) तेजसे (द्युमन्तम्) दिपनेहुए (त्वा) तुम्हें (हवामहे) यज्ञोंमें आह्वान करते हैं ॥ ४ ॥

इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः ।

सृजदश्व रथीरिव ॥ ५ ॥

(चेतनः) चेतनता देनेवाला (प्रियः) देवताओंका प्यारा (इन्दुः) सोम (कवीनाम्) ऋत्विजोंकी (मतिः) स्तुतिसे (पविष्ट) पात्रमें पूर्ण होता है (अश्वम्) घोड़ेको (रथीरिव) रथी जैसे तैसे ही (सृजति) धारको रचता है ॥ ५ ॥

असृक्षत प्रवाजिनो गव्या सोमांसो अश्वया ।

शुक्रासो वीरयाशवः ॥ ६ ॥

(वाजिनः) बलवान् (आशवः) वेगवान् (सोमांसः) सोम (गव्या) गौकी इच्छामे (अश्वया) घोड़ोंकी इच्छामे (दीर्या) पुरोंकी इच्छामे (असृक्षत) ऋत्विजोंके द्वारा अधिकृतानामे स्वेगये हैं ॥ ६ ॥

पवस्व देव आयुपगिन्द्र गच्छतु ते मदः ।

वायुमारोह धर्मणा ॥ ७ ॥

हे सोम (देवः) प्रकृशवान् तू (पवस्व) भागसे पात्रमें पूर्ण हो (ते) तेरा (मदः) अनन्ददायक रस (आयुपक्) मिलताहुआ (इन्द्रम्) इन्द्रको (गच्छतु) प्राप्त हो (धर्मणा) रसरूपसे (वायुम्) वायुको (आरोह) प्राप्त हो ॥ ७ ॥

पवमानो अजीजनदिवश्चित्रं न तन्यतुम् ।

ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत् ॥ ८ ॥

(पवमानः) सोमने (बृहत्) बड़ेमारी (वैश्वानरं ज्योतिः) देवता नर नामवाले तेजको (दिवः) द्युलोकके (चित्रम्) विचित्र (तन्यतुं) यज्ञकी समान (अजीजनत्) उत्पन्न किया है ॥ ८ ॥

परि स्वानास इन्द्रवो मदाय बर्हणा गिरा ।

मधो अर्षन्ति धारया ॥ ९ ॥

(स्वानासः) निचोडेजाने हुए (इन्द्रवो) दिपतेहए (बर्हणा) बड़ी (गिरा) स्तनिरूप वालीसे (मधो) मदकारी सोम (धारया) धारा

से (मदाय) देवताओंके मदके अर्थ (पर्यर्षन्ति) दशापवित्रसे नीचे टपकते हैं ॥ ६ ॥

परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरुर्मावधि श्रितः ।

कारुं विभ्रत्पुरुस्पृहम् ॥ १० ॥

(कविः) बुद्धिवर्धक (सिन्धोः) सिन्धुकी (ऊर्मौ) तरङ्गमें (अधिश्रितः) आश्रित हुआ (पुरुस्पृहम्) अनेकोंके स्पृहायोग्य (कारुम्) स्तोताको (विभ्रन्) धारण करना हुआ सोम (परिप्रासिष्यदत्) पात्र में टपकता है ॥ १० ॥

पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय खण्डः समाप्तः

उपोषु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् ।

इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १ ॥

(मुजातम्) सम्यक् प्रकार प्रकट हुए (अप्तुम्) जलोंके प्रेरणा करेहुए (भङ्गम्) शत्रुओंके नाशक (गोभिः) गोघृतादिसे (परिष्कृतम्) संस्कार कियेहुए (इन्दुम्) सोमको (देवाः) देवता (अयासिषुः) प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

पुनानो अक्रमीद्भि विश्वा मृधो विचर्षणिः ।

शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ २ ॥

(विचर्षणिः) द्रष्टा (पुनानः) सोम (विश्वाः) सब (मृधः) शत्रुसेनाश्रापर (अभ्यक्रमीन्) आक्रमण करता है (विप्रम्) उसमेंधवी सोमको (धीतिभिः) शुद्धियोंमें (शुम्भन्ति) अलंकृत करते हैं २

आविशन् कलशश्मुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः

इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ ३ ॥

(सुतः) निकालाहुआ (कलशम् आविशन्) कलशमें प्रवेश करता हुआ (विश्वाः) सब (श्रियः) सम्पदाओंकी (अभ्यर्षन्) घर्षा करताहुआ (इन्दुः) सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (धीयते) स्थापन कियाजाता है ॥ ३ ॥

असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बोः सुतः ॥

कार्ष्मन् वाजी न्यक्रमीत् ॥ ४ ॥

(रथ्यो यथा) जैसे रथका घोड़ा छोड़दिया जाता है तैसे ही यज्ञमें (चम्धोः) अधिपवणके फलक्रीमें (सुतः) निचोड़ा हुआ सोम (पवित्रे) पात्रमें (असर्जिं) छोड़ा गया, ऐसा (वाजी) वेगवाला सोम (कार्पमन्) यज्ञरूप युद्धमें (न्यक्रमीत्) आक्रमण करता है ॥ ४ ॥

प्र पद्मावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः ।

घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम् ॥ ५ ॥

(यत्) जो (भूर्णयः) त्वरायुक्त (त्वेषाः) प्रकाशयुक्त (अयासः) गमनशील (कृष्णाम त्वचम्) ढकनेवाली अधिपवारीको (अपघ्नन्) अभिषवसे दूर करनेहुए वह सोम (प्राक्रमुः) यज्ञको प्रवृत्त करते हैं तहां दृष्टान्त—(गावः न) जैसे कि गौएं शीघ्रनासे गोटमें जाती है ५

अपघ्नन् पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः ।

नुदस्यादेवयुं जनम् ॥ ६ ॥

(सोम) हे सोम (मत्सरः) मदकारी तू (मृधः) हिंसक शत्रुओंको (अपघ्नन्) नष्ट करता हुआ (क्रतुविन्) तूमें ज्ञान देना हुआ (पवसे) पात्रमें पूर्ण होता है ऐसा तू (अदेवयुम्) देवताओंको न चाहनेवाले राक्षसोंको (नुदस्व) दूर कर ॥ ६ ॥

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ।

हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥

हे सोम (मानुषीः) मनुष्योंके हिनकारी (अपः) जलोंको (हिन्वानः) प्रेरणा करना हुआ तू (अया) जिस धाराने (सूर्यम्) सूर्यको (रोचयः) प्रकाशित करना है (अया) इस धारासे (पवस्व) पात्रमें आओ ॥ ७ ॥

स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे ।

वन्निवाथंसं महीरपः ॥ ८ ॥

हे सोम तू (महीः) बहुत (अपः) जलोंको (वन्निवासम्) रोकनेवाले (वृत्राय हन्तवे) वृत्रासुरके मारनेको (इन्द्रं आविथः) इन्द्रकी रक्षाकर (सः) वह तू (पवस्व) धारासे कलशको पूर्ण कर ॥ ८ ॥

अया वीतो परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा ।

अवाहन्नवतीर्नव ॥ ९ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (अया) इस रससे (वीती) इन्दुके भक्षण करनेके निमित्त (परिस्त्रव) कलशमें टपक (ते) तेरा (यः) जो रस (मदेष्वा) संग्रामोंमें (नवतीर्नव) शंखरकी निन्यानवे पुरियोंको (अवाहन्) नष्ट करता हुआ ॥ ९ ॥

परि व्यक्षथं, सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा ।

स्वानो अर्ष पवित्र आ ॥ १० ॥

(व्यक्षम्) वीम (सनन) दियेजातेहुए (रथिम्) धनको (वाजम्) बलको (अन्धसा) अन्नसहित (नः) हम (परिभरन्) सोम सब प्रकारसे देय, हे सोम (स्वानः) अभिपुत होनाहुआ (पवित्रं) कलशमें (आअर्ष) सब ओरसे टपक ॥ १० ॥

पञ्चमाध्यापान्य गृणीयः खड्ग समाप्त

अचिक्रदहृषा हरिर्महान् मित्रो न दर्शतः ।

सथं,सूर्येण दिद्युते ॥ १ ॥

(वृषा) मनोरथों की वर्षा करनेवाला (हरिः) हरेवर्णका (महान्) पूज्य (मित्रो न) मित्रकी समान (दर्शतः) दर्शनीय जो सोम (अचिक्रदन्) शब्द करता है वह सोम (सूर्येण सम्) सूर्यके साथ (दिद्युते) ध्रुलोक में प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

आ ते दक्ष मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे ।

पान्तमा पुरुस्पृधम् ॥ २ ॥

हे सोम ! हम यजन करनेवाले (ते) तेरे (दक्षम्) बलको (अद्य) आज यज्ञके दिन (आ वृणीमहे) अभिमुख होकर आराधना करते हैं। कैसा है वह बल (मयोभुवम्) सुखका देनेवाला (वह्निम्) धन आदि प्राप्त करानेवाला (पान्तम्) शत्रुओंसे रक्षा करनेवाला (पुरुस्पृधम्) जिसको अनेकों चाहते हैं ऐसा है ॥ २ ॥

अध्वर्यो अद्रिभिः सुतथं,सोमं पवित्रे आ नया ।

पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥

(अर्ध्वर्यो) हे अर्ध्वर्यु ! (अद्रिभिः) पाषाणोंसे (सुतम्) निकाले हुए सोमरसको (पवित्रे) कलश में (अनय) पहुँचाओ (इंद्राय पातचे) इंद्रके पीनेके निमित्त (पुनाहि) पवित्र करो ॥ ३ ॥

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥

(सुतस्य) निचोड़ेहुए (अन्धसः) सोमकी (धारा) धार से (मन्दी) जो इंद्रको हर्षदेता है (सः) वह (तरत्) पापसे तरजाता है (धावति) ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

आ पवस्य सहस्रिण्यं रयिः सोम सुवीर्यम् ।

अस्मेश्रवांसि धारय ॥ ५ ॥

(सोम) हे सोम तू (सहस्रिण्यम्) सहस्रों संख्या के (सुवीर्यम्) श्रेष्ठ शक्तियुक्त (रयिम्) धनको (आ पवस्व) अभिमुख होकर वरमा और (अस्मे) हमारे विषै (श्रवांसि) अन्नोंको (धारय) स्थापनकर । ५ ।

अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः ।

रुचे जनन्त सूर्यम् ॥ ६ ॥

(प्रत्नासः) पुरातन (आयवः) गमनशील सोमो ने (नवीयः) नवीन (पदम्) स्थानको (अन्वक्रमुः) आक्रमण किया (रुचं) दीप्ति के अर्थ (सूर्यम्) सूर्यकी समान सोमको (जनन्त) उत्पन्न करते हैं ६

अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत् ।

सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ ७ ॥

(सोम) हे सोम ! (द्युमत्तमः) अत्यन्त दीप्तिमान् तू (द्रोणानि) कलशमें (रोरुवत्) धारधार शब्द करनाहुआ (वनेषु) यज्ञगृहोंमें (योनौ) स्थानमें (आसीदन्) प्रथम स्थित होता हुआ (अर्षं) आगमन कर ॥ ७ ॥

वृषा सोम द्युमाँ असि देव वृषव्रतः ।

वृषा धर्माणि दधिषे ॥ ८ ॥

(सोम) हे सोम ! (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला तू

(द्युमान्) दीसिवाला (असि) है और (देव) हे दिव्य सोम !
 (वृषा) मनोरथपूरक तू (वृषव्रतः) वर्षाके व्रतवाला है और हे सोम
 (वृषा) मनोरथपूरक तू (धर्माणि) देवता और मनुष्योंके हितकारी
 कर्मोंको (दधिषे) धारण करता है ॥ ८ ॥

इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ।

इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥

(इन्दो) हे सोम (मनीषिभिः) ऋत्विजोंसे (मृज्यमानः) शोधन
 कियाहुआ तू (इषे) हमें अन्न प्राप्ति करानेके लिये (धारया) धारा
 से (पवस्व) पात्रमें आगमन कर (रुचा) रुचिकर अन्नरूपसे (गाः)
 गौ आदि पशुओंको (अभीहि) प्राप्त हो ॥ ९ ॥

मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः ।

अव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १० ॥

(सोम) हे सोम ! (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (देवयुः)
 देवताओंका इच्छित (अस्मयुः) हमारा कामना कियाहुआ तू (अव्याः)
 रक्षाकर (वारेभिः) बालोंसे रचेहुए पात्रमें (मन्द्राय) आनन्ददायक
 धारासे (पवस्व) प्राप्त हो ॥ १० ॥

अया सोम सुकृत्यया महात्सन्नभ्यवर्धथाः ।

मन्दान इदृषायसे ॥ ११ ॥

(सोम) हे सोम ! (अया) इस (सुकृत्यया) सुन्दर क्रियासे
 (महान्) पूजित होतेहुए (अभ्यवर्धथाः) देवताओंके निमित्त बढ़ो
 (मन्दान इव) प्रसन्न होतेहुए (इषायसे) वृषकी समान शब्द करते हो ११

अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति

हिन्वान आप्यं बृहत् ॥ १२ ॥

(विचर्षणिः) विशेषरूपसे ज्ञानमय (हितः) पात्रमें स्थित (पवमानः)
 शोधन कियाजाता हुआ (अयम्) यह सोम (आप्यम्) जलसे उत्पन्न
 हुए (बृहत्) बहुतसे अन्नको (हिन्वानः) देताहुआ (सचेतति)
 सब पुरुषों से जाना जाता है ॥ १२ ॥

प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मिं न विभ्रदर्षसि ।
अभि देवा षं अयास्यः ॥ १३ ॥

(इंदो) हे सोम ! गीला होता हुआ तू (नः) हमारे (महे) बहुतसे (तुने) धनके अर्थ (प्रार्थसि) कलशमें जाता है (न) इस समय (अयास्यः) ऋषि (ऊर्मिम्) तुम्हारी तरङ्गको (विभ्रन्) धारण करता हुआ (देवान् अभि) देवताओं का यजन करनेको जाता है ॥ १३ ॥

अपघ्नन् पवते मृधोऽप सोमो अरावणः ।
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १४ ॥

(सोमः) सोम (मृधः) शत्रुओंको (अपघ्नन्) मारना हुआ (अरावणः) शक्ति हांसे पर धनका दान न करनेवालों को भी मारना हुआ और (इन्द्रस्य) इन्द्रके (निष्कृतम्) स्थानको (गच्छन्) प्राप्त होता हुआ (पवते) धारासे क्षरित होता है ॥ १४ ॥

पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खंड समाप्त

पुनानः सोम धारायापो वसानो अर्षसि ।
आ रत्नधा यांनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवा हि-
रण्ययः ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! (पुनानः) पघिन्न करनेवाला तू (अपः) जलोंको (वसानः) आच्छादन करता हुआ (धारया) धारासे (अर्षसि) द्रोणकलशमें जाता है (रत्नधा) रमणीय धनोंका देनेवाला तू (ऋतस्य) यज्ञके (योनिम्) स्थानको (आसीदसि) प्राप्त होता है और (देव) दिपता हुआ सोम (उत्सः) बहता हुआ (हिरण्यय) देवताओंका हितकारी और रमणीय होता है ॥ १ ॥

परीतो पिब्रता सुतं सोमो य उत्तमं हविः ।
दधन्वा यो नर्यो अप्स्वाऽन्तरा सुषाव सो-
ममद्रिभिः ॥ २ ॥

(यः) जो (सोमः) सोम (उत्तमं हविः) देवताओंका श्रेष्ठ हवि

होता है (नर्यः) मनुष्योंका हितकारी (यः) जो साम (अप्सु, अन्तः) जलोंके भीतर (दधन्वान्) गमन करता है (सोमम्) जिस सोमको (अद्रिभिः सुपाध) अध्वर्युने पापाणोंसे निचोड़ा (सुनम्, इतः, परि-विश्रुत) उस निकाले हुए सोमरसको इस स्थानसे ऊपरको जलोंमें सींचो ॥ २ ॥

आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया।
जनो न पुरिचम्बोर्विशद्वरिः सदो वनेषु दधिषे

(सोम) हे सोम (अद्रिभिः) पापाणोंसे (स्वानः) निचोड़ा हुआ तू (अव्यया, वाराणि) रजक वालोंको (निरस्) व्यवधान करता हुआ (आ यवसे) अभिमुख होकर कलशमें प्राप्त होता है (हरिः) हरे वर्णका वह सोम (चम्बोः) अधिपवर्णके काष्ठोंपर धरे हुए कलश में (पुरि जनो न) जैसे नगरमें पुष्प प्रवेश करता है तैसे (विशन्) प्रवेश करता है वह तू (वनेषु) काठके पात्रोंमें (सदः) स्थानको (दधिषे) बनाना हुआ ॥ ३ ॥

प्रसोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा ।
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं
मधुश्चुतम् ॥ ४ ॥

(सोम) हे सोम (त्वम्) तू (देववीतये) देवताओंके पीनेके अर्थ (सिन्धुः न) सिन्धुकी समान (अर्णसा) वसतीवरी नामक जलसे (प्रपिप्ये) वृद्धिको प्राप्त और पूर्ण होता है (न) इससमय (मदिरः) मदकारी (जागृविः) जागरणशील तू (अंशोः) लताके टुकड़ेके (पयसा) जलसे (मधुश्चुतम्) मधुररसको बहानेवाले (कोशम्) श्रेण कलशको (अच्छ) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम् ।
अश्वयेव हरिता याति धारयामन्दया याति
धारया ॥ ५ ॥

(सोतृभिः) निचोड़नेवालोंसे (स्वानः) निचोड़ा जाता हुआ (सोमः) सोम (अवीनाम्) अधियोंके (स्नुभिः) बालोंसे शुद्ध होकर (अधि-

याति) पहुँचता है (उ) यह प्रसिद्ध है (अश्वया इव) बडवाके द्वारा जैसे (हरिता) हरी (धारया) धारा करके (याति) प्राप्त होता (मन्द्रया) आनन्ददायक (धारया) धारा करके (याति) प्राप्त होता है ५

तवाहः सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे ।
पुरूणिवभ्रो निचरन्ति मामव परिधींरति
ता इहि ॥ ६ ॥

(इन्दो) हे सोम (सख्ये) तेरे मित्रभावमें (दिवे दिवे) प्रतिदिम (रारण) रमण करूँ (यभ्रो) हे सोम ! (पुरूणि) बहुतसे राजस (माम्) मुझ (न्यचरन्ति) बाधा देते हैं (तान्) उन (परिधीन्) राजसोंको तू (अतीहि) नष्ट कर ॥ ६ ॥

मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वासि ।
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ७

(सुहस्त्या) हे सुंदर अंगुलियोंसे संपादन करेहुए सोम ! (मृज्यमानः) पवित्र कियाजाता हुआ तू (समुद्रे) कलशमें (वाचम्) शब्दको (इन्वासि) प्रेरणा करता है (पवमान) हे सोम ! (पिशङ्गम्) सोना चांदी आदिसे पीनवर्ण (बहुलम्) बहुतसे (पुरुस्पृहम्) अनेकोंके चाहेहुए (रयिम्) धनको (अभ्यर्षसि) स्तोताओंको देते हो ७

अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम् । स-
मुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मद-
च्युतः ॥ ८ ॥

(आयवः) गमनशील (मनीषिणः) मनको प्रिय लगनेवाले (मत्सरासः) मदकारी (मदच्युतः) मदकारी रसको टपकानेवाले (सोमासः) सोम (समुद्रस्य) कलशके (विष्टपे) ऊपर (मद्यम्) मदकारी (मदम्) अपने रसको (अभिपवन्ते) सब ओर को निकालते हैं ॥ ८ ॥

पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः । त्वं
विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्षणः ९

हे सोम ! (जागृविः) जागरणशील (प्रियः) नृम करनेवाले तुम (पुनानः) पवित्र होते हुए (अय्याः) भेड़ीके (वारैः) बालों से बने हुए दशापवित्र में (परि) टपकते हो (अङ्गिरस्तम) हे अङ्गिरसों में श्रेष्ठ (विप्रः) बुद्धिबर्धक तुम (अभवः) पितरों के नेता होते हो, वह तुम (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञको (मध्वा) अपने मधुर रससे (मिमिक्ष) लीचना चाहते हो ॥ ६ ॥

इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः ।

सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ।

(मदः) आनन्ददायक (सुतः) खिचा हुआ (सोमः) सोम (मरुत्वते) मरुतों से युक्त (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (पवते) पात्रमें पूर्ण होता है, तदनन्तर (सहस्रधारः) अनेकों धाराओं से युक्त सोम (अव्यम्) भेड़ीके पवित्रमें को (अन्यर्षति) छुनकर निकलता है, उसको (आयवः) मनुष्य ऋत्विज (मृजन्ति) शुद्ध करते हैं ॥ १० ॥

पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वार्या ।

त्वच्छं समुद्रः प्रथमे विधर्म देवेभ्यः सोम मत्सरः

(सोम) हे सोम ! (विश्वानि) सब (वार्या) स्तोत्रोंको (अभि) लक्ष्य करके (वाजसातमः) अधिकता से अन्न प्राप्त कराने वाला तू (पवस्व) प्राप्त हो, हे सोम ! (देवेभ्यः) देवताओं का (मत्सरः) मदकारी (समुद्रः) नृम करनेवाला (विधर्मन) विशेषरूपसे पोषक तू (प्रथमे) श्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं के निमित्त क्षणित हो ॥ ११ ॥

पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । मरु-
त्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रया-
सि च ॥ १२ ॥

(मरुत्वन्तः) मरुतोंसे युक्त (मत्सराः) मदकारी (इन्द्रियाः) इन्द्र के प्रिय (मेधाम्) स्तुतिको (प्रियांसि च) अन्नोंको भी (अभि) लक्ष्य करके अर्थात् स्तोत्रोंको अन्न देनेके निमित्त (हया) यज्ञमें जानेवाले (पवमानाः) सोम (धारया) अपनी धारसे (पवित्रम्) पवित्रको अतिक्रमण करके (असृक्षत) संपादित होते हैं ॥ १२ ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चम खण्ड. समाप्त. ।

प्र तु द्रव पारि कोशं नि पीद नृभिः पुनानो
अभि वाजमर्ष । अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जय-
न्तोऽच्छा वर्ही रशनाभिर्नयन्ति ॥ १ ॥

हे सोम ! (तु) शीघ्र (प्रद्रव) आकर प्राप्त हो और (कोशं परि-
निपीद) कलशमें स्थित हो (नृभिः) ऋत्विजोंसे (पुनानः) पवित्र
किया जाता हुआ (वाजम्) यजमान के निमित्त अन्नको (अभ्यर्ष)
दे (वाजिनं, अश्वं न) बलवान् घोड़े की समान (त्वा) तुम्हें (मर्ज-
यन्तः) शुद्ध करते हुए अध्वर्यु आदि (प्रतिरशनाभिः) अगुलियों से
(बर्हिम्, अच्छ नयन्ति) यज्ञ में भले प्रकार पहुँचाते हैं ॥ १ ॥

प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा
विवक्ति । महिब्रतः शुचिवन्धुः पावकः पदा
वराहो अभ्येति रेभन् ॥ २ ॥

(उशना इव) उशनाकी समान (काव्यम्) स्तोत्रको (ब्रुवाणः)
बोलता हुआ (देवः) स्तोता (देवानाम्) इन्द्रादि देवताओंके (जनिम्)
अवतारोंको (प्रविवक्ति) अधिकतासे वर्णन करता है (महिब्रतः)
अनेकों कर्मवाला (शुचिवन्धुः) दिपरहा है तेज जिसका ऐसा (पावकः)
पापोंको शुद्ध करनेवाला (वराहः) श्रेष्ठ दिनमें संपादित हुआ सोम
(रेभन्) शब्द करता हुआ (पदा) पात्रोंमें (अभ्येति) आता है ॥२॥

तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निर्ऋतस्य धीतिं ब्र-
ह्मणो मनीषाम् । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छ-
मानाः सोमं याति मतयो वावशानाः ॥ ३ ॥

(वह्निः) हवि पहुँचानेवाला यजमान (तिस्रः वाचः) ऋक् यजु
सामरूप स्तुतियोंको (ईरयति) उच्चारण करता है (ऋतस्य) यज्ञकी
(धीतिम्) धारण करनेवाली (ब्रह्मणः) महान् सोमकी (मनीषाम्)
कल्याणरूप वाणीको उच्चारण करता है (गोपतिं, गावः, यन्ति) वृषभके
समीप गौण जाती हैं तिसीप्रकार (पृच्छमानाः) पृछते हुए (वाव-
शानाः) कामनावाले (मतयः) स्तोता (सोमं, यन्ति) सोमके समीप
स्तुति करनेको जाते हैं ॥ ३ ॥

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सम-
पृक्त रसम् । सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव
सद्म पशुमन्ति होता ॥ ४ ॥

(अस्य) इस सोमके (प्रेषा) प्रेरक (हेमना) हिरण्यसे (पूयमानः) पवित्र किया जाता हुआ (देवः) दिव्य सोम (रसम्) अपने रसको (देवेभिः) देवताओंके साथ (समपृक्त) संयुक्त करता है, तदनंतर (सुतः) खँचा हुआ सोम (रेभन्) शब्द करता हुआ (पवित्रं, पर्येति) उनके पवित्रमेंको पात्रमें प्राप्त होता है (होता, मित्ता, पशुमान्ति, सद्म, इव) जैसे देवताओंका आह्वान करनेवाला यज्ञका निर्माता ऋत्विक् पशुयुक्त यज्ञशालामें प्रवेश करता है ॥ ४ ॥

सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो ज-
निता पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५ ॥

(मतीनाम्) बुद्धियोंका (जनिता) उत्पन्न करनेवाला (दिवः) ध्रुलोकका (जनिता) प्रकट करने वाला (पृथिव्याः) पृथिवीका (जनिता) पोषक (अग्नेः) अग्निका (जनिता) प्रकाशक (सूर्यस्य) सबके प्रेरक आदित्यका (जनिता) तृप्तिकर्ता (इन्द्रस्य) इन्द्रका (जनिता) पीनेसे आनन्ददायक (उत) और (विष्णोः) व्यापक देवका (जनिता) तृप्तिकर्ता (सोमः) संपादन किया जाता हुआ सोम (पवते) पात्रमें प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गेषिणमवाव-
शन्त वाणीः । वना वसानो वरुणो न सिंधु-
विरत्नधा द्यते वार्याणि ॥ ६ ॥

(त्रिपृष्ठम्) तीन सघन वाले (वृषणम्) कामनाओंके दाता (वयोधाम्) अन्न देनेवाले (अङ्गेषिणम्) ऊँचा शब्द करनेवाले सोम की (वाणीः) अवावशन्त) स्तुतियों कामना करती हैं (वनाः) जलोंको (वसानः) छाता हुआ (सिंधुः) जलोंको वहानेवाला (वरुणः इव)

वरुण जैसे (रत्नधाः) रत्नोंको देनेवाला सोम (वार्याणि) धन (दयते) स्तोताओंको देता है ॥ ६ ॥

अक्रांत्समुद्रः प्रथमे विधर्म जनयन् प्रजा भुवनस्य गोपाः । वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये-
बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ ७ ॥

(समुद्रः) जलोंकी वर्षा करनेवाला (गोपाः) यज्ञका रक्षक (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (स्वानः) अभिषवकियाजाना हुआ सोम (प्रथमे) विस्तीर्ण (भुवनस्य) जलके (विधर्मन्) विशेषरूपसे धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें (प्रजाः) प्रजाओंको (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (अक्रान्) सबको अतिक्रमण करता है ॥ ७ ॥

कनिकन्ति हरिरा मज्यमानः सीदन्वनस्य
जठरे पुनानः । नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गाम-
तो मतिं जनयत स्वधाभिः ॥ ८ ॥

(आसृज्यमानः) सब ओरसे खेंचाजाना हुआ (हरिः) हरे वर्णका सोम (कनिकन्ति) वारंवार शब्द करता है, तथा (पुनानः) पवित्र कियाजाता हुआ (वनस्य) चाहने योग्य द्रोणकलशके (जठरे) भीतर (सीदन्) स्थित होता हुआ शब्द करता है (नृभिः) ऋत्विजों करके (यतः) दबाया हुआ सोम (गाः) गोदुग्धादिको आच्छादन करता हुआ (निर्णिजम्) अपने शुद्धरूपको (कृणुते) ग्रह आदिमें करता है अतः इस सोमके अर्थ (मतिम्) स्तुतिको (स्वधाभिः) हवियोंके साथ (जनयत) स्तोता करे ॥ ८ ॥

एष स्य ते मधुमाः इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः
परि पवित्रे अक्षाः । सहस्रदाः शतदा भूरि-
दावा शश्वत्तमं वहिरा वाज्यस्थात् ॥ ९ ॥

हे इन्द्र ! (वृष्णः) मनोरथपूरक (ते) तुम्हारे अर्थ (एषः) यह (स्यः) वह सोम (मधुमान्) मधरता युक्त (वृषा) वरसनेवाला (पवित्रे) दशापवित्र में को (पर्यक्षाः) टपकता है, तथा वह ही (सहस्रदाः) महस्रों सख्याका धन देनेवाला (शतदाः) सैंकड़ों सख्या

का धन देनेवाला (भूरिदावा) बहुतसा धन देनेवाला (वाजी) बल
वान् सोम (शश्वत्तमम्) अन्यन्त पुरातन (बर्हिः) यज्ञमें (अस्थात्)
स्थित, हुआ ॥ ६ ॥

पवस्व सोम मधुमाः ऋतावापो वसानो अधि
सानो अव्ये । अव द्रोणानि घृतवन्ति
रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १० ॥

(सोम) हं सोम ! (मधुमान्) मधुरतः युक्तः (अपः) वसती
वरी नामक जलोंको (वसानः) आच्छादन करता हुआ (अधि) अधिक
(सानो) ऊंचे (अव्ये) ऊनके पवित्रे में (पवस्व) क्षरित हो, नद-
नन्तर (मदिन्तमः) अन्यन्त मदकारी (इन्द्रपानः) इन्द्रके पीने योग्य
(मत्सरः) आनन्द देनेवाला सोम (घृतवन्ति) जल युक्त (द्रोणानि)
द्रोणकलश में (अवरोह) प्रकट होता है ॥ १० ॥

पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं खण्डं समाप्तं

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति ह-
र्षते अस्य सेना । भद्रान् कृण्वन्तिन्द्रहवांस-
खिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ १ ॥

(सेनानी) सेनाओंके आगे जानेवाला (शूरः) शत्रुओंको बाधा देने
वाला (सोम) सोम (गव्यन्) यजमानोंके गौ आदि पशुओंको इच्छा
करता हुआ (रथानाम्) रथोंके (अग्रे) आगे (प्रति) सम्यक् प्रकार
से संग्राममें जाता है (अस्य) इस सोमकी (सेना) सेना (हर्षते)
प्रसन्न होती है (खिभ्यः) यजमानोंके अर्थ (इन्द्रहवान्) उनके किये हुए
इन्द्रके आह्वानोंको (भद्रान्) कल्याणस्वर (कृण्वन्) करता है अर्थात्
आह्वान किया हुआ इन्द्र सोमको पीकर अभिलाषाओंको सिद्ध करता है
(रभसानि) इन्द्रके वेगसे आनेके निमित्तभूत (वस्त्रा) वस्त्रकी
समान आच्छादक दूध आदिको (आदत्ते) ग्रहण करता है ॥ १ ॥

प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन् वारं यत्पूतो अ-
त्येष्यव्यम् । पवमान पवसे धाम गोतां जन-
यंतसूर्यमपिन्वो अर्केः ॥ २ ॥

(ते) तेरी (मधुमतीः) मधुरतायुक्त (धाराः) धारायें (प्रासृपन्) तब छोड़ीजाती हैं (यत्) जब (पतः) वसतीपरी जलोंसे पवित्र कियाहुआत् (अव्यम्) भेड़ीकी (वारम्) उनको अर्थात्, उनके पवित्र को (अत्येपि) अतिक्रमण करके पात्र में जाता है और (पवमान) हे सोम ! (गोनाम्) गौओंके (धाम) दूधको लक्ष्य करके (पवसे) क्षरित होता है तदनन्तर (जनयन्) सुसिद्ध होताहुआ तू (अकैः) पूजनीय अपने तेजोंसे (सूर्यम्) सूर्यको (अपिन्यः) पूर्ण करता है । २

प्र गायतामभ्यर्चाम देवांसोमं हि नोत मह-
ते धनाय । स्वादुःपवतामति वारमव्यमा
सीदतु कलशं देवः इन्दुः ॥ ३ ॥

हे स्नाताओं ! (प्रगायत) सोमकी सम्यक् प्रकार से स्तुति करो हम तो (देवान् अभ्यर्चाम्) देवताओंका पूजन करते हैं (महते) बहुतसे धनके लिये सोमको (हि नोत) अभिपन्न के निमित्त प्रेरणा करो, तदनन्तर (स्वादुः) मीठा सोम (अव्यं वारम्) भेड़ीके बालों के पवित्रको (अतिपवताम्) अतिक्रमण करके क्षरितहो (देवः दिव्य सोम) इन्दुः) दीप्त होता हुआ (कलशम् , अति आसीदतु) अभिमुख होकर द्रोण कलशमें स्थित होय ॥ ३ ॥

प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं
सनिषन्नयासीत् । इन्द्रं गच्छन्नायुधा सं शि-
शानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ४ ॥

(प्रहिन्वानः) अवर्ष्युओंका प्रेरणा किया हुआ (रोदस्योः) धाना पृथिवीका (जनिता) वर्षा और हविको पहुँचानेके द्वारा उत्पन्न करने वाला (वाजम्) अन्नको (सनिष्यन्) देताहुआ (आयुधा, संशिशानः) आयुधोंको सम्यक् प्रकार से तीक्ष्ण करता हुआ (विश्वा) सकल (वसु) धनोंको (हस्तयोः, आदधानः) हमें देनेके निमित्त हाथों में धारण करता हुआ (प्रायासीत्) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

तक्षयदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य धर्मं द्यु-
क्षोरनीके । आदीमायन् वरमा वावशाना जुष्टं

पतिं कलशे गाव इन्दुम् ॥ ५ ॥

(वेनतः) चाहेदृष्ट (मनसः) स्तोताकी (वाक्) स्तुतिरूप वाली (यन्) जिसका (तक्षन्) संस्कारयुक्त करती है (धर्मन्) यज्ञमें (ज्येष्ठस्य) प्रशंसनीय (द्युज्ञोः) सवनके (अनीके) आग अर्थात् जब यज्ञोंमें सवनके स्तोताकी वाली सोमकी पशसा करता है (आ) तदनंतर ही (वग्म्) श्रेष्ठ (जुष्टम्) देवताओंके मदके निमित्त पर्याप्त (पतिम्) सवके पालक (कलशे) कलशमें स्थित (ईन इन्दुम्) इस सोमको (वावशानाः) चाहती हुई (गावः) गौएं (आयन्) अपने दूधसे मिलानेको आती हैं ॥ ५ ॥

साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धी-
तयो धनुत्रीः । हरिः पर्यद्रवजाः सूर्यस्य द्रोणं
ननक्षे अत्योन वाजी ॥ ६ ॥

(साकमुक्षः) एक साथ सीचनेवाली (स्वमारः) कर्म करने को इधर उधरका चलती हुई अंगुलिये (मर्जयन्त) सोम को शुद्ध करती हैं (दश धीतयः) वह दश अंगुलिये (धीरस्य) देवताओंके कामना क्रियेदृष्ट सोम की (धनुत्रीः) प्रेरणा करनेवाली हैं, तदनंतर (हरिः) हरे वर्णका सोम (सूर्यस्य जाः) सूर्यकी दिशाओंको (पर्यद्रवन्) चारों ओर जाता है (अत्यः) गमनशील (वाजी न) अश्वकी समान सोम (द्रोणं ननक्षे) कलशमें व्याप्त होता है ॥ ६ ॥

अधि यदस्मिन् वाजिनीव शुभ स्पर्थन्ते धि-
यःसूरे न विशः । अपो वृणानः पवते कवी-
यान् व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥ ७ ॥

(यद्) जब (अस्मिन्) इस सोमके विषयमें (वाजिनीव शुभः) घोड़ेके यन्त्रादि अलङ्कारोंकी समान (सूरे विशः न) जैसे सूर्यमें किर्णोंका उदय होता है तैसे (धियः, अधिस्पर्थन्ते) में पहिले शुद्ध करूंगी मैं पहिले शुद्ध करूंगी, इसप्रकार अङ्गुलिये उपस्थित होती है, तदनंतर यह सोम (अपः) वसन्तीदरी जलोंको (वृणानः) आच्छादन करता हुआ (कवीयान्) स्तोताओंकी इच्छा करता हुआ (पवते) कलशमें प्राप्त होता है (पशुवर्धनाय, मन्म, व्रजं न) जैसे कि—पशु-

श्रौंकी वृद्धि करनेके लिये रक्षा करनेयोग्य गोठमें गोपाल जाताहै ॥७॥

इन्द्रुवाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह
इन्वन्मदाय । हन्ति रक्षो वाधते पर्यरातिं
वरिवस्कृष्वन् वृजनस्य राजा ॥ ८ ॥

(इन्द्रुः) जखणशील (वाजी) बलवान् (गोन्योघाः) गमनशील
नीचेमेंको जानवाला रससमूह (इन्द्रं) इन्द्रके निमित्त (सहः) बल-
दायक रसको (इन्वन्) प्रेरणा करनेवाला (वरिवः) धन (कृष्वन्)
यजमानको देनेवाला (वृजनस्य) बलका (राजा) ईश्वर (सोमः)
सोम (मदाय) इन्द्रको मद होनेके निमित्त (पवते) पात्रमें टपकता
है (रक्षः) राक्षसोंको (हन्ति) नष्ट करताहै (अरातीः) शत्रुओंको
(परिवाधते) चारों ओरसे वाधा देता है ॥ ८ ॥

अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इंदो
सरसि प्र धन्व । ब्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूर्तिं
पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धातु ॥ ९ ॥

हे सोम ! (अया) इस (पवा) पवमान धागके साथ (एना)
इन (वसूनि) धनोंको (पवस्व) वरस (इंदो) हे सोम ! तू (मां-
श्चत्व) मान्योंके चाहनेयोग्य (सरसि) वसुतीवरी नामक कलशमें
(प्रधन्व) पहुँच, तदनंतर (यस्य) जिस सोमको (ब्रध्नश्चित्)
सबका मूलभूत आदित्य (वातो न) वायुकी समान (नरम्) प्रेरक
(जनिम्) वेगको (धातु) धारण करताहुआ, और (पुरुमेधाश्चित्)
अनेको प्रकारकी वृद्धिवाला इन्द्र भी (तत्रये) प्राप्त होय ॥ ९ ॥

महत्तसोमो महिपश्चकारापां यद्गर्भो वृणीत
देवान् । अद्ग्रादिन्द्रे पवमान ओजोऽजन-
यत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ १० ॥

(माहपः) महान् (सोमः) सोम (महत्) बहुतसे (तत्) उस
कर्मको (चकार) करताहुआ, वह कर्म दिखाते हैं, कि—(यत्) जो
(अपांगर्मः) जलोंका उत्पादक होनेसे गर्भरूप यह सोम (देवान्)

देवताओंको (अवृणीत) भजताहुआ और (पवमानः) पूयमान सोम (इन्द्रे) इन्द्रमें (अोजः) सोमपानजनित बलको (न्यधात्) धारण करताहुआ, तथा (इन्दुः) सोम (सूर्ये) सूर्यमें (ज्योतिः) तेजको (अजनयत्) उत्पन्न करताहुआ ॥ १० ॥

असर्जि वक्त्रा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता
प्रथमा मनीषा । दश स्वसारो अधि सानौ
अव्ये सृजन्ति वह्निं, सदनेष्वच्छ ॥ ११ ॥

(मनोता) जिसमें देवताओंके मन ओतप्रोत हो रहे हैं (प्रथमा) मुख्य (मनीषा) स्तुति कियाहुआ (वक्त्रा) शब्दायमान सोम (आजौ) यज्ञ में (धिया) स्तोत्रके साथ (रथ्ये यथा) जिसप्रकार संग्राम में घोड़ेको संसृष्ट कियाजाना है तैसे (असर्जि) संयुक्त किया गया (दश स्वसारः) दश अंगुलियें (सदनेषु) यज्ञगृहोंमें, पात्रोंकी ओरको (वह्निम्) आनन्दपद पर पहुँचानेवाले सोमको (सानौ अधि) ऊँचे स्थान पर (अव्ये) ऊनके पवित्रमेंको (अच्छ मृजन्ति) भले प्रकार प्रेरणा करते हैं ॥

अपामिवेदूर्मयस्तर्तुराणाः प्रमनीषा ईरते सो-
ममच्छानमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विश-
न्त्युशतीरुशन्तम् ॥ १२ ॥

(अपां ऊर्मयः इव) जैसे जलकी तरंगे शीघ्रता करती हैं तैसे ही (तर्तुराणाः इन्) कर्ममें देवताओंकी स्तुति करनेके निमित्त शीघ्रता करनेवाले ऋन्विज् (मनीषाः) स्तुतियोंको (सोमम् अच्छ) सोमके प्रति (प्रेरयन्ति) प्रेरणा करते हैं (उशतीः) स्तुतियें (नमस्यन्तीः) सत्कार करती हुई (उशन्तम्) कामना करनेवाले (तम्) उस सोमको (उपयन्ति च) समीपमें पहुँचती हैं (सं च) संयुक्त होती हैं (आविशन्ति च) और उसमें अपना प्रवेश भी करती हैं ॥ १२ ॥

पञ्चमाध्यायस्य सप्तम खण्डः समाप्तः

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे ।
अप श्वानं, श्वथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वयम् १

(सखायः) हे मित्र स्तोताओं (वः) तुम (पुरोजिती) जिसके

सामने विजय स्थित है ऐसे (अन्धसः) सोमके (सुताय) खँचेहुए (नादयित्तवे) अन्यन्त मददायक रसके अर्थ (दीर्घजिह्वयम्) लंबी जीभवाले (श्वानम्) कुत्तेको (अवश्नथिष्टन) हटाओ ॥ १ ॥

अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति ।

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥२॥

(पूषा) पोषक (भगः) सेवनयोग्य (रयिः) धनप्राप्तिका कारण (अयम्) यह लोम (पुनानः) पवित्रमें शुद्ध होताहुआ (अर्षति) कलश में प्राप्त होताहै तथा (विश्वस्य) सकल (भूमनः) प्राणिमात्रका (पतिः) पालन करनेवाला (सोमः) सोम (उभे रोदसी) द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनोंको (व्यख्यत्) अपने तेजसे प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः ।

पवित्रवन्तो अक्षरं देवान् गच्छन्तु वो मदाः ३

(मधुमत्तमाः) अन्यन्त मधुरतायुक्त (मन्दिनः) मदकारी (सुतासः) खँचेहुए सोम (पवित्रवन्तः) पवित्रमें वर्तमान होतेहुए (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (क्षरन्) पात्रोंमें टपकने हैं (वः) हे सोमो ! तुम्हारे (मदाः) मदकारी रस (देवान्) इन्द्रादि देवताओंको (गच्छन्तु) प्राप्त हों ॥ ३ ॥

सोमाः पवन्त इन्द्रवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः ।

मित्राः स्वानाअरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥४॥

(गातुवित्तमाः) श्रेष्ठ मार्ग पर लेजानेवाले (मित्राः) देवताओंके मित्ररूप (स्वानाः) सुसिद्ध कियेजानेहुए (अरेपसः) पापरहित (स्वाध्यः) भलेप्रकार ध्यान करानेवाले (स्वर्विदः) स्वर्गप्रापक (इन्द्रवः) दिपतेहुए (सोमाः) सोम (पवन्ते) हमारे निमित्त आते हैं ४

अभी नो वाजसातमं रयिर्मर्ष शतस्पृहम् ।

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्न विभासहम् ॥५॥

(इन्दो) हे दीप्तिमान् सोम ! (शतस्पृहम्) सैंकड़ोंके चाहनेयोग्य (सहस्रभर्णसम्) सहस्रोंका भरण करनेवाले (तुविद्युम्नम्) बहुत से अन्न और यशवाले (विभासहम्) प्रकाशका तिरस्कार करनेवाले

अर्थात् अत्यन्त तेजस्वी (वाजसानमम्) बलदायक (रयिम्) पुत्र-
धनको (नः) हमें (अभ्यर्ष) प्राप्त कराओ ॥ ५ ॥

अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।

वत्संन पूर्व आयुनि जातं, रिहन्ति मातरः ६

(न) जैसे (मातरः) बछड़ोंकी माता गौएं (पूर्व) पाहले (आ-
युनि) वयमें (जातम्) उत्पन्न हुए (वत्सम्) बछड़ोंको (रिहन्ति)
छाटती हैं, जैसे ही (अद्रुहः) द्रोहरहित वसतीवरी नामका जल
(इन्द्रस्य) इन्द्रके (प्रियम्) प्यारे (काम्यम्) सबके चाहना किये
हुए सोमको (अभिनवन्ते) प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

आ हर्यताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम् ।

शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे मही-

युवः ॥ ७ ॥

(हर्यताय) सबके इच्छा करनेयोग्य (धृष्णवे) शत्रुओंका निर-
स्कार करनेवाले सोमके अर्थ (पौंस्यम्) पुरुषत्वके प्रकाशक श्रेष्ठ
(धनुरातन्वन्ति) धनुषपर प्रन्यञ्चा चढ़ाने हैं, यह एकप्रकारसे सोम
की धारा छोड़नेके निमित्त फैलायेहुए पवित्रका वर्णन है, तिसको
ही स्पष्ट करके कहते हैं, कि—(विपाम) विद्वानोंके (अग्रे) आगे
(महीयुवः) पूजा चाहनेवाले अध्वर्यु (शुक्राः) स्वेत गोदुग्धोंको
(असुराय) बलवान् (निर्णिजे) स्वरूपके अर्थ शुद्ध करनेको (वयन्ति)
आच्छादन करते हैं ॥ ७ ॥

परित्यं, हर्यतं, हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण ।

यो देवान् विश्वां, इत्परि मदेन सह गच्छति ८

(हर्यतः) सबके स्पृहा करनेयोग्य (हरिम्) हरेवर्णके (बभ्रुम्)
बभ्रुवर्णके (त्यम्) उस सोमको (वारेण) ऊनके पवित्रसे (परिपु-
नन्ति) शुद्ध करते हैं (यः) जो सोम (विश्वान्) सकल (देवान्
इत्) इन्द्रादि देवताओंको ही (मदेन सह) मदकारी रसके साथ
(परिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः ।

अप श्वानमराधसं, हता मखं न भृगवः ९

(सुन्वानाय) सुसिद्ध कियेजातेहुए (अन्धसः) सोमके (तत्) प्रसिद्ध (वच) वचनको (मर्त्तः) कर्ममें विघ्न करनेवाला (न प्रवृष्ट) न सुनै, तथा हे स्तोताओं ! (अराधसं, मखं, भृगवः, न) जैसे पहिले दक्षिणाहीन मखको भृगुओंने हटाया था तैसे (श्वानम्) कुत्तको (अपहत) दूर करो ॥ ९ ॥

पञ्चमाध्यायस्य अष्टम खण्ड समाप्तः

अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्बो
अधियेषु वर्द्धते । आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि
रथं विश्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ १ ॥

(चनाहितः) भोजन करने योग्य और हिनकारी सोम (प्रियाणि) जगत्को तृप्त करनेवाले (नामानि) जलोंको (अभिपवते) सब ओर से प्राप्त होता है (येषु) जिन जलोंमें (यद्बो) यह महान सोम (अधि वर्द्धते) अधिक वृद्धिको प्राप्त होता है तदनंतर (इह न) यह महान सोम (बृहतः) बड़े (सूर्यस्य) सूर्यके (विश्वञ्चम) सर्वत्र गमन करने वाले (रथम्, अधि) रथके ऊपर (विचक्षणः) विश्वका द्रष्टा होता हुआ (आरुहत्) चढ़ता है ॥ १ ॥

अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृह-
देवेषु हरयः । वि चिदश्नाना इषयो अरातयो-
ऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ २ ॥

(अचोदसः) अन्यकी प्रेरणासे रहित (हरयः) पापहारी वा हरेवर्ण के (स्वानासः) सुसिद्ध कियेजाने वाले (इन्दवः) सोम (नः) हमारे (बृहदेवेषु) अनेकों देवताओंसे युक्त यज्ञोंमें (प्रधन्वन्तु) प्राप्त हों (अरातयः) धन आदिका दान न करनेवाले (नः) हमारे (अर्याः) शत्रु (इषय) अज्ञोंकी इच्छा करतेहुए (अश्नाना विचित्) भोजन से वियुक्त (सन्तु) हों (नः) हमारे (धिया) देवविषयक स्तोत्र (सनिषन्तु) देवताओंको प्राप्त हों ॥ २ ॥

एष प्र कोशे मधुमाखं अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो

वपुषो वपुष्टमः । अभ्युत्तस्य सुदुघा घृतश्चुतो
वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः ॥ ३ ॥

(इन्द्रस्य) इन्द्रका (वज्रः) बलदायक होनेसे वज्ररूप (वपुषः) बीज बानेवालोंसे (वपुष्टमः) श्रेष्ठ बीज बानेवाला (पयः) यह (मधु-मान) मधुररसयुक्त सोम (कोशे) द्रोणकलशमें (प्राचक्रवत्) शब्द करताहै (अतस्य) अमोघफलवालेसोमकी (सुदुघाः) फलोंको सुन्दर तासे धरसानेवाली (घृतश्चुतः) जलको शिरानेवाली (वाश्राः) शब्द करती हुई धारार्थे (पयसा धेनवः च) दुधेर गौओंकी समान (अभ्य-र्षन्ति) प्राप्त होतीहै ॥ ३ ॥

प्रो अयासीदिन्द्रुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा स-
ख्युर्न प्र मिनाति सद्भिरम् । मर्य्य इव युवति-
भिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ४

(इन्द्रुः) सोम (इन्द्रस्य) इन्द्रके (निष्कृतम्) संस्कार युक्त स्थान उदरको (प्रो अयासीत्) अधिकतासे जानाहै और जाकर (सखा) मित्ररूप सोम (सख्युः) मित्र इन्द्रके (सद्भिरम्) सम्यक् निगलेहुए के आधाररूप उदरको (न प्रमिनाति) कष्ट नहीं देताहै और (युव-तिभिः मर्य्य इव) जैसे तरुणियोंके साथ पुरुष संजन्त होताहै तैसे ही मिलानेके वसतीवरी जलोंके साथ (समर्षति) मिलता है (सोमः) और वह सोम (शतयामना) अनेकों शोधनके छिद्र युक्त (पथा) दशापवित्र के मार्गसे (कलशे) द्रोणकलशमें प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

धर्ता दिवः पवते कृत्वां रभो दक्षो देवाना-
मनुमाद्यो नृभिः । हरिः सृजानो अत्यां न
सत्वभिवृथा पाजासि कृणुते नदीष्वाम् ॥५॥

(धर्ता) सबका धारक (कृन्वः) शोधने योग्य (रभः) रभरूप (देवानां दक्षः) देवताओंको बल देनेवाला (नृभिः अनुमाद्यः) सृष्टि-जोंके स्तुति करनेयोग्य (हरिः) हरे वर्णका सोम (दिवः) अन्तरिक्ष में स्थित दशापवित्रमेंसे (पवते) पवित्र होकर आता है (सत्वभिः) हम प्राणियोंसे (सृजानः) सुसिद्ध कियाजाना हुआ (अत्यां न) जैसे

घोडा अनायास जाता है तैसे ही (वृथा) प्रयत्नके बिना ही (पाजांसि)
अपने धर्मोंको (नदीपु) वसतीवरी जलोंके प्रवाहोंमें (हृणुते) करता है ५
वृषा मनीनां पवते विचक्षणः सोमो अद्वां प्र-
तरीतोषसां दिवः । प्राणा सिन्धूनांकलशां
अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मर्नाषिभिः ॥ ६ ॥

(मनीनां वृषा) स्तोताओंके मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला (विच-
क्षणः) विशेष द्रष्टा (अद्वां) दिनोंका (उपसाम) उपःकालोंका
(दिवः) चुलोकका धा आदिनाम (प्रतरीता) बढ़ानेवाला (सोमः)
यह सोम (पवते) सुनिद्ध किया जाता है और (सिन्धूनां) जलोंमें
(प्राणा) पूर्ण सोम (मनीषिभिः) स्तुतियोंके साथ (इन्द्रस्य) इन्द्रके
(हार्दि, आविशन्) हृदयमें प्रवेश करना चाहता हुआ (कलशान)
अभि) कलशोंकी ओरको लक्ष्य करके (अचिक्रदन्) धारासे प्रवेश
करनेमें शब्द करता ॥ ६ ॥

त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्थामाशिरं परमे
व्योमनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे
चारुणि चक्रे यदृतैरवर्द्धत ॥ ७ ॥

(परमे व्योमनि) श्रेष्ठ यज्ञमें स्थित (अस्मे) इस सोम के अर्थ
(त्रिः सप्त) इक्कीस (धेनवः) गौएँ (सत्याम्) यथार्थ (आशिरम्) दूध
आदिको (दुदुहिरे) दुहीजाकर पात्रोंमें पूर्ण करती हैं, अथान् वारह मास
पाँच ऋतु तीन लोक और आदित्य, यह इक्कीस मिलकर गौओंमें
दूधको उत्पन्न करते हैं उसको ही गौओंमें दुहा जाता है और यह सोम
(यत्) जब (ऋतैः) यज्ञोंसे (अवर्द्धत) बढ़ता है, तब (अन्या)
और (चत्वारि) चार (भुवना) वसतीवरी आदि जलोंको (निर्णिजे)
शुद्ध करनेके लिये (चारुणि) कल्याणरूप (चक्रे) करता है ॥ ७ ॥

इन्द्राय सोम सुपुतः परि स्रवापामीवा भवतु
रक्षसा सह । मा ते रसस्य मत्सत ह्याविनो
द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥

(सोम) हे सोम! तू (सुषुतः) सुन्दरप्रकारसे सिद्ध किया हुआ (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (परिस्रव) सब ओरसे रसको छोड़ (अमीवा) रोग (रक्षसा सह) राक्षसके साथ (अपभवतु) दूर हो (ते) तेरे (रसस्य) रसके अपने अंशको पीकर (मा मन्सत) मद्युक्त न हों, जोकि (द्वयाविनः) भूठ सत्य दोनोंसे युक्त पापी हैं। (इन्द्रधः) तेरे रस (इह) इस यज्ञमें (द्रविणस्वन्तः सन्तु) हमारे लिये धनवान् हों ॥ ८ ॥

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो
अभि गा अचिक्रदत् । पुनानो वारमत्येष्य-
व्ययः श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत् ॥ ९ ॥

(अरुषः) दमकदार (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (हरिः) हरे वर्णका (सोमः) सोम (असावि) संपादित हुआ (राजेव दस्मः) राजाकी समान दर्शनीय होता हुआ (गाः अभि) जलोंकी आंरको लक्ष्य करके (अचिक्रदत्) अपना रस निकलनेके समय शब्द करता है, फिर (पुनानः) पवित्र होता हुआ (अव्य वारम्) भेड़ीकी उनके पवित्रमेंका (अन्येषि) छनकर निकलता है, तदनन्तर (श्येन न) श्येन पत्नीकी समान (घृतवन्तम्) जलमय (योनिम्) अपने स्थानका (आसदत्) प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

प्रदेवमच्छा मधुमन्त इन्द्रवोऽसिष्यन्दत गाव
आ न धेनवः । बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः
परिस्रुतमुस्त्रिया निर्णिजं धिरे ॥ १० ॥

(मधुमन्तः) मधुर रसवाले (इन्द्रवः) सोम (देवं अच्छ) इन्द्र-देवके प्रति (प्रासिष्यन्दत) ग्रह आदि पात्रोंमें प्राप्त होते हैं (न) जैसे (धेनवः) दूधसे तृप्त करनेवाली (गावः) गौण (आ) अपने बछड़ों के प्रति दूध टपकती हैं और (बर्हिषदः) यज्ञमें स्थित (वचनावन्तः) रँभाती हुई (उस्त्रियाः) गौण (ऊधभिः) अपने दूधके पंनोंसे (परिस्रुतम्) चारों ओरसे टपकनेवाले (निर्णिजम्) शुद्ध दुग्धरूप सोम रसको (धिरे) इन्द्रके निमित्त धारण करती है ॥ १० ॥

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति
मध्वाभ्यञ्जते । सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्त-

मुक्षण्यं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ११

ऋत्विज सोमको (अञ्जते) गौश्रौंके दुग्धादिके साथ मिलाते हैं (व्यञ्जते) अनेकों प्रकारसे मिलाते हैं (समञ्जते) सम्यक् प्रकार से मिलाते हैं । देवता (क्रतुम्) बलकर्त्ता सोमको (रिहन्ति) स्वादि लेते हैं और फिर (मध्वा) गोघृतसे (अभ्यञ्जते) मिलाते हैं उस ही सोमको (मिधोः) जलके आधारभूत (उच्छ्वासे) उच्चदेशमें (पतयन्तम्) जातेहुए (उक्षणम्) संचन करनेवालेको (हिरण्यपावः) सुवर्ण से पवित्र करतेहुए (पशुम्) द्रष्टारूपमें (गृभ्णते) ग्रहण करते हैं ॥

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि प-
थ्येपि विश्वतः । अतततनूर्न तदामो अश्नुते
श्रुतास इद्ब्रह्मन्तः सं तदाशत ॥ १२ ॥

(ब्रह्मणस्पते) हे मंत्रके स्वामी सोम ! (ते) तेरा (पवित्रम्) श्रेष्ठ अन्न (विततम्) सर्वत्र फैलाहुआ है (प्रतु) शक्तिमान् तू (गात्राणि) पीनेवालेके अहोवाते (पात्रे) पात्र होव है (विश्वतः) सब ओरसे तेरे उस पवित्रे का (अततततः) प्रयोगत्र अन्विसं जिसका शरीर सन्तप्त नहीं हुआ है ऐसा (आसः) परिपक्व रहित (नाश्नुते) व्याप्त नहीं होता है (श्रुतासः इत्) परिपक्व होकर ही (ब्रह्मन्तः) यज्ञका निर्वाह करतेहुए (तन्) उस पवित्रमें (समासतः) व्यापते हैं ॥ १२ ॥

पञ्चमाष्टमस्य नवम खण्ड समाप्तः

इन्द्रमच्छ सुना इमे वृषणं यन्तु हरयः ।

श्रुष्टे जातास इन्द्रवः स्वर्विदः ॥ १ ॥

(श्रुष्टे) शीघ्र (जातासः) सुसिद्ध हुए (इन्द्रवः) पात्रोंमें उप-
कतेहुए (स्वर्विदः) सर्वज्ञ (हरयः) हरे वर्णके (सुताः) खेचेहुए
(इमे) यह साम (वृषणम्) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले इन्द्रको
(अच्छयन्तु) प्राप्त हों ॥ १ ॥

प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव ।

द्युमन्तः शष्ममा भर स्वर्विदम् ॥ २ ॥

(सोम) हे सोम (जागृविः) जागरणशील तू (प्रधन्व) पात्रमें

प्राप्त हो (इन्द्रो) हे सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (परिस्त्रव) पात्रमें चारों ओरसे बरस (द्युमन्तम्) दिपते हुए (स्वर्विदम्) स्वर्ग प्राप्त करानेवाले (शुष्म) शत्रुओंके शोपक बलको (आभर) दो ॥ २ ॥

सखाय आ नि पीदत पुनानाय प्र गायत ।

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ ३ ॥

(सखायः) हे मित्ररूप स्तोताओं (आनिपीदत) स्तुति करनेको बैठो (पुनानाय) पवित्र कियेजाते हुए सोमके अर्थ (प्रगायत) साम गान करो (शिशुम् न) जैसे पिता अपने बालक पुत्रको आभूषणोंसे सुशोभित करता है तैसे इस सोमको (श्रिये) शोभाके अर्थ (यज्ञैः) यज्ञ नके योग्य हवियोंसे (परिभूषत) अलंकृत करो ॥ ३ ॥

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।

शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥ ४ ॥

(सखायः) हे मित्र ऋत्विजां ! (वः) तुम (मदाय) देवताओंके मदके निमित्त (पुनानम) सुसिद्धकिये जाते हुए (तम्) उस सोमकी (अभिगायत) स्तुति करो (शिशुं न) बालककी समान (हव्यै) हवियोंसे (गूर्तिभिः) स्तुतियोंसे (स्वदयन्त) स्वादुकरो ॥ ४ ॥

प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम् ।

विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५ ॥

(प्राणा) यज्ञविधिको परिपूर्ण करनेवाला (महीनाम्) पूजनीय (अपाम्) जलोंका (शिशुः) शिशुसमान सोम (ऋतस्य) यज्ञके (दीधितिम्) प्रकाशक अपने रसको (हिन्वन्) प्रेरणा करता हुआ (विश्वा) सकल (प्रिया) प्रिय हवियोंको (परिभुवत) व्यापता है और (द्विता) दुलोक भूलोक दोनों स्थान पर वर्तमान होता है ॥ ५ ॥

पवस्व देववीतय इन्द्रो धाराभिरोजसा ।

आ कलशं मधुमांसोम नः सदः ॥ ६ ॥

(इन्द्रो) सोम ! (देववीतये) देवताओंके भक्षणके लिये (ओजसा) बलकेसाथ (धाराभिः) अपनी धाराओंसे (पवस्व) पात्रमें पूर्ण हो (सोम) हे सोम ! (मधुमान) मदकागी रसवाला तू (नः) हमारे (कलशम् आभद) द्रोणकलशमें स्थित हो ॥ ६ ॥

सोमः पुमान ऊर्मिणाऽथं वारं वि धावति ।

अग्रे वाचः पवमानः कनिकदत् ॥ ७ ॥

(पवमानः) पवित्र (वाचः, अग्रे) स्तोत्रके आगौ (कनिकदत्) वारं वार शब्द करताहुआ (पुमानः) सुसिद्ध कियाजाता हुआ (सोमः) सोम (ऊर्मिणा) अपनी धारासे (अव्य वारम्, विधावति) ऊनके दशापवित्रमेंकों नानाप्रकारसे गमन करताहै ॥ ७ ॥

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते ।

भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोपते ॥ ८ ॥

स्तोता अपने आत्मान्मे कहता है, कि—(पुनानाय) पवित्रमे शुद्ध होतेहुए (वेधमे) कर्मोंके विघना (सोमाय) सोमके अर्थ (वचः) (स्तोत्रको) प्रोच्यते उच्चारण करे और (मतिभिः) स्तुतियोंसे (जुजोपते) प्रसन्न होनेवालेके अर्थ (प्रभर) अधिकतासे स्तुति करो (भृतिं न) जैसे कि—सेवकको धन देनेहै ॥ ८ ॥

गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव ।

शुचिं च वर्णमधिगोषु धारय ॥ ९ ॥

(सुदक्ष, इन्दो) हे बलशाली साम ! (सुतः) सुभिद्ध कियाहुआ नू (नः) हमें (गोमन्) गौओं सहित (अश्ववन्) घोड़ों सहित (धनिव) धन दो, तदनन्तर मैं (शुधिम) पवित्र आर दिपतेहुए (वर्णम्) रसको (गोषु) गोरसमें (अधि धारय) अधिक पाऊँ ॥ ९ ॥

अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणिरनूपत ।

गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ १० ॥

हे सोम (वसुविदम्) धनकेदाता (त्वा) तुम्हें (अस्मभ्यम्) हमें धन आदि देनेके निमित्त (वाणीः) हमारी वाणियों (अभ्यनूपत) सब ओरसे स्तुति करती है और हम (ते वर्णम्) तुम्हारे रसको (गोभिः) गौओंके दुग्ध आदि से (अभिवासयामसि) सब ओरसे आच्छादित करती हैं ॥ १० ॥

पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांशसि रंश्या ।

अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११ ॥

(हर्यतः) इच्छा करनेयोग्य (हरि) हरे वर्णका सोम (रंहा) श्रेष्ठ वेगसे (ह्वगंक्षि) तिरछे पवित्रोमेंको होकर (अति पवते) निकल कर जाता है, हे सोम ! तुम (स्तोतृभ्यः) स्तुति करनेवालों को (वीरवत्) पुत्रयुक्त (यशः) कीर्ति (अभ्यर्ष) दो ॥ ११ ॥

परि कोशं मधुश्रुतच्छं सोमः पुनानो अर्पति ।

अभि वाणीऋषीणां, सप्ता नूषत ॥ १२ ॥

(पुनानः) वह पवित्र कियाजाता हुआ (सोमः) सोम (मधुश्रुतम्) मधुगताको टपकानेवाले शपने रसको (कोशं, परि अर्पति) कलशमें पहुँचाना है, इस सोमको (ऋषिणाम्) ऋषियोंकी (सप्त-वाणीः) सात छन्दोंवाली वाणियों (अभ्यनूषत) स्तुति करती हैं ॥१२॥

पन्माध्यापर । दशम खण्डः समाप्त

पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमो

मदः । महि द्युक्षतमो मदः ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (मधुमत्तमः) अन्यन्त मधुगतायुक्त (ऋतुवित्तमः) प्रज्ञा वा कर्मका प्राप्त करानेवाला (महि) पूजनीय (द्युक्षतमः) परमदीप्त (मदः) हर्षदायक तू (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (मदः) मद-काग्री होताहुआ (पवस्व) पवित्र हो ॥ १ ॥

अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देव-

युम् । वि कोशं मध्यमं युव ॥ २ ॥

(इषस्पते देव) हे अन्नके स्वामी स्तुतियोग्य सोम (देवयुम्) देवताओंको प्राप्त होनेयोग्य तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, तुम हमें (द्युम्नम्) दीप्यमान (बृहत्) बहुतसा (यशः) अन्न (अभिदीदि हि) अभिमुख होकर दो (मध्यमम्) अन्तरिक्षमें स्थित (कोशम्) मेषको (वियुव) वर्षाके लिये छिन्न भिन्न करो ॥ २ ॥

आ सोता परि षिञ्जताइवं न स्तोममप्तुरं,

रजस्तुरम् । वनप्रक्षमुदप्रुतम् ॥ ३ ॥

हे ऋत्विजों ! (अश्वं न) पाँडेकी समान वेगवान् (स्तोमम्) स्तुतिके योग्य (अतुम्) अन्तरिक्षमें स्थित जलोंके प्रेरक (रजस्तु-

रम्) तेजोंके प्रेरक (वनप्रक्षम) जलोंमें मिलेहुए वा पात्रोंमें फैलेहुए (उदप्लुतम्) जलमें जातेहुए सोमको (आ सोन) अभिपुन करो (परिषिञ्चत) चारों ओरसे बसतीवरी आदिसे सींचो ॥ ३ ॥

एतमु त्यं मदच्युतं, सहस्रधारं वृषभं दिवो-
दुहम् । विश्वा वसूनि विभ्रतम् ॥ ४ ॥

(दिवः) देवताओंकी कामना करनेवाले ऋत्विज (मदच्युतम्) मदके प्रेरक (सहस्रधारम्) अनेकों धारवाले (वृषभम्) कामनाएं पूरी करनेवाले (विश्वा वसूनि) सकल धनोंको (विभ्रतम्) धारण करनेवाले (एतं त्यमु) इस सामको ही (दुहम्) दुहने हुए ॥ ४ ॥

स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम् ।
सोमां यः सुक्षितीनाम् ॥ ५ ॥

(यः) जो (वसूनाम्) धनोंका (यः) (रायाम) दग्ध आदि देनेवाली गौओंका (यः) जो (इडानाम्) भूमियोंका (यः) जो (सुक्षितीनाम्) श्रेष्ठ मनुष्योंका (आनेता) लानेवाला है (सः) वह सोम (सुन्वे) ऋत्विजोंसे अभिपुन कियागया ॥ ५ ॥

त्वं, ह्या ३, इ, देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः
अमृतत्वाय घोषयन् ॥ ६ ॥

(पवमान) हे पृथमानसोम (द्युमत्तमः) अत्यन्त दीप्तिमान् (त्वम् हि) तू ही (देव्यं जनिमानि) देवसन्धी जन्मोंको अर्थात् देवताओं को जानते हो (अमृतत्वाय) उनके अमरगणके लिये (अङ्ग) शीघ्र (घोषयन्) ऋत्विजोंसे शब्द उत्पन्न कराता है ॥ ६ ॥

एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मन्दि-
तमः । क्रीडन्नुर्मिरपामिव ॥ ७ ॥


(मन्दिन्तमः) परम आनन्द देनेवाला (अपां, ऊर्मिः, इव, क्रीडन्) जलके प्रवाहकी समान इधर उधरको क्रीडाकरता हुआ (स्यः) यह (एषः) यह (सुतः) अभिपुन सोम (अव्याः, वारेभिः) उनके पवित्रोंमेंको (धारया) अपनी धारसे (पवते) कलशमें टपकता है ७

य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकृ-
न्तदोजसा । अभि व्रजं तन्निपे गव्यमश्वघं
वर्माव धृष्णवा रुज । ओ३म् वर्माव धृष्णवा
रुज ॥ ८ ॥

(यः) जो सोम (उस्त्रियाः) गडनेवाले (अपिः) अन्तरिक्षमें
असुरोंके धरेहुए (अन्तश्मनि अन्तः) सोमोंके सीतरके (याः) जलोंको
(ओजसा) बलसे (निरश्वघः) निम्न मित्त करताहै अर्थात् अन्त-
रिक्षमेंसे वर्षा करता है, वह नू सोम (गव्यम्) असुरोंके हरण कियेहुए
गौश्रोंके (अश्वघः) अश्वोंके (व्रजम्) समूहको (अभितन्निपे) नव
ओरसे ध्यात करता है (धृष्णो) है अश्वघोंका भय देनेवाले सोम !
तुम (वर्माव) कवचधारीकी समान (आरुज) असुरोंका नष्ट करो =

पञ्चमाध्यायस्य षष्ठादं गण्ड समाप्तम्

पवमानं पर्वं समाप्तम्



सामवेद संहिता उत्तरार्चिक ।

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे ।

अभि देवाँऽइयक्षते ॥ १ ॥

(नरः) हे ऋत्विजों (देवान्, अभि, इयक्षते) देवताओंके अभिमुख होकर यजन करना चाहनेवाले (पवमानाय) शुद्ध होकर टपकतेहुए (अस्मै इन्दवे) इस सोमके अथ (उपगायत) स्तुतिगान करो ॥ १ ॥

अभि ते मधुना पयोऽधर्वाणो अशिश्रयुः ।

देवं देवाय देवयु ॥ २ ॥

हे सोम (ते) तेरे (देवम्) प्रशंसनीय (देवयुम्) देवताओंके अभिलषित रसको (देवाय) इन्द्रके अर्थ (मधुना, पयः) मधुररस वाले गौके दूधसे (अधर्वाणः) ऋषियोंके (अभ्यशिश्रयुः) मिलाया २

स नः पवस्व शं गवे श जनाय शमवते ।

शँऽराजन्नोषधीभ्यः ॥ ३ ॥

(राजन्) हे सोम (सः) प्रसिद्धत (नः) हमारी (गवे) गौओंके अर्थ (शम्) सुखरूप (जनाय) पुत्रके अर्थ (शम्) सुखरूप (शमवते) बोड़ेके निमित्त (शम्) सुखरूप (ओषधीभ्यः) ओषधियोंके लिये (शम्) सुखरूप (पवस्व) पात्रमें टपक ॥ ३ ॥

द्विद्युत्त्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा ।

सोमः शुक्रा गवाशिरः ॥ ४ ॥

(द्विद्युत्त्यारुचा) अत्यन्त दिपतीहुई कान्ति से (परिष्टोभन्त्या कृपा) चारों ओरको शब्द करनीहुई धारा करके युक्त (शुक्राः) स्वच्छ (सोमाः) सोम (गवाशिरः) गौदूधसे मिलते हैं ॥ ४ ॥

हिन्वानो हेतृभिर्हित आ वाजं वाज्यक्रीत् ।
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ ५ ॥

(वाजी) बलवान् सोम (हेतृभिः) स्तोताओंसे (हिन्वानः) स्तोत्रों से स्मरण किया हुआ (हितः) हितकारी होता हुआ (वाजम्) यज्ञको (अक्रीत्) आक्रमण करना है (यथा) जैसे (वनुषः) योधा (सीदन्तः) युद्धके निमित्त रणभूमिमें प्रवेश करनेहुए आक्रमण करते हैं ५

ऋधक् सोम स्वस्तये सञ्जमानो दिवा कवे ।
पवस्व सूर्यो दृशे ॥ ६ ॥

(सोम) हे सोम ! (कवे) हे क्रान्तदर्शी ! (सूर्यः) श्रेष्ठवीर तू (ऋधक्) चढ़ता बढ़ता हुआ (सञ्जमानः) संयुक्त होता हुआ (स्वस्तये) कल्याणके अर्थ (दृशे) दर्शनके अर्थ (दिवा) अन्तरिक्षसे (पवस्व) क्षरित हों ॥ ६ ॥

पवमानस्य ते कवे वाजिन्सर्गा असृक्षत ।
अर्वन्तो न श्रवस्य वः ॥ ७ ॥

(कवे, वाजिन्) हे क्रान्तदर्शी अन्नवान् गोम ! (पवमानस्य) दशापवित्रसे शुद्ध कियेजातेहुए (ते) तेरी (श्रवस्यवः) यजन करने वालोंका अन्न देना चाहनेवाली (सर्गाः) धारायें (अर्वन्तो न) जैसे घोड़े घुड़शालमेंसे निकलतेहैं तैसे (असृक्षत) निकलती हैं ॥ ७ ॥

अच्छा कोशं मधुश्रुतमसृषं वारं अव्यये ।
अवावशन्त धीतयः ॥ ८ ॥

(मधुश्रुतम्, कोशं, अच्छ) जिसमें मधुर रस टपकायाजाता है ऐसे द्रौणकलश में (अव्यये, वारं) ऊनके दशापवित्र में को (असृषम्) सोमोंको अन्विज् सिद्ध करते हैं (धीतयः) अगुलियें (अवावशन्त) उन सोमोंको वार २ शुद्ध करना चाहती हैं ॥ ८ ॥

अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः ।
अगमन्तृतस्य योनिमा ॥ ९ ॥

(इन्द्रवः) टपकते हुए सोम (समुद्रं, कलशं, अच्छ) सोमों के एकत्र इकट्ठे होनेके स्थानरूप द्रोणकलश में कां जाते हैं (नः) जैसे (धेनवः) दूधदेकर मनुष्योंको तृप्त करनेवाली नवप्रसूता गौण (अस्तम्) अपने घरको जाती है तैसे ही वह सोम (ऋतस्य, योनिम्) सत्यस्वरूप यज्ञके स्थानको (आ अग्नम्) अभिमुख होकर जाते हैं ॥ ६ ॥

उत्तरार्चिक प्रथमाध्यायस्य प्रथम खण्ड. समाप्त ।

अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।
निहोता सत्सि बर्हिषि ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ' तुम (गृणानः) हमसे स्तुति किये जाते हुए (वीतये) चरुपुरोडाण आदि का महत्त्व करने के निमित्त (हव्यदातये) देवताओंको हवि पहुँचाने के निमित्त (आयाहि) हमारे यज्ञमें आओ (होत) देवताओंका आह्वान करने हुए (बर्हिषि) विछे हुए, कुशोंपर (निपत्सि) विराजो ॥ १ ॥

तं त्या समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।
बृहच्छोचा यत्रिष्टय ॥ २ ॥

(अङ्गिरः) हे सुन्दर अग्ने (तं, त्याम्) इन कहे हुए गुणोंवाले तुम्हें (समिद्धि) समिधाओं से (घृतेन) घीसे (वर्द्धयामसि) प्रज्वलित करते हैं (यत्रिष्टय) हे अग्नित्रय अग्ने (बृहत्) अधिक (शोच) दीप्त हजिये ॥ २ ॥

स नः पृथु श्रवाप्यमच्छा देव विवाससि ।
बृहद्गन् सुदीर्यम् ॥ ३ ॥

(देव) हे अक्षिण्य ! (सः) पृथक अगोसे युक्त तुम (पृथ) विस्तीर्ण (श्रवाप्यम) श्रवण करने योग्य (बृहत्) बहुत (सुदीर्यम्) सुन्दर वाग्मय युक्त घन (नः) तब (अच्छा विवाससि) प्राप्त कराओ ॥ ३ ॥

आ नो मित्रावरुणा घृतेर्गव्यनिमुक्षतम् ।
मध्वा रजाधंसि सुकृतू ॥ ४ ॥

(सुकृतू) घेद रसवाले (मित्रावरुणा) इ मित्रावरुण देवताओं ! (नः) हमारे (गव्यनिम्) गौओंके निवासस्थान को (घृतः) घृतके

साधन दुग्धोंसे (अउक्षतम्) चारों ओरसे सींचो (मध्वा) श्रेष्ठ
रससे (रजांसि) हमारे पारलौकिक निवासस्थानोंको सींचो ॥ ४ ॥

उरुशंसा नमो वृथा महा दक्षस्य राजथः ।
द्राघिष्ठाभिः शुचित्रता ॥ ५ ॥

(शुचित्रता) परमशुद्ध कर्मवाले हे मित्रावरुण देवताओं ! (उरु-
शंसा) अनेकोंके प्रशंसा करनेयोग्य (नमोवृथा) हविरूप अन्नसे वा
वा स्तोत्रसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले (द्राघिष्ठाभिः) बड़ी २ स्तुतियों
से युक्त तुम (दक्षस्य) धन वा बलके (महा) महत्वसे (राजथः)
दिपते हो ॥ ५ ॥

गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम् ।
पातं, सोममृतावृधा ॥ ६ ॥

हे मित्रावरुणों ! (जमदग्निना) इस नामके ऋषिसे वा प्रज्वलित
ऋग्निसे (गृणाना) स्तुति कियेजाते हुए तुम (ऋन्विस्य, योनौ)
देवयजनस्थानमें (सीदतम्) विराजमान होओ (ऋतावृधः) कर्म
फलके बढ़ानेवाले तुम (सामं पातम्) हमारे सम्पादन कियेहुए सोम
को पियो ॥ ६ ॥

आयाहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम् ।
एदं बर्हिः सदो मम ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (आयाहि) तुम मेरे यज्ञमें आओ, हमने (ते)
तुम्हारे लिये (सुषुमा हि) निश्चय सोम सुसिद्ध किया है (इमं सोमम्)
इस सोमको (पिब) पियो, तुम्हारे लिये (मम) मेरे (एदं बर्हिः)
इस धेदोमें विछेहुए कुशासन पर (आ सदः) विराजमान हूजिये ७

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ।
उपब्रह्माणि नः शृणु ॥ ८ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ब्रह्मयुजा) मंत्रयुक्त (केशिनौ) केशवाले (हरी)
पापनाशक अश्व (त्वा) तुम्है (अब्रहताम्) पहुँचावें और तुम हमारे
यज्ञोंमें आकर (नः) हमारे (ब्रह्माणि) स्तोत्रोंको (उपशणु) भले
प्रकार चित्तमें धारण करो ॥ ८ ॥

ब्रह्माणस्त्वा युजावयथं सोमपामिन्द्र सोमिनः
सुतावन्तो हवामहे ॥ ९ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (सोमिनः) सोमवाले (सुतावन्तः) सोमरस निकालेहुए (वयम्) हम (ब्रह्मणः) ब्राह्मण (सोमपाम्) सोम पीनेवाले (त्वा) तुम्है (युजा) योग्य स्तोत्र से (हवामहे) आवाहन करते हैं ॥९॥

इन्द्राग्नी आगतथं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्।
अस्य पातं धियेषिता ॥ १० ॥

(इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि देवता (सुतम्) संस्कार कियेहुए (वरेण्यम्) श्रेष्ठसोमके लिये (गीर्भिः) हमारी स्तुतियोंसे आवाहन किये (नभः) स्वर्गसे (आगतम्) आओ और आकर (धिया) हमारी भक्तिसे (इषिता) प्रेरणाकिये हुये तुम (अस्य) सोमको (पातम्) पियो ॥ १० ॥

इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः।
अया पातमिमथं सुतम् ॥ ११ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्रअग्नि देवताओ ! तुम (जरितुः) स्तुति करनेवाले के (सचा) स्वर्गादिकी प्राप्तिमें सहायक हो (यज्ञ) यज्ञका साधन (चेतनः) इन्द्रियोंको चेतनता देनेवाला सोम (जिगातिः) तुम्है प्राप्त होता है (अया) हमारी इस स्तुतिरूप बाणीसे आवाहन कियेहुए तुम (सुतम्) संस्कार कियेहुए (इमम्) इस सोमको (पातम्) पियो ११

इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जृत्या वृणे।
ता सोमस्येह तृप्पताम् ॥ १२ ॥

(यज्ञस्य) यज्ञके साधन सोमकी (जृत्या) प्रेरणासे प्रेरित हुआ मैं स्तोता (कविच्छदा) स्तुति करनेवालोंको योग्य फल देकर तुम करनेवाले इन्द्र और अग्निदेवताको (वृणे) भजताहूँ आकर (ता) वह दोनों (इह) मेरे इस कर्ममें (सोमस्य) सोमयागसे (तृप्पताम्) तुम हो ॥ १२ ॥

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे ।

उग्रशर्म महि श्रवः ॥ १ ॥

हे सोम (ते) तेरे (अन्धसः) रसका (उच्चा) श्रेष्ठ (जातम्) जन्म है श्रीर (दिवि) दुलोकमें (सन्) वर्त्तमानतेरा (उग्रम्) बलवान् (शर्म) सुख रूप (महि) बहुत (श्रवः) अन्न (भूमि) भूतलवासी यजमानोसे (आवदे) ग्रहण कियाजाता है ॥ १ ॥

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

वरिवावित् परि स्रव ॥ २ ॥

(वरिवावित्) हे धन प्राप्त करानेवाले सोम ! (लः) वह तू (नः) हमारे (यज्यवे) यजन करने योग्य (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (वरुणाय) वरुणके अर्थ (मरुद्भ्यः) मरुतोंके अर्थ (परि स्रव) धारासे पात्रमें प्राप्तहो ॥

एना विश्वान्यर्थ आ द्युम्नानि मानुषाणाम् ।

सिषासन्तो वनामहे ॥ ३ ॥

हे सोम ! (मानुषाणाम्) मनुष्योंके प्राप्त होनेयोग्य (एना) इन (विश्वा) सकल (द्युम्नानि) यज्ञके साधन धनोंको आपके अनुग्रह से (आ अर्थः) अग्निमुख जातेहुए हम (सिषासन्तः) सेवा करना चाहतेहुए (वनामहे) तुम्हारी उपासना करते हैं ॥ ३ ॥

पुनानः सोमधारयापो वसानो अर्षसि । आ
रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः

हे सोम ! (पुनानः) पवित्र कियाजाताहुआ तू (अपः) वसतीचरी जलोंको (वसानः) आच्छादन करताहुआ (धारया अर्षसि) धारा से पात्रमें पहुँचता है (रत्नधा) रमणीय धनोंका देनेवाला (उत्सः) प्रवाहरूप (देवः) दमकताहुआ (हिरण्ययः) सुवर्णका उत्पत्तिस्थान तू (ऋतस्य, योनि, आसीदसि) सत्यस्वरूप यज्ञके स्थानमें विराज मान होता है ॥ ४ ॥

दुहान ऊर्धर्दिठ्यं मधु प्रियं प्रत्नः सधस्थमा-
सदत् । आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षसि नृभिर्धौ-
तो विचक्षणः ॥ ५ ॥

(मधु) मदकारी (प्रियम्) प्रसन्नता देनेवाला (दिव्यम्) स्वर्गीय (ऊधुः) रसको (दुहानः) टपकाताहुआ सोम (प्रत्नम्) पुरातन (सधस्थम्) अन्तरिक्ष स्थानको (आसदन्) प्राप्त होता है, तदनन्तर (वाजी) अन्नवान् (नृभिः धौत) ऋत्विजोंका धोयाहुआ (विचक्षणः) सबका विशेषरूप से द्रष्टा तू है सोम ! (आपृच्छयम्) कर्मके विषय में बूझने योग्य (धरुणम्) कर्मके धारण करनेवाले यजमनोंको (अर्षसि) अन्न देनेको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

प्र तु द्रव परि कोशनि षीद नृभिः पुनानो
अभि वाजमर्ष । अश्वं न त्वा वाजिनं मार्जय-
न्तोऽच्छा वर्ही रशनाभिर्नयन्ति ॥ ६ ॥

हे सोम (तु) शीघ्र (प्रद्रव) हमारे यज्ञमें सुन्दरता से आओ और आकर (कोशं, परिनिषीद) द्रोणकलश में स्थित हो (नृभिः, पुनानः) होनाओं से शुद्ध किये जातेहुए (वाजम्) हविरूप अन्नको (अभ्यर्ष) प्राप्त हो (वाजिनं, अश्वं, न) जैसे बलवान् घोड़ेको न्हाकर स्वच्छ करते हैं तैसे (त्वा, मार्जयन्तः) तुम्हें बलवान् को शुद्ध करतेहुए अभ्यर्ष्य आदि ऋत्विज (वर्हिः, अच्छ) हमारे यज्ञमें (रशनाभिः) लंबी अगुलियों से (नयन्ति) प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना र-
क्षमाणः । पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्ट-
म्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ ७ ॥

(स्वायुधः) श्रेष्ठ आयुधवाला (अशस्तिहा) राजसोंका नाशक (वृजना) उपद्रवोंको दूर करके (रक्षमाणः) रक्षा करनाहुआ (पिता) पालक (देवानां जनिता) देवताओं का उत्पादक (सुदक्षः) श्रेष्ठ बलवाला (दिवः विष्टम्भः) द्युलोकका विशेषरूप से रोकनेवाला (पृथिव्याः, धरुणः) पृथिवीका धारण करनेवाला (इन्दुः देवः) सोमदेवता (पवते) संस्कारयुक्त होता है ॥ ७ ॥

ऋषिर्विप्रः पुर एता जनानामृभुर्धर उशना
काव्येन । स चिद्विवेद निहितं यदा सामपी-
च्याऽ३ गुह्यं नाम गोनाम् ॥ ८ ॥

(विप्रः) मेधावी (पुरः एता) वैदिक अनुष्ठान में अग्रणी (जनानां ऋभुः) मनुष्यों में बड़े प्रकाशवाला (धीरः) परमबुद्धिमान् (उशनाः ऋषि) जो उशना नामवाला ऋषि है (सः चिन्) वह ही (आसां, मोनाम्) इन गौश्रौंका (यत्) जो (अपीच्यम्) भीतर स्थित (गुह्यम्) गोपनीय (नाम) दुग्धरूप जल है उसको (काव्येन) स्तोत्रसे (विवेद) पाता है ॥ ८ ॥

उत्तराचके प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खंडः समाप्त ।

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।
ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्रत-
स्थुषः ॥ १ ॥

(शूर) हे पराक्रमी इन्द्र (अदुग्धाः, धेनवः, इव) जैसे विना दुही गौएं आदरके साथ बछड़ों की आरको रँभाती हैं तैसे हम (अस्य) इस (जगतः) जंगम जगत् के (ईशानम्) स्वामी (तस्थुषः) स्थावरके (ईशानम्) स्वामी (स्वर्दृशम्) सर्वज्ञ (त्वा) तुम्है (अभिनो-नुमः) वार २ प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

न त्वावाऽअन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो
न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र व्य-
जिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥

(मघवन्) हे इन्द्र ! (त्वावाम्) तुम्हारी समान (अन्यः) दूसरा (दिव्यः) स्वर्गवासी (न) नहीं है (पार्थिवः) कोई भूतलवासी (न) नहीं है (न जातः) न कभी हुआ (न जनिष्यते) न कभी होगा (इन्द्र) हे इन्द्र (अश्वायन्तः) घोड़ों की इच्छा करते हुए (वाजिनः) धनकी इच्छा करते हुए (गव्यन्तः) गौश्रौंकी इच्छा करते हुए हम (त्वा) तुम्है (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ २ ॥

कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा ।
कया शचिष्ठया वृता ॥ ३ ॥

(सदावृधः) सदा बढ़ता हुआ (चित्रः) विचित्र पराक्रमी (सखा) मित्ररूप इन्द्र (कया ऊती) किस तृप्तिकारक पदार्थसे (शचिष्ठया,

फया, वृता) प्रज्ञा सहित अनुष्ठान किये हुए किस कर्मसे (नः आभुवत्) हमारे अभिमुख होय ॥ ३ ॥

कस्त्वासत्यो मदानाम्* हिष्ठो मत्सदन्धसः ।
दृढाचिदारुजे वसु ॥ ४ ॥

(मंहिष्ठः) पृजनीय (सत्यः) सत्य (मदानाम्) आनन्ददायक पदार्थोंमें (कः) कौन परम आनन्ददायक है (अन्धसः) सोमकारस (दृढाचित्) दृढ़ भी (वसु) शत्रुके धनको (आरुजे) सब ओरसे नष्ट करनेको (त्वा) तुम्है (मत्सत्) मद देय ॥ ४ ॥

अभी पु णः सखीनामविता जरितृणाम् ।
शतं भवास्यूतये ॥ ५ ॥

(सखीनाम्) मित्ररूप (जरितृणाम्) स्तोताओंका (अविता) रक्षक न (नः) हमें (शतं, ऊतये) सैंकड़ों रक्षाओंके अर्थ (सु) श्रेष्ठ प्रकारसे (अभि भवासि) अभिमुख हजिये ॥ ५ ॥

तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्न-
वामहे ॥ ६ ॥

(स्वसरेषु, वत्सम् धेनवः, इव) जैसे गोठोंमें बछड़े की ओरको गौएँ रँभती हैं तैसे हे ऋत्विक् यजमानो तुम सूर्यके प्रेरक दिनोमें (दस्मम्) दर्शनीय (ऋतीषहम्) शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले (वसोः) दुःखनिवारण करनेवाले (अन्धसः) सोमके पीनेसे (मन्दानम्) प्रसन्न होते हुए (वः) तुम्हारे (तम् इन्द्रम्) उस इन्द्रको (गीर्भिः) वाणियोंसे (नवामहे) स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥

द्युक्ष*सुदानुं तविषाभिरावृतं गिरिं न पुरु
भोजसम् । क्षुमन्तं वाज*शतिन* सहस्रिणं
मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ७ ॥

(द्युक्षम्) द्युलोकमें निवास करनेवाले (सुदानुम्) श्रेष्ठदान देनेवाले (तविषिभिः) बलोंसे (आवृतम्) ढके हुए (पुरुषभोजसम्)

जिनको सोमादि हवि देकर अनेकों यजमान भोजन कराते हैं ऐसे अथवा अनेकोंका पालन करनेवाले इन्द्रसे (क्षुमन्तम्) पुत्रपौत्रादिके कोलाहलयुक्त (शतिनं, सहस्रिणम्) सैकड़ों सहस्रों संख्याके धन से युक्त (गोमन्तम्) गौआदिसे युक्त (याजम्) अन्नको (मक्षु) शीघ्र (ईमहे) याचना करते हैं ॥ ७ ॥

तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रः सत्राध ऊतये । बृह-
द्गायन्तः सुतसामे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्

हे ऋत्विजों ! (वः) तुम (सुतसामे, अध्वरे) सोमयागमें (तरोभिः) वेगवान् अश्यों सहित (विदद्वसुम्) धन देनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (सत्राधः) वाधा सहित हुए (ऊतये) रक्षाकेलिये (बृहत् गायन्तः) बृहत् सामका गान करने हुए आराधना करो (भरं, न, कारिणं, हुवे) जैसे पुत्रादि अपना पोषण करनेवाले को पुकारते हैं तैसे मैं स्तोताभी अपने हितकारी इन्द्रका आह्वान करता हूँ ॥ ८ ॥

न यं दुधावरन्ते न स्थिरामुरो मदेपु शिप्रम-
न्धसः । य आदृत्या शशमानाय सुन्वते
दाता जरित्र उक्थ्यम् ॥ ९ ॥

(सुशिप्रम्) सुन्दर ठोडी और नासिकावाले (यम्) जिस इन्द्रको (दुधाः) दुधर असुर (न वरन्ते) संग्राममें वारण नहीं करसकते (स्थिराः न) देवता धारण नहीं करसकते (मुरः) मरुत्शील मनुष्य वाग्ण नहीं करसकते (यः) जो (अन्धसः) सोमरूप अन्नके (मदे) मदके लिये (आदृत्या) आदर करके (शशमानाय) प्रशंसा करनेवाले (सुन्वते) सोमका संस्कार करनेवाले (जरित्रे) स्तोताके अर्थ (उक्थ्यं, दाता) धनका देनेवाला होता है, उस इन्द्रकी हम याचना करते हैं ॥ ९ ॥

उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खंडः सप्तमः

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व साम धारया ।
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (इन्द्राय, पातवे) इन्द्रके पीनेके निमित्त (सुतः) संस्कार कियाहुआ तू (स्वादिष्ठया) परम स्वादु (मदिष्ठया) परम आनन्द देनेवाली (धारया) धारासे (पवस्व) क्षरित हो ॥ १ ॥

रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनि मयोहते ।
द्रोणे सधस्थमासदत् ॥ २ ॥

(रक्षोहा) राक्षसोंका नाश करनेवाला (विश्वचर्षणिः) विश्वका द्रष्टा सोम (अयोहते) सुवर्णमय (द्रोणे) द्रोणकलशमें (सधस्थम्) साथ स्थित होनेके (योनिम्) संस्कारस्थानमें (अभ्यसादत्) अभिमुख स्थित होता है ॥ २ ॥

वरिवोधा तमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः ।
पर्षिराधो मघोनाम् ॥ ३ ॥

हे सोम ! तू (वरिवोधातमः) अधिक धनोंका दाता (मंहिष्ठः) अन्य पदार्थोंका भी परमदाता (वृत्रहन्तमः) शत्रुओंका परम नाशकर्त्ता (भुवः) हो (मघोनाम्) धनवान् शत्रुओंके (राधः) धनको (पर्षि) हमें दे ॥ ३ ॥

पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमो
मदः । महि द्युक्षतमो मदः ॥ ४ ॥

(सोम) हे सोम (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुरतायुक्त (ऋतुवित्तमः) बुद्धि वा कर्मफलका देनेवाला (महि) पूजनीय (द्युक्षतमः) अत्यन्त दीप्त (मदः) आनन्ददायक तू (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (मदः) मदकारी होताहुआ (पवस्व) पात्रमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य
पीत्वा स्वर्विदः । स सुप्रकेतो अभ्यक्रमी
दिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥ ५ ॥

हे सोम ! (वृषभः) कामनाओं की वर्षा करनेवाला इन्द्र (तस्य, ते, पीत्वा) जिस तुझको पीकर (वृषायते) वृषकी समान होजाता है (स्वर्विदः, अस्य, पीत्वा) सबको जाननेवाले तुझको पीनेपर (सुप्रकेतः) श्रेष्ठ प्रज्ञावाला (सः) वह इन्द्र (वृषः) शत्रुओंके अश्वोंको (अभ्यक्रमीत्) वशमें करलेता है (न) जैसे (एतशः) घोड़ा (वाजम्, अभिगच्छति) संग्राम में आक्रमण करता है ॥ ५ ॥

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः ।

श्रुष्टे जातास इन्द्रवः स्वर्विदः ॥ ६ ॥

(श्रुष्टे) शीघ्र (जातानः) उत्पन्न हुए (इन्द्रवः) पात्रोंमें टपकते हुए (स्वर्विदः) सर्वज्ञ (हरयः) हरे वर्णके (सुताः) संस्कार किये हुए (इमे) यह सोम (वृषणम्) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (अच्छ यन्तु) प्राप्त हों ॥ ६ ॥

अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः ।

सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ ७ ॥

(भराय) संग्रामके निमित्त (सानसि) सेवन करनेयोग्य (सुतः) संस्कार किया हुआ (अयम्) यह सोम (इन्द्रार्थम्) इन्द्रके निमित्त (चरति) पात्रोंमें पहुँचना है (जैत्रस्य) विजयी इन्द्रको (चेतति) जानता है (यथा विदे) जैसे कि वह लोकों करके जानाजाता है ॥७॥

अस्येदिन्द्रा मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम् ।

वज्रं च वृषणं भरत्समप्सुजित् ॥ ८ ॥

(अस्येत्) इस सोमके ही (मदेषु) मदोंके होनेपर (सानसिम्) सबके सेवनयोग्य (ग्राभम्) ग्रहण करनेयोग्य धनुषको (गृभ्णाति) ग्रहण करता है (अप्सुजित्) जलके निमित्त घृत्रासुरका जेता (इन्द्रः) इन्द्र (वृषणम्) कामनाओंको सिद्ध करनेवाले (वज्रम् च) अपने आयुध वज्रको भी (सम्भरत्) भलेप्रकार धारण करै ॥ ८ ॥

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे ।

अपश्वानश्शथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वम् ६

(सखायः) हे स्तोताओं ! (वः) तुम (पुरोजितीः) जिसके आगै जय स्थित है ऐसे (अन्धसः) खानेयोग्य सोमके (सुताय) संस्कार कियेहुए (मादयित्नवे) अन्यन्त मदकारी रसके निमित्त (दीर्घजिह्वम्) लंजीजीभवाले श्वानको (अपश्नथिष्टन) दूर करो अर्थात् जिसप्रकार कुत्ते और राक्षस संस्कार कियेहुए सोमको न चाटें तैसा करो ॥ ६ ॥

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः ।

इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥ १० ॥

(सुतः) संस्कार किया हुआ (कृत्व्यः) कर्मका श्रेष्ठ साधनरूप (यः) जो (इन्दुः) सोम (पावकया) पापोंको शुद्ध करनेवाली (धारया) धारास (अश्वः न) जैसे कि—घोड़ा वेगके साथ चलता है तैसे (परि प्रस्यन्दते) चारों ओरको वहता है ॥ १० ॥

तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया ।

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥११॥

(नरः) ऋत्विज (दुरोषम्) दाह न डालनेवाले अथवा पापोंको भस्म करनेवाले (तं, सोमं, अभि) उस सोमके प्रति (विश्वाच्या) सकल कामोंको पूरा करनेवाली (धिया) बुद्धिसे (यज्ञाय) यज्ञके अर्थ (अद्रयः सन्तु) आदरयुक्त हों ॥ ११ ॥

अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्दो
अधि येषु वृद्धते । आ सूर्यस्य वृहतो बृह-
न्नधि रथं विश्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥१२॥

(चनोहितः) हितकारी अन्नरूप सोम (प्रियाणि) जगत्को तृप्त करनेवाले (नामानि) जलोंको (अभिपवते) सब ओरसे पवित्र करता है (येषु) जिन अन्तरिक्षमें स्थित जलोमं (यद्दो) यह महान् सोम (अधिवृद्धते) अधिक बढ़ता है, तदनन्तर (वृहन्) यह महान् सोम (वृहतः) पूज्य (सूर्यस्य) सूर्यके (विश्वञ्चम्) सर्वत्र गमन करनेवाले (अधिरथम्) रथके ऊपर (विचक्षणः) सबका उष्टा होकर (आ अरुहत्) आरोहण करता है, क्योंकि—विधिपूर्वक अभिमम दीहुई आहुति आदित्यको पहुँचती है ॥ १२ ॥

ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो
अस्या अदाभ्यः । दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं
३. नाम तृतीयमधिरोचनं दिवः ॥ १३ ॥

(ऋतस्य) सत्यस्वरूप यज्ञका (जिह्वा) मुख्य होनेसे मानो जिह्वा रूप (वक्ता) शब्द करनेवाला (अस्य धियः) इस कर्मका (पतिः)

पालन करनेवाला (अदाभ्यः) राजस जिसकी हिंसा नहीं कर सकते
 भेसा (पुत्रः) यज्ञमान (पित्रोः अपीक्ष्यम्) नामकरणके समय माता
 पिताके न जानेहुए (दिवः रोचनम्) द्युलोकको दीप्त करनेवाले (तृती-
 या नाम) सोमका संस्कार होजानेपर सोमयाजी इम तीसरे नामको
 (अधिदधाति) अत्यन्त धारण करता है ॥ १३ ॥

अथ द्युतानः कलशां, अचिक्रदन्नृभिर्येमाणः
 कोश आ हिरण्यये । अभी ऋतस्य दोहना
 अनूपताऽधि त्रिष्टु उपसो विराजसि ॥ १४ ॥

(द्युतानः) दीप्यमान (नृभिः) कर्मकर्ता ऋत्विजोसे (विरगयये)
 सुवर्णमय (कोशे) संस्कार करनेके कोशमें (येमानः) नियत किया
 जानाहुआ (कलशान्, अचिक्रदन्) द्रोण कलशोंके प्रति शब्द करता
 है, तदनन्तर (ऋतस्य) सत्यस्वरूप यज्ञके (दोहनाः) मिद्ध करने
 वाले ऋत्विज (इमं, अभ्यनूपत) इम सोमको स्तुति करतेहैं (त्रिष्टुः)
 तीन चवनवाजा त सोम (उपसः, अधि) यज्ञके दिनोंको (विराजसि)
 प्रकाशित करताहै ॥ १४ ॥

इति सामवेदान्तराचिके प्रथमाध्यायस्य पञ्चम खण्ड समाप्त ।

यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे ।
 प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न
 शशंसिपम् ॥ १ ॥

हे स्तोताओं ! (वः) तुम (यज्ञा यज्ञा) प्रत्येक यज्ञमें (दक्षसे)
 प्रज्वलित होकर वृद्धिको प्राप्त हुए अग्निके अर्थ (गिरा गिरा) अनेकों
 प्रकारकी वाणियोंसे स्तुति करो (च) और (वयम्) हमभी (अमृतम्)
 मरणरहित (जातवेदसम्) प्राणिमात्रके ज्ञाना (मित्रम्) मित्रस्वरूप
 (प्रियम्) अनुकूल तिस अग्निकी (प्रशंसिपम्) प्रशंसा करतेहैं ॥ १ ॥

ऊर्जां नपातथं, स हिना यमस्मयुर्दाशेम
 हव्यदातये । भुवद्वाजेष्वविता भुवद्बुध
 उत त्राता तनूनाम् ॥ २ ॥

(ऊर्जः) अन्न और बलके (नपातम्) पुत्रसमान अग्नि की हम प्रशंसा करते हैं (हिना) निश्चय (सः) वह (अयम्) यह अग्नि (अस्मयुः) हमारी कामना किया करता है, हम भी (हव्यदातये) देवताओं को हवि पहुँचानेवाले तिस अग्निके अथ (दाशेम) हवि देते हैं, वह अग्नि (वाजेषु) संग्रामोंमें (अविता) रक्षा करनेवाला (वृधः) हमारी वृद्धि करनेवाला (भुवन्) हो (उत) और (तनूनाम्) हमारे पुत्रोंका (चाता) रक्षा करनेवाला (भुवन्) हो ॥२॥

एह्यषु ब्रवाणि तेग्न इत्थेतरा गिरः ।

एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (एहि) आओ (ते) तुम्हारे लिये (गिरः) स्तुतियों (इत्था) इसप्रकार (सु ब्रवाणि) भले प्रकार उच्चारण करूँ और तुम उनको सुनो (ऊ) और (इतराः) दूसरोंकी स्तुतियोंको भी सुनो (एभिः) इन (इन्दुभिः) सोमोंसे (वर्धासे) बढ़ाओ ॥३॥

यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम् ।

तत्र योनिं कृणवसे ॥ ४ ॥

(ते) तुम्हारा (मनः) अनुग्रहरूप अन्तःकरण (यत्र) जहां (क्व च) किसी यजमानमें है (तत्र) तिस यजमानके यहां (उत्तरम्) श्रेष्ठ (दक्षम्) बलकारी अन्न (दधसे) स्थापन करते हो (योनिं कृणवसे) स्थानको भी करते हो ॥४॥

नहि ते पूर्त्तमक्षिपद्भुवन्नेमानां पते ।

अथा दुवो बनवसे ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (ते) तुम्हारा (पूर्त्तम्) तेज (अक्षिपत्) नेत्रोंकी ज्योति को नष्ट करनेवाला (न हि भुवन्) न हो अर्थात् हम सदा तुम्हारे दर्शनकी शक्तिको धारण करें (नेमानां पते) हे अग्ने ! तुम मनुष्योंमें कुछ यजमानोंके रक्षक हो (अथ) इसकारणसे (दुवः) हम यजमानोंकी कीहुई सेवाको (बनवसे) स्वीकार करो ॥५॥

वयमु त्वामपूर्य स्थूरं न कच्चिद्गरन्तोऽवस्यवः ।

वज्रिश्चित्रं हवामहे ॥६॥

(अपूर्व्य) तीनों सवनोंमें प्रकट होनेसे नवीन (वज्रिन्) हे इन्द्र ! (भरन्तः, वयम्) सोमसे तुम्हारा पोषण करनेहुए हम (चित्रं, त्वामु अवस्यव) पूजनीय तुमको ही अपना रक्षक चाहतेहुए (हवामहे) आह्वान करते हैं (कच्चिन्, स्थिरं न) जैसे कि अन्न आदिसे घरको भरनेवाले किसी अधिक गुणवानका आह्वान किया करतेहैं ॥ ६ ॥

उप त्वा कर्मन्नतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो
धृषत् । त्वामिद्वयवितारं ववृमहे सखाय
इन्द्र सानसिम् ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (कर्मन्) अग्निष्टोम आदि कर्ममें (ऊतये) रक्षा के लिये (स्वा, उपगच्छाम.) तुम्हारी शरणमें प्राप्त होते हैं (यः) जो इन्द्र (धृषत्) शत्रुओंका तिरस्कार करताहै (युवा) तरुण (उग्रः) उग्र इन्द्र (न.) हमारे समीप (चक्राम) आवें अथवा हमें उत्साह युक्त करै (सखायः) बान्धवरूप हम (सानसिम्) सेवा करनेयोग्य (अवितारम्) सवकी रक्षा करनेवाले (त्वामिन्, ववृमहे) तुम्हारा ही आराधन करने हैं (हि) यह बात प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

अथा हिन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे
ससृग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ८ ॥

(गिर्वणः) स्तोत्रोंसे प्रार्थना करनेयोग्य (इन्द्र) हे इन्द्र ! (अथा हि) इस समय ही (त्वा) तुमको (कामे) अभिलषित पदार्थकी (ईमहे) याचना करते हैं (उपससृग्महे) आपको प्राप्त होते हैं (उदेव, ग्मन्तः) जैसे जल लेकर जातेहुए पुरुष (उदभिः) अञ्जलि से जल उछालकर समीपके पुरुषोंको क्रीड़ाके निमित्त प्राप्त होते हैं अर्थात् भिगोदेते हैं ॥ ८ ॥

वार्षा त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि ।
वावृध्वां॑सं चिदद्विवो दिवे दिवे ॥ ९ ॥

(अद्विवः) वज्रधारी (शूर) हे शूर इन्द्र ! (वार्षाम्) जैसे महा-समुद्रको (यव्याभिः) नदियों अपने जलसे (वर्धन्ति) बढ़ाती हैं नैसे ही स्तोता (वावृध्वांसं, चित्) बढ़ेहुए ही (ब्रह्माणि) स्तोत्रोंसे (त्वा) तुम्हें (दिवे दिवे) प्रतिदीन बढ़ालेते हैं ॥ ९ ॥

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गायथीरौ रथ उरुयुगे
वचोयुजा । इन्द्रवाहा स्वर्गिता ॥ १० ॥

(इषिरस्य) गमनशील इन्द्रके (उरुयुगे) बड़े जुएवाले (उगैरथे)
बड़े रथमें (इन्द्रवाहा) इन्द्रके घोड़े (वचोयुजा) वचनमात्रसेही जुड़
जानेवाले हैं (स्वर्गिता) स्वर्गनामक इन्द्रके स्थानको जानेवाले (हरी)
हृदि नामक घोड़ोंको (गायथी) स्तोत्रसे (युञ्जन्ति) स्तोता युक्त
करते हैं ॥ १० ॥

सामवेदोत्तरार्चिके प्रगाध्यायस्य पाठः संहिता, प्रथमाध्यायश्च समाप्तः

द्वितीय अध्याय

पान्तमावो अन्धस इन्द्रमभि प्रगायत । वि-
श्वासाहं शतक्रतु मं हिष्टं चर्षणीनाम् १

हे ऋत्विजों ! (वः) तुम्हारे (अन्धस) जोमरूप अन्धको (आ
पान्तम्) अभिमुख हाकर पीतेहुए (इन्द्र, अभि, प्रगायत) इन्द्रकी
अधिकतासे स्तुति करो । कैसे हैं वह इन्द्र (विश्वासाहम्) सब शत्रु-
ओंका निरस्कार करनेवाला (शतक्रतुम्) सैकड़ों प्रकारके कर्म कर-
नेवाला (चर्षणीनां, मं हिष्टम्) मनुष्योंको धनका दाता होनेसे मान्य ?

पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं ऽ३८ सनश्रुतम् ।
इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २ ॥

हे ऋत्विक् यजमानो ! (पुरुहूतम्) यजोंमें अनेकोंके पुकारेहुए
(पुरुष्टुतम्) अनेकों स्तोत्रशस्त्रादिसं स्तुति कियेहुए (गाथान्यम्) गाने-
योग्य (सनश्रुतम्) सनातनसे प्रसिद्ध देवको (इन्द्र, इति, ब्रवीतनः)
इन्द्र इस नामसे कहो ॥ २ ॥

इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः ।
महां अभिश्वायमत् ॥ ३ ॥

(नृतु) स्तुति करनेवालोंको गौण आदि पहुँचानेवाला (इन्द्र इत्) वह
इन्द्रदेव ही (नः) हमें (महोनाम्) पशुआदि धनयुक्त (वाजानाम्) अघोंके
(दाता) देनेवाले हो (महान्) सबके बड़े वह इन्द्रदेव (अभिञ्जु)
हमारे सम्मुख आकर (आ यमत्) अन्न धनादि दे ॥ ३ ॥

प्र व इन्द्राय मादनं, हर्यश्वाय गायत ।

सखायः सोमपावने ॥ ४ ॥

(सखायः) हे स्तोताओं ! (वः) तुम (हर्यश्वाय) हरि नामक अश्ववाले (सोमपावने) सोम पीनेवाले इन्द्र के अर्थ (मादनम्) हर्ष दायक स्तोत्रको (प्रगायत) गाओ ॥ ४ ॥

शं, सेदुक्थं, सुदानव उत युक्षं यथा नरः ।

चकृमा मत्यराधसे ॥ ५ ॥

(उन्) और हे स्तोतः (सुदानवे) श्रेष्ठ दानवाले (सन्यराधसे) सत्य धनवाले इन्द्र के अर्थ (उक्थम्) सोमको (यथा) जैसे (नरः) अन्यस्तोता (युक्षम्) दीति के साथनभूत स्तोत्रको उच्चारण करते हैं जैसे ही तू भी (शंस) उच्चारण कर (इन्) हम भी (चकृम) स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥

त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रता ।

त्वं हिरण्ययुर्वभो ॥ ६ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वम्) तुम (नः) हमारे (वाजयुः) अन्न चाहने वाले हजिये (शतक्रता) हे अन्नको प्रकारके पराक्रम करनेवाले (त्वम्) तुम (गव्युः) हमारी गौओंको चाहनेवाले हजिये (वभो) हे व्यापक इन्द्र ! (त्वम्) तुम (हिरण्ययुः) हमारे निर्मित्त सुवर्ण चाहनेवाले हजिये ॥ ६ ॥

वयमु त्वा तदिदृथा इन्द्र त्वा गन्तः सखायः ।

कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ७ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वायन्तः) तुम्हें अपना बनाने की इच्छावाले (सखायः) मित्ररूप (तदिदृथा) जिस विषयकी स्तुति करने हैं वही है प्रयोजन जिनका ऐसे हम (त्वा) तुम्हारी स्तुति करते हैं (उ) और (कण्वाः) कण्वगोत्रवाले हमारे पुत्रादिक भी (उक्थेभिः) स्तोत्रोंसे (जरन्ते) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥

न धेमन्यदा पित वज्जिन्मपसो नविष्टो ।

तवेदु स्तोमैश्चिकेत ॥ ८ ॥

(वज्रिन्) हे वज्रधारी इन्द्र ! (अपसः) कर्मके अधिष्ठाता (तव) तुम्हारे (नविष्टौ) नवीन यज्ञके विषे वर्चमान मैं (अन्यत्) उस विषय से अन्य स्तोत्रको (नद्येम्) नहीं (आपपन) प्राप्त होता हूँ (तवेदु) तुम्हारे ही (स्तोमैः) स्तोत्रको (चिकेत) जानता हूँ ॥ ८ ॥

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ९ ॥

(सुन्वन्तम्) सोमका संस्कार करतेहुए यजमानको (देवाः) देवता (इच्छन्ति) रक्षा करना चाहते हैं (स्वप्नाय, न, स्पृहयन्ति) उमकी स्वप्नावस्थाको नहीं चाहते हैं, सदा जागृत रमते हैं इसीकारण (अ-तन्द्राः) आलस्यरहित हुए देवता (प्रमादम्) परमानन्ददायक उस के सोमको (यन्ति) शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

इन्द्राय मद्धनं सुतं परिष्टोभन्तु नो गिरः ।
अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ १० ॥

(मद्धनं) सोमके मदको चाहनेवाले (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (सुतम्) संस्कार कियेहुए सोमको (नः) हमारी (गिरः) वार्णिये (परिष्टो-भन्तु) स्तुति करतदनन्तर (कारवः) स्तुति करनेवाले स्तोता भी (अ-र्कम्) अर्चना करनेयोग्य (सोमम्) सोमको (अर्चन्तु) पूजे ॥ १० ॥

यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद्ः
इन्द्रं सुते हवामहे ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिस इन्द्रमें (विश्वाः) सब (श्रियोः) कान्तियें (अधि) अधिक होती हैं और (सप्त) सात (संसद्ः) होता (रणन्ति) हवि देने को अनेकों मंत्रोंका उच्चारण करते हैं (इन्द्रम्) उस इन्द्रको (सुते) सोमका संस्कार होजाने पर (हवामहे) हम आह्वान करते हैं ॥ ११ ॥

त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत ।
तमिद्धर्धन्तु नो गिरः ॥ १२ ॥

(देवाः) देवता (त्रिकद्रुकेषु) ज्योति, गौ और आयुके देनेवाले

दिनोंमें (चेतनम्) जिससे स्वर्ग आदि जानाजाता है ऐसे ज्ञानसाधन यज्ञको (अन्नत) अपने २ कर्म और रक्षाओंसे फैलातेहुए (तम्, इम्) उस ही यज्ञको (नः) हमारी (गिरः) स्तुतियों (वृद्धन्तु) बढ़ावें ॥१२॥

द्वितीयाध्याय प्रथमः खण्ड समाप्तः

अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधिवर्हिषि ।

एहीमस्य द्रवा पिव ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे अर्थ (अयं सोमः) यह सोम (वर्हिषि अधि) वेदीमें विछेंहुए कुशों पर (निपूतः) दशापवित्रसे संस्कार कियागया (इम्) इससमय (अस्य) इस सोमके प्रति (एहि) आओ और आकर जहां रसरूप सोमका हवन कियाजाता है तहां (द्रव) शीघ्र पहुँचो फिर (पिव) सोमको पियो ॥ १ ॥

शाचिगो शाचिपूजनाय रणाय ते सुतः ।

आखण्डल प्रहूयसे ॥ २ ॥

(शाचिगो) समर्थ वा प्रसिद्ध किरणों वाले (शाचिपूजन) प्रसिद्ध है पूजन जिसका ऐसे हे इन्द्र ! (ते रणाय) तुम्हें सुख प्राप्त होनेके निमित्त (अयम्) यह सोम (सुतः) संस्कार से शुद्ध किया है, इसकारण (आखण्डल) ह शत्रुओंका मानखण्डन करनेवाले इन्द्र ! (प्रहूयसे) श्रेष्ठ स्तुतियोंसे बुलायेजाते हो, तुम यहाँ आकर इस सोमको पियो ॥२॥

यस्ते शृङ्गवृषाणपात्प्रणपात्कुण्डपाय्यः ।

न्यस्मिन्दध्रे आ मनः ॥ ३ ॥

(शृङ्गवृषः) शृङ्गवृष ऋषिके वा ज्योतियोंकी वर्षा करनेवाले परब्रह्म के (नपान्) पुत्ररूप अथवा (शृङ्गवृषोष्पात्) किरणोंकी वर्षा करने वाले आदित्यकी अपनी धुरीपर स्थापन करनेवाले हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारा (प्रणपात्) पूर्णरूपसे रक्षा करनेवाला (कुण्डपाय्यः) जिसमें कुंडियों से सोमरस पियाजाता है ऐसा (यः) जो यज्ञ है (अस्मिन्) इसयज्ञ में (मनः) अपने अन्तःकरणको (आ नि दध्रे) ऋषियोंने लगाया ॥३॥

आतू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संगृभाय ।

महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (महाहस्ती) बड़े २ हाथोंवाले तुम (नः) हमारे लिये (क्षुमन्तम्) स्तुतियोग्य (चित्रम्) विचित्र (आभम्) ग्रहण करने योग्य धनको (दक्षिणेन) दाहिने हाथसे (संगृभाय) अभिमुख होकर ग्रहण करो ॥ १ ॥

विद्मा हि त्वातुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीमघम्
तुविमात्रमवोभिः ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (तुविकूर्मिम्) अनेकों पराक्रमवाले (तुविदेष्णम्) बहुत है देनेयोग्य सम्पदा जिनके पास ऐसे (तुवीमघम्) बहुत धनधान (तुविमात्रम्) बड़े आकार के (अवोभिः) रक्षाकी सामग्रियोंसे युक्त (त्वा) तुम्है (विद्महि) जानते हैं ॥ २ ॥

न हि त्वा शूर देवा न मर्त्सो दित्सन्तम् ।

भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३ ॥

(शूर) हे शूर ! (दित्सन्तम्) देनेकी इच्छा करनेवाले (त्वा) तुम्है (देवाः) देवता (न) नहीं (मर्त्सोः) मनुष्य (न) नहीं (वारयन्ते) निवारण करसकते हैं (हि) यह बात निश्चिन्त है (न) जैसे (भीमम्) भयदायक (गाम्) बैलको, घास खानेको प्रवृत्त होने पर (न वारयन्ते) कोई भी वारण नहीं करसकते ॥ ३ ॥

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं, सृजामि पीतये ।

तृम्पा व्यश्नुही मदम् ॥ १ ॥

(वृषभ) हे गन्तारथपृगक इन्द्र ! (त्वा) तुम्है (सुते) सोमका संस्कार होने पर (सुतम्) सोमरसको (पीतये) पीनके लिये (अभिसृजामि) आवहृत करना हूँ (तृम्पा) नृत हो (मदम्) आनन्ददायक सोमको (व्यश्नुहि) व्याप्त हो ॥ १ ॥

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आदभन्

मार्कीं ब्रह्मद्विपं वनः ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्है (मूराः) मूर्ख मनुष्य (अविष्यवः) पालन की इच्छा करतेहुए (मा दभन्) दुःख नदें (उपहस्वानः, मा) उपहास करनेवाले भी न हों (ब्रह्मद्विपम्) ब्राह्मणोंका द्वेष करनेवालेको (मार्कीं वनः) सेवन मत करो ॥ २ ॥

इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे ।

सरो गौरो यथा पिव ॥ ३ ॥

हे इन्द्र (त्वा) तुम्हें (इह) इस यज्ञमें (गोपरीणसम्) गौके दूध से मिले हुए सोमको (यथा) बहुतसे (राधसे) धनके निमित्त (मन्दन्तु) मनुष्य अर्पण करके आन्दिन करे तुम उस सोमको (यथा) जैसे (गौरः) मृग (सरः) सरोवरके जलको पीता है तैसे (पिव) पियो

इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपूर्णमुदरम् ।

अनाभयिन्नूररिमा ते ॥ १ ॥

(वसो) हे व्यापक इन्द्र (इदम्) इस (सुतम्) संस्कार किये हुए (अन्धः) सोमसको (पिव) पियो (उदरं, सुपूर्णम्) जिससे कि तुम्हारा पेट पूर्णतया भरजाय (अनाभयिन्) किसीसे भय न करने वाले हे इन्द्र (ते) तुम्हें (ररिमा) वह सोम अर्पण करने है ॥ १ ॥

नृभिर्धौतः सुतो अश्वैरव्या वारैः परिपूतः ।

अश्वो न नित्तो नदीषु ॥ २ ॥

(नृभिः) ऋत्विजों करके (धौतः) तृण आदि दूर करके संस्कार किया हुआ (अश्वैः) पापणोंसे (सुतः) निचोड़ा हुआ (अव्यावारैः) उनके दशापवित्रसे (परिपूतः) छाना हुआ (नदीषु) जलोंमें (अश्वः न) अश्वकी समान (नित्तः) निर्मल किया हुआ ॥ २ ॥

तं ते यवं यथा गोभिः स्वाहुमकर्म श्रीणन्तः ।

इन्द्र त्वास्मिन्सधमादे ॥ ३ ॥

(तम्) उस संस्कारकिये हुए सोमको हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे लिये (यवं यथा) यवके पुरोडाशकी समान (गोभिः) गौके दुग्धादिसे (श्रीणन्तः) मिलाते हुए (स्वाहु) स्वादलेनेयोग्य (अकर्म) किया है, इसकारण (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हें उस सोमके पीनेको (अस्मिन्) इस (सधमादे) यज्ञमें आह्वान करता हूँ ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके द्विर्तायाध्यायस्य द्वितीयः खंडः समाप्तः ।

इदं ह्यन्वोजसा सुतः राधानां पते ।

पिवा त्वा ऽ३स्य गिर्वणः ॥ १ ॥

(राधानां, पते) धनोंके स्वामी (गिर्वणः) स्तुतियोंसे आराधन करनेयोग्य हे इन्द्र ! (ओजसा) बलसे युक्त तुम (इदम्, अनु) इस क्रमसे (सुतम्) संस्कारकियेहुए (अस्य) इस सोमको (तु) शीघ्र (पिब) पियो ॥ १ ॥

यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नियच्छ तन्वम् ।
स त्वाममत्तु सोम्य ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे निमित्त (यः) जो सोम (स्वधाम् अनु) अन्नके अनुसार पापणोंसे संस्कारयुक्त (असन्) होता है (सुते) उस सोमके सुसिद्ध होने पर (तन्वम्) अपने शरीर को (नियच्छ) प्रेरणा करो (सोम्य) हे सोमके योग्य (सः) वह सोम (त्वा) तुम्हें (ममत्तु) आनन्द देय ॥ २ ॥

प्र ते अश्रोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः ।
प्र बाहू शूर राधसा ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (सः) वह सोम (ते) तुम्हारी (कुक्ष्योः) दोनों कोखों में (प्राश्रोतु) पूर्णतया व्याप्त होय तथा (ब्रह्मणा) स्तोत्र सहित वह सोम (शिरः) तुम्हारे शिर आदि शरीर में प्राप्त होय (शूर) हे पराक्रमी ! (राधसा) धनके निमित्त (बाहू) तुम्हारी बाहुओं को भी प्राप्त होय ॥ ३ ॥

आ त्वे ता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत ।

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥

(स्तोमवाहसः) इस कर्ममें त्रिवृत् पञ्चदश आदि स्तोमों को पहुँचानेवाले (सखायः) हे ऋत्विजों ! (तु) शीघ्र, (आ एत) इस कर्म में आओ (निषीदत) विराजो और (इन्द्रम्, अभिप्रगायत) इन्द्रके निमित्त सामगान करो ॥ १ ॥

पुरुतमं पुरुणामीशानं वार्याणाम् ।

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २ ॥

हे ऋत्विजों ! (सचा) इकट्ठे होकर (सुते) सोमका संस्कार होते समय (पुरुषमम्) अनेकों शत्रुओंका नाश करनेवाले (पुरुषाम्) बहुतसे (वार्याणाम्) धनों के (ईशानम्) स्वामी (इन्द्रम्) इन्द्रको स्तुति करो ॥ २ ॥

स घा ना योग आभुवत्स राये स पुरन्ध्या ।

गमद्वाजेभिरासनः ॥ ३ ॥

(सघ) वह इन्द्र ही (नः) हमारे (योगे) नवीन पुरुषार्थके विषय में (आभवत्) अभिमुख हों अर्थात् हमारे पुरुषार्थको सिद्ध करें (सः) वह (राये) हमारी धनप्राप्तिमें अभिमुख हों (सः) वह (पुरन्ध्या) स्त्रीकी प्राप्तिमें वा अनेकों प्रकारकी बुद्धि की प्राप्ति में अभिमुख हों (सः) वह (वाजेभिः) देनेयोग्य अन्नों के साथ (नः आगमत्) हमारे सम्मुख आवें ॥ ३ ॥

योग योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ।

सखाय इन्द्रमूतये ॥ १ ॥

(सखायः) मित्रकी समान प्रिय हम (योगे योगे) प्रत्येक कर्मके आरंभकाल में (वाजे वाजे) विघ्नकर्त्ताओं के साथ प्रत्येक संग्राम में (तवस्तरम्) अत्यन्त बलवान् (इन्द्रम्) इन्द्रको (ऊतये) रक्षाके लिये (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ १ ॥

अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम् ।

यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ २ ॥

(प्रत्नस्य) पुगानन (ओकसः) स्वर्गरूप स्थान से (तुविप्रतिम्) अनेकों यजमानों के समीप आनेवाले (नरम्) इन्द्र पुरुषको (अनुहुवे) क्रमसे कर्मोंमें आह्वान करता हूँ (यं, ते) जिन तुम इन्द्रको (पिता) हमारे पिताने (पूर्वम्) पहिले अपने अनुष्ठान के समय (हुवे) आह्वान किया था ॥ २ ॥

आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभिः ।

वाजेभिरुप नो हवम् ॥ ३ ॥

(यदि) जो यह इन्द्र (नः) हमारे (हवम्) आह्वानको (भवत्)

सुनै, तो स्वयं हा (सहस्रिणीभिः ऊतिभिः सह) सहस्रों रक्षाके साधनों सहित (वाजेभिः) अश्रों सहित (उप) समीपमें (आघ) अवश्य ही (आगमत्) आवै ॥ ३ ॥

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम् ।

विदे वृधस्य दक्षस्य महाः हि षः ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (सोमेषु सुतेषु) सोमोंका संस्कार होनेपर, तुम उनको पीकर (वृधस्य, दक्षस्य, विदे) वृद्धि करनेवाले बलकी प्राप्ति के लिये (क्रतुम्) कामंकरत्की (उक्थ्यम्) स्तोताको (पुनीषे) शुद्ध करते हो (सः) ऐसे तुम (महान् हि) अवश्य ही पूज्य हो ॥१॥

स प्रथमे व्योमनि देवानाः सदाने वृधः ।

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित् ॥ २ ॥

(सः) वह इन्द्र (प्रथमे) विस्तीर्ण वा मुख्य (व्योमनि) विशेष रूप से रक्षक (देवानां, सदाने) देवताओंके स्थान स्वर्गमें स्थित हो कर (वृधः) यजमानोंको बढ़ानेवाला (सुपारः) सुन्दरताके साथ प्रारब्धकर्मों की समाप्ति करनेवाला (सुश्रवस्तमः) परमोत्तम अन्नघाला (समप्सुजित्) जो प्राप्तव्य जलका विनाश करनेवाले वृत्रासुरको जीतने वाला है उसका ही आवाहन करते हैं ॥ २ ॥

तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम् ।

भवानः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३ ॥

(तमु) उस ही (शुष्मिणम्) बलवान् (इन्द्रम्) इन्द्रको (वाजसातये) जिसमें अन्न मिलता है ऐसे (भराय) यज्ञके लिये (हुवे) आह्वान करता हूँ । हे इन्द्र ! तुम (सुम्ने) सुख वा धनको पाने की इच्छा होने पर (अन्तमः) हमारे परमसमीप (भव) हो (वृधे) वृद्धिके निमित्त भी (सखा) मित्ररूप हो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके द्विर्वायाध्यायस्थ तृतीयः खंडः समाप्तः

एना वो अग्निं नमसोर्जा नपातमाहुवे । प्रियं

चेतिष्ठमरतिष्ठं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्

हे ऋत्विक् यजमानो ! (वः) तुम्हारे लिये (एना, नमसा) इस स्तोत्रसे (ऊर्जः) बलके (नपातम्) पुत्ररूप (प्रियम्) हमारे अनु-

कूल (चेतिष्ठम्) परम चेतना देनेवाले (अरतिम्) स्वामी (स्वध्वरम्) श्रेष्ठ यज्ञ वाले (विश्वस्य) सकल यजमानोंके (दूतम्) दूत (अमृतम्) नित्य (अग्निम्) अग्निको (आहुवे) आह्वान करता हूँ ॥ १ ॥

स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वा-
हुतः । सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देव २ राधो
जनानाम् ॥ २ ॥

(सः) वह अग्नि (अरुषा) दिपनेहुए (विश्वभोजसा) विश्वका पालन करनेवाले अश्वोंको (योजते) अपने ग्थमें जोड़े । तदनंतर (सुब्रह्मा) श्रेष्ठ अन्नवाला (यज्ञः) यजनयोग्य (सुशमी) श्रेष्ठ कर्मवाला जो अग्नि (स्वाहुतः) सम्यक् प्रकारसे होमाहुआ (दुद्रवत्) देवताओं को लानेको शीघ्रतासे जाय । तदनंतर (वसूनाम्) यजमानोंका (राधः) हविरूप धन (देवम्) अग्निदेवको प्राप्त हो ॥ २ ॥

प्रत्सु अदर्श्यायत्यू ऽ ३ ऽ इच्छन्ती दुहिता
दिवः । अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योति-
ष्कृणोति सूनरी ॥ १ ॥

(आयती) आती हुई (उच्छन्ती) अत्रकारोंको दृग् करती हुई (दिवः) चुल्लोककी (दुहिता) पुत्री (उपाः) उषा (प्रति अदर्शि) सबने देखी (उ) और वह (मही) बड़े (तमः) रात्रिके अन्वकारकां (चक्षुषा) दर्शनसे (उप-उ-वृणुते) निवारण करती है (सूनरी) प्राणियोंको श्रेष्ठ प्रेरणा करनेवाली उषा (ज्योति) प्रकाशको (कृणोति) करती ॥ १ ॥

उदुस्त्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्र-
मर्चिवत् । तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च संभक्तेन
गमेमहि ॥ २ ॥

(सूर्यः) सबका प्रेरक आदित्य (उस्त्रियाः) किरणोंको (सचा) एक साथ (उन्सृजते) प्रकाशित करना है तथा (उद्यत्) उद्य होता हुआ (नक्षत्रम्) आकाश में दीखनेवाले ग्रह नक्षत्रादिको (अर्चिवत्) प्रकाशयुक्त करता है अर्थात् सूर्यके तेजसे ही रातमें चन्दमा तारागण

आदि प्रकाश करते हैं, ऐसा होनेपर (उषः) हे उषा देवता ! (तव) तेरा (सूर्यस्य च) सूर्यका भी (व्युषि) प्रकाश होनेपर हम (भक्तेन) अन्नसे (सङ्गमेमहि, इत्) अवश्य ही संयुक्त हों ॥ २ ॥

इमा उ वां दिविष्टय उस्मा हवन्ते अश्विना ।
अयं वामह्वेऽवसेशचीवसू विशंविशं हि
गच्छथः ॥ १ ॥

(इमाः) यह (दिविष्टयः) स्वर्गकी इच्छा करनेवाली प्रजापं (उ) और ऋत्विज भी (अश्विना) हे अश्विनी कुमारों ! (उस्मौ) व्यापक (वाम्) तुम दोनोंको (हवन्ते) आह्वान करते हैं (सचीवसो) हे कर्मधन (अयम्) यह स्तोता भी (वाम्) तुम दोनोंको (अवसे) हमारी रक्षाके लिये वा तुम्हें तृप्त करनेके निमित्त (अह्ने) आह्वान करता हूँ (विशं, विशं, हि, गच्छथः) तुम स्तुति करनेवाली सब प्रजाओंके समीप अवश्य ही जाते हो ॥ १ ॥

युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथाम् सूनृता-
वते । अर्वाप्रथम् समनसा नियच्छतं पिबतं
सोम्यं मधु ॥ २ ॥

(नरा) हे प्रेरक अश्विनीकुमारों ! (युवम्) तुम दोनों (चित्रम्) विचित्र प्रकारके (भोजनम्) धनको (ददथुः) धारणकरते हो, वह धन (सूनृतावते) स्तुति करनेवालेको (चोदेथाम्) प्रेरितकरा, इस कार्यके लिये (समनसा) एकमन होतेहुए (रथम्) अपने रथको (अर्वाक) हमारे सम्मुख (नियच्छतम्) थमाओ और (सोम्यम्) सामके (मधु) मधुर रसको (पिबतम्) पियो ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थं खण्डं समाप्तं

अस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्रं दुदुहे अहूयः ।
पयः सस्रसामृषिम् ॥ १ ॥

(अस्य) सोमके (प्रत्नाम्) पुरातन (द्युतम्) दिपतेहुए शरीरको (अनु) लक्ष्य करके (शुक्रम्) दीप्त (सहस्रसाम्) सहस्रों अभिलाषाओंके फलको देनेवाले (ऋषिम्) अतीन्द्रिय कर्मफलके द्रष्टा (पयः) पीने योग्य रसको (अहूयः) कवि (दुहे) दुहते ह १

अयं सूर्य इवोपदृगयं सरांसि धावति ।
सप्त प्रवत आदिवम् ॥ २ ॥

(अयम्) यह सोम (सूर्य इव) जैसे सूर्य सब लोकोंका द्रष्टा है तैसे (उपदृक्) कर्मोंका द्रष्टा है और (अयम्) यह सोम (त्रिशत् , धावति) तीस पात्रोंको अथवा तीस अहोरात्रोंको प्राप्त होता है और यह सोम (आदिवम्) द्युलोक में (सप्त प्रवते) सात प्रवाहों में पहुँचना है ॥ २ ॥

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनो परि ।
सोमो देवो न सूर्यः ॥ ३ ॥

(पुनानः) पवित्र कियाजाता हुआ (अयं सोमः) यह सोम (विश्वानि भुवना) सकल भुवनों के (उपरि, तिष्ठति) ऊपर विराजमान होता है (देवो न सूर्यः) जैसे कि—सूर्यदेव सबलोकों के ऊपर विराजमान होते हैं ॥ ३ ॥

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः ।
हरिः पवित्रे अर्षति ॥ १ ॥

(हरिः) हरे वर्णका (देवः) दिपता हुआ (एषः) यह सोम (प्रत्नेन) पुरातन (जन्मना) उत्पत्तिसे (देवेभ्यः) देवताओंके अर्थ (सुतः) संस्कार किया हुआ (पवित्रे) दशापवित्रमें (अर्षति) प्रकाशित होता है १

एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि ।
कविर्विप्रेण वावृधे ॥ २ ॥

(प्रत्नेन) पुरातन (मन्मना) स्तोत्ररूप साधन करके (देवः) द्यो-तमान (एषः) यह सोम (देवेभ्यः) देवताओंके अर्थ (कविः) मेधावी होता हुआ (विप्रेण) विवेकी यजमान और ऋत्विजके द्वारा (परि-वावृधे) बढ़ता है ॥ २ ॥

दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परिषिच्यसे ।
क्रन्दं देवांश्च अजीजनः ॥ ३ ॥

(प्रत्नमित्) पुरातन ही (पयः) रसको (दुहानः) पात्रमें पूर्ण कर ताहुआ नृ हे सोम ! (पवित्रे) दशापवित्रमें (परिपिच्यसे) टपकाया जाता है हे सोम ! नृ (क्रन्दन्) शब्दकरताहुआ (देवान्) इंद्रादि देवताओंको (अजीजनः) अपने समीपमें प्रकट करता है अर्थात् जहां सोमका संस्कार होता है तहाँ देवता अवश्य ही प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥

उपशिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे ।

पवमान विदा रयिम् ॥ १ ॥

(पवमान) हे सोम (उपतस्थुषः) हमारे इच्छित पदार्थोंको (उपशिक्ष) हमारे समीप पहुँचाओ (शत्रवे) हमारे विरोधियोंमें (भियसम्) भयको (आधेहि) स्थापन करो अर्थात् हमारी विजय करो (रयिम्) शत्रुओंके धनको (विदाः) हमें दो ॥ १ ॥

उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् ।

इन्द्रं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥

(जातम्) भले प्रकारसे प्रकट हुए (अतग्म्) वसन्तीवरी जलोंके प्रेरणा करेहुए (भङ्गम्) शत्रुओंको नष्ट करनेवाले (गोभिः) गौदुग्धादिसे (परिष्कृतम्) संस्कार कियेहुए (इन्द्रम्) सोमको (देवाः) इंद्रादि देवता (उप-उ-अयासिषुः) प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

उपास्मै गायतानरः पवमानायेन्दवे ।

अभि देवा इयक्षते ॥ ३ ॥

(नरः) ऋत्विज (देवान्) इंद्रादि देवताओंको (अभि इयक्षते) अभिमुख होकर यजन करना चाहते हैं (पवमानाय) यजमानके निमित्त संस्कार कियेजातेहुए (अस्मै) इस (इन्द्रवे) सोमके अर्थ (उपगायत) सामगान करो ॥ ३ ॥

इति सामवेदसंहितारचिकं द्वितीयाध्यायस्य पञ्चम खण्डः समाप्त ।

प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः ।

वनानि महिषा इव ॥ १ ॥

(विपश्चितः) मेधावी (ऊर्मयः) बड़ेहुए (सोमासः) सोम (अपः) वसन्तीवरी जलोंको (प्रनयन्ते) प्राप्त होते हैं (वनानि, महिषा इव) जैसे कि—बड़ेहुए मृग वनको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अभिद्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।

वाजं गोमन्तमक्षरन् ॥ २ ॥

(बभ्रवः) बभ्रवर्णके (शुक्राः) दिपतेहुण सोम (ऋतस्य) अमृत की (धारया) धारारूपसे (द्रोणान्) द्रोणकलशादि पात्रोंमें (गोमन्तम्) गौश्रों सहित (वाजम्) अन्नको देनेहुण (अभ्यक्षरन्) टपकते हैं ॥२॥

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सामा अर्षन्तु विष्णवे ॥ ३ ॥

(सुताः) संस्कार कियेहुण (सोमाः) सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (वायवे) वायुके अर्थ (वरुणाय) वरुणके अर्थ (मरुद्भ्यः) मरुतों के अर्थ (अर्षन्तु) प्राप्त हो ॥ ३ ॥

प्र सोमदेववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा ।

अशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं

मधुश्चुतम् ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! तू (देववीतये) देवताओंके पीनेके लिये (अर्णसा) वसतीवरी जलन (सिन्धुः, न) जैसे सिन्धु जलसे पूर्ण होता है तैसे (प्रपिप्ये) पूर्ण होता है, वह (मदिरो न) मदकारी वस्तुकी समान (जागृविः) जागरणशील तू (अशोः) लताके टुकड़ेके (पयसा) रससे (मधुश्चुतम्) मधुर रसको बहानेवाले (कोशं, अच्छ) द्रोण कलशमें प्राप्त हो ॥ १ ॥

आ हर्षतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनूर्न

मर्ज्यः । तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदी-

प्वा गभस्त्योः ॥ २ ॥

(हर्षतः) चाहनेयोग्य (सूनुः न) पुत्रकी समान (मर्ज्य) संस्कार करनेयोग्य (अर्जुनः) स्वेतवर्णका सोम (अत्के) दर्शनीय होने पर (आ अव्यत) व्याप्त होता है (तम्) उस (ईम्) इस सोमको अंगुलिये (नदीषु) वसतीवरी जलोमें (गभस्त्योः) बाहुओंके (आ हिन्वन्ति) अभिमुख प्रेरणा करती हैं (अपसः रथं, यथा) जैसे वेग वाले शूर पुरुष रथको संग्राममें प्रेरणा करते हैं ॥ २ ॥

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम् ।
सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥

(मदच्युतः) आनन्दका प्रवाह वहानेवाले (सोमासः) सोम (सुताः) संस्कारयुक्त होतेहुए (विदथे) यज्ञमें (मघोनाम्) हविवाले (नः) हमारे (श्रवसे) अन्न और कीर्तिके लिये (प्र अक्रमुः) प्राप्त होतेहैं ?

आदी * हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्म-
तिम् । अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २ ॥

(आत्) और (ईम्) यह सोम (हसः, यथा) जैसे हंस (गणम्) जनसमूहमें अपनी गति वा स्वरके साथ प्रवेश करना है तैसे ही (विश्वस्य) सब स्तोताओंकी (मतिम्) स्तुति वा बुद्धिको (अवीवशन्) वशमें करता है, वह सोम (अत्यो न) अश्वकी समान (गोभिः) गो घृतादिसे (अज्यते) चिकना कियाजाता है ॥ २ ॥

आदी त्रितस्य योषणा हरि * हिन्वन्त्यद्रिभिः ।
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ३ ॥

(आत्) और (ईम्) इस (हरिम्) हरे वर्णके (इन्दुम्) सोम को (त्रितस्य) त्रित ऋषिकी (योषणा) अगुलियें (इन्द्राय, पीतये) इन्द्रके पीनेके लिये (अद्रिभिः) ग्रावाओंसे (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं ३

अया पवस्व देवयू रेभन् पवित्रं पर्येषि वि-
श्वतः । मधोधारा असृक्षत ॥ १ ॥

हे सोम ! (देवयुः) देवताओंकी कामना करनेवाला तू (अया) इस धारासे (पवस्व) टपक, तदनंतर (रेभन्) शब्द करताहुआ (पवित्रं, विश्वतः, पर्येषि) दशापवित्रमेंसब ओरको जाते हो, तदनंतर (मधोः) मदकारी तुम्हारी (धाराः) धारायें (असृक्षत) बनती हैं ॥ १ ॥

पवते हर्यतो हरिरति ह्वरा * सि र * ह्या ।
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ २ ॥

(हर्यतः) चाहनेयोग्य (हरिः) हरे वर्णका सोम (स्तोतृभ्य) स्तो-
ताओंके अर्थ (वीरवत्) पुत्रयुक्त (यशः) यश (अभ्यर्षन्) प्राप्त कर

ताहुआ (रंहा) सुंदरवेगसे (हगंसि) तिरछे पवित्रोंमेंको (अतिप-
वने) निकलकर छुनताहै ॥ २ ॥

प्र सुन्वानायान्धसो मर्त्ती न वष्ट तद्वचः ।

अप श्वानमराधसंश्रुता मखन्न भृगवः ३

(सुन्वानाय) संस्कार कियेजाने हुए (अन्धसः) सोमके (तू)
प्रसिद्ध (वचः) शब्दको (मर्त्तः) कर्ममें विघ्न करनेवाला (न, प्र, वष्ट)
न सुन, तथा हे स्नोताओं! (अराधसम्) साधककर्मरहित (श्वानम्)
श्वानको (अपहत) दूरकरो (भृगवः, मखं, न) जैसे पहिले दोषयुक्त
मखको भृगुओंने दूर किया था ॥ ३ ॥

सामंबदोत्तरार्चिके द्वितीयाध्यायस्य षष्ठ खण्डः समाप्त द्वितीयाध्यायश्च समाप्तः

तृतीया अध्याय

पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरुतिभिः ।

अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (अग्रियः) मुख्य तू (चित्राभिः) पृजनीय (ऊतिभिः)
रक्षाओं सहित (वचः) हमारी स्तुतियोंको (पवस्व) प्राप्त हो (विश्वानि-
नि) सब (काव्या) स्तुतिके वाक्योंको (अभि) प्राप्त हो ॥ १ ॥

त्वं, समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन् ।

पवस्व विश्वचर्षणे ॥ २ ॥

(विश्वचर्षणे) हे सबके द्रष्टा सोम! (अग्रियः) मुख्य तू (वाचः)
वाकियोंको (ईरयन्) प्रेरणा करताहुआ (समुद्रियाः) अन्तरिक्ष के
(अपः) जलोंको (पवस्व) धारासे प्राप्त हो ॥ २ ॥

तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे ।

तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ ३ ॥

(कवे) हे क्रांतकर्मा सोम! (तुभ्यम्) तुम्हारी (महिम्ने) महिमाके
अर्थ (इमा) यह (भुवना) भुवन (तस्थिरे) स्थित हैं (धेनवः) हवि
देकर देवताओंको तृप्त करनेवाली गौण (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये ही
(धावन्ति) आती हैं ॥ ३ ॥

पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने ।
विश्वा अप द्विषो जहि ॥ १ ॥

(इन्द्रो) हे सोम ! (सुतः) संस्कार कियाहुआ (वृषा) कामनाओं को पूर्ण करनेवाला तू (पवस्व) धारासे पवित्र हो (जने) देशके पुण्यार्थ (नः) हमें (यशसः) कीर्तिमान् (कृधि) करो (विश्वा) सभके (द्विषः) शत्रुओंको (अपजहि) मारो ॥ १ ॥

यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः ।
तवेन्दो द्युम्न उत्तमे ॥ २ ॥

(इन्द्रो) हे सोम (यस्य) इस यज्ञमें वर्तमान जिन (ते) तुम्हारे (सख्ये) मित्रभावके होनेपर, हम स्नेहा (नव) तुम्हारे (उत्तमे) श्रेष्ठ (द्युम्ने) अन्नमें तप्तिकी प्राप्त, हुए हैं (पृतन्यतः, सासह्याम) युद्धकी इच्छा करनेवाले शत्रुओंका हम निरस्कार करें ॥ २ ॥

या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे ।
रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (ते) तुम्हारे (या) जो (भीमानि) शत्रुओंको भय देनेवाले (तिग्मानि) तीक्ष्ण (आयुधा) आयुध (धूर्वणे) शत्रुओंको नाश करनेकी हैं, उन आयुधोंके द्वारा (समस्य) सब शत्रुओंकी (निदः) निंदासे (नः) हमें (रक्ष) रक्षा करो ॥ ३ ॥

वृषा सोम द्युमां असि वृषा देव वृषव्रतः ।
वृषा धर्माणि दधिषे ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (वृषा) कामनाओंकी पूर्ण करनेवाला तू (द्युमान्) वीरिमान् (असि) हैं (देव) हे सोमके अधिष्ठात्रीदेव ! (वृषा) मनो रथपूरक तुम (वृषव्रतः) कामना पूर्ण करनेके व्रतधारी हो (वृषा) मनोरथपूरक तुम (धर्माणि) देवता और मनुष्योंके हितकारा कर्मोंको (दधिषे) धारण करते हो ॥ १ ॥

वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवा वृषा वनं वृषा सुतः ।
स त्वं वृषन्वृषदसि ॥ २ ॥

(वृषन्) हे कामनाओंकी वर्षा करनेवाले सोम ! (वृष्णोः) वर्षा करने वाले (ते) तुम्हारा (शवः) बल (वृषायम्) वर्षा करनेवाला है (वनम्) तुम्हारा सेवन (वृषा) वर्षा करनेवाला है (सुनः) तुम्हारा संस्कार किया हुआ रस (वृषा) वर्षा करनेवाला है (सः, त्वम्) वह तुम (वृषेत्, असि) वर्षणशील ही हो ॥ २ ॥

अश्वो न चक्रदो वृषा सङ्गा इन्दो समर्वतः ।

विनोराये दुरो वृधि ॥ ३ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला तू (अश्वो न) अश्वकी समान (सञ्चक्रतः) शब्द करते हो और (गाः) पशुओंको (अर्वतः) घाड़ोंको भी हमें देते हो और (नः) हमारे (राये) धनके अर्थ (दुरः) द्वारोंको (विवृधि) खोलो ॥ ३ ॥

वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्त त्वा हवामहे ।

पवमान स्वर्दृशम् ॥ १ ॥

हे सोम ! तू (हि) निश्चय (वृषासि) अभिमत फलोंकी वर्षा करने वाला है, इसकारण (पवमान) हे सोम ! (स्वर्दृशम्) सब देवताओंसे देखनेयोग्य (भानुना) तेजसे (द्युमन्तम्) दीप्तिमान् (त्वा) तुम्हें (हवामहे) यज्ञमें आह्वान करते हैं ॥ १ ॥

यद्भिः परिषिच्यसे मर्भृज्यमान आयुभिः ।

द्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥ २ ॥

हे सोम ! तू (आयुभिः) ऋत्विजों करके (मर्भृज्यमानः) अत्यन्त शुद्ध कियाजाताहुआ (अद्भिः) वसन्तीवरी जलोंसे (यद्) जब (परिषिच्यसे) चारों ओरसे सींचाजाताहै तब (द्रोणे) द्रोणकलशमें ग्रहण कियाजाताहुआ (सधस्थं, अश्नुषे) ग्रह चमस आदि स्थानमें व्याप्त होता है ॥ २ ॥

आ पवस्व सुवीर्य्य मन्दमानः स्वायुध ।

इहो ष्विन्दवा गहि ॥ ३ ॥

(स्वायुध) जिसके यज्ञमें के स्फय कपाल आदि श्रेष्ठ आयुध हैं ऐसे हे सोम ! तू (मन्दमान) देवताओंको आनन्द देताहुआ (सुवी-

र्यम्) श्रेष्ठ वीरतायुक्त पुत्रादि (आपवस्व) हमें प्राप्त करा और (इंदो) हे सोम ! (इह उ) हमारे इस यज्ञमें ही (सु आगहि) शोभन प्रकार से आओ ॥ ३ ॥

पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः ।

सखित्वमा वृणीमहे ॥ १ ॥

हे सोम ! हम स्तोता (पवित्रं, अभ्युन्दतः) पवित्रमें आर्द्र होनेवाले (पवमानस्य) टपकतेहुए (ते) तुम्हारे (सखित्वम्) मित्रभावको (आवृणीमहे) प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति धारया ।

तेभिर्नः सोम मृडय ॥ २ ॥

हे सोम ! (ते) तेरी (ये) जो (ऊर्मयः) तरंगें (धारया) धारा से (पवित्रं, अभिक्षरन्ति) पवित्रमेंको वहकर जाती हैं (तेभिः) उन तरङ्गोंसे (नः) हमें (मृडय) सुख दो ॥ २ ॥

स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम् ।

ईशानः सोम विश्वतः ॥ ३ ॥

हे सोम (विश्वतः) सब जगत्के (ईशानः) ईश्वर हो (सः) वह तुम (अभिपुतः) संस्कार कियेहुए (पुनानः) पवित्र तुम (नः) हमें (रयिम्) धन (वीरवतीम्) पुत्रयुक्त (इषम्) अन्न (आ भर) दो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके तृतीयाध्यायस्य प्रथम खण्ड समाप्तः.

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ १ ॥

(होतारम्) देवताओंका आह्वान करनेवाले (विश्ववेदसम्) सकल धनोंसे युक्त (अस्य) इस यज्ञके आदिकारण होनेमें (सुक्रतुम्) श्रेष्ठ कर्मवाले (दूतम्) हवि पहुँचानेवाले (अग्निम्) अग्निदेवको (वृणीमहे) इस कर्ममें आगधन करते हैं ॥ १ ॥

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वपतिम्

हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥ २ ॥

(विश्वपतिम्) प्रजाओंके वा होता आदिके रक्षक (हव्यवाहम्) यजमानके अर्पण कियेहुए हविको देवताओंके समीप पहुँचानेवाले (पुरुप्रियम्) अनेकों देवताओंके प्यारे (अग्नि, अग्निम्) आहवनीय आदि अनेकों नामवाले अग्निको (हवीमभिः) आवाहनके मंत्रोंसे अनुष्ठान करनेवाले (सदा) सर्वदा (आहवन्त) आह्वान करते हैं ॥ २ ॥

अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तवर्हिषे ।
असि होता न ईड्यः ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (जज्ञानः) अरणियोंसे उत्पन्न हुए तुम (वृक्त-वर्हिषे) आस्तरणके निमित्त तोड़ेहुए कुशोंसे युक्त यजमानके ऊपर अनुग्रह करनेको (इह) इस कर्ममें (देवान्) हविभोक्ता देवताओंको (आवह) बुलाओ (नः) हमारे लिये (होता) देवताओंका आह्वान करनेवाले तुम (ईड्यः, असि) स्तुतिके योग्य हो ॥ ३ ॥

मित्रं वयँ हवामहे वरुणँ सोमपीतये ।
या जाता पूतदक्षसा ॥ १ ॥

(वयम्) हम अनुष्ठान करनेवाले (सोमपीतये) सोम पीनेके निमित्त (या) जो (जाता) यज्ञस्थानमें प्रकट होतेहुए (पूतदक्षसा) शुद्ध बलवाले हैं उन (मित्रम्) मित्र देवताको (वरुणम्) वरुण देवताको (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥ १ ॥

ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती ।
ता मित्रावरुणा हुवे ॥ २ ॥

(यौ) जो (ऋतेन) यजमान के ऊपर अनुग्रह करनेवाले सत्य वचनसे (ऋतावृधौ) अवश्य प्राप्त होनेवाले कर्मफलके वर्द्धक (ज्योतिषः) प्रकाशके (पती) पालक हैं (ता) उन (मित्रावरुणा) मित्रावरुणको (हुवे) आह्वान करता हूँ ॥ २ ॥

वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः ।
करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥

(वरुणः) वरुणदेव (विश्वाभिः) सकल (ऊतिभिः) रक्षाओं सहित (मित्रः) मित्र देवता (प्राविता, भुवत्) हमारा अधिकतर रक्षक हो, वह दोनो (नः) हमें (सुराधसः) बहुत से धनसे युक्त (करताम्) करें ॥ ३ ॥

इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरार्केणः ।

इन्द्रं वाणोरनूषत ॥ १ ॥

(गाथिनः) गाये जातेहुए सामसे युक्त उद्राताओंने (इन्द्रमित्) इन्द्र कीही (बृहत्) बृहत्सामसे (अनूषत) स्तुति करी (अर्केणः) पूजनके मंत्र उच्चारण करनेवाले होताओंने (अर्केभिः) उक्थमंत्रोंसे (इन्द्रम्) इन्द्रकी स्तुतिकरी, शेष अध्वर्युओंने (वाणीः) यजूरूप वाणियों से (इन्द्रम्) इन्द्रकी स्तुति करी ॥ १ ॥

इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिश्र आ वचोयुजा ।

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २ ॥

(वज्री) वज्रवाला (हिरण्ययः) सुवर्ण के आभूषणों को धारण किये हुए (इन्द्र इत्) इन्द्र ही (वचोयुजा) इन्द्र के वचन मात्र से रथमें जुड़नेवाले (हर्योः) हरिनामक घोड़ोंका (सचा) एक साथ (आसमिश्रः) सब ओर से भलेप्रकार जोड़ने वाला है ॥ २ ॥

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च ।

उग्र उग्राभिरुतिभिः ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (उग्रः) शत्रुओंसे न दबनेवाला तू (उग्राभिः) प्रबल (उतिभिः) रक्षाओंसे (वाजेषु) युद्धोंमें (सहस्रप्रधनेषु च) सहस्रों हाथी घोड़ोंके लाभसे युक्त युद्धोंमें भी (नः) हमारी (अव) रक्षा करो ॥ ३ ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यथं रोहयदिवि ।

वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ४ ॥

(इन्द्रः) यह इन्द्र (दीर्घाय) निरन्तर (चक्षसे) दर्शनके लिये (दिवि) द्युलोकमें (सूर्यम्) सूर्यको (आरोहयत्) स्थापन करना हुआ वह सूर्य (गोभिः) अपनी किरणोंसे (अद्रिम्) मेघको (व्यैरयत्) प्रेरणा करताहुआ ॥ ४ ॥

इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्सुवृक्तिमेरयामहे ।

धिया धेना अवस्यवः ॥ १ ॥

(अवस्यवः) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम (इन्द्रे) इन्द्रदेवके विषयमें (अग्ना) अग्निके विषयमें (बृहत्) बढ़ानेवाले (नमः) हविरूप अन्नको (सुवृक्तिम्) सुंदर स्तुतिको भी (आदीरयामहे) प्रेरणा करते हैं (धिया) कर्मसे युक्त (धेनाः) स्तुतिरूप वाणियोंको उच्चारण करते हैं ॥ १ ॥

ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये ।

सवाधो वाजसातये ॥ २ ॥

(ता हि) उन इन्द्र अग्निकी ही (शश्वन्तः) बहुतसे (विप्रासः) मेधायी पुरुष (ऊतये) रक्षाके लिये (इत्थम्) इसप्रकार (ईडते) स्तुति करते हैं तथा (सवाधः) परस्पर वाधाको प्राप्त हुए पुरुष (वाजसातये) अन्नकी प्राप्तिके लिये उनकी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

ता वां गीर्भैर्विपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे ।

मेधसाता सनिष्यवः ॥ ३ ॥

(विपन्यवः) स्तुति करना चाहतेहुए (प्रयस्वन्तः) हविरूप अन्न से युक्त (सनिष्यवः) अपने लिये धनकी इच्छा करनेवाले हम (मेधसाता) यज्ञानुष्ठानके निमित्त होने पर हे इन्द्र अग्निदेव (ता) उन (वाम्) तुम्हें (गीर्भिः) स्तुतियोंसे (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥३॥

सामवेदात्तरात्रिके वृत्तीयाध्यायस्यः द्वितीयः खड. समाप्त.

वृषा पवस्वधारया मरुत्वते च मत्सरः ।

विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥

हे सोम ! तुम (वृषा) स्तोताओंको अभिमत फल देतेहुए (धारया) अपनी धारासे (पवस्व) द्रोणकलशमें आओ, और आने पर तुम जब हम इन्द्रको अर्पण करें तब (विश्वा) सकल धन (ओजसा) अपने बलसे (दधानः) स्तोताओंको देतेहुए (मरुत्वते) जिसके मरुत् सहायक हैं ऐसे इन्द्रके अर्थ (मत्सरः) आनन्ददायक होओ ॥ १ ॥

तं त्वा धर्त्तारमोष्योऽः पवमान स्वर्दृशम् ।

हिन्वे वाजेषु वाजिनम् ॥ २ ॥

(पवमान) हे शुद्ध सोम ! (ओष्योः) छावापृथिवीके (धर्त्तारम्)

धारण करनेवाले (स्वर्त्तशम्) सबके देखने योग्य (वाजिनम्) बलवान् (तम्) तिन (त्वा) तुम्है (वाजेषु) संग्रामोंमें वा देशोंमें प्रेरणा करता हूँ, तुम अन्न आदि दो ॥ २ ॥

अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया ।

युजं वाजेषु चोदय ॥ ३ ॥

हे सोम ! (अया) इन (विपा) मेरी अंगुलियोंसे (चित्तः) संस्कार कियाहुआ (हरिः) हरे वर्णका तू (धारया) निरन्तर धारा करके (पवस्व) द्रोणकलशमें प्राप्त हो और (युजम्) सखा इन्द्रको (वाजेषु) संग्रामोंमें (चोदय) प्रेरणा कर ॥ ३ ॥

वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्वा नदयन्नेषि पृथि-
वीमुत द्याम् । इन्द्रस्येव वग्नुराश्रुण्व आजौ
प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम् ॥ १ ॥

(शोणः) लालवर्णका (वृषा) कोई वृषभ (नाः) गौओंकी ओर को (अभि) लक्ष्य करके (कनिक्रदत्) शब्द करता है इसीप्रकार स्तुतिरूप भौओंकी ओरको लक्ष्य करके (नदयन्) शब्द उत्पन्न करता है हे सोम ! तू (पृथिवीम्) पृथिवीको (उत्) और (द्याम्) द्युलोक को (षि) प्राप्त होता है (आजौ) संग्राममें (इन्द्रस्य) इन्द्रका (वग्नुरः, इव) शब्दकी समान (आश्रुण्वे) सबों करके सुनाजाता है तदनंतर (प्रचेतयन्) अपना स्वरूप सबको जताताहुआ (इमाम्) इस (वाचम्) वाणीको (अर्षसि) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुम-
न्तमंशुम् । पवमान सन्तानिमेषि कृण्वन्नि-
न्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ २ ॥

(रसाय्यः) स्वाद लेनेयोग्य (पयसा) गौदुग्धादिसे (पिन्वमानः) मिलताहुआ (मधुमन्तम्) मधुरतायुक्त (अंशुम्) रसभावको (ईर-यन्) प्रेरणा करताहुआ (षि) प्राप्त होता है और (सोम) हे सोम (परिषिच्यमानः) जलोंसे सिञ्चित होताहुआ तू (पवमानः) पवित्र में शुद्ध होताहुआ (सन्तानिम्) धाराको (कृण्वन्) करताहुआ (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (षि) प्राप्त होता है ॥ २ ॥

एवा पवस्व मदिरो मदायोद्ग्राभस्य नमय-
न्वधस्नुम् । परि वर्णं भरमाणो रुशन्तं गव्यु-
नो अर्ष परि सोम सित्तः ॥ ३ ॥

हे सोम ! (मदिरः) मदकारी तू (वधस्नुम्) वृत्रवधसे टपकते
हुए (उद्ग्राभस्य) जल ग्रहण करनेवाले मेघको (नमयन्) वर्षाके
निमित्त नमातेहुए (मदाय) मदके निमित्त (पवस्व) पात्रमें पहुँचो
और (रुशन्तम्) स्वेत (वर्णम्) वर्णको (परि भरमाणः) सबओर
से धारण करनाहुआ (सित्तः) पवित्रमें सीचाहुआ तू (गव्ययुः)
हमारे निमित्त गौओंकी इच्छा करताहुआ (पर्येषि) प्राप्त हो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः ।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः १

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (कारवः) स्तुति करनेवाले हम (वाजस्य) अन्न
के (सातौ) प्रातिके विषयमें (त्वाम्, इत्, हि) तुम्हें ही (हवामहे)
स्तुतियोंसे बुलाते हैं और हे इन्द्र (सत्पतिम्) श्रेष्ठ पुरुषोंकी रक्षा
करनेवाले तुम्हें (नरः) अन्य मनुष्य भी (वृत्रेषु) शत्रुओंके होनेपर
(हवन्ते) बुलाते हैं (और (अर्वतः) घोड़ेकी (काष्ठासु) दशाओंमें
अर्थात् संग्रामोंमें युद्धके अभिलाषी पुरुष (त्वाम्) तुम्हें पुकारते हैं ॥ १ ॥

स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुयामह स्तवानो
अदिवः । गामश्वच्छं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा
वाजं न जिग्युषे ॥ २ ॥

(चित्र) विचित्र पराक्रमी (वज्रहस्त) हाथमें वज्रधारी (अदि-
वन्) हे इन्द्र (धृष्णुया) शत्रुओंको तर्जना देनेवाला (महः) महान
तू (स्तवानः) हमसे स्तुति कियाजाताहुआ (गाम्) गौएँ (रथ्यम्)
घोड़े (सं किर) सम्यक् प्रकारसे दो (जिग्युषे) विजय पानेवाले
पुरुषको भोगके निमित्त (सत्रा) बहुतसे (वाजं न) अश्वोंकी समान
जैसे कि—शत्रुओंको जीतनेवालेको घोड़े आवि बहुतसे भोगने के
पदार्थ देते हो ॥ २ ॥

अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे ।
यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रेणैव शि-
क्षति ॥ १ ॥

(पुरुवसुः) पशु आदि बहुतसे धनसे युक्त (मघवा) धनी (यः) जो इंद्र (जरितृभ्यः) स्तुति करनेवाले हमें (सहस्रेणैव) पशु आदि सहस्रों संख्याका धन (शिक्षति) देता है वह इंद्र (यथाविदे) जैसे हमसे जानाजाता है तैसे हे ऋत्विजों (वः) तुम (सुराधसम्) सुंदर धन युक्त (इंद्रम्) ऐश्वर्यवान् देवताको (अभि, प्र, अर्च) अभिमुख हो कर अधिकतासे पूजो ॥ १ ॥

शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि
दाशुषे । गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे द-
त्राणि पुरुभोजसः ॥ २ ॥

(धृष्णुया) दवानेवाला पुरुष (शतानीकेव) जैसे सैंकड़ों शत्रुसेनाओं के ऊपर (प्रजिगाति) विजय करनेको चढ़कर जाता है, ऐसेही इंद्र (दाशुषे) यजमान के निमित्त (वृत्राणि) यज्ञविघातक शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करके जाता है और (हन्ति) उनको मारता है तथा (पुरुभोजसः) बहुत धनवाले (अस्य) इस इंद्रके (दत्राणि) देनेके धन (प्रपिन्विरे) यजमानों के निमित्त अधिकता से रहते हैं (गिरेः रसाः, इव) जैसे कि-पहाड़ोंपर जल रहते हैं और वह तहाँ से वह कर मनुष्योंको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन् वज्रिन् भूर्णयः ।
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा
गहि ॥ १ ॥

(वज्रिन्) हे वज्रधारी इंद्र (त्वाम्) तुम्हें (भूर्णयः) हवि अर्पण करनेवाले (नरः) यजमान (इदा) आज (स्वः) पहिले दिन (अपी-प्यन्) सोम पिलाते हुए, हे इंद्र (सः) वह तुम (स्तोत्रवाहसः) मुझसे स्तोत्र धारण करनेवाले के स्तोत्रको (इह) इस यज्ञमें (श्रुधि) सुनो (सस्वरम्) धरको (उपागहि) प्राप्त होओ ॥ १ ॥

मत्स्वा सुशिप्रिन् हरिवस्तमीमहे त्वया भूष-
न्ति वेधसः । तव श्रवांस्स्युपमान्युक्थ्य सु-
तेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ २ ॥

(सुशिप्रिन्) हे सुंदर ठोड़ीवाले (हरिवः) हे हरिनामक घोड़ेवाले
(गिर्वणः) हे वाणियों से प्रार्थना करने योग्य इन्द्र ! (त्वया) तुम्हारे
विषय में (वेधसः) सेवा करनेवाले (आभूषन्ति) प्रकट होते हैं
(मत्स्व) अपनेको सोमसे तृप्त करो (उक्थ्य) हे प्रशंसा करनेयोग्य
(सुतेषु) सोमोंका संस्कार होनेपर (तव) तुम्हारे (उपमानि)
उपमानभूत (श्रवांसि) अन्न प्राप्तहों ॥ २ ॥

इति सामवेदोत्तरार्चिके तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्तः ।

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा ।

देवावीरघशंसहा ॥ १ ॥

हे सोम ! (ते) तुम्हारा (देवावीः) देवताओं की कामना करने
वाला (अघशंसहा) राक्षसोंका नाशक (वरेण्यः) श्रेष्ठ (मदः) मद-
कारी (यः) जो रस है (तेन) उस (अन्धसा) सेवन करने योग्य
रससे (पवस्व) पात्रमें पहुँचो ॥ १ ॥

जघ्निर्वृत्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे ।

गोषातिरश्वसा असि ॥ २ ॥

हे सोम ! तुम (अमित्रियम्) शत्रु (वृत्रम्) वृत्रको (जघ्निः, असि)
मारनेवाले हो और (दिवे दिवे) प्रतिदिन (वाजम्) संग्रामको (सस्निः)
सेवन करते हो (गोषातिः) गौओंका दान करनेवाले हो (अश्वसा)
घोड़ोंका दान करनेवाले हो ॥ २ ॥

सम्मिश्रो अरुषो भुवः सुपस्थाभिर्न धेनुभिः ।

सीदं श्येनो न योनिमा ॥ ३ ॥

हे सोम ! तुम (सोपस्थाभिः) श्रेष्ठ आकृतिवाली (धेनुभिः) गौओं
के दुग्धादिसे (सम्मिश्रः) मिलेहुए (श्येनः, न) जैसे वाज शीघ्रही
आकर अपने स्थान पर बैठजाता है तैसे ही (योनिम्, आसीदन्)

अपनेस्थान पर स्थित होते हुए (न) इस समय (अरुषः भुवः) दीप्यमान हूजिये ॥ ३ ॥

अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति ।

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यस्यदोदसी उभे ॥ १ ॥

(पूषा) सबका पोषक (भगः) आराधना करने योग्य (रयिः) धन का हेतु (अयम्) यह सोम (पुनानः) दशापवित्र में शुद्ध होता हुआ (अर्षति) कलश में प्राप्त होता है तथा (विश्वस्य) सब (भूमनः) प्राणिमात्र का (पतिः) पालन करनेवाला (सोमः) सोम (उभे रोदसी) द्यावा पृथिवी दोनोंको (व्यस्यत्) अपने तेजसे प्रकाशित करता है ॥

समु प्रिया अनूषत गावोमदाय घृष्वयः ।

सोमासः कृष्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ २ ॥

(प्रियाः) परम प्यारी (घृष्वयः) अत्यन्त दीप्त अथवा पहिले मैं स्तुति करूँ, पहिले मैं स्तुति करूँ इसप्रकार स्पर्धा करनेवालीं (गावः) स्तुतिकी वाणियों (मदाय) सोमके मदके निमित्त (समनूषत) स्तुति करती ह (उ) यह बात प्रसिद्ध है (पवमानासः) शुद्ध किये जाते हुए (इन्दवः) दीप्त (सोमासः) सोम (पथः) क्षरण के मार्गों को (कृष्वते) करते हैं ॥ २ ॥

य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम् ।

यः पञ्च चर्षणरिभि रयिं येन वनामहे ॥ ३ ॥

(पवमान) हे सोम (यः) जो तीसरा रस (ओजिष्ठः) शक्तिमान् है (श्रवाय्यम्) उस दुग्धादिसे मिलानेयोग्य रसको (आभर) हमें दो और (यः) जो रस (पञ्च चर्षणीः) चारों वर्ण सहित निपाद वर्ण के मनुष्योंको (अभितिष्ठति) प्राप्त होता है (येन) जिस रससे हम (रयिम्) धनको (वनामहे) याचना करते हैं ॥ ३ ॥

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्र-

तरीतोषसां दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशा*

अचिक्रदादिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभिः ॥ १ ॥

(मतीनां, वृषा) स्तुति करनेवालोंके मनोरथोंको पूरा करनेवाला

(विचक्षणः) विशेष द्रष्टा (अहाम्) दिनोंका (उपसाम) उपःकालों का (दिव) द्युलोकका (प्रतर्गीता) बढ़ानेवाला (सिन्धूनाम्) वहने वाले जलोंका (प्राणा) बढ़ानेवाला वा उनको चेतना देनेवाला (मनीषिभिः) स्तुतियों से प्रशंसा किया हुआ (सोमः)सोम तुम (इन्द्रस्य) इन्द्रके (हार्दि) हृदय में (आविशन्) प्रवेश करना चाहते हुए (कलशान् , अचिक्रदत्) कलशोंकी ओरको शब्द करते हो ॥ १ ॥

मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परि-
कोशाः असिष्यदत् । त्रितस्य नाम जनय-
न्मधु क्षरन्नन्द्रस्य वायुः सख्याय वर्धनम् २

(पूर्व्यः) पुरातन (कविः) भेधारी सोम (पवते) पवित्र किया जाता है और (नृभिः) अध्वर्यु आदिकों से (यतः) नियमित किया हुआ सोम (कोशान्) कलशों में प्राप्त होनेको (पर्यन्निष्यदत्) चारों ओर को बहता है (त्रितस्य) तीनों लोकों में फैले हुए (इन्द्रस्य) इन्द्रके (नाम) जलको (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (मधु) मधुर रसको (इन्द्रस्य) इन्द्रके (सख्याय) मित्रभावके लिये (वायुम्) वायुको (वर्धयन्) बढ़ाता हुआ (क्षरन्) पात्र में टपकाता है ॥ २ ॥

अयं पुनान उपसो अरोचयद्यथं, सिन्धुभ्यो
अभवद्दु लोककृत् । अयं त्रिः सप्त दुदुहान
आशिरथं, सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ३

(लोककृत्) वर्षा करनेवाला वा वीर्य स्थापन करनेवाला होने से लोकोंका कर्ता (अयम्) यह सोम (पुनानः) संस्कार किया जाता हुआ (उपसः) उपाको (अरोचयत्) प्रकाशित करता हुआ (सिन्धुभ्यः) वहनेवाले वसन्तीवरी जलोंसे (अभवत्) समृद्ध होता है (अयम्) यह सोम (हृद्) हृदयमें जाने के लिये (त्रिः सप्त) इक्कीस गाँत्रोंको (दुदुहानः) दुहता हुआ (मत्सरः) मदकारी (चारु) रमणीय (पवते) बहता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके तृतीयोऽध्यायस्य पंचमः खंडः समाप्तः ।

एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत्तस्थिरः । एवा ते
राध्यं मनः ॥ १ ॥

हे इंद्र तू (वीरयुः) युद्धकर्ममें समर्थ शत्रुओंको मारनेकी कामना करताहुआ (एव) ही (असि) है (हि) क्योंकि तू (शूर एव) शर ही है (उत) और (स्थिरः) धैर्यवान् है, इसीकारण (ते) तुम्हारा (मनः) मन (राभ्यम्, एव) स्तुतियोंसे आराधना करने योग्य ही है ॥ १ ॥

एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः ।

अथा चिदिन्द्र नः सचा ॥ २ ॥

(तुवीमघ) हे बहुत धनवाले (इंद्र) इंद्र ! (विश्वेभिः) सकल (धातृभिः) देवताओंको हवि देकर पोषण करनेवाले यजमानो करके (रातिः) तुम्हारा दियाहुआ गौ घोडा आदि धन (धायि चित्) धारण किया ही जाता है (अथ) और हे इंद्र ! ऐसे तुम (नः) हम यजन करनेवालोंके (सचा) धन आदि देकर कर्ममें सहायक हजिये ॥

मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते ।

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥

(वाजानां पते) अश्वोंके वा बलोंके स्वामी हे इंद्र ! (तन्द्रयुः) निष्कारण कर्मानुष्ठान त्यागकर आलस्ययुक्त हुए (ब्रह्मं च) ब्राह्मणकी समान तुम (मा उ षु भुवः) न हजिये अर्थान् सदा हमारे कर्ममें रत रहिये यह प्रार्थना है (सुतस्य) संस्कार कियेहुए (गोमतः) गौदुग्धादिसे मिलेहुए सोमके पात्रसे (मत्स्व) आनन्दित हजिये ॥ ३ ॥

इन्द्रं विश्वा अवीवृधंत्समुद्रव्यचसं गिरः ।

रथीतमथं, रथीनां वाजानाथं, सत्पतिं पतिम् १

(विश्वाः) सकल (गिरः) हमारी स्तुतियोंने (समुद्रव्यचसम्) समुद्रकी समान व्याप्त (रथीनां, रथीतमम्) रथीवाले योधाओंमें श्रेष्ठ रथी (वाजानाम्) अश्वोंके (पतिम्) स्वामी (सत्पतिम्) सन्मार्गमें चलनेवालोंकी रक्षा करनेवाले (इन्द्रम्) इंद्रको (अवीवृधन्) बढ़ाया १

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभिप्रनोनुमो जेतारमपराजितम् ॥ २ ॥

(शवसस्पते) बलके रक्षक (इन्द्र) हे इंद्र (ते) तुम्हारे (सख्ये)

मित्रभावमें वर्त्तमान हम (वाजिनः) अन्नवाले होकर (माभेम) शत्रुओं से न डरें (जेतोरम्) युद्धोंमें विजय पानेवाले (अपराजितम्) कहीं भी पराजय न पाये हुए (त्वाम्) तुम्हें (अभि प्र नोनुमः) अभय पानेके लिये सब प्रकारसे प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः ।

यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो म हते मघम्

(इन्द्रस्य) इन्द्रके (रातयः) धनके दान (पूवाः) अनादिकाल से होने आये हैं अर्थात् यज्ञ करनेवालोंको धन देनेका इन्द्रका स्वभाव ही है, इसकारण इस समयका यजमान भी (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजोंको (गोमतः) गौओं सहित (वाजस्य) अन्नका (मघम्) धन (यदा) जब (मंहते) दक्षिणारूपसे देना है तब (रातयः) बहुतसा धन दे कर इन्द्रकी कीहुई अपनी रक्षाएं (न वि दस्यन्ति) विशेष रूपसे नहीं घटती हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके तृतीयध्यायस्य षष्ठ खण्डः समाप्त-

तृतीयोऽध्यायश्च समाप्त ।

चतुर्थ अध्याय ।

एत असृग्रमिन्द्रवस्तिरः पवित्रमाशवः ।

विश्वान्यभि सौभगा ॥ १ ॥

(तिरः पवित्रम्) तिरछे दशापवित्रके प्रति (आशवः) शीघ्रगामी (एते) यह (इन्द्रवः) सोम (विश्वानि) सकल (सौभगाः) सौभाग्यदायक धनोंको (अभि) लक्ष्य करके (असृग्रम्) ऋत्विजों के द्वारा सुसिद्ध किये जाते हैं ॥ १ ॥

विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः ।

त्मना कृण्वन्तो अर्बतः ॥ २ ॥

(वाजिनः) अन्न वा बल देनेवाले सोम (पुरु) बहुतसे (दुरिता) पापोंको (विघ्नन्तः) विशेष रूपसे नष्ट करते हुए (तोकाय) हमारे पुत्रके लिये (सुगा) अति सुखरूप धनोंको (अर्बतः) घोड़ोंको भी (त्मना) स्वयं ही (कृण्वन्तः) देते हैं ॥ २ ॥

कृष्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्पन्ति सुष्टुतिम् ।

इडामस्मभ्यꣳ संयतम् ॥ ३ ॥

(सोमाः) सोम (गवे) हमारी गौओंके लिये (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (संयतम्) दृढ़ (वरिवः) धनको (इडाम्) अन्नको (कृष्वन्तः) करते हुए (सुष्टुतिम्) हमारी सुंदर स्तुतिको (अभ्यर्पन्ति) अभि-मुख होकर प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि ।

अन्तरिक्षेण यानवे ॥ १ ॥

(मनौ, अधि) मनुष्यके यज्ञ करने पर (पवमानः) पृथमान(राजा) सोम (मेधाभि) स्तुतियों के साथ (अन्तरिक्षेण) आकाश मार्गसे द्रोणकलश में (यानवे) प्राप्त होनेको (ईयते) जाता है ॥ १ ॥

आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर ।

सुष्वाणो देववीतये ॥ २ ॥

(सोम) हे सोम (देववीतये) देवनाओं के पीनेके लिये (सुष्वाणः) संस्कार किया हुआ तू (सहः) शत्रुओंका निरस्कार करने में समर्थ बलको (जुवः) सर्वत्र फैलने वाले बलको (नः) और (वर्चसे) सर्वत्र दीप्तिके लिये रूपको (नः) हमें (आभर) दो ॥ २ ॥

आ न इन्द्रो शान्तिग्विनं गवां पोषꣳस्वश्वयम् ।

वहा भगत्तिमूतये ॥ ३ ॥

(इन्द्रो) हे सोम ! (शान्तिग्विनम्) सैंकड़ों गौओंसे युक्त (गवां पोषम्) गौओंको पुष्टि देनेवाले (स्वश्वयम्) सुंदर घोड़ोंके समूहसे युक्त (भगत्तिम्) पेश्वर्यके दानको (नः) हमारे समीप (आवह) पहुँचाओ ॥ ३ ॥

तं त्वा नृम्णानि विभ्रतꣳ सधस्थेषु महो दिवः ।

चारुꣳ सुकृत्ययेमहे ॥ १ ॥

(महोदिवः) महान् धुलोकके (सधस्थेषु) स्थानोमेंस्थित (नृम्णा-

नि) धनांको (विस्रतम्) हमारे निमित्त धारण करतेहुए (चारु) अ-
नुष्ठानके द्वारा (ईर्षते) मानना करते हैं ॥ १ ॥

संवृक्तधृष्णमुक्थ्यं महामहिषतं मदम् ।
शतं पुरो रुरुक्षामि ॥ २ ॥

(संवृक्तधृष्णम्) नष्ट करने में डर शत्रु जितने ऐसे (उक्थ्यम्)
प्रशंसनीय (महामहिषतम्) अतर्ही मदत्व के कार्य करनेवाले (मदम्)
मदकारी (शतम्) सत्ता (पुरः) समुच्चोक तथांको (रुरुक्षामि)
नष्ट करने वाले तमसे धरती पाचना करते हैं ॥ २ ॥

अतस्त्वा रयिरभ्ययद्वाजानं सुकृतो दिवः ।
सुपर्णो अव्यथी भरन् ॥ ३ ॥

(सुकृतो) दे श्रेष्ठ तमनेवाले सोम ! (रयिः) अग्नि, पायन) धनके
समीप पहुँचानेवाले (वाजानम्) रथपतेषुए (त्वा) तुम्हें (अतःदिवः)
इस दुलोकसे (अव्यथी) व्यथा रहित (सुपर्णः) सुपर्ण (आभरन्)
लाता है ॥ ३ ॥

अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे ।
अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ४ ॥

(अधा) और (विचर्षणिः) कामोंका विशेषरूपसे दृष्टा (अभिष्टि-
कृत्) यजमानोंको इच्छित फल देनेवाला सोम (इन्द्रियम्) अपने फल
को (हिन्वानः) प्रेरणा करताहुआ (ज्यायः) परमश्रेष्ठ (महित्वम्)
महिमाको (आनशे) फैलाना है ॥ ४ ॥

विश्वस्मा इ स्वर्दृशे साधारणं रजस्तुरम् ।
गोपामृतस्य विभरत् ॥ ५ ॥

(रजस्तुरम्) जलके प्रेरक (ऋतस्य) यज्ञके (गोपाम्) रक्तक (वि-
श्वस्मै) सकल (स्वर्दृशे) देवताओंके अर्थ (साधारणम् इत्) समान
भावसे पहुँचनेवाले सोमको (विः) सुपर्ण (भरत्) स्वर्गसे लाताहुआ

इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ।

इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ १ ॥

(इंदो) हे सोम (मनीषिभिः) ऋत्विजोंसे (मृज्यमानः) शुद्ध किया जाता हुआ तू (इषे) हमारे अन्नके लिये (धारया) धारासे (पवस्व) पात्रमें पहुँच (रुचा) दिपते हुए अन्नरूपसे (गाः) पशुओंको (अभीहि) प्राप्त हो ॥ १ ॥

पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जनाय गिर्वणः ।

हरे सृजान आशिरम् ॥ २ ॥

(गिर्वणः) वाणियों से प्रार्थना करने योग्य (हरे) हे हरितवर्ण सोम (आशिरम्) दूधमें को (सृजानः) छोड़ा हुआ (पुनानः) पवित्र किया जाता हुआ तू (जनाय) यजमानको (वरिवः) धन (ऊर्जम्) अन्न (कृधि) दे ॥ २ ॥

पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम् ।

द्युतानो वाजिभिर्हितः ॥ ३ ॥

हे सोम । (वाजिभिः) हवि धारण करनेवाले यजमानो के साथ (द्युतानः) दिपता हुआ (देववीतये) यज्ञके निमित्त (पुनानः) शुद्ध होता हुआ (हितः) हितकारी तू (इन्द्रस्य) इन्द्रके (निष्कृतम्) स्थान को (याहि) जा ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके चतुर्थाध्यायस्य प्रथम खण्डः समाप्तः

अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा ।

हव्यवाड्जुहास्यः ॥ १ ॥

(कविः) मेधावी (गृहपातः) यजमानके घरका रक्षक (युवा) नित्य तरुण (हव्यवाट्) हवि पहुँचानेवाला (जुहास्यः) जुहरूप मुखवाला (अग्निः) आहवनीय अग्नि (अग्निना) मथकर बनाये हुए अग्नि के साथ (समिध्यते) भलेप्रकारसे दीप्त होता है ॥ १ ॥

यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दृतं देव सपर्यति ।

तस्य स्म प्राविता भव ॥ २ ॥

(अग्ने देव) हे अग्निदेव ! (यः) जो (हविष्पतिः) यजमान (दृतम्) देवताओंको हवि पहुँचानेवाले (त्वाम्) तुम्है (सपर्यति) आराधन करता है (तस्य) उसका (प्राविता) पूर्णतया रक्षक (भवस्म) अवश्य हो २

यो अग्निं देववीतये हविष्माः आविवासति ।
तस्मै पावक मृडय ॥ ३ ॥

(पावक) हे अग्ने ! (यः) जो (हविष्मान्) हवियुक्त यजमान (देव-
वीतये) देवताओंके यजनके लिये (अग्निम्, आविवासति) अग्निके
समीप आकर विशेष रूपसे परिचर्या करता है (तस्मै) उस यजमान
के अर्थ (मृडय) सुखदो ॥ ३ ॥

मित्रः हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम् ।
धियं घृताचीः साधन्ता ॥ १ ॥

मैं इस कर्ममें हवि देनेके निमित्त (पूतदक्षम्) पवित्र बलवाले
(मित्रम्) मित्र देवताको (रिशादसम्) हिंसकोंके भक्तक (वरुणं, च)
वरुणको भी (हुवे) पुकारता हूँ, वह मित्र और वरुण देवता (घृता-
चीम्) जिससे कि—भूमि पर जल पहुँचाते हैं ऐसे (धियम्) कर्मको
(साधन्ता) सिद्ध करते हैं ॥ १ ॥

ऋतेन मित्रावरुणावृतावृथावृत्स्पृशा ।
ऋतुं बृहन्तमानशाथे ॥ २ ॥

(मित्रावरुणौ) हे मित्र और वरुण देवता तुम (ऋतावृथौ) सत्य
और यज्ञके बढ़ानेवाले हो (ऋत्स्पृशौ) सत्यका ही स्पर्श करते हो
तुम (बृहन्तम्) अङ्ग उपाङ्गोंसे पूर्ण (ऋतुम्) इस सोमयागको
(ऋतेन) सत्यफलसे (आनशाथे) युक्त करते हो ॥ २ ॥

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया ।
दक्षं दधाते अपसम् ॥ ३ ॥

(कवी) मेधावी (तुविजाता) अनेकोंके उपकारकरूपसे, उत्पन्न
हुए (उरुक्षया) अनेकों यजमानोंके यहाँ निवास करनेवाले (मित्रा-
वरुणा) मित्र और वरुण देवता (नः) हमारे (दक्षम्) बलको (अप-
सम्) कर्मको (दधाते) पुष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रेण सशं हि दक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा
मन्दू समानवर्चसा ॥ १ ॥

(मन्द्र) नित्य प्रसन्न (समानवर्चसा) तुल्य नेजस्वी मरुत्गण
(अविभ्युषा) निर्भय (इंद्रेण) इंद्रके (सं जग्मानः) साथ (संदत्तसे हि)
अवश्य ही भलेप्रकार से दर्शन दो ॥ १ ॥

आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।

दधाना नाम यज्ञियम् ॥ २ ॥

(आत् अह) वर्षा ऋतुके अदन्तर ही (स्वधामनु) आगैको होने
वाले अन्न और जलकी ओरको (यज्ञियं, नाम दधाना) यज्ञके योग्य
नामको धारण करते हुए (मरुतः) मरुत् देवता (पुनः गर्भत्वम्)
मेघोंके भीतर फिर जलको (ईरिरे) प्रेरणा करते हुए ॥ २ ॥

वीडु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वाह्निभिः ।

अविन्द उस्त्रिया अनु ॥ ३ ॥

एक उपाख्यान है, कि-परिषोने देवताओंसे यौओंको हरलिया और
अंधकार में डालदीं, उनको इन्द्रने मरुतों को साथ लाने जाना, उसी
का आभास इस मंत्रमें मिलता है—(इन्द्र) इन्द्र (वाद्युचित) दृढ़
दुर्गस्थानको भी (आरुजत्नुभिः) चागे आगसे पादनेवाले (वाह्निभिः)
अन्यत्र लेजानेको समर्थ (मरुद्भिः) मरुतों सत्त्व तुमने (गुह्यान्तु)
गुहामें स्थापित भी (उस्त्रियाः) यौओंको (अविन्द) अविन्द ॥ ३ ॥

ता हुवे ययोरिदं पौ विश्वं पुरा कृतम् ।

इन्द्राग्नी न मर्द्धतः ॥ १ ॥

(ता) उन (इन्द्राग्नी) इन्द्र अग्नि (हुवे) आत्मान करता हूं (ययोः)
जिन इन्द्र और अग्निका (पुरा) परित्याग ने (पुराम) किया हुआ
(विश्वम्) सब (इदम्) परित्याग आत्माओं वर्णन किया हुआ परा-
क्रम (पणे) ऋषियोंसे स्तुति किया जाता है, यह इन्द्र और अग्नि
स्तोताओंकी (न) नहीं (मर्द्धतः) हिंसा करते हैं, प्रसन्नकरके हमारी
आहुतियोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥

उग्रा विघानिना सृध इन्द्राग्नी हवामहे ।

ता नो मृडात ईदृशे ॥ २ ॥

(उग्रा) परमबली (मृधः, विघ्ननिता) शत्रुओंके नाशक (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि को (हवामहे) आह्वान करते हैं, वह इन्द्र अग्नि (ईदशे) इस संग्राममें (नः) हमें (मृड्यातः) सुख दें ॥ २ ॥

हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती ।
हथो विश्वा अप द्विपः ॥ ३ ॥

हे इन्द्राग्नी ! (आर्या) कर्मानुष्ठान करनेवालोंके कियेहुए (वृत्राणि) उपद्रवोंको (हथः) नष्ट करते हो (सत्पती) सत्पुरुषोंके रक्षक होनेहुए (दासानि) कर्महीन शत्रुओंके कियेहुए उपद्रवोंको नष्ट करते हो और (विश्वाः) सकल (द्विपः) द्वेष करनेवाले शत्रुओंको (अपहथः) विनष्ट करने हो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड समाप्तः ।

अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम् ।
समुद्रस्याधिविष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मद-
च्युतः ॥ १ ॥

(आयवः) गमनशील (मनीषिणः) मनके ईश (मत्सरासः) मदकारी (मदच्युतः) मदस्त्रावी (सोमासः) साम (समुद्रस्य) कलशके (अधिविष्टपे) ऊपर पवित्रस्थानमें (मद्यम्) मदकारी (मदम्) अपने रस को (अभिपवन्ते) सब ओरसे निकालते हैं ॥ १ ॥

तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृ-
हत् । अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्रहि-
न्वान ऋतं बृहत् ॥ २ ॥

(पवमानः) शुद्ध कियाजाता हुआ (देवः) दीप्यमान (बृहत्) अन्यन्त (ऋतम्) सत्यस्वरूप (राजा) सोम (समुद्रम्) कलशको (ऊर्मिणा) धाग करके (तरत्) तैरनाहै (हिन्वानः) प्रेरणा कियाहुआ (ऋतम्बृहत्) अन्यन्त सत्यस्वरूप वह सोम (मित्रस्य वरुणस्य) मित्रावरुणके (धर्मणा) धारणके लिये (प्रअर्षा) प्रकर्ष करके आता है २

नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समु-
द्र्यः ॥ ३ ॥

(ऋषिः) ऋषिजो करके (येमानः) नियमित किया हुआ (हर्यनः) चाहनेयोग्य (विचक्षणः) विशेष द्रष्टा (देवः) दीप्यमान (समुद्रयः) अन्तरिक्षमें उत्पन्न हुआ (राजा) सोम, इन्द्रके निमित्त पवित्र होता है ३
 तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिर्ऋतस्य धीतिं ब्र-
 ह्मणो मनीषाम् । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छ-
 मानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ १ ॥

(वह्निः) यजमान (तिस्रः वाच) ऋक्—यजु—सामरूप तीन वाणियोंको (प्रेरयति) उच्चारण करता है (ऋतस्य) यज्ञकी (धीतिम्) धारण करनेवाली (ब्रह्मणः) सोमकी (मनीषाम्) कल्याणी वाणीको उच्चारण करता है (गावः) गौण (गोपतिम्) जैसे वृषभकी (यन्ति) प्राप्त होती हैं तैसे ही (पृच्छन्त्यः) बूझती हुई अर्थात् रँभाती हुई (सोमम्) सोमको अपने दूधमें मिलानेके निमित्त (यन्ति) प्राप्त होती हैं (वावशानाः) कामना करने हुए (मतयः) स्तोता भी स्तुति करनेको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा म-
 तिभिः पृच्छमानाः । सोमः सुत ऋच्यते पू-
 यमानः सोमे अर्कास्त्रिष्टुभः संनवन्ते ॥ २ ॥

(धेनवः) तृप्त करनेवाली (गावः) गौण (सोमम्) सोमको (वावशानाः) चाहती रहती हैं (विप्राः) स्तुति करनेवाले (सोमम्) सोमको (मतिभिः) स्तुतियोंसे (पृच्छमानाः) बूझनेवाले होते हैं (सुतः) संस्कार किया हुआ (सोमः) सोम (पूयमानः) ऋषिजोसे शोधाजाता हुआ (ऋच्यते) पात्रमें टपकता है (त्रिष्टुभः) त्रिष्टुप्रूप (अर्काः) यह हमारे उच्चारण किये हुए मंत्र (सोमे) सोममें (संनवन्ते) मिलते हैं ॥ २ ॥

एवा नः सोम परिषिच्यमान आपवस्व पूय-
 मानः स्वस्ति । इन्द्रमाविश बृहता मदेन वर्ध-
 या वाचं जनया पुरन्धिम् ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (परिपिच्यमानः) सब ओरसे पात्रोंमें सींचा-
जाता हुआ तू (नः, एष) हमारे ही (स्वस्ति) कल्याणको (पवस्व)
पहुँचा और (बृहता) बहुतसे (मदेन) मदकारी रसरूपसे (इंद्रम्)
इंद्रके आत्मामें (आविश) प्रवेशकर तथा (वाचम्) स्तुतिरूपा वाणी
का (वर्द्धया) प्रसिद्ध कर (पुरन्धिम्) अनेकों प्रकारके कर्मविषयक
ज्ञानको (जनया) हमारे विषे उत्पन्न करो ॥ ३ ॥

इति सामवेदेतराचिके चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः खड समाप्तः

यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमिरुत स्युः । न
त्वा वज्रिन्त्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट
रोदसी ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारी समता करनेको (यन्) जो (द्याव)
ध्रुलोक (शतम्) सौ (स्युः) हों, तो भी बराबर नहीं होसकते (उत)
और (भूमिः) भूमियें (ते) तुम्हारी मूर्तिके प्रतिबिम्बके लिये (शतम्)
सौ हों (न) तो भी बराबर नहीं होसकनीं (वज्रिन्) हे वज्रधारी
(त्वा) तुम्हें (सहस्रम्) सहस्रों (सूर्या) सूर्य (न, अनु) प्रका-
शित नहीं करसकते, अधिक क्या कहें पहिले उत्पन्न हुआ कोई पदार्थ
भी (नाष्ट) तुम्हारी बराबरी नहीं करसकना (रोदसी) द्यावापृथिवी
भी तुम्हें नहीं पहुँचसकते अर्थात् तुम सबसे बड़े हो ॥ १ ॥

आपप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ
शवसा । अस्माँ अव मघवन्गोमति ब्रजे वज्रि-
न्त्रिणाभिरुतिभिः ॥ २ ॥

(वृषन्) हे अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! तुम (वृष्ण्या)
इच्छित फल देनेवाले (महिना) बड़े (शवसा) अपने बल करके
(विश्वा) हमारे सकल बलको (आ पप्राथ) पूर्ण करने हो और
पेसा करके (शविष्ठ) हे महाबली ! (मघवन्) हे धनवन् (वज्रिन्)
हे वज्रधारी इन्द्र (गोमति) अनेकों गौओंसे पूर्ण (ब्रजे) गोठमें
(त्रिणाभिः) नानाप्रकारकी (ऊतिभिः) रक्षाओंसे (नः) हमारी
(अव) पालना करो ॥ २ ॥

वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन् परि स्तोतार
आसते ॥ १ ॥

(वृत्रहन्) हे इन्द्र ! (त्वाम्) तुम्है (वयंघ) हम ही (सुताषन्तः) अभिषव करतेहुए (आप , न) जलोंकी समान नम्र होकर प्राप्त होते हैं (पवित्रस्य) सोमका (प्रस्रवणेषु) क्षरण होनेपर (वृक्तयर्हिपः) कुशास्तरण करनेवाले (स्तोतारः) स्तोता (पर्युपासते) तुम्हारी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।
कदा सुतं तृषाण ओक आगमदिन्द्र स्वव्दीव
वथं सगः ॥ २ ॥

(वसो) हे व्यापक इन्द्र ! (सुते) संस्कार कियेहुए सोमके (निरेके) निकलनेपर (उक्थिनः) स्तुति पढ़नेवाले (नरः) ऋत्विज (त्वा) तुम्हारे निमित्त (स्वरन्ति) ऊँचे स्वरसे मंत्र पढ़ते हैं और इन्द्र (सुतम्) सोमके प्रति (तृषाणः) तृष्णा युक्त होताहुआ (वंसगः) सुंदरगमनवाला (स्वव्दीव) अपना हर्षसूचक शब्द करना हुआ मानो (कदा) कब (ओकः) स्थानको (आगमन्) आवेगा ॥ २ ॥

कण्वेभिर्धृष्णया धृषद्वाजं दर्षि सहस्रिणम् । पि-
शङ्करूपं मघवन्विर्चषणे मक्षू गोमन्तमीमहे ३

(धृष्णो) हे तर्जना देनेवाले इन्द्र ! (कण्वेभिः) प्रवीण स्तोता-ओको (सहस्रिणम्) सहस्रों संख्याका (वाजम्) अन्न बल और धन (आदर्षि) देते हो (मघवन्) धनवान् (विचर्षणे) हे विशेष-द्रष्टा इन्द्र ! (धृषन्) धृष्ट (पिशङ्करूपम्) सुवर्णकी समान दमकतेहुए (गोमन्तम्) गौओं सहित (वाजम्) धनको (मक्षू) शीघ्र (ईमहे) याचना करते हैं ॥ ३ ॥

तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । आ
व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रु-
वम् ॥ १ ॥

(नरगिरित्) युजादि कर्मसे शांघनासे प्रवृत्त हुआ पुरुष (युजा) सहायता देनेवाली (पुरंध्या) बड़ी भारी बुद्धिसे वा सहायता करने वाले अधिक कर्मानुष्ठानसे (वाजम) अन्नको (सिपासति) प्राप्त होता है। हे यजमाना ! (वः) तुम्हारे निमित्त मैं (गिरा) स्तुतिके द्वारा (पुरुह्वतम्) अनेकोंके पुकारेहुए (इन्द्रम्) इन्द्रको (आनुसे) अभिमुख करता हूँ (सुद्वं, नमि, तष्टा, इव) जैसे कि—बढ़ई पहिये की मालाईके श्रेष्ठ काठको नमाकर अपने अनुकूल करलेता है ॥ १ ॥

न दुष्टुतिर्द्रविणोदेषु शस्यते न स्त्रधन्तं रयि-
नशत् । सुशक्तिरिन्मघवन्तुभ्यं मावते देष्णं
यत्पर्ये दिवि ॥ २ ॥

(द्रविणोदेषु) धन देनेवाले पुरुषोंके विषय में (दुष्टुतिः) अनुचित स्तुति (न शस्यते) नहीं उच्चारण की जाती है (स्त्रधन्तम्) धन देने वालेकी स्तुति आदि न करनेवालेको (रयिः) धन (न नशत्) नहीं प्राप्त होता है तथा (मघवन) हे धनवान् इन्द्र ! (पर्ये दिवि) सोम संस्कारके दिन (मावते) मुझसमान स्तोताके अर्थ (देष्णम्) देने-योग्य (यत्) जो धन है (तुभ्यम्) तुमसे (सुशक्तिरित्) सुन्दर स्तुति कर्मचाला ही पाता है ॥ २ ॥

इति सामवेदोत्तराधिकं चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थं खण्डं समाप्तम् ।

तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः ।
हरिरिति कनिक्रदत् ॥ १ ॥

(तिस्त्रोवाचः) ऋक, यजु, साम भेदसे तीन वाणियोंको (उदीरते) ऋत्विज् उच्चारण करतेहैं (धेनवः) दुग्धसे तृप्त करनेवाली (गावः) गौण (मिमन्ति) रँमाती हैं (हरिः) हरे वर्षका सोम (कनिक्रदत्) शब्द करताहुआ (एति) द्रोणकलशको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

अभि ब्रह्मीरनृषत यही ऋतस्य मातरः ।
मर्जयन्तीर्दिवः शिशुम् ॥ २ ॥

(ब्रह्मीः) ब्राह्मणोंकी प्रेरणा करीहुई (यहीः) बड़ी (ऋतस्य) यज्ञकी (मातरः) निर्माण करनेवाली स्तुतियों (दिवः) द्युलोकमें (शिशुम्) शिशु रूप सोमको (मर्जयन्ती) पवित्र करतीहुई (अभ्य-

नूपन) प्रशंसा करती है ॥ २ ॥

रायः समुद्रांश्च, श्रतुरोरमभ्यं, सोम विश्वतः ।

आपवस्व सहस्रिणः ॥ ३ ॥

(रायः) धनवाले (चतुरः समुद्रान्) चार समुद्रोंको (अस्मभ्यम्) हमारे अर्थ (सोम) हे सोम (विश्वतः) सब ओरसे (आपवस्व) दो तथा (सहस्रिणः) सहस्रों कामनाओंको दो ॥ ३ ॥

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः ।

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ १ ॥

(मधुमत्तमाः) अन्यन्त मधुरतायुक्त (मन्दिनः) मदकारी (सुतासः) संस्कार कियेहुए सोम (पवित्रवन्त) दशापवित्रमें पहुँचतेहुए (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (अक्षरन्) पात्रोंमें प्राप्त होतेहैं (सोमाः) हे सोमों (वः) तुम्हारे (मदाः) मदकारी रस (देवान्) इन्द्रादि देवताओंको (गच्छन्तु) प्राप्त हों ॥ १ ॥

इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवामो अब्रुवन् ।

वाचस्पतिर्मखस्यते विष्टस्येशान ओजसः २

(इन्दुः) सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (पवते) कलशमें टपकता है (इति) ऐसा (देवामः) स्तुति करनेवाले (अब्रुवन्) कहते हैं (वाचः) स्तुतिका (पतिः) रक्षक (ओजसः) बलवान् (विश्वस्य) विश्व का (ईशानः) प्रभु सोम (मखस्यते) स्तुतियोंसे पूजाको चाहताहै ॥ २ ॥

सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीह्वयः ।

सोमरूपती रयीणाथं सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ३ ॥

(समुद्रः) रसरूप (वाचमीह्वयः) स्तुतियोंका प्रेरक (रयीणाम्) धनोंका (पतिः) स्वामी (दिवे दिवे) प्रतिदिन (इन्द्रस्य) इन्द्रका (सखा) मित्ररूप (सहस्रधारः) सहस्रों धाराओंवाला (सोमः) सोम (पवते) कलशमें प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्ये-

षि विश्वतः । अतततनूर्न तदामो अश्नुते

शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ १ ॥

(ब्रह्मणस्पते) हे मंत्रोंके स्वामी सोम ! (ते) तेरा (पवित्रम्) शोधन करनेवाला अङ्ग (विततम्) सर्वत्र फैला हुआ है (प्रभुः) समर्थ तू (गात्राणि) पीनेवालेके अङ्गोंको (पर्येपि) प्राप्त होना है (विश्वतः) सब ओर तेरा वह पवित्र (अतप्ततः) पर्याप्त आदि से शरीरमें सन्ताप न पानाहुआ (आमः) परिपाक रहित (न अश्नुते) व्याप्त नहीं होता है (शृतासः, इत्) परिपक्व हुए ही (वहन्तः) यज्ञका निर्वाह करतेहुए (तत्) उस दशार्पवित्रको (समाशत) व्याप्त होने हैं ॥ १ ॥

तपोऽपवित्रं विततं दिवस्पदेऽर्चन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन् । अवन्त्यस्य पवितारमा- शवो दिवःपृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ २ ॥

(तपोः) शत्रुओंके तापक सोमका (पवित्रम्) शोधक अङ्ग (दिवस्पदे) द्युलोकके ऊँचे स्थानमें (विततम्) फैला हुआ है (अस्य) इसकी (तन्तवः) किरणें (अर्चन्तः) दिवर्ताहुई (व्यस्थिरन्) अनेकों प्रकारसे स्थित होती हैं (अस्य) इस सोमके (आशवः) शीघ्रगामी रस (पवितारम्) संस्कार करनेवाले यजमानको (अवन्ति) रक्षा करते हैं (दिवः) द्युलोकके (पृष्ठम्) स्थानको (तेजसा) अपने प्रकाशके साथ (अधिरोहन्ति) चढ़ते हैं ॥ २ ॥

अरुरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षाभिमेति भुव- नेषु वाजयुः । मायाविनो ममिर अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ ३ ॥

(उषसः) उपावाला (पृश्निः) आदित्य (अग्रियः) मुख्यरूपसे (अरुरुचत्) प्रकाश करता है (उक्षा) जलकी वर्षा करनेवाला षट् (भुवनेषु) सकल लोकोंमें (मिमेति) जल डालता है (वाजयुः) सब लोकोंके लिये अन्न चाहता है (मायाविनः) रचनाकी शक्तिवाले देवता (अस्य) इस सोमकी (मायया) शक्तिसे (ममिर) अपने २ व्यापारमें जगत्को रचतेहुए तथा (अस्य) इस सोमकी शक्ति करके (नृचक्षसः) मनुष्योंके द्रष्टा (पितरः) पालन करनेवाले पितृ नामक

देवता ओपधियोमें (गर्भम्) गर्भको (आदधुः) धारण करते हैं ॥३॥

सामवेद-उत्तरार्चिके चतुर्थाध्यायस्य पञ्च खण्डम समाप्तः

प्रमथं हिष्टाय गायत ऋताब्ने बृहते शुक्र-
शोचिषे । उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥

(उपस्तुतासः) उपस्थित होकर स्तुति करनेवाले हे स्तोताओ !
तुम (मंहिष्टाय) परमदाना (ऋताब्ने) यज्ञवाले (बृहते) महान्
(शुक्रशोचिषे) प्रदीप्त तेजवाले (अग्नये) अग्निके अर्थ (प्रगायत)
स्तोत्र पढ़ो ॥ १ ॥

आवथं सते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो द्युमन्या
हूतः । कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छ
वाजेभिरागमत् ॥ २ ॥

(मघवा) धनवान् (द्युमनी) अन्नवान् वा यशस्वी (समिद्धः)
प्रज्वलित हुआ (आहुतः) अभिमुख होकर होसाहुआ अग्नि (वीर-
वत्) पुत्रयुक्त (यशः) यश करनेवाले अन्नको (आवसते) यजमानों
का देता है (अस्य) इस अग्निकी (भवीयसी) हमारे विषय में अत्यन्त
होनेको योग्य (सुमतिः) अनुग्रहकी बुद्धि (नः, अच्छ) हमारे प्रति
(वाजेभिः) अग्नौ सहित (कुवित्) अनेको बार (आगमत्) आवै ॥

तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम् ।

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम् ॥ १ ॥

(अद्रिवः) हे वज्रधारी इन्द्र ! (ते) तुम्हारे (वृषणम्) मनोरथपूरक
(पृक्षु) संग्रामों में (सासहिम्) शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले (लोक-
कृत्नुम्) लोकके कर्ता (उ) और (हरिश्रियम्) हरिनामक अश्वों
करके सेवन करने योग्य (मदम्) सोमपानजनित हर्षकी (गृणी-
मसि) प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ ।

मन्दानो अस्य वहिपो विराजसि ॥२॥

हे इन्द्र ! (येन) जिस अपने मदसे (आयवे) बड़ी आयुवाले (मनवे)

धैर्यस्यत मनुके अर्थ (ज्योतीषि) सूर्यादि ज्योतियों के तत्त्वको (विवे-
दित्य) प्रकाशित करते हुए (मन्दानः) उस मन्दसे प्रसन्न होते हुए
तुम (अस्य बर्हिषः) इस बड़े हुए मन्द करके हर्षको प्राप्त होकर (विरा-
जसि) विशेष शोभा पाते हो ॥ २ ॥

तद्यथा चित्त उक्थिनोऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा ।

वृषपत्नीरपोजया दिवे दिवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे (तत्) उस प्रसिद्ध बल की (अद्याचित्)
अब भी (पूर्वथा) पूर्वकाल की समान (उक्थिनः) मंत्रों के ज्ञाता (अनु-
ष्टुवन्ति) क्रमसे प्रशंसा करते हैं, वह तुम (वृषपत्नीः) मेघ है पति
जिनका ऐसे जलोंको (दिवेदिवे) प्रतिदिन (जय) अपने वशमें करो ॥

श्रुधीहवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति ।

सुवीर्यस्य गोमतोरायस्पृधि महा श्रंसि ॥ १ ॥

(यः) जो (त्वा) तुम्है (सपर्यति) हवि समर्पण करके आराधना
करता है ऐसे (तिरश्च्याः) मुझ तिरश्ची ऋषिके (हवम्) आह्वान
कां (इन्द्र) हे इन्द्र (श्रुधि) सुनो, और सुनकर तुम (सुवीर्यस्य)
श्रेष्ठ पुत्रयुक्त (गोमनः) गौआदि पशुयुक्त (रायः) धनके दानसे हमें
(स्पृधि) पूर्ण करो, क्योंकि—तुम (महान्) सबसे बड़े (असि) हो ॥

यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत् ।

चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्

(इन्द्र) हे इन्द्र (यः) जो यजमान (नवीयसीम्) बारंबार करनेसे
परम नवीन (मन्द्राम्) आनन्ददायक (गिरम्) स्तुतिरूप वाणीको
(ते) तुम्हारे लिये (ते) तुम्हारे अर्थ (अजीजनत्) उत्पन्न करता
हुआ, तिस स्तोताके निमित्त तुम (प्रयत्नाम्) पुरातन (ऋतस्य पिप्यु-
षीम्) सत्यसे बढ़ी हुई (चिकित्विन्मनसम्) अतीन्द्रिय विषयको
दिखानेवाली (धियम्) बुद्धिको करो ॥ २ ॥

तमुष्ट्वाम यं गिर इन्द्रमुक्थयानि वावृधुः ।

पुरुष्यस्य पौंश्र्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३ ॥

हम (तम्) पूर्वोक्त लक्षणोंवाले (उ) ही (इन्द्र स्तवामः) इन्द्र की

स्तुति करते हैं (यम्) जिस इंद्रको (गिरः) हमारी स्तुतियों (उक्थ्यानि) शास्त्र भी (वावृथुः) बढ़ाते हुए, इसकारण हम (अस्य) इस इंद्रके (पुरूणि) बहुतसे (पौस्यानि) पराक्रमोंको (सिपासन्तः) आराधना करनेकी इच्छा करते हुए (वनामहे) प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्त ॥

चतुर्थाध्यायश्च समाप्त

(पञ्चम अध्याय)

प्रतश्चाश्विनीः पवमान धेनवोदिव्या असृ-
ग्रन् पयसा धरीमणि । प्रान्तरिक्षात्स्थाविरी-
स्ते असक्षत ये त्वामृजन्त्यापिषाण वेधसः १

(पवमान) हे सोम ! (ने) तेरी (आश्विनीः) व्याम (धेनवः) तृप्त करनेवाली (दिव्याः) अन्तरिक्षसे पडनेवाली धारायें (पयसा) दधसे युक्त हुई (धरीमणि) द्रोणकलशमें (प्रअसृग्रन्) पहुँचती है (ये) जो (वेधसः) ऋत्विज (ऋपिषाण) ऋपियोंके सेवन करे हुए हे सोम ! (त्वा) तुम्हें (मृजन्ति) शुद्ध करते हैं (ते) वह ऋत्विज (स्थाविरीः) धाराओंको (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्षसे (प्रअसृज्ञान) पात्रमें पहुँचाने है ॥ १ ॥

उभयतः पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः
परियन्ति केतवः । यदी पवित्रे अधिमृज्यते
हरिः सत्तानि योनौ कलशेषु सीदति ॥ २ ॥

(पवमानस्य) संस्कार कियेजानेहुए (ध्रुवस्य) स्वयं अविचल (सतः) विद्यमान सोमकी (केतवः) ज्ञापन करनेवाली किरणें (उभयतः) इधर उधरको (परियन्ति) जाती है (यदि) जब (पवित्रे) दशापवित्रमें (हरिः) हरे वर्णका सोम (अधिमृज्यते) शोधित कियाजाता है तब (सत्ता) स्थित होनेवाला यह सोम (योनौ) पात्ररूप स्थानोंमें (निपीदति) स्थित होता है ॥ २ ॥

विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे
सतः परियन्ति केतवः । व्यानशी पवसे सोम

धर्मणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ३ ॥

(विश्वचक्रः) हे सबके द्रष्टा सोम ! (प्रभोः) शक्तिमान् (सतः) निद्यमान (ते) तेरी (ऋभ्वसः) बड़ी (केतवः) किगणों (विश्वा) सकल (धामानि) तेजस्वी देवशरीरोंको (परियन्ति) सब ओरसे प्रकाशित करती हैं (सोम) हे सोम ! (व्यानशी) व्यापक स्वभाव-वाला तू (धर्मणा) रणके निकलनेसे (पवसे) शुद्ध होता है (विश्वस्य, भुवनस्य) सकल भुवनोंका (पतिः) स्वामी तू (राजसि) विराजमान होता है ॥ ३ ॥

पवमानो अजीजनद्वित्रं न तन्यतुम् ।

ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत् ॥ १ ॥

(पवमानः) पवित्र क्रियाजाताहुआ सोम (बृहत्) बड़े (वैश्वानरम्) वैश्वानर नामक (ज्योतिः) तेजको (द्वित्रः) दुलोकके (चित्रम्) विचित्र (तन्यतुं, न) बज्रकी समान (अजीजनत्) उत्पन्न करनाहुआ ॥ १ ॥

पवमान रसस्तव मदोराजन्तदुच्छ्रुतः ।

वि वारमव्यमर्षति ॥ २ ॥

(राजन्) दीप्तिमान् (पवमान) हे पयमान सोम ! (तव) तेरा (मदः) मदकारी (अदुच्छ्रुतः) राजसोसे वर्जित (रसः) रस (अव्यं वाग्म) ऊनके दशापवित्र स को होकर (विश्रमर्षति) पात्रमें जाता है ॥

पवमानस्य ते रसो दक्षो विराजति युमान् ।

ज्योतिर्विश्वस्य स्वदृशे ॥ ३ ॥

हे सोम ! (पवमानस्य) संस्कार क्रियेजाते हुए (ते) तेरा (दक्षः) बलकारी (युमान्) दीप्तिमान् (रसः) रस (विराजति) प्रकाशित होता है और (विश्वम्) व्याप्त (स्वः) सब (ज्योतिः) तेजको (दृशे) देखने योग्य करता है ॥ ३ ॥

प्र यद् गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः

घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम् ॥ १ ॥

(गावः, न) जलोंकी समान (भूर्ण्यः) शीघ्रगामी (त्वेषाः) द्विपते हुए (अयासः) गमनशील अर्थात् बहनेवाले (कृष्णाम्) कालेवर्णकी (अपत्वचम्) बुरी त्वचाको (अपघ्नन्तः) विनष्ट करते हुए (यत्) जो सोम (प्र अक्रमुः) पात्रमें प्राप्त हुए उनकी हम स्तुति करते हैं ॥

सुवितस्य वनामहेऽतिसेतुं दुराय्यम् ।

साह्याम दस्युमव्रतम् ॥ २ ॥

(सुवितस्य) सुंदरता से प्राप्त हुए सोमके (दुराय्यम्) कठिनता से प्राप्त होने योग्य (अतिसेतुम्) राक्षसों के बधनको (वनामहे) याचना करते हैं और (अव्रतम्) यज्ञादि कर्म रहित (दस्युम्) शत्रुका (साह्याम) तिरस्कार करै ॥ २ ॥

शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः ।

चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ३ ॥

(वृष्टेः) वर्षाके (स्वनः इव) शब्दकी समान (पवमानस्य) संस्कार किये जातेहुए सोमका शब्द अधिक रस निकलने के समय (शृण्वे) सुनाजाता है (शुष्मिणः) तिस बलवान् सोमकी (विद्युतः) दीप्तियें (दिवि) अन्तरिक्ष में (चरन्ति) विचरती है ॥ ३ ॥

आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत् ।

अश्ववत्सोम वीरवत् ॥ ४ ॥

(इन्दो सोम) हे पात्रमें टपकनेवाले सोम ! तुम (महीम्) बहुमसे (इषम्) अन्नको (गोमत्) गौओं सहित (हिरण्यवत्) सुवर्ण सहित (अश्ववत्) घोड़ों सहित (वीरवत्) पुत्र सहित (आपवस्व) दो ॥

पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण ।

उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ५ ॥

(विश्वचर्षणे) हे विश्वके द्रष्टा सोम ! (पवस्व) रसको टपका और उस रससे (मही रोदसी) छात्रा पृथिवीको (आ प्रण) पूर्ण करो (सूर्य , रश्मिभिः, उषाः, न) जैसे कि—सूर्य अपनी किरणोंसे दिनके समयको पूर्ण करता है ॥ ५ ॥

परिनःशर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः ।

सरा रसेव विष्टपम् ॥ ६ ॥

(सोम) हे सोम ! (नः) हमें (शर्मयन्त्या) सुख देनेवाली (धारया) धारासे (विष्टपम्) भूलोकको (रसेव) जल करके जैसे (विश्वतः) सब ओरसे (परिसर) फैलो ॥ ६ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ।

यत्र देवा इति ब्रुवन् ॥ १ ॥

(बृहन्मते) हे महामते सोम ! (प्रियेण) देवताओंके प्यारे (धाम्ना) अपने शरीररूप धारासे (आशु) शीघ्र (पर्यर्ष) आओ (यत्र) जहां (देवाः) इन्द्रादि देवता हैं (इति) ऐसा (ब्रुवन्) कहतेहुए ॥१॥

परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः ।

वृष्टिं दिवः परिस्रव ॥ २ ॥

(अनिष्कृतम्) संस्काररहित यजमान वा स्थानको (परिष्कृण्वन्) संस्कारयुक्त करताहुआ (जनाय) यजमान (इषः) अन्न (यातयन्) पहुँचाताहुआ (दिवः) अन्तरिक्षसे (वृष्टिम्) वर्षाको (परिस्रव) बरसा ॥ २ ॥

अयथं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ ।

सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत् ॥ ३ ॥

(यः) जो (दिवस्परि) धुलोकसे ऊपर (रघुयामा) धीमी गतिवाला होता है, क्यों धुलोकमें देवता मिलजाते हैं (सः) वह (अयम्) यह सोम (पवित्रे) दशापवित्रमें (आ) सींचाजाताहुआ (सिन्धोः) जलके (ऊर्मा) समूहमें (विअक्षरम्) अनेकों धारोंसे टपकता है ॥३॥

सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा ।

विचक्षाणो विरोचयम् ॥ ४ ॥

(सुतः) संस्कार किया हुआ सोम (त्विषिम्) दीप्तिको (दधानः) धारण करताहुआ (विचक्षाणः) सबको देखताहुआ (विरोचयन्)

देवताओंको दीप्त करता हुआ (पवित्रे) दशापवित्रत्रयमें (आश्रोजसा) पूर्ण बलसे (शीघ्रम्) शीघ्र (एति) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः ।
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५ ॥

(सुतः) संस्कार किया हुआ सोम (परावतः) ऊँके (अथो) और (अर्वावतः) समीपके देवताओंको (आविवास्मन्) रसके द्वारा सेवन करता हुआ (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (मधु) मधुकी समान सोम (सिच्यते) रसचाजाता है ॥ ५ ॥

समीचीना अनृपत हरिश्च, हिन्वन्त्यद्रिभिः ।
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६ ॥

(समीचीना) गूढ़र प्रकार गे इकट्टेहुए स्तोता (अनृपत) स्तुति करते हैं (इन्दुम्) सोमको (इन्द्राय, पीतये) इन्द्रके पीनेके निमित्त (हरिश्च) हरयण के सोमको (अद्रिभिः) पापणो से (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं ॥ ६ ॥

हिन्वन्ति सूरमुसूयः स्वसारो जामयस्पतिम् ।
महामिन्दुं महीयुवः ॥ ७ ॥

(उसूयः) जर्मके मिर्मिच स्वर्दत्र जानेवाली (जामयः) परस्पर बंधु भूत (स्वसारः) अंगुलियें (महीयुवः) सोमके संस्कार को चाहती हुई (मूरम्) श्रेष्ठ वीरतावाले (पतिम्) स्थावर जंगम सबके स्वामी (महाम्) पूजनीय (इन्दुम्) पात्रों में टपकते हुए सोमको (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं ॥ ७ ॥

पवमान रुचा रुचा देव देवेभ्यः सुतः ।

विश्वा वसून्याविश ॥ ८ ॥

(रुचारुचा) पूर्ण तेजसे (देव) दीप्यमान (पवमान) हे शुद्ध सोम ! (देवेभ्यः) देवताओंके अर्थ (सुतः) संस्कार किया हुआ तू (विश्वा) बहुत से (वसून्ति) धनोंको (आविश) हमें दो ॥ ८ ॥

आ पवमान सुष्टुतिं दृष्टिं देवेभ्यो दुवः ।

इषे पवस्व संयतम् ॥ ९ ॥

(पवमान) हे सोम ! (सुपुतिम्) सुन्दर स्तुतिवाली (वृष्टिम्) वर्षाकी (देवेभ्यः) देवताओं के अर्थ (दुवः) पश्चिर्घा के निमित्त (आपवस्व) पहुँचाओ (इषे) हमारे अन्नके अर्थ (संयतम्) भले प्रकार हमें प्राप्त होनेवाली वर्षा करो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय खण्डः समाप्तः

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निःसुदक्षः
सुविताय नव्यसे घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृ-
शा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचि ॥ १ ॥

(जनस्य) यजमानका (गोपा) रक्षक (जागृविः) रादा जागता रहने वाला (सुदक्षः) श्रेष्ठ बलवान् (अग्निः) अग्निदेवता (नव्यसे) अत्यन्त नवीन (सुविताय) लोकोंके कल्याण के निमित्त (अजनिष्ट) प्रकट हुआ, तदनन्तर (घृतप्रतीकः) घृतसे प्रत्यनित अर्घ्यदाला (घृतता) बड़े (दिविस्पृशा) द्युलोक में पहुँचनेवाले नजरो युक्त (शुचिः) शुद्ध अग्नि (भरतेभ्यः) ऋत्विजोंके अर्थ (द्यमा) दीप्तिमान् होकर (भाति) प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

त्वामग्ने अग्निरसो गुहाहितमन्वविन्दाम्बिधि-
याणां वने वने । स जायसे मध्यमानः सहो-
महत्त्वामाहुःसहसस्पुत्रमग्निरः ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (अग्निरसः) अग्निसो नामने कृषि (गुहाहितम्) गुहामें स्थित (वनेवने) हरएक वृक्ष में (शिथिजाणम्) आश्रित (त्वाम्) तुम्हें (अन्वविन्दन्) प्राप्त होनेहुए (महत्) बड़े (सहः) बलसे युक्त (सः) वह तू अग्नि (मध्यमानः) मध्यः जाता हुआ (जायसे) प्रकट होता है (अग्निरः) हे अग्निराओं के प्रकृतिरूप ! (त्वाम्) तुम्हें (सहसः) बलका (पुत्रम्) पुत्र (आहुः) कहते हैं ॥ २ ॥

यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे
समिन्धते । इन्द्रेण देवैः सरथच्छं स वर्हिषि
सीदन्नि होता यजथाय सुकतुः ॥ ३ ॥

(नरः) कर्म करनेवाले ऋत्विज् (यज्ञस्य) यज्ञके (केतुम्) क्षापक (पुरोहितम्) यज्ञमानोंकरके आगौ कियेहुए (देवैः, सरथम्) देवताओंकी समान रथवाले (अग्निम्) अग्निको (त्रिपथस्थे) तीन स्थानों में (प्रथमम्) पहिले (समिन्धते) सम्यक् प्रकारसे प्रज्वलित करते हैं तदनंतर (सुक्रतुः) श्रेष्ठ कर्मवाला (होता) देवताओंका आह्वान करने वाला (सः) यह आग्नि (बर्हिषि) कुशाओंवाले स्थानमें (यज्जाय) यज्ञके निमित्त (निषीदन्) प्रतिष्ठा किया गया ॥ ३ ॥

अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा ।

ममेदिह श्रुतं हवम् ॥ १ ॥

(ऋतावृधा) सत्यको बढ़ानेवाले (मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण देवताओं (वाम्) तुम्हारे निमित्त (अयम्) यह (सोमः) सोम (सुतः) शुद्धकियाहै, इसकारण (इह) इस यज्ञमें (ममेन्) मेरे ही (हवम्) आह्वानको (श्रुतम्) सुनो ॥ १ ॥

राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे ।

सहस्रस्थूण आशाते ॥ २ ॥

(राजानौ) ईश्वर (अनभिद्रुहा) द्रोह न करनेवाले मित्रावरुण देवता (ध्रुवे) स्थिर (उत्तमे) श्रेष्ठ (सहस्रस्थूणे) सहस्रों खंभोवाले (सदसि) सभास्थानमें (आशाते) आवै ॥ २ ॥

ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती ॥

सचेते अनवह्वरम् ॥ ३ ॥

(सम्राजा) आज्ञासे ही सचका शासन करनेवाले (घृतासुती) घृत हा है अन्न जिनका ऐसे (आदित्या) अदितिके पुत्र (दानुनस्पती) धनके स्वामी (ता) वह मित्रावरुण (अनवह्वरम्) सरलप्रकृति यज्ञ मानको (सचेते) हवि भक्षण करनेको सेवन करते हैं ॥ ३ ॥

इंद्रो दधीची अस्थभिर्वृत्राप्यप्रतिष्कुतः ।

जघान नवर्तानव ॥ १ ॥

(अप्रतिष्कुतः) प्रतिकूल शब्द रहित (इंद्रः) इंद्र (दधीचः) दधीच ऋषिकी (अस्थभिः) हड्डियोंसे (नवतीः) नवभैं चार

(नव) नौ अर्थात् आठ सौ दश (वृत्राणि) असुरोंके मायावी रूपोंको (जघान) नष्ट करता हुआ ॥ १ ॥

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम् ।
तद्विदच्छर्यणावति ॥ २ ॥

(पर्वतेषु) पर्वतोंमें (अपश्रितम्) लेजाकर धरेहुए (अश्वस्य) अश्वसंबंधी दधीचिका (यत्) जो (शिरः) शिर है उसको (इच्छन्) इंद्र चाहना हुआ (शर्यणावति) सरोवरमें (तत्) उसको (विदत्) जानता हुआ और उसको लाकर असुरोंका संहार करा ॥ २ ॥

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् ।
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥

(अत्राह) इसमें ही (गोः) गमन करनेवाले (चन्द्रमसः) चन्द्रमाके (गृहे) मण्डलमें (त्वष्टुः) आदित्यकी (अपीच्यम्) रात्रिमें अन्तर्हित हुई अपनी जो (नाम) वह आदित्यकी किरणें हैं (इत्था) इसप्रकार (अमन्वत) इंद्र जानता हुआ अर्थात् जलमय स्वच्छ चन्द्रविम्बमें सूर्यकी किरणें प्रतिबिम्बित होकर तैसा ही प्रकाश करती हैं ऐसा तेजस्वी सूर्य चन्द्रमा ही है । वारह आदित्योंमें इंद्रको भी गिना है इसप्रकार दिनरातका प्रकाशक इंद्र ही है, इसकारण यह इंद्रकी ही स्तुति हुई ॥ ३ ॥

इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः ।
अभ्राद्वृष्टिरिवाजनि ॥ १ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इंद्र और अग्नि देवताओं (इयम्) यह (पूर्व्यस्तुतिः) मुख्य स्तुति (अस्य) इस (मन्मनः) स्तोतासे (वाम्) तुम्हारे निर्मित (अभ्रात्) मेघसे (वृष्टिः, इव) वर्षाकी समान (अजनि) उत्पन्न हुई ॥ १ ॥

शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वनतं गिरः ।
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! (जरितुः) स्तोताके (हवम्) आह्वानको (शृणुतम्) सुनो और (गिरः) उसकी स्तुतियोंको (वन-

तम्) सेवन करो (ईशाना) ईश्वररूप तुम (धियः) कर्मोंको (पिप्य तम्) फलोंसे पूर्ण करो ॥ २ ॥

मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये ।
मा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥

(नरा) कर्मके प्रेरक (इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि देवताओं (नः) हमें (पापत्वाय) हीनभावके अर्थ (मा रीरधतम्) वशमें मतकरो (अभिशस्तये) शत्रुकी की हुई हिंसाके लिये (मा) वशमें न करो (नदे) निंदाके लिये (नः) हमें (मा) वशमें न करो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः ।

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे ।
मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥ १ ॥

(हरे) हे पाप दूर करनेवाले सोम ! (दक्षसाधनः) बलका साधन (मदः) मदकारी तू (देवेभ्यः) इन्द्रादि देवताओंके (मरुद्भ्यः) मरुतोंके (वायवे) वायुके (पीतये) पीनेके लिये (पवस्व) पात्रमें टपक १

सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः ।
पवमानो अदाभ्यः ॥ २ ॥

(वृषा) कामवर्षक (कविः) क्रान्तदर्शी (योनौ अधि) अपने स्थानपर स्थित (प्रियः) सबको तृप्त करनेवाला (पवमानः) संस्कार कियाजाताहुआ (अदाभ्यः) किसीसे भी हिंसा न कियाहुआ सोम (देवैः) देवताओंके साथ (संशोभते) श्रेष्ठ शोभा पाताहै ॥ २ ॥

पवमान धिया हितोऽभि योनि कनिक्रदत् ।
धर्मणा वायुमारुहः ॥ ३ ॥

(पवमान) हे सोम ! (धिया) हमारे व्यापार वा अंगुलिसे (हितः) धारण कियाहुआ (कनिक्रदत्) शब्दसहित (योनि, अभि आरुहः) द्रोणकलशमें अभिमुख होकर प्रवेश कर (धर्मणा) कर्मके द्वारा (वायुम्) आरुहः) वायुदेवताके पात्रमें प्रवेश कर ॥ ३ ॥

तवाहृष्टं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे :

पुरुणि बभ्रो निचरन्ति मामव परिधींरति
ताथं इहि ॥ १ ॥

(इन्द्रो) हे टपकतेहुए सोम ! (तव सख्ये) तुम्हारे हिनकारी कर्म
में (अहम्) मैं (दिवे दिवे) प्रतिदिन (रारण) लगा रहता हूँ (बभ्रो)
हे बभ्रुवर्ण सोम ! (पुरुणि) बहुतसे राक्षस (माम्) तुम्हारी मित्र-
तामें स्थित मुझै (नि अब चरन्ति) वाधा देते हैं (तान्) उन (परि-
धीन्) शत्रुओंको (अति इहि) नष्ट करो ॥ १ ॥

तवाहं नक्तमुतसोम ते दिवा दुहानो बभ्रऊ-
धनि । घृणा तपन्तमाति सूर्य परः शकुनाइव
पप्तिम ॥ २ ॥

(बभ्रो) हे बभ्रुवर्ण सोम ' (उत) और (नक्तम्) रातमें
(उत) और (दिवा) दिनमें मित्रभावके लिये (तव) तुम्हारे
(उधनि) समीप (अहम्) मैं लगा रहता हूँ (ते) वह हम (घृणा)
दीप्तसे (तपन्तम्) प्रज्वलित हुए (परः) परस्थानमें स्थित (सूर्यम्)
सूर्यरूप तुझै (शकुना इव) पक्षियोंकी समान (अतिपप्तिम) प्राप्त हों ॥२॥

पुनानो अक्रमीदाभि विश्वामृधो विचर्षणिः ।
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ १ ॥

(पुनानः) संस्कार किया जाताहुआ (विचर्षणिः) विशेष द्रष्टा सोम
(विश्वा) सब (मृधः) हिंसक शत्रुओंको (अक्रमीत्) अतिक्रमण
करताहुआ (विप्रम्) उस मेधावी सोमको (धीतिभिः) स्तुतियोंसे
(शुम्भन्ति) दीप्त करते हैं ॥ १ ॥

आ योनिमरुणो रुहद्रमादिन्द्रो वृषा सुतम् ।
ध्रुवे सदसि सीदतु ॥ २ ॥

(अरुणः) लाल वर्णका सोम (योनिम् आरुहत्) द्रोणकलशमें प्रवेश
करता है, तदनंतर (वृषा) कामोंकी वर्षा करनेवाला (इन्द्रः) इन्द्र
(सुतम्) शुद्ध हुए सोमको (गमत्) प्राप्त होता है और (ध्रुवे,
सदसि) चुलोक नामक अचल स्थानमें (सीदति) निवास करता है

नू नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्यथं सोम विश्वतः।
आपवस्व सहस्रिणम् ॥ ३ ॥

(इन्दो) पात्रमें जानेहुए (सोम) हे सोम तू (नः) हमें (नु) शीघ्र (महाम्) बहुत (सहस्रिणम्) सहस्रों संख्याका (रयिम्) धन (विश्वतः) सब ओरसे (आपवस्व) दो ॥ ३ ॥

इति सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे खण्डे समाप्तः

पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वायं ते सुषाव हर्य-
श्वादिः। सोतुर्बाहुभ्याथं सुयतो नार्वा ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (सोमं, पिब) सोमको पियो, वह सोम (त्वा, मन्दतु) तुम्हें आनन्द देय (हर्यश्व) हे हरि नामक घोड़ोंवाले इन्द्र (ते) तुम्हारे निमित्त (सोतुः) अभिषव करनेवालेकी (बाहुभ्याम्) भुजाओंसे (नार्वा न) लगामोंसे खिचेहुए घोड़ोंकी समान (सुयतः) भलेप्रकार ग्रहण कियाहुआ (अदिः) पापाण (यम्) जिस सोमको (सुषाय) अभिषव करताहुआ वह सोम तुम्हें आनन्द देय ॥ १ ॥

यस्त मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्य-
श्व हंसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्ता ॥ २ ॥

(हर्यश्व, इन्द्र) हे हरिनामक घोड़ोंवाले इन्द्र (ते) तेरा (युज्यः) योग्य (चारु) सुन्दर (मदः) मदकारी (यः) जो सोम (अस्ति) है (येन) जिस सोमको पीनेसे (वृत्राणि) राक्षसादिकोंको (हंसि) नष्ट करते हो (प्रभूवसो !) बहुत धनवाले हे इन्द्र ! (सः) वह सोम (त्वा) तुम्हें (मदतु) आनन्द देय ॥ २ ॥

बोधो सु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वशिष्ठो अ-
र्चति प्रशस्तिम् । इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥

(मघवन्) हे इन्द्र ! (ते) तेरी (प्रशस्तिम्) स्तुतिरूप (याम्) जिस (वाचम्) वाणीको (वशिष्ठः) श्रेष्ठ जितेन्द्रिय (अर्चति) धारण करता है (इमाम्) इस वशिष्ठकी वाणीको (सु आ बोध) भलेप्रकार स्वीकार करो (इमा) इन (ब्रह्म) हविरूप अन्नोंको (स-धमादे) यज्ञशालामें (जुषस्व) सेवन करो ॥ ३ ॥

विश्वाः पृतना अभिभूतरन्नरः सजूस्ततक्षुरि-
न्द्रञ्जजनुश्च राजसे । ऋत्वे वरे स्थेमन्यामुरी-
मुतोग्रमांजिष्ठं तरसं तरस्विनम् ॥ १ ॥

(विश्वाः) सकल (पृतनाः) संग्रामोंको (अभिभूतरन्) तिर-
स्कार करनेवाले (इन्द्रम्) इन्द्रको (नरः) स्तोता (सजूः) एकट्टे हो-
कर (तमज्जुः) स्तुतियोंसे तीक्ष्ण करतेहुए (राजसे) अपना प्रकाश
होनेके निमित्त (जजनुः) सूर्यरूप इन्द्रको अपने स्तोत्रोंसे प्रकट करते
हुए (ऋत्वे) अपने विघ्नकर्त्ताओंका नाश आदि कर्मके लिये (वरे)
श्रेष्ठ (स्थेमनि) स्थानमें स्थित (आमुरिम्) शत्रुओंको मारनेवाले
(उग्रम्) परमबली (ओजस्विनम्) परमतेजस्वी (तरसम्) बड़े
हुए (तरस्विनम्) बलवान् इन्द्रको धनके निमित्त स्तुति करते हैं ।

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे ।
सुदीतयो वो अद्रुहोपि कर्णे तरस्विनः समृ-
क्वभिः ॥ २ ॥

(विप्राः) ऋत्विज (अभिस्वरे) ऊँचे स्वरसे इन्द्रका स्तोत्र पढ़ने
को (मेषम्) मेषरूप (नेमिम्) सर्वव्यापक इन्द्रको (नमन्ति) नम-
स्कार करते हैं । यजमान कहता है, कि—हे स्तोताओं ! (सुदीतयः)
सुन्दर कान्तिवाले (अद्रुहः) किसीसे भी द्रोह न करनेवाले (वः)
तुम (अपि) भी (तरस्विनः) कर्म करने और स्तुति पढ़नेमें न्वरा
युक्त होतेहुए (कर्णे) इन्द्रके कानके समीप (ऋक्भिः) पूजनकेमंत्रों
से (समृ) भले प्रकार स्तुति करो ॥ २ ॥

समु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं, सोमस्य पीतये ।
स्वः पतिर्यदीवृधेधृतव्रतोह्योजसा समातिभिः ३

(रेभासः) शब्द करनेवाले स्तोता (सोमस्य, पीतये) सोमको
पीनेके लिये (इन्द्रम्, उ) इन्द्रकी ही (समस्वरन्) भलेप्रकार स्तुति
करतेहुए (यद्) जब (स्वःपतिः) स्वर्गका पालक इन्द्र (वृधे) यज-
मान आदिकी वृद्धि करनेवाला होता है तब (धृतव्रतः) कर्मको धा-
रण करनेवाला इन्द्र (ओजसा) बल करके (ऊतिभिः) रत्नाओं करके
(समृ) युक्त होता है ॥ ३ ॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः । वि-
श्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे १

(यः) जो (इंद्र (चर्षणीनाम्) मनुष्योंका (राजा) स्वामी है
(रथेभिः) रथोंके द्वारा (याता) आगमन करनेवाला है (अधिगुः)
जिसकी गतिको कोई नहीं रोकसकता (विश्वासां, पृतनानाम्) सकल
सेनाओंका (तरुता) तारक है (यः) जो (वृत्रहा) वृत्रासुरका नाशक
है (ज्येष्ठम्) उस बड़े इंद्रको (गृणे) स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

इन्द्रं तथं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता
विधर्त्तरि । हस्तेन वज्रः प्रतिधायिदर्शतो म-
हान्देवो न सूर्यः ॥ २ ॥

(पुरुहन्मन्) हे अनेकों शत्रुओंका नाश करनेवाले इन्द्रके उपासक
यजमान ! (अथसे) गन्ताके निमित्त (तं इन्द्रम्) उस इन्द्रको (शुम्भ)
हवि आवि देकर सुशोभित कर (यस्य) जिस तेरे (विधर्त्तरि) विशेष
रक्षक इंद्रमें (द्विता) तेरे शत्रुओंके ऊपर उप्रता और तेरे ऊपर अनु-
ग्रह यह दो भाव हैं (दर्शतः) दर्शनीय (महान्) बड़ा (वज्रः) वज्र
(देवः सूर्यः न) धोतमान सूर्यकी समान (हस्तेन) हाथ करके (प्रति
धायि) धारण किया है ॥ २ ॥

इति सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य पञ्चम खण्डः समाप्तः-

परि प्रिया दिवः कविर्वयाथंसि नप्त्योर्हितः।
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ १ ॥

(कविः) मेधावी (कविक्रतुः) कर्मसाधक बुद्धियुक्त (नप्त्योः)
अधिषष्णके फलकों पर (हितः) स्थापनकिया हुआ सोम (दिवः)
घुलोकके (परि प्रिया) अतिप्यारे (वयांसि) पाषाणोंसे सिद्ध हुआ
(स्वानैः) अश्वर्युओंके द्वारा (परियाति) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् ।
महान्मही ऋत्वावृधा ॥ २ ॥

(जातः) प्रकट हुआ (शुचिः) विशुद्ध (महान्) सब हवियों
में श्रेष्ठ (स) वह सोम नामक (सूनुः) पुत्र (मही) महान्

(ऋतावृधः) यज्ञके बढ़ानेवाले (जाते) विश्वके उत्पादक (मातरा)
अपने मातापिता चावा पृथिवीको (अरोचयत्) प्रकाशित करताहै २

प्र प्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः ।
वीत्यर्ष पनिष्टये ॥ ३ ॥

हे सोम ! (प्र प्र क्षयाय) तेरे अत्यन्त निवासभूत (अद्रुहः) द्रोह
न करमेवाले (पन्यसे) स्तोता (जनाय) मनुष्यके अर्थ (वीति)
भक्षण करनेको (जुष्टः) पर्याप्त तू (पनिष्टये) स्तुतिके लिये (अर्ष)
प्राप्त हो ॥ ३ ॥

त्वं ह्याङ्गदैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः ।
अमृतत्वाय घोषयन् ॥ १ ॥

(दैव्य) देवसम्बन्धी (पवमान) हे सोम ! (द्युमत्तमः) अत्यन्त
दीप्तिमान् (त्वं हि) तू ही (अङ्ग) शीघ्र (घोषयन्) शब्द करताहुआ
(जनिमानि) देवसम्बन्धी जन्मोंकी ओरको ध्यान रखकर (अमृत-
त्वाय) अमरपनेको प्राप्त हो ॥ १ ॥

येना नवग्वा दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास
आपिरे । देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो
येन श्रवांस्याशत ॥ २ ॥

(नवग्वा) श्रेष्ठ वर्त्ताववाला (दध्यङ्ङ्) दध्यङ्ङ ऋषि (येन) जिस
सोमके द्वारा (द्वारम्) यज्ञद्वारको (अपोर्णुते) खोलता है (विप्रासः)
उसको आदि लेकर अन्य ऋत्विज (येन) जिस सोमके द्वारा (आ-
पिरे) पणियोंकी हरीहुई गौओंको प्राप्तहुए (देवानाम्) इन्द्रादि देव-
ताओंको (सुम्ने) यज्ञके द्वारा सुख प्राप्त होनेपर (चारुणः) श्रेष्ठ
(अमृतस्य) जलके (श्रवांसि) अर्णोंको (येन) जिस सोमके द्वारा
यजमान (आशत) प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं विधावति ।

अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत् ॥ १ ॥

(पुनानः) सिद्ध कियाजाताहुआ (सोमः) सोम (ऊर्मिणा)

अपनी धारसे (अव्यं बालम्) ऊनके पवित्रमेंको (विधावति) अनेकों मार्गसे जाता है (पवमानः) पवित्र हुआ (वाचः) स्तोत्रके (अग्रो) आगै (कनिष्कदत्) धार २ शब्द करताहुआ जाता है ॥ १ ॥

धीभिर्मृजन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम् ।

अभि त्रिष्टुभं मतयः समस्वरन् ॥ २ ॥

(वाजिनम्) बलवान् (वने) वसतीवरी नामक जलमें (क्रीडन्तम्) क्रीड़ा करतेहुए (अत्यविम्) दशापवित्रमेंको निकलेहुए सोम को (धीभिः) स्तुतियोंसे वा उंगलियोंसे (मृजन्ति) श्रुतिवज शुद्ध करते हैं (त्रिष्टुभम्) द्रोणकलश आधवनीय औरपूतभृत् नामक तीन पात्रोंको स्पर्श करनेवाले सोमको (मतयः) स्तुतियें (अभि समस्वरन्) चारों ओरसे प्रशंसा करती हैं ॥ २ ॥

असर्जि कलशां अभि मीढ्वान्त्सप्तिर्न वाजयुः ।

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत् ॥ ३ ॥

(वाजयुः) यजमानोंके अन्नको चाहनेवाला (मीढ्वान्) सींचने वाला वह सोम (कलशां, अभि) कलशोंमें (असर्जि) छोड़ागया (सप्तिः, न) जैसे कि—चलनेवाला घोड़ा संग्राममें छोड़ाजाता है, तदनंतर (पुनानः) सोम (वाचम्) शब्दको (जनयन्) उत्पन्न करताहुआ (असिष्यदत्) पात्रोंमें पहुँचता है ॥ ३ ॥

सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो

जनिता पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य

जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ १ ॥

(मतीनाम्) बुद्धियोंका (जनिता) उत्पन्न करनेवाला (दिवः) घुल्लोकका (जनिता) प्रकट करनेवाला (पृथिव्याः) पृथिवीका (जनिता) बढ़ानेवाला (अग्नेः) अग्निका (जनिता) प्रकाशक (सूर्यस्य) सूर्यका (जनिता) प्रकाशक (इन्द्रस्य) इन्द्रका (उत) और (विष्णोः) विष्णुका (जनिता) प्रकटकर्त्ता (सोमः) सोम (पवते) पात्रोंमें पहुँचता है ॥ १ ॥

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महि-

षो मृगाणाम् । श्येनोगृध्राणां स्वधितिर्वनानां
सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ २ ॥

(देवानाम्) स्तुति करनेवाले ऋत्विजोंमें (ब्रह्मा) ब्रह्मा नामक ऋत्विजरूप (कधीनाम्) परमबुद्धिमानोंमें (पद्मीः) सुन्दर प्रकार से पदोंकी योजना करनेवाला (विप्राणाम्) विप्रोंमें (ऋषिः) परोक्षविषयको देखनेवाला (मृगाणाम्) पशुओंमें (महिषः) महिष नामक बलवान् राजा (गृध्राणाम्) पक्षियोंमें (श्येनः) प्रशंसायोग्य श्येन पक्षिराजा (वनानाम्) हिंसकोंमें (स्वधितिः) स्वधिति नामक (सोमः) सोम (रेभन्) शब्द करता हुआ (पवित्रं अत्येति) वशापवित्रोंमेंको निकलता है ॥ २ ॥

प्राचीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिरस्तोमान्प-
वमानो मनीषाः । अन्तः पश्यन्वृजनेमावरा-
प्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन् ॥ ३ ॥

(सिन्धुः, वाचः, ऊर्मिम्, न) जैसे बहती हुई नदी शब्दके समूह को प्रेरणा करती है तैसे ही (पवमानः) सोम (मनीषाः) मनको प्रिय लगनेवाले (गिरस्तोमान्) शब्दसमूहोंको (प्राचीविपत्) अधिक तासे प्रेरणा करता है (वृषभ) मनोरथपूरक सोम (अन्तः) भीतर के बलोंको (पश्यन्) देखता हुआ (गोषु जानन्) गौओंकी विजयका ज्ञान रखता हुआ (अवरापि) बुबलोंसे निवारण न होनेवाले (इमा-
वृजना) इन बलोंको (अतिष्ठति) प्राप्त होता है ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चमाध्यायस्य षष्ठे खण्डे समाप्तः

अग्निं वोवृधन्तमध्वराणां पुरुतमम् ।
अच्छानपत्रे सहस्वते ॥ १ ॥

हे ऋत्विजों ! (वः) तुम (अध्वराणाम्) बलवानोंके (नपत्रे) बानधव (सहस्वते) बलवान् (वृधन्तम्) ज्वालाओंसे बढ़ते हुए (पुरुतमम्) अत्यन्त अधिक (अग्निम्) अग्निके प्रति (अच्छ) प्राप्त होओ ॥ १ ॥

अयं यथा न आभुवत्वष्टा रूपेव तक्ष्या ।
अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ २ ॥

(अयम्) यह अग्नि (नः) हमें, (त्वष्टा) बर्द्ध (तक्ष्या, रूपा इव) ठीक करनेयोग्यका काष्ठोंको जैसे (आभुवत्) प्राप्त होता है तैसे, प्राप्त हो तथा हम (अस्य) इस अग्निके (कृत्वा) ज्ञानसे युक्त होकर (यश-स्वतः) कीर्त्तिमान् हों ॥ २ ॥

अयं विश्वा अभि श्रियोग्निर्देवेषु पत्यते ।

आवाजैरूप नो गमत् ॥ ३ ॥

(देवेषु) सब देवताओंमें (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि, मनुष्यों की (विश्वाः) सब (श्रियः) सम्पदाओंको (अभिपत्यते) प्राप्त होता है, वह अग्नि (नः) हमें (वाजैः) अन्नोंके साथ (उपागमत्) प्राप्त हो ॥ ३ ॥

इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममर्त्यं मदम् । शु-
क्रस्य त्वाऽभ्यक्षरन् धारा ऋतस्य सादने १

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ज्येष्ठम्) अन्यन्त प्रशंसनीय (मदम्) हर्ष दायक (मर्त्यम्) अन्य मादक पदार्थोंकी समान रेड्ड न करनेवाले (सुतम्) संस्कार क्रियेहुए (इमम्) इस सोमको (पिव) पियो (ऋतस्य) यज्ञकी (सादने) शालामें वर्त्तमान (शुक्रस्य) दीप्तिमान् सोमकी (धाराः) धारायें (त्वाम्) तुम्हें (अब्ररन्) प्राप्त होनेको अभिमुख जाती हैं ॥ १ ॥

नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे ।

नकिष्ट्वानु मज्मना नकिः स्वश्व आनशे ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यम्) जिसकारण तुम (हरी) अपने हरि नामक घोड़ोंको (यच्छसे) रथमें युक्त करते हो, इसकारण (त्वत्) तुमसे अन्य (रथीतरः) श्रेष्ठ रथी (नकिः) नहीं है (त्वा, अनु) तुम्हारी समान कोई (मज्मना) बल करके भी (नकिः) नहीं है (स्वश्वः) श्रेष्ठ अश्ववाला भी (नकिः, आनशे) तुम्हारी समता को नहीं पाता है ॥ २ ॥

इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । सुता

अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥ ३ ॥

हे ऋत्विजों ! (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (नूनम्) शीघ्र (अर्चत) पूजन करो (उक्थानि) श्रेष्ठ मन्त्रसाध्य स्तोत्रोंको (ब्रवीन्त) उच्चारण करो (सुताः) संस्कार कियेहुए (इन्द्रवः) सोम (अमत्सु) आये हुए इन्द्रको आनन्ददायक हों, तदनंतर (ज्येष्ठम्) अत्यन्त प्रशंसनीय (सहः) बलवान् इन्द्रको (नमस्यत) नमस्कार करो ॥३॥

इन्द्र जुषस्व प्रवहायाहि शूर हरिह । पिवा सु-
तस्य मतिर्न मधोश्चकानश्चारुर्मदाय ॥ १ ॥

(हरिह) हरे वर्णके अश्वोंवाले (शूर) वीर्यवान् (इन्द्र) हे इन्द्र ! (आयाहि) आओ (प्रवह) मेरे दियेहुए हवियोंको स्वीकार करो (चारुः) सुन्दर तुम (मदाय) आनन्द प्राप्तिके लिये (न) इस समय (चकान.) चाहना करतेहुए (सुतस्य) संस्कार कियेहुए सोमके (मतिः) चेतनता देनेवाले (मधोः) मधुरसको (पिवा) पियो ॥१॥

इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोर्दिवो न ।

अस्य सुतस्य स्वाऽऽर्त्तोप त्वा मदाः सुवाचो
अस्थुः ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (सुतस्य) संस्कार कियेहुए (अस्य) इस (मधोः) मधुर सामके (दिवः, न) द्युलोकके से (सुवाचः) सुन्दर स्तुतियों से युक्त (मदाः) हर्ष (त्वा, उपास्थुः) तुम्हारे समीप प्राप्त हुए हैं (स्वर्न) स्वर्गके समान (जठरम्) अग्ने उदरको (नव्यं न) अपूर्वसा (पृणस्व) पूर्ण करो ॥ २ ॥

इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिर्न ।

विभेद वलं भृगुर्न ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य ३

(तुराषाद्) युद्धमें धैर्यधारी (इन्द्रः) इन्द्र (मित्रो न) मित्र देवता की समान (वृत्रम्) शत्रुको (जघान) मारताहुआ (यतिर्न, बलम्) बलदानवको (विभेद) छिन्न भिन्न करता हुआ (सोमस्य) सोमका (मदे) मद् होनेपर (भृगुर्न, शत्रून्) शत्रुओंको (ससाहे) सहता हुआ ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्धिके पञ्चमाध्यायस्य समाप्तः खण्ड समाप्तः

पञ्चमाध्यायश्च समाप्तः

(षष्ठ अध्याय ।)

गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भु-
वनेष्वर्पितः । त्वं सुवीरो असि सोम विश्व-
वित्तं त्वानर उपगिरेम आसते ॥ १ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (गोवित्) गौणं प्राप्त करानेवाला (वसुवित्)
धन प्राप्त करानेवाला (हिरण्यवित्) सुवर्ण प्राप्त करानेवाला (रेतोधाः)
उत्पादक शक्तिको धारण करानेवाला (भुवनेषु) जलोंमें (अर्पितः)
अनेकों बीजरूपसे स्थित तू (पवस्व) पात्रमें पहुँच (सोम) हे सोम
तू (सुवीरः) श्रेष्ठ वीर (विश्ववित्) विश्वको जाननेवाला (असि)
है (तम्) तिस (त्वा) तुझ (इमे) यह ऋत्विज (गिरा) स्तुति
से (उपासते) उपासना करते हैं ॥ १ ॥

त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृ-
षभ ता विधावसि । स नः पवस्व वसुमद्विरण्य-
वद्वयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ २ ॥

(पवमान) संस्कार कियेजातेहुए (वृषभ) कामनापूरक (सोम)
हे सोम ! (विश्वतः) सब भुवनोंमें (नृचक्षाः, असि) मनुष्योंका
साक्षी है (ताः) उनमें (वि धावसि) अनेकों रूपोंसे पहुँचना है (सः) वह
तू (नः) हमारे लिये (पवस्व) क्षरित हो और हम (वसुमत्) गौ
आदि धनयुक्त (हिरण्यवत्) बहुतसे सुवर्ण धनसे युक्त (भुवनेषु)
लोंकोंमें (जीवसे) जीवित रहनेको (स्याम) समर्थ हों ॥ २ ॥

ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरि-
तः सुपर्ण्यः । तास्ते क्षरन्तु मधुमद्घृतं पय-
स्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ ३ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (ईशानः) सबका स्वामी तू (हरितः) हरे
वर्णके (सुपर्ण्यः) सुंदर चलनेवाले इन्द्रके घोड़ोंको (युजानः) रथ
में युक्त करताहुआ (इमाः) इन (भुवनानि) सकल लोंकोंको (ईयसे)
प्राप्त होताहै (ताः) वह (ते) तेरे (मधुमत्) मधुरतायुक्त (घृतम्)

दीप्यमान (पयः) जलको (क्षरन्तु) वर्षावै (सोम) हे सोम ! (कृष्टयः) मनुष्य (ते) तेरे (वते) कर्ममें (तिष्ठन्तु) स्थित हों ॥ ३ ॥

पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा असृक्षत ।

सूर्यस्येव न रश्मयः ॥ १ ॥

(विश्ववित्) हे विश्वके द्रष्टा सोम ! (पवमानस्य) संस्कार किये जातेहुए (ते) तेरी (सर्गाः) धारें (सूर्यस्य, रश्मयः, इव) सूर्यकी किरणोंकी समान (न) इस समय (प्रासृक्षत) प्रकाशमान होती हैं ॥ १ ॥

केतुं कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाऽभ्यर्षसि ।

समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २ ॥

(सोम) हे सोम ! (समुद्रः) रसोंको बहानेवाला तू (केतुम्) चेतनताको (कृण्वन्) करताहुआ (विश्वा, रूपा) हमारे सकल रूपोंको (दिवः परि) अन्तरिक्षसे (अभ्यर्षसि) पवित्र करता है (पिन्वसे) हमें नानाप्रकारके धन देता है ॥ २ ॥

जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि ।

क्रन्दन्देवो न सूर्यः ॥ ३ ॥

(पवमान) हे सोम ! (देवः, सूर्यः, न) दीप्तिमान् सूर्यकी समान (जज्ञानः) प्रकट हुआ तू (विधर्मणि) दशापवित्रमें (क्रन्दन्) ध्वनि करताहुआ (वाचम्) शब्दको (इष्यसि) प्रेरणा करता है ॥ ३ ॥

प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्द्रवः ।

श्रीणाना अप्सु ब्रञ्जते ॥ १ ॥

(पवमानसः) पूयमान (इन्द्रवः) दीप्तियुक्त (सोमासः) सोम (प्राधन्विषुः) प्राप्त होते हैं (श्रीणानाः) गोदुग्धादिसे मिलतेहुए (अप्सु) वसतीवरी जलोंमें (ब्रञ्जते) पहुँचते हैं ॥ १ ॥

अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः ।

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २ ॥

(गावः) गमन करनेवाले (इन्द्रवः) सोम (प्रवता) नीचे स्थानमेंको (यतीः) जातेहुए (आपः, न) जलोंकी समान (अभि, अध-

न्विषुः) दशापवित्रमें पहुँचते हैं, फिर (पुनामाः) संस्कारयुक्त हुए (इन्द्रम्) तृप्त करनेके अर्थ इन्द्रको (आसत) प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः ।
नृभिर्यतो विनीयसे ॥ ३ ॥

(पवमान, सोम) हे संस्कार कियेजातेहुए सोम ! (इन्द्राय, मादनः) इन्द्रको हर्षदायक तू (धन्वसि) दशापवित्रमें पहुँचता है (नृभिः, यतः) ऋत्विजोंके द्वारा ग्रहण करके (विनीयसे) हविर्धानसे ले जाया जाना है ॥ ३ ॥

इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे ।
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥

(इन्दो) हे सोम ! तू (यद्) जब (अद्रिभिः) पापानोंसे (सुतः) अभिपव कियेहुआ (पवित्रम्) दशापवित्रको (परिदीयसे) प्राप्त होना है तब (इन्द्रस्य) इन्द्रके (धाम्ने) उदरस्थानके लिये (अरम्) पर्याप्त होता है ॥ ४ ॥

त्वञ्च, सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः ।
सस्त्रिन्यो अनुमाद्यः ॥ ५ ॥

(सोम) हे सोम ! (नृमादनः) मनुष्योंको आनन्द देनेवाला (चर्षणीधृतिः) ऋत्विजोंसे वा प्रजाओंसे धारण कियाहुआ (त्वम्) तू (पवस्व) सुसिद्ध हो (यः) जो तू (सस्त्रिनः) शुद्ध (अनुमाद्यः) स्तुतिके योग्य है ॥ ५ ॥

पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः ।
शुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६ ॥

हे सोम ! (उक्थेभिः) वैदिक मंत्रोंसे (अनुमाद्यः) स्तुतिकरने योग्य (शुचिः) शुद्ध (पावकः) औरोंको पवित्र करनेवाला (अद्भुतः) महान् (वृत्रहन्तमः) शत्रुओंका नाशक तू (पवस्व) सुसिद्ध हो ॥ ६ ॥

शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्
देवावीरघशञ्च, सहा ॥ ७ ॥

(सुतः) संस्कार किया हुआ (मधुमन्) मधुरतायुक्त (सः) वह सोम (शुचिः) स्वयं पवित्र (पावकः) दूसरोंको शुद्ध करनेवाला (देवावीः) देवताओंको तृप्त करनेवाला (अघशंसहा) पापको अच्छा माननेवाले असुरोंका नाशक (उच्यते) कहाजाताहै ॥ ७ ॥

सामवेदोत्तराचिके षष्ठाध्यायस्य प्रथम खण्ड समाप्तः

प्र कविर्देववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत ।

साह्वान्विश्वा अभिस्पृधः ॥ १ ॥

(कविः) सोम (देववीतये) देवताओंके पीनेके लिये (अव्या, वारेभिः) उनके दशापवित्रके द्वारा (अव्यत) पाया जाताहै (साह्वान्) शत्रुओंको सहनेवाला सोम (विश्वाः स्पृधः) सकल संग्रामोंका वहिसर्कोंका निरस्कार करताहै ॥ १ ॥

स हिष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति

पवमानः सहस्रिणम् ॥ २ ॥

(पवमानः) सुसिद्ध किया जाता हुआ (स हि स्म) वह सोम ही निश्चय (जरितृभ्यः) स्तुति करनेवालोंको (गोमन्तम्) बहुतसी गोंओंसे युक्त (सहस्रिणम्) बहुतसे (वाजम्) अन्नको (आइन्वति) अभिमुख होकर देता है ॥ २ ॥

परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती ।

स नः सोम श्रवो विदः ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! तू (मती) हमारी स्तुतिसे (मृज्यसे) दशा पवित्रके द्वारा शोधाजाता है (सः) वह तू (नः) हमें (चेतसा) चित्तसे (विश्वानि) सकल धन (श्रवः) अन्न (विदः) दे ॥ ३ ॥

अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्भ्यो ध्रुवश्च रयिम् ।

इषश्च स्तोतृभ्य आभर ॥ ४ ॥

हे सोम (मघवद्भ्यः) हवि अर्पण करनेवाले (स्तोतृभ्यः) हम स्तोताओंको (बृहत्) बड़ा (यशः) यश (ध्रुवम्) उहरनेवाला (रयिम्) धन (अभ्यर्ष) दो (इषम्) अन्न (आभर) दो ॥ ४ ॥

त्व *राजेव सुवतो गिरः सोमाविवेशिथ ।

पुनानो वहे अद्भुत ॥ ५ ॥

(वहे) यज्ञादिका निर्वाह करनेवाले (अद्भुत) महान् (सोम) हे सोम । (सुवतः) सुंदर कर्मवाला (पुनानः) संस्कार कियाजाता हुआ तू (राजा इव) राजाकी समान (गिरः) हमारी स्तुतियोंको (आविवेशिथ) स्वीकार करता है ॥ ५ ॥

स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ।

सोमश्चमूषु सीदति ॥ ६ ॥

(वह्निः) यज्ञका निर्वाह करनेवाला (सः) वह (सोमः) सोम (अप्सु) वसतीवरी जलोंमें (दुष्टरः) दुस्तर (गभस्त्योः) हाथोंमें (मृज्यमानः) संस्कार कियाजाता हुआ (चमूषु) पात्रोंमें (सीदति) स्थित होता है ॥ ६ ॥

क्रीडुर्मखो न मथंहयुः पवित्रः सोम गच्छसि ।

दधत्स्तांत्रे सुवीर्यम् ॥ ७ ॥

(सोम) हे सोम (क्रीडु) क्रीडा करनेवाला (मखो न) यज्ञकी तुल्य (मंहयुः) वामकी इच्छावाला तू (स्तोत्रे) स्तुति करनेवालेको (सुवीर्यम्) सुन्दर धीरता (दधत्) देता हुआ (पवित्रम्) दशाप-वित्र पर (गच्छसि) जाता है ॥ ७ ॥

यवं यवं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परिस्रव ।

विश्वा च सोम सौभगा ॥ ९ ॥

(सोम) हे सोम (नः) हमें (पुष्टं पुष्टम्) बहुत अधिक (यवं यवम्) धार २ युक्त हुए रसको (अन्धसा) धारासे (परिस्रवः) वहा (च) और (विश्वा) सकल (सौभगा) सौभाग्योंको हमें दे ॥ ९ ॥

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः ।

निवर्हिषि प्रिये सदः ॥ २ ॥

(इन्दो) हे सोम (अन्धसः) अन्नरूप (ते) तेरा (स्तवः) स्तोत्र

तथा (तव) तेरे निमित्त (यथा) जैसे (जातम्) प्रकट हुआ है जैसे (प्रिये)
तूम करनेवाले (बर्हिषि) हमारे यज्ञमें (निपदः) स्थित हो ॥ २ ॥

उत नो गोविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा ।

मश्रूतमेभिरहभिः ॥ ३ ॥

(उत) और (सोम) हे सोम (नः) हमें (गोवित्) गौएँ देने
वाला (अश्ववित्) घोड़े देनेवाला तू (मश्रूतमेभिः, अहभिः) अति
शीघ्र दिनों करके (अन्धसा) अन्नरूप धारासे (पवस्व) बरस ॥३॥

यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य ।

स पवस्व सहस्रजित् ॥ ४ ॥

(सहस्रजित्) हे सहस्रों शत्रुओंको जीतनेवाले सोम ! (यः) जो
तू (जिनाति) शत्रुओंको जीतता है (न जीयते) और स्वयं शत्रुओं
से नहा जीताजाता है (शत्रुम्, अभीत्य, हन्ति) शत्रुको तिरस्कृत करके
मारता है (सः) वह तू (पवस्व) धारासे बरस ॥ ४ ॥

यास्ते धारा मधुश्च्युतोसृग्रन्निन्द ऊतये ।

ताभिः पवित्रमासदः ॥ १ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (ते) तेरी (मधुश्च्युतः) मधुर रस टपका-
नेवाली (याः धाराः) जो धारें (ऊतये) रक्षाके लिये (असृग्रन्)
रचीजाती हैं (ताभिः) उन धारोंसे (पवित्रं, आसदः) दशापवित्र
में स्थित हो ॥ १ ॥

सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया ।

सादिन्नृतस्य योनिमा ॥ २ ॥

हे सोम ! (सः) वह तू (अव्यया वाराणि) ऊनके बालोंको (तिरः)
तिस्कार करता हुआ (ऋतस्य, योनिम्) यज्ञके कारणभूत दशापवित्र
को (आसीदन्) अभिमुख होकर प्रवेश करता हुआ (इन्द्राय, पीतये)
इंद्रके पीनेके अर्थ (अर्पे) प्राप्त हो ॥ २ ॥

त्वथ सोम परिस्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः ।

वरिवोविद्घृतं पयः ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (स्वादिष्टः) परमस्वादवाला (वरिवोवित्) हमारे इच्छित धनको प्राप्त करानेवाला तू (अङ्गिरोभ्यः) अङ्गिराओं के निमित्त (घृतम्) दिपतेहुए (पयः) दूधकी समानसारको (परिस्व) वरसा ॥ ३ ॥

सामवेदान्तरार्चिके षष्ठाध्यायम् १ द्वितीय खण्डः समाप्त

तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतोऽग्नेश्चिकित्र
उषसामिवेतयः । यदोषधीरभि सृष्टो वनानि
च परिस्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (यद्) जब तुम (ओषधीः) धान जौ आदि अन्नोंको (च) और (वनानि) वनोंको (अमृष्टः) भस्म करनेको छुटेहुए (स्वयं, आसन्) अपने मुखमें (अन्नम्) स्थावर जङ्गम जगत् का (परिचिनुषे) डालने हो, तब (तव) तुम्हागी (श्रियः) किरणों रूप विभूतियों (वर्ष्यस्य, विद्युतः, इव) वर्षा करनेवाले मेघकी विजलियोंकी समान (उषसां, ऊतयः, इव) उपाकालके फैलनेवाले प्रकाशोंकी समान (चिकित्रे) जानीजानी हैं ॥ १ ॥

वातोपजृत इषितो वशाः अनु तृपु यदन्ना वेवि-
षद्वितिष्ठसे । आ ते यतन्ते रथ्योऽश्थया पृ-
थक् शर्धांसि, स्यग्ने अजरस्य धक्षतः ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्ने (यद्) जब तू (वातोपजृतः) वायुसे कंपित हुआ (वशान्, अनु) वनस्पतियोंमें (तृपु) शांघ (इषितः) भेजा हुआ (अन्ना) खानेयोग्य वनस्पति आदि स्थावरोंमें (वेविषत्) व्यापता हुआ (वितिष्ठसे) इधर उधरको जाता है, तब (अजरस्य, धक्षतः, ते) जरारहित, भस्म करना चाहते हुए तेरे (शर्धांसि) तेज (रथ्यः यथा) रथियोंकी समान (पृथक्) अद्भुत प्रकारके (आयतन्ते) प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥

मेधाकारं विदधस्य प्रसाधनमग्निः होतारं प-
रिभूतरं मतिम् । त्वामर्भस्य हविषः समान-
मित्रा महो वृणते नान्यन्त्वत् ॥ ३ ॥

(मेधाकारम्) बुद्धिके कर्ता (विदथस्य, प्रसाधनम्) यज्ञके परम साधन (होतारम्) देवताओंका आह्वान करनेवाले (परिभूतरम्) शत्रुओंका परम निरस्कार करनेवाले (मतिम्) मनके प्रेरक (अग्निम्) अग्निको हम ऋत्विज प्रार्थना करते हैं । हे अग्ने (त्वामिन्) तुम्हें ही (अर्भस्य, हविषः) थोड़े हविके भक्षण करनेको (त्वामिन्) तुम्हें ही (महः) बहुतसे हविके भक्षण करनेको हम ऋत्विज् (समानम्) इकट्ठे हांकर (वृणते) प्रार्थना करते हैं (त्वत्) तुमसे (अन्यम्) दूसरे देवताको (न) नहीं प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

पुरुरुणा चिद्व्यस्त्यवो नूनं वां वरुण ।

मित्र वसि वाꣳ सुमतिम् ॥ १ ॥

हे मित्रावरुण ! (वाम्) तुम दोनोंकी (पुरुरुणा) अधिक से अधिक (अवः) रक्षा (ननम्) निश्चय (अस्ति) हैं (हि) यह प्रसिद्ध है (चिन्) और (वरुण) हे वरुण (मित्र) हे मित्र (वाम्) तुम्हारी (सुमतिम्) अनुग्रहबुद्धिको (वसि) सेवन करूँ ॥ १ ॥

ता वाꣳ सम्यग्द्रुहाणेपमश्याम धाम च ।

वयं वां मित्रा स्याम ॥ २ ॥

हम स्तोता (अद्रुहाणा) द्रोह न करनेवाले (ता) प्रसिद्ध (वाम्) तुम दोनोंकी (सम्यक्) भलेप्रकार स्तुति करते हैं (वयम्) हम (वाम्) तुम्हारे (मित्रा) मित्र (स्याम) हों (इषम्) अन्नको (च) और (धाम) स्थानको (अश्यामः) पावें ॥ २ ॥

पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथाꣳसुत्रात्रा ॥

साह्याम दस्यून्तनूभिः ॥ ३ ॥

(मित्रा) हे मित्रावरुण देवताओं ! तुम (नः) हमें (पायुभिः) रक्षाके साधनसे (पातम्) रक्षा करो (उत) और (सुत्रात्रा) श्रेष्ठ रक्षक पदार्थ देकर (त्रायेथाम्) पालन करो, हम भी (तनूभिः) पुत्रादि सहित (दस्यून्) शत्रुओंको (साह्याम) दवावें ॥ ३ ॥

उतिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः ।

सोमामिन्द्र चमूसुतम् ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! तू (चम्) पात्रोंमें (सुतम्) अभिषुन (सोमम्) सोमको (पीत्वा) पीकर (आजसा, सह) बलके साथ (उत्तिष्ठन्) उठताहुआ (शिप्रे) ठोड़ीको (अवेपयः) कम्पायमान कर ॥ १ ॥

अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमान मदेताम् ।

इन्द्र यद्दस्युहा भवः ॥ २ ॥

(स्पर्धमान, इन्द्र) शत्रुओंके साथ स्पर्धा करनेवाले इन्द्र ! (त्वा, अनु) तुम्हारे प्रति (उभे, रोदसी) दोनों द्युलोक और पृथिवी (मदेताम्) प्रसन्न हों (यद्) जब तुम (दस्युहा) शत्रुओंका नाश करनेवाले (भवः) होते हो ॥ २ ॥

वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतावृधम् ।

इन्द्रात्परि तन्वं ममे ॥ ३ ॥

(अष्टापदीम्) चार दिशा और चार कोण इन आठ चरणवाली (नवस्रक्तिम्) ऊपर आदित्य सहित नौ स्थानमें व्याप्त (ऋतावृधम्) यज्ञकी वृद्धि करनेवाली (वाचम्) स्तुतिका (तन्वम्) परिपूर्ण होनेसे न्यूनरहीको (अहम्) मैं (परिममं) परिमाण करता हूँ, क्योंकि पूर्णरूप स्तुतिका विषय नहीं होसकता ॥ ३ ॥

इन्द्राग्नी युवामिमेऽभिस्तोमा अनूषत ।

पिवतथं शम्भुवा सुतम् ॥ १ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि (युवाम्) तुम्है (इमे) यह (स्तोमाः) स्तोता (अभ्यनूषत) प्रशंसा करते हैं (शम्भुवा) हे सुख देनेवाले इन्द्राग्नी (सुतम्) संस्कार कियेहुए हमारे सोमको (पिवतम्) पियो १

या वाऽसन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा ।

इन्द्राग्नी ताभिरागतम् ॥ २ ॥

(नरा) प्रेरणा करनेवाले (इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि देवता (वाम्) तुम्हारे (पुरुस्पृहा) अनेकोंके चाहने योग्य (दाशुषे) हवि अर्पण करनेवाले यजमानके निमित्त उत्पन्नहुए (याः) जो (नियुतः) घोड़े (सन्ति) हैं (ताभिः) उनके द्वारा (आगतम्) आओ ॥ २ ॥

ताभिरागच्छतं नरोपेदथं सवनथं सुतम् ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ३ ॥

(नरा, इन्द्राग्नी) हे प्रेरक इन्द्र अग्नि देवताओं ! (इदं, सुतं, सवनम्, उप) इस संस्कार कियेहुए सामके समीप (सोमपीतये) सोम पीनेको (ताभिः) उन अश्वोंके द्वारा (आगच्छतम्) आओ ॥ ३ ॥

इति सामवेदोत्तरार्चिके षष्ठाध्यायस्य तृतीय खण्डः समाप्त

अर्षा सोम द्युमत्तमोभिद्रोणानि रोरुवत् ।

सीदन् योनौ वनेष्वा ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! (द्युमत्तमः) अत्यंत दीप्तिमान् तू (वनेषु) यनोंमें (योनौ) अपने कारण पर्वतादिके विषे (आसीदन्) स्थित होनाहुआ (द्रोणानि, अभि) द्रोण कलशोंकी ओरको (रोरुवत्) वार २ शब्द करताहुआ (अर्षा) प्राप्त हो ॥ १ ॥

अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सोमा अर्पन्तु विष्णवे ॥ २ ॥

(अप्सा) जलोंमें मिलनेवाले (सोमाः) सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (वायवे) वायुके अर्थ (वरुणाय) वरुणके अर्थ (मरुद्भ्यः) मरुन् देवताओंके अर्थ (विष्णवे) जगत्प्यापी विष्णुदेवताके अर्थ (अर्पन्तु) द्रोणकलशमें आर्वें ॥ २ ॥

इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यथं सोम विश्वतः ।

आपवस्व सहस्रिणम् ॥ ३ ॥

(सोम) हे साम ! (अस्माकम्) हमारे (तोकाय) पुत्रके अर्थ (इषम्) अन्न (दधत्) देताहुआ (सहस्रिणम्) सहस्रों संख्याका धन (विश्वतः) सब ओरसे (अस्मभ्यम्) हमें (आपवस्व) पहुँचा ३

सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधिष्णुभिरवीनाम् ।

अश्वयेव हरिता याति धारया मन्दूया याति

धारया ॥ १ ॥

(सोतृभिः) संस्कार करनेवाले ऋत्विजों करके (स्वानः) अभि-
पन्न किया जाता हुआ (सोमः) सोम (अधीनां, स्तुभिः) भेड़ोंकी ऊन
के पवित्रोंमेंको (अधियाति) अधिक वेगसे जाता है (उ) यह प्रसिद्ध
है (अश्वया इव) घोड़ीके द्वारा जैसे (हरिता, धारया) हरी धारा से
(मन्द्रया, धारया) मदकारिणी धारासे (यानि) द्रोणकलशमें जाता है १

**अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमोदुग्धाभिरक्षाः
समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते २**

(गोमान्) गौश्रोंवाला (सोमः) सोम (अनूपे) द्रोणकलशमें
(गोभिः) गोघृतादिके साथ (अक्षाः) टपकता है (सोमः, दुग्धाभिः
अक्षाः) सोम अपने मिश्रणके निमित्त गौश्रोंके साथ प्राप्त होता है
(समुद्रं, न. संवरणानि, अग्मन्) जैसे समुद्रमें जल जाते हैं तैसे रस
रूप अन्न द्रोणकलशमें जाते हैं (मन्दा, मदाय, तोशते) मदकारी सोम
मदके निमित्त कूटा जाता है ॥ २ ॥

यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु ।

तन्तः पुनान आभर ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! (यत्, चित्रं, उक्थ्यम्, दिव्यं, पार्थिवम्, वसु)
जो विविधप्रकारका प्रशंसा करनेयोग्य स्वर्गीय और पार्थिव धन है (तन्
पुनानः, नः, आभर) वह सब शुद्ध किया जाता हुआ तू हमें दे ॥ १ ॥

वृषा पुनान आयूँषि स्तनयन्नाधिबर्हिषि ।

हरिः सन् योनिमासदः ॥ २ ॥

(आयूँषि, पुनानः) यजमान आदिकी आयुको पवित्र करता हुआ
(वृषा, स्तनयन्) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला और शब्द करता हुआ
(अधि, बर्हिषि, हरिः सन्) विछेदुप कुशोंपर हरेवर्णका होता हुआ
(योनि, आसदः) अपने स्थान पर स्थित हो ॥ २ ॥

यवच्छंहि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती ।

ईशाना पिप्यतं धियः ॥ ३ ॥

(सोम, च, इन्द्रः) हे सोम ! तू और इन्द्र (युवं, हि, स्वःपती,
स्थः) तुम दोनो निःसन्देह सबके स्वामी हो (गोपती, ईशाना, धियं

पिप्यतं) गौश्रोंके पालक और सकल पेश्वयोंके अधिपति होतेहुए हमारे कर्मोंको पुष्ट करो ॥ ३ ॥

इति सामवेदोत्तराचिकं पाठाध्यायस्य चतुर्थं खड समाप्तः

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भे हवामहे सत्राजेषु
प्रनोऽविषत् ॥ १ ॥

(वृत्रहा, इन्द्रः) शत्रुश्रोंका नाशक इन्द्र (मदाय, शवसे) मद्के अर्थ और बलके अर्थ (नृभिः) ऋत्विजोंके द्वारा स्तुतियोंसे अधिक बली कियागया (तम्, इत्, महत्सु, आजिपु) तिस ही इन्द्रको बडे संग्रामोंमें (अर्भे) छोटे संग्रामोंमें (ऊति, हवामहे) अपनी रक्षाके लिये पुकारते हैं (सः, वाजेषु, नः, प्राविषत्) वह संग्रामोंमें हमारी पूर्ण रक्षा करें ॥ १ ॥

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । असि
दभ्रस्य चिद्वधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते
भूरि ते वसु ॥ २ ॥

(वीर, हि, सेन्यः, असि) हे शत्रुनाश करनेमें कुशल इन्द्र ! क्यों कि तू सेनाके योग्य है अर्थात् तू अकेला ही सेनाकी समान है, इस कारण (भूरि, पराददिः असि) शत्रुश्रोंके बहुतसे धनको उनसे प्रति कूल होकर छीनलेनेवाला है (दभ्रस्य चित्, वृधः) छोटेसे भी अपने स्तानाको धनादिसे बढ़ानेवाला है (सुन्वते, यजमानाय, शिक्षसि) सोमका अभिषव करनेवालेको और याग करनेवालेको धन देता है (ते, भूरि, वसु) तेरे पास बहुतसा धन है ॥ २ ॥

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम् ।
युद्ध्वा मदच्युता हरी कथं हनः कं वसौ द-
धोऽस्मा इन्द्र वसौ दधः ॥ ३ ॥

(यत्, आजय, उदीरते) जब संग्राम उत्पन्न होते हैं, तब (धृष्णवे धना, धीयते) शत्रुश्रोंको जीतनेवालेके अर्थ धन स्थापन कियेजाते हैं

हे इन्द्र उन संग्रामोंके समय तुम (मदच्युता, हरी, युद्धत्व) मद टपकानेवाले अपने घोड़ोंको रथमें जोड़ो (कम्, हनः) अपनी आराधना न करनेवाले किसी राजाको मारो (कम्, वसौ, दधः) किसी अपने उपासक राजाको धनमें स्थापित करो (इन्द्र, अस्मान्, वसौ, दधः) हे इन्द्र ! हमें धनमें स्थापित करो ॥ ३ ॥

स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः ।
या इन्द्रेण सयावरीर्दृष्णामदन्ति शोभथा व-
स्वीरनु स्वराज्यम् ॥ १ ॥

(स्वादोः, इत्था-विषूवतः, मधोः, गौर्यः, पिबन्ति) स्वादु रसयुक्त इसप्रकार सकल यज्ञोंमें व्यापक मधुररसवाले सोमको गौर वर्णकी गौएं पीती हैं (या, इन्द्रेण, शोभथाः) जो गौएं इन्द्रके साथ शोभा पाती हैं (दृष्णा, सयावरीः, मदन्ति) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले इन्द्र के साथ जातीहुई प्रसन्न होतीहैं, क्योंकि इन्द्रके पियेहुए सोमके शेष-भागको पीती हैं (वस्वीः, स्वराज्यम्, अनु) दूध देकर निवास करने वाली वह इन्द्रके अपने राज्यमें स्थित हैं ॥ १ ॥

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः ।
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं
वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ २ ॥

(ताः, अस्य, पृशनायुवः, पृश्नयः, सोमं, श्रीणन्ति) वह इस इन्द्र के स्पर्शको चाहनेवाली अनेकों वर्णकी गौएं इन्द्रके पीने योग्यसोमको अपने दूधसे मिलाती हैं (इन्द्रस्य, प्रियाः धेनवः) इन्द्रकी प्रीतिकी कारण वह गौएं (सायकं, वज्रम्, हिन्वन्ति) शत्रुओंके अन्तकारी वज्ररूपी शस्त्रको शत्रुओंमें प्रेरणा करती हैं अर्थात् इन्द्रको ऐसा मद देती हैं, कि—वह शत्रुओंके ऊपर वज्र छोड़ता है (वस्वीः, स्वराज्यम्, अनु) दूध देकर निवास करनेवाली वह इन्द्रके अपने राज्यमें स्थित हैं ॥ २ ॥

ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः ।
व्रतान्यस्य सश्विरे पुरुषि पूर्वचित्तये वस्वी-
रनु स्वराज्यम् ॥ ३ ॥

(प्रचेतसः, ताः) श्रेष्ठ ज्ञानवाली वह गौएं (अस्य, सहः, नय-सा, सपर्यन्ति) इस इन्द्रके बलको अपने दूधरूप अन्नसे आराधन करती हैं (पूर्वचित्तये) युद्ध करनेवाले शत्रुओंको पहिले ही ज्ञापन करनेके लिये अर्थान् इसके साथ युद्ध करके पहिले कितने ही शत्रु मरणको प्राप्त होगए तुम अपने प्राण क्यों खोते हो, यह जतानेके लिये (अस्य, पुरुणि, व्रतानि, सश्रिरे) इसके अनेकों वीरताके कर्मोंको जाननेयोग्य समझकर सेवन करती हुई ॥ ३ ॥

असाव्य२ शुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः ।

श्येनो न योनिमासदत् ॥ १ ॥

(गिरिष्ठाः, अशुः) पर्वतमें उत्पन्न हुआ सोम (मदाय, असादि) मदके लिये सुमिद्ध कियागया (अप्सु, दक्षः) वसतीवरी जलोंमें बढ़ता है (श्येनो, न. योनिम्, आसदत्) जैसे श्येन पक्षी वेगसे आकर बैठजाता है, तैसे ही यह सोम अपने स्थान पर स्थित होता है ॥ १ ॥

शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम् ।

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥

(देववातं, शुभ्रं, अन्धः) देवताओंके प्रार्थना कियेहुए सुन्दर और अन्नरूप (नृभिः, सुतम्) ऋत्विजों करके संस्कार कियेहुए (अप्सु, धौतम्) वसतीवरी जलोंमें धोये हुए सोमको (गावः, पयोभिः, स्वदन्ति) गौएं अपने दुग्धसे स्वादयुक्त करती हैं ॥ २ ॥

आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय ।

मधोरस२ सधमादे ॥ ३ ॥

(आत्) अनन्तर (होतारं, ईम्, मधो, रसम्) प्रेरक इस सोमके रसको (सधमादे, अमृताय, अशूशुभन्) यज्ञमें अमरभाव पानेको ऋत्विज शोभायमान करते हैं (अश्वं, न) जैसे सवार संग्राममें घोड़े को शोभायमान करते हैं ॥ ३ ॥

अभिद्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देव-

युम् । वि कोशं मध्यमं युव ॥ १ ॥

(इषस्पते, देव) हे अन्नके स्वामी स्तुतियोग्य सोम ! (द्युम्नं, बृहन्

यशः, देवयुं, अभिदिदीहि)घोतमान बहुतसे अन्नरूप देवताओं चाहने योग्य हविरूप अपने रसको हमारे अभिमुख होकर प्रकाशित कर (मध्यमं, कोशं, वियुव) और अन्तरिक्षमें स्थित मेघको वर्षाके लिये छोड़ ॥ १ ॥

आवच्यस्व सुदक्ष चम्बोः सुतो विशां वन्हि-
न विश्पतिः । वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपो जि-
न्वन् गविष्टये धियः ॥ २ ॥

(सुदक्ष) हे सुन्दरबलवाले (चम्बोः, सुतः) अधिपवणके पात्रोंमें अभिषव कियाहुआ तू (वन्हिः, न, विश्पतिः) प्रजाओंके धारक राजा की समान (विशाम्) प्रजाओंका धारण करनेवाला होताहुआ (आव-
च्यस्व) कलशमें प्राप्त हो (गविष्टये, धियः, जिन्वन्) यजमानके अर्थ
कर्मोंको प्रेरणा करताहुआ (अपः, रीति, दिवः, पवस्व) जलोंकी
वर्षाको धुलोकसे कर ॥ २ ॥

प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम् ।
विश्वा परि प्रिया भुवद्ध द्विता ॥ १ ॥

(प्राणा, महीनां, शिशुः) चंद्रा देनेवाला वा यज्ञकी पृथ्वीका साधन
जलोंका पुत्ररूप सोम (ऋतस्य, दीधिति, हिन्वन्) यज्ञके प्रकाशक वा
धारक अपने रसको प्रेरणा करताहुआ (विश्वा, प्रिया, परिभुवन्)
सकल प्रिय हवियोंमें व्याप्त होता है (अध, द्विता) और धुलोक तथा
पृथिवी दोनों स्थानोंमें रहता है ॥ १ ॥

उप त्रितस्य पाष्योऽऽरभक्त यद्गुहा पदम्
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम् ॥ २ ॥

(त्रितस्य, गुहा) त्रित नामक ऋषिकी गुहारूप हविर्धानमें वर्त्त-
मान (पाष्योः, पदम्) पाषाणकी समान दृढ़ अधिपवण फलकोंमें
स्थानको सोम (यत्, उप, अरभक्त) जब प्राप्त किया (अध) तब (यज्ञस्य,
धामभिः, सप्त) यज्ञको धारण करनेवाले गायत्री आदि सात छन्दोंके
द्वारा (प्रियं, अभि) तृप्त करनेवाले सोमकी ऋत्विज स्तुति करते हैं ॥२॥

त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्टेष्वैरयद्रायिम् । मि-
मीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३ ॥

सोम ' (धारया) अपनी धारासे (त्रितस्य, त्रीणि) मुझ त्रित के तीन सबनोंको (पृष्ठेषु, रयिम,, पेरयन्) सामगानोंमें धन देनेवाले इन्द्रको प्रेरणा करे, क्योंकि (सुक्रतुः, अस्य, योजना, विमिमीते) श्रेष्ठ यज्ञघाला स्तोत्रा इस इन्द्रके स्तोत्रोंको उच्चारण करना है ॥ ३ ॥

पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः ।

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (सुतः) संस्कार क्रियाहुआतू (इन्द्राय, विष्णवे देवेभ्यः मधुमत्तरः) इन्द्रके अर्थ विष्णुके अर्थ तथा अन्य देवताओंके अर्थ अत्यन्त मधुरतायुक्त होताहुआ (वाजसातये) 'अन्नकी प्राप्तिके लिये (पवित्रे, धारया, पवस्व) दशार्पवित्रमको धारसे टपक ॥ १ ॥

त्वांश्चरिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रुहः ।

वत्सं जातं न मातरः पवमाना विधर्मणि ॥ २ ॥

(पवमान) हे पूजमान सोम ! (विधर्मणि) अनेकों हवियोंके धारक यज्ञमें (अद्रुहः, धीतयः) द्रोहरहित अंगुलियों (हरिं, पवित्रे, त्वां, रिहन्ति) हर वर्णके पवित्रमें स्थित तुम्हें निचोड़नेके लिये स्पर्श करतीहैं (जातं, वत्सं, गावः, न) उत्पन्नहुए बछड़ेको जैसे गौण चाटती हैं ॥ २ ॥

**त्वं द्यां च महिब्रत पृथिवीं चातिजभिषे प्रति-
द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ३ ॥**

(महिब्रत) हे कर्मके महान् साधक सोम ! (त्वम्) तू (द्यां, च पृथिवीं, च, अतिजभिषे) द्युलोक और पृथिवीलोकको अत्यन्त धारण करते हो (पवमान) संस्कारयुक्त होताहुआ (महित्वना, द्रापिं, प्रति अमुञ्चथाः) महत्त्वसे युक्त होकर कवचको ढकते हो ॥ ३ ॥

**इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सहइ-
न्वन्मदाय । हन्ति रक्षा बाधते पर्यराति वरि-
वस्कृण्वन्वृजनस्य राजा ॥ १ ॥**

(वाजी) बलवान् (गोन्योघा) गमनशील रसका समूहरूप (इन्दुः सोमः) टपकनेवाला सोम (इन्द्रे, सहः, इन्वन्) इन्द्रके विषै बल-

दायक रसको प्रेरणा करताहुआ (मदाय, पवते) इन्द्रके मदके लिये वरसता है (वृजनस्य, राजा) बलका स्वामी सोम (वरिवः, कृण्वन्) स्तोताओंको धनदान करताहुआ (रत्नः, हन्ति) राक्षसोंका नाश करता है (श्ररानि, परिवाधते) शत्रुओंको चारों ओरसे पीड़ा देता है ॥ १ ॥

अथ धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते
अद्रिदुग्धः । इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो
देवस्य मत्सरो मदाय ॥ २ ॥

(अथ) अनन्तर (अद्रिदुग्धः) पापाणोंसे कुचलकर निचोड़ाहुआ सोम (मध्वा, धारया) मदकारी धारामे (पृचानः) देवताओंको तृप्त करताहुआ (रोम, तिरः, पवते) ऊनी पवित्रमेंको छुनकर निकलता है (इन्द्रस्य, सख्यम्, जुषाणः) इन्द्रके सखाभावको सेवन करताहुआ (देवः मत्सरः, इन्दुः) द्योतमान, मदकारी सोम (देवस्य, मदाय, पवते) इन्द्रके मदके निमित्त वरसता है ॥ २ ॥

अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन
रसेन पृञ्चन् । इन्दुर्धर्माण्यतुथा वसानो दश
क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ ३ ॥

(धर्माणि, व्रतानि, ऋतुथा, वसानः) यजमानके धारणकर्त्ता कर्मोंको ऋतुके समय व्याप्त करताहुआ (पुनानः) पृथमान (इन्दुः, अभिपवते) सोम कलशमें वरसता है (देवः) दीप्तिमान् सोम (स्वेन, रसेन, देवान्, पृञ्चन्) अपने रससे इन्द्रादि देवताओंको सयुक्त करताहुआ (दश, क्षिपः, सानो, अव्ये, अव्यत) उस सोमको दश अगुलियें ऊँचे दशापवित्रमें पहुचाती हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके षष्ठाध्यायस्य षष्ठे खण्डे समाप्तः

आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् । यद्ध
स्या ते पनीयसी समिदीदयति द्यवीषथं, स्तो-
तृभ्य आभर ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! द्युमन्तं, अजरं, ते, आ, इधीमहि) दीप्ति-

मान् जगत्ग्रहित तुम्है सब आरामे दीप्त करनेहें (यत्, ह, ते, स्या, पर्ना-
यसी, समित्) जब निश्चय तुम्हारी वह प्रशंसायोग्य दीप्ति (हवि,
दीदयति) द्युलोकमें दिपती है तब हे अग्ने ! (स्तोतृभ्यः, इष, आ भर)
हम स्तोताओंको अन्न दो ॥ १ ॥

आ ते अग्ने ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते
सुश्वन्द्र द्स्म विश्पते हव्यवाट् तुभ्यः हूयत
इषथं स्तोतृभ्य आभर ॥ २ ॥

(सुश्वन्द्र) श्रेष्ठ आनन्ददायक (द्स्म) शत्रुनाशक (विश्पते)
प्रजापालक (हव्यवाट्) हवि पहुँचानेवाले (ज्योतिषपते, अग्ने) हे
प्रकाशके स्वामी अग्निदेव ! (शुक्रस्यते) दीप्तिमान नेरे अर्थ (ऋचा,
हविः, आ, हूयते) मंत्रके साथ हवि अभिसुख होकर होमाजाता है
(स्तोतृभ्यः, इषं, आभर) हम स्तोताओंको अन्न दो ॥ २ ॥

ओभे सुश्वन्द्र विश्पते दूर्वा श्रीणीष आसनि ।
उतो न उत्पूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषथं-
स्तोतृभ्य आभर ॥ ३ ॥

(शवसस्पते, विश्पते, सुश्वन्द्र) बलके स्वामी, प्रजाओंके पालक हे
इन्द्र (ओभे, दूर्वा, आसनि, श्रीणीषे) हविसे भरे जूहू आदि दोनो
पात्रोंको अपने मुखमें लेकर पचाजाते हो (उतो) और (उक्थेषुः,
नः, उत्पूर्याः) और आगोंमें हमें फलोंसे पूर्ण करते हो (स्तोतृभ्यः,
इषं, आभर) हम स्तोताओंको अन्न दो ॥ ३ ॥

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् । ब्र-
ह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १ ॥

हे उद्गाताओं ! (विप्राय, बृहते, ब्रह्मकृते, विपश्चिते, पनस्यते, इन्द्राय)
मेधावी, महान्, वर्षाके द्वारा हविरूप अन्नके कर्ता विद्वान और स्तुति
चाहनेवाले इन्द्रके अर्थ (बृहत्, साम, गायत) बृहत् नाम सामका
गान करो ॥ १ ॥

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वथं, सूर्यमरोचयः ।
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि ॥ २ ॥

(इन्द्र, त्वं, अभिभूः, असि) हे इन्द्र ! तू शत्रुओंका तिरस्कार करने वाला है (त्वं, सूर्य, अरोचयः) तुम सूर्यको तेजोंसे दीप्त करते हो (विश्वकर्मा, विश्वदेवः, महान्, असि) विश्वका कर्ता, सकल देव-रूप और सबसे बड़े हो ॥ २ ॥

**विभ्राजज्योतिषा स्वाऽऽरगच्छोरोचनं दिवः
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३ ॥**

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ज्योतिषाः, रोचनम्) तेजसे आवृत्यके प्रकाशक (स्वः, विभ्राजन्) स्वर्गको प्रकाशित करता हुआ (अगच्छः) प्राप्त हो (देवाः, ते सख्याय येमिरे) सब देवता तेरे मित्रभावको पानेके लिये अपने आत्माको वशमें करते हुए ॥ ३ ॥

**असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवागहि ।
आ त्वा पूणाकित्वन्दियथं रजःसूर्यो न रश्मिभिः ॥**

(इन्द्र, ते, सोमः, असावि) हे इन्द्र ! तेरे निमित्त सोमका संस्कार कियाजाचुका है (शविष्ठ, धृष्णो, आगहि) हे अन्यन्त बलवान् ! शत्रुओंका वचानेवाले इन्द्र यहां यज्ञशालामें आओ (सूर्यः, रश्मिभिः, रजः, न) जैसे सूर्य किरणोंसे अन्तरिक्षको पूर्ण करता है तैसे (त्वा, इन्द्रियं आपृणक्तु) तुम्हें सोमपानसे उत्पन्न हुई बड़ीभारी सामर्थ्यसे पूर्ण करे ॥ १ ॥

आतिष्ठ वृत्रहनथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी ।

अर्वाचीनं सुते मनो प्रावाकृणोतु वग्नुना २

(वृत्रहन रथं आतिष्ठ) हे इन्द्र ! रथ पर चढ़ो (ते हरा ब्रह्मणा युक्ता) तेरे हरिनामक घोड़े हमने मंत्रसे जोड़दिये हैं (प्रावा) अभिषवका पोषण (वग्नुना) मनको खेचनेवाले शब्दसे (ते मनः) तेरे मनको (अर्वाचीनं सुकृणोतु) श्रेष्ठतासे हमारे सम्मुख करे ॥ २ ॥

इन्द्रमिद्वरी वहतोप्रतिधृष्टशवसम् । ऋषीणा

२ सुष्टृतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् ॥ ३ ॥

(अप्रति धृष्टशवसं इन्द्रं इत्) किसीके भी तिरस्कार न करनेयोग्य बलवाले (ऋषीणां मानुषाणाम्) ऋषि और मनुष्योंकी (सुष्टृतीः) सुन्दर स्तुतियों (यज्ञञ्च) यज्ञको भी (हरी उप वहतः) अश्व पहुँ-

चाते हैं अर्थात् जहां यज्ञ और स्तुति होती हैं तहां २ अश्व इन्द्रको पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके षष्ठाध्यायस्य सप्तमः खण्ड समाप्तः

षष्ठाध्यायश्च समाप्त

सप्तमोऽध्यायः

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं, पिता देवानां
जनिता विभूवसुः । दधाति रत्नं स्वधयोर-
पीच्यं, मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १ ॥

(यज्ञस्य ज्योतिः) यज्ञका प्रकाशक सोम (प्रियं मधु पवते) इन्द्रादि देवताओंके प्यारे मधुररसको वरसाता है (पिता) पालन करनेवाला (जनिता) फल उत्पन्न करनेवाला (विभूवसुः) बहुत धनी (मदिन्तमः) अनि मदकारी (मत्सरः) आनन्ददायक (इन्द्रियः) इन्द्रका सेवन कियाहुआ (रसः) सोमका रस (स्वधयोः अपीच्यं रत्नं दधाति) चावापृथिवीमें अन्तर्हित धन यजमानोंके विषे स्थापन करता है ॥ १ ॥

अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति, पतिर्दिवः शत-
धारो विचक्षणः । हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति
मर्मृजानोविभिः सिन्धुभिर्दृषा ॥ २ ॥

(दिवः पतिः) धुलोकका स्वामी (शतधारः) सैंकड़ों धारोंवाला (विचक्षणः) बुद्धिवर्द्धक (वाजी) बलवान् (हरिः) हरे वर्णका सोम रस (अभिक्रन्दन् कलशं अर्षति) शब्द करताहुआ कलशमें पहुँचता है (सिन्धुभिः अविभि मर्मृजानः वृषा) टपकानेके साधन ऊन के दशोपवित्रोंसे शुद्ध कियाजाताहुआ मनोरथोंका पूरक सोम (मित्रस्य सदनेषु सीदति) मित्रकी समान हितकारी यज्ञके पात्रोंमें स्थित होता है २

अग्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षस्यग्रे वाचो अ-
ग्रियो गोषु गच्छसि । अग्रे वाजस्य भजसे
महद्धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सयसे ३

हे सोम ! तू (सिन्धूनां, अग्रे, पवमानः, अर्षसि) जलोंसे पहिले प-
वित्र होताहुआ जाता है अर्थात् वर्षाका जल उत्पन्न करनेको पहिले

ही आहुतिके द्वारा अन्तरिक्षमें पहुँचजाता है (वाचः, अग्रियः, गच्छसि) मध्यमा वाणीका पृथक् होकर जाता है (गोषु, अग्रे, गच्छसि) किरणों से आगै जाता है (वाजस्य) शत्रुओंका अन्न पानेके लिये (स्वायुधः महत्, धनं, भजसे) श्रेष्ठ आयुधवाला होकर संग्रामका सेवन करता है (सोमः, स्तोत्रभिः, सूयसे) तैसा तू हे सोम ! अध्वर्युआदिके द्वारा निचोड़ाजाता है ॥ ३ ॥

**असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया
शुक्रासो वीरयाशवः ॥ १ ॥**

(वाजिनः, शुक्रासः आशवः सोमासः) बलवान् दीप्तिमान् योगवान् सोम (गव्याया, अश्वया, वीरया) यजमानके लिये गौओंकी इच्छा से घोड़ोंकी इच्छा से और पुत्र सेवक आदिकी इच्छासे (प्र असृक्षत) रसोंको छोड़ते ह ॥ १ ॥

**शुम्भमाना ऋतायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्योः ।
पवन्ते वारे अद्यये ॥ २ ॥**

(ऋतायुभिः शुम्भमानाः) यज्ञकी चाहनावाले अध्वर्यु आदि करके सुशोभित कियेहुए (गभस्त्योः, मृज्यमानाः) हाथोंसे शुद्ध कियेहुए सोम (अद्यये वारे) ऊनके पवित्र में (पवन्त) मसिद्ध होते हैं ॥ २ ॥

**ते विश्वादाशुपे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा ।
पवन्तामान्तरिक्षया ॥ ३ ॥**

(ते) वह (सोमाः) सोम (दाशुपे) हवि अर्पण करनेवाले यजमानके अर्थ (दिव्यानि पार्थिवा, आन्तरिक्षया), स्वर्गीय, भूलोकके और अन्तरिक्षके (विश्वा, वसु) गौ आदि सकल धन (आपवन्ताम्) वरसावै ॥ ३ ॥

पवस्व देवविरति पवित्रं सोम रंहा ।

इन्द्रमिन्द्रो वृषाविश ॥ १ ॥

(सोम ! देववीः) हे सोम ! देवताओंकी कामनवाला तू (रंहा, पवित्रं अतिपवित्र्या) देवके साथ पवित्र भावसे वरस (इन्द्रो वृषा इन्द्रमविश) हे सोम ! कामनाओंकी वर्षा करनेवाला तू इन्द्रको प्राप्त हो

आवच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दां द्युम्नवत्तमः ।
आ योनिं धर्णसिः सदः ॥ २ ॥

(इन्द्रो) ह सोम (वृषा द्युम्नवत्तमः धर्णसिः) सेवकको अभीष्ट फल देनेवाला परमकीर्तिमान् तथा धारण करनेवाला तू (महिप्सरः आवच्यस्व) बहुतसा अन्न जल हमारे पास पहुँचा (योनिं आसदः) अपने स्थान पर स्थित हो ॥ २ ॥

अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः ।
अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥ ३ ॥

(सुतस्य वेधसः धारा) अभिषव कियेहुए इच्छित पदार्थको देनेवाला सोमकी धारा (प्रियं मधु अधुक्षत) प्रसन्न करनेवाले अमृतको पात्रमें पूर्ण करती है (सुक्रतुः अपः वसिष्ठ) श्रेष्ठकर्मका साधक सोम वसतीवरी जलोंको आच्छादन करता है ॥ ३ ॥

महान्तं त्वा महारन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः ।
यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ ४ ॥

हे सोम ! (यन् गोभिः वासयिष्यते) जब तू गौके दुग्धादिसे मिलायाजाता है, तब (महान्तं, त्वा अनु सिन्धवः महीः आपः अर्षन्ति) गुणोंसे बड़े नेरे प्रति बहतेहुए बहुतसे जल प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः ।
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥

(समुद्रः) रसोंको बहानेवाला (दिवः विष्टम्भः धरुणः) स्वर्गका धामनेवाला और धारण करनेवाला (अस्मयुः सोमः) हमारी कामना वाला सोम (पवित्रे अप्सु मामृजे) पवित्रमें का वसतीवरी जलोंमें बार बार शोधाजाता है ॥ ५ ॥

अचिक्रददृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः ।
सथं सूर्येण दिद्युते ॥ ६ ॥

(वृषा हरिः महान्) मनोरथ पूरे करनेवाला हरेवर्णका और सर्वोत्तम (मित्रः न दर्शतः) मित्रकी समान दर्शनीय जो सोम (अचिक्रदत्) शब्द करता है वह सोम (सूर्येण मंदिद्युते) सूर्यके साथ दिपता है

गिरस्त इन्दं ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः ।
याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ ७ ॥

(इन्दो ते ओजसा) हे सोम ! तेरे बलसे (अपस्युवः गिरः मर्मृज्यन्ते) कर्मकी इच्छाके संबन्धवाली स्तुतियें शोधीजाती हैं (याभिः मदाय शुम्भसे) जिन स्तुतिकी वाणियोंसे तुम मदके अर्थ सुन्दर बनाये जाते हो ॥ ७ ॥

तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे ।
तव प्रशस्तये महे ॥ ८ ॥

हे सोम ! (तव महे प्रशस्तये) तेरी बड़ी प्रशंसा होनेके लिये (लोककृत्नुं तं त्वा) लोकके कर्ता निम्न तुम्हको (घृष्वये मदाय) शत्रुओंको रगड़नेवाले मदके अर्थ (ईमहे) पीनेका प्रार्थना करते हैं ॥ ८ ॥

गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत ।
आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ॥ ९ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (यज्ञस्य पूर्व्यः आत्मा) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ का पुरातन आत्मारूप तू (गोषा नृषा अश्वसा उत वाजसा असि) हमें गौण देनेवाला पुत्र सेवक आदि मनुष्य देनेवाला घोड़े देनेवाला और अन्नोका दाता है ॥ ९ ॥

अस्मभ्यमिन्द्रविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया ।
पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥ १० ॥

(इन्दो) हे सोम ! (वृष्टिमान् पर्जन्यः इव) वर्षा करनेवाले मेघ की समान (अस्मभ्यम्) हमारे अर्थ (इन्द्रियम्) इन्द्रके सेवन किये हुए वा वीरताके वर्द्धक रसको (मधोः धारया पवस्व) अमृतकी धारारूपसे बरसा ॥ १० ॥

सामवेदोत्तरार्चिके सप्तमाध्यायस्य प्रथमं ब्रह्म समाप्तं

सना च सोम जेषि च पवमान महिश्रवः ।
अथानो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥

(महिश्चवः पवमान सोम) हे बहुत अन्नवाले संस्कारयुक्त सोम ! (सन) हमारे यज्ञमें पूजनीय देवताओंका सेवन कर (च जैषि च) और यज्ञमें विघ्न करनेवाले राक्षसोंको जीत भी (अथ) देवताओंको पाने और राक्षसोंको जीतनेके अनंतर (नः वस्यसः कृधि) हमें कल्याण युक्त करो ॥ १ ॥

सना ज्योतिः सना स्वाऽऽविश्वा च सोम
सौभगा । अथानो वस्यसस्कृधि ॥ २ ॥

(सोम) हे सोम (ज्योतिः सन) हमें तेज दे (स्वः च विश्वा सौभगा सन) स्वर्ग और सकल सौभाग्य हमें दे (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणयुक्त कर ॥ २ ॥

सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि ।
अथानो ० ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (दक्षं क्रतुं सन) बल और यज्ञका फल हमें दे (मृधः अपजहि) शत्रुओंको मार (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी कर ॥ ३ ॥

पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे ।
अथानो ० ॥ ४ ॥

(पवीतारः) हे सोमका संस्कार करनेवाले ऋत्विजों ! (इन्द्राय पातवे) इन्द्रके पीनेके लिये (सोमं पुनीतन) सोमको दशापवित्रसे शुद्ध करो (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी करो ॥ ४ ॥

त्वञ्छं सूर्ये न आभज तव क्रत्व तवोतिभिः ।
अथानो ० ॥ ५ ॥

हे सोम ! (त्वम्) तू (तव क्रत्या तव उतिभिः) अपनी कीहुई रक्षाओंसे (न सूर्ये आभज) हमें सूर्यके विषे उपासनामें लगा (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी कर ॥ ५ ॥

तव क्रत्वा तवातिभिर्ज्यौक् पश्येम सूर्यम् ।
अथानो ० ॥ ६ ॥

हे सोम ! (तव कृत्वा) तेरे दियेहुए ज्ञानके द्वारा (तव ऊनिभिः) तुम्हारी रक्षाओंमें रहकर (ज्योक् सूर्यं पश्येम) चिरकालपर्यन्त सूर्य को देखें (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी करो ॥ ६ ॥

अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विवर्हस रथिम् ।

अथानो ॥ ७ ॥

(स्वायुध सोम) हे श्रेष्ठ आयुधोंवाले सोम (द्विवर्हस रथि अभ्यर्ष) धावापृथिवी दोनों स्थानके अत्यन्त दृढ़ धनको हम स्तोत्रोंके अर्थ दो (अथ नः वस्यसः कृधि) अनन्तर हमें कल्याणका भागी करो ॥७॥

अभ्यऽर्षानपच्युतो वाजिन्समत्सु सासहिः

अथानो ॥ ८ ॥

(वाजिन्) हे बलवान् सोम ! (समत्सु अनपच्युतः) संग्रामोंमें शत्रुओंसे न दबनेवाला (सासहिः) शत्रुओंका निरस्कार करनेवाला तू (अभ्यर्ष) द्रोणकलशमें प्राप्त हो (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी कर ॥ ८ ॥

त्वां यज्ञैरवीवृधन्पवमान विधर्मणि ।

अथानो ॥ ९ ॥

(पवमान) हे शोधनेजानेहुए सोम ! (त्वां विधर्मणि यज्ञैः अवीवृधन्) तुम्हें अनेकों फलोंवाले यज्ञमें यज्ञके साधन स्तोत्रोंसे यजमान बढ़ाते हैं (अथ नः वस्यसः कृधि) ऐसे होकर तुम हमें कल्याणका भागी करो ॥ ९ ॥

रथिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमाभर ।

अथानो वस्यसस्कृधि ॥ १० ॥

(इन्दो) हे सोम ! तू (नः) हमारे अर्थ (चित्रं अश्विनं विश्वायुं रथिं नः आभर) नानाप्रकारके अश्वोंवाले सर्वगामी धनको हमें दे (अथ नः वस्यसः कृधि) इसके अनन्तर हमें कल्याणका भागी कर ॥१०॥

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ११ ॥

(मन्दी सः) देवताओंको हर्षदायक वह सोम (तरत् धावति) स्तोताओंको पापसे तारताहुआ दशापवित्रसे नीचे गिरता है (सुतस्य ग्रन्धसः धारा) अभिषव कियेहुए देवताओंको अनारूप सोमकी धारा (धावति) दशापवित्रसे नीचे गिरती है (मन्दी सः) देवताओंको हर्षदायक वह सोम (तरत् धावति) स्तोताओंको पापसे तारताहुआ दशापवित्रसे नीचे टपकती है ॥ १ ॥

उत्सा वेद वसूनां मर्त्तस्य देव्यवसः ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ २ ॥

(वसूनां उत्सा) सब प्रकारके धन देनेवाली (देवी) दिपतीहुई जिन सोमकी धारी (मर्त्तस्य अवसः वेद) यजमानकी रक्षा करनेकी जानती है (सः मन्दी) वह देवताओंको आनन्द देनेवाला सोम (तरत् धावति) स्तोताओंको पापसे तारताहुआ दशापवित्रसे नीचे गिरता है २

ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योरांसहस्राणि दद्महे ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ३ ॥

(ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योः) ध्वस्त्र और पुरुषन्तिके (सहस्राणि) सहस्रों संख्याके धनको (आदद्महे) हम ग्रहण करते हैं । वह धन हमारे लिये शुभ हो (मन्दी सः) देवताओंको आनन्द पहुँचानेवाला वह (तरत् धावति) यजमानोंको तारताहुआ चलाजाता है ॥ ३ ॥

आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥

(ययोः) जिन ध्वस्त्र और पुरुषन्तिके (त्रिंशतं सहस्राणि च) तीन सौ और सहस्र भी (तना) वस्त्रोंको (आदद्महे) हम स्वीकार करते हैं हे सोम ! वह सब हमें शुभ हो (मन्दी सः) देवताओंको आनन्ददायक वह सोम (तरत् धावति) स्तोताओंको पापसे तारताहुआ दशापवित्रसे नीचे गिरता है ॥ ४ ॥

एते सामा अमृक्षत गृणानाः शवसे महे ।

मदिन्तमस्य धारया ॥ १ ॥

(मदिन्तमस्य) देवताओंको परमानन्ददायक रसबाले (एते सो)

यह सोम (गृणानाः) स्तुति कियेजातेहुए (महेश्रवसे) हमारे बड़े-भारी बलके लिये (धारया, अस्त्रत) धारसे पात्रमें जाते हैं ॥ १ ॥

अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि ।

सनद्वाजः परि स्रव ॥ २ ॥

हे सोम ! (वीतये) देवताओंके भक्षण करनेके लिये (नृम्णा गव्यानि) परमप्रिय गौके दूध वी आदिको (पुनानः अभ्यर्षसि) पवित्र करता हुआ पात्रमें जाताहै (सनद्वाजः परिस्रव) अन्न देनेवाला तू दशापवित्रमेंको बरस ॥ २ ॥

उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः ।

गृणानो जमदग्निना ॥ ३ ॥

(उत) और हे सोम ! (जमदग्निना गृणानः) जमदग्निसे स्तुति कियाजाताहुआ तू (नः) हमारे अर्थ (गोमतीः) गौओंसेयुक्त (परिष्टुभः) सब ओरसे स्तुति करनेयोग्य (विश्वाः इषः) सकल अन्नोंको (अर्ष) दे ॥ ३ ॥

इति सामवेदोत्तरार्चिके सप्तमाध्यायस्य द्विंतांशः खण्डः समाप्त

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव संमहेमा
मनीषया । भद्रा हि नः प्रमतिरस्य ससद्य-
ग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ १ ॥

(अर्हते जातवेदसे) पूजनीय अग्निके अर्थ (मनीषया) तीक्ष्ण बुद्धि से (इमं स्तोमम्) इस सूक्तरूप स्तोत्रको (रथं इव) जैसे बढई रथ को संस्कारयुक्त करता है तैसे (संमहेम) सम्यक् प्रकारसे पूजित करने हैं (अस्य सं सदि) इस अग्निकी सम्यक् प्रकार आराधना करने में (नः प्रमतिः) हमारी श्रेष्ठ बुद्धि (भद्रा हि) कल्याणरूप है इसमें कुछ सन्देह नहीं है (अग्ने) हे अग्निदेव (तव सख्ये) हमारी तुम्हारे साथ मित्रता होने पर (वयं मा रिषामाः) हम किसीसे हिंसा न पावें अर्थात् हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

भरामेधमं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः
पर्वणापर्वणा वयम् । जीवातवे प्रतरां सा-

धया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव २

(अग्ने) हे अग्ने ! (इध्मं भराम) तेरे यागके लिये इक्कीस पदार्थों की समिधाओंके समूहको सम्पादन करते हैं (वयम्) हम (पर्वणापर्वणा चिन्तयन्तः) पूर्णिमा और अमावस्याको दर्शपूर्णमास यागोंके द्वारा (चितयन्तः) तुम्है ज्ञापन करनेहुए (ते) तुम्हारे अर्थ (हवीषि कृण्वाम) चरु पुरोडाश आदि हवियोंको करते हैं वह तू (जीघातवे) हमारे चिरकाल जीवनके लिये (धियः प्रतरां साधय) अग्निहोत्र आदि कर्मोंको उत्तमताके साथ सिद्ध करो (अग्ने तव सख्ये वयं मा रिषाम) हे अग्निदेव ! हमारी तुम्हारे साथ मित्रता होनेपर हम किसी से हिंसित न हों ॥ २ ॥

शक्रेम त्वा समिधः साधय धियस्त्वे देवा
हविरदन्त्याहुतम् । त्वमादित्याः आ वह तान्
ह्यऽश्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (त्वा समिधं शक्रेम) हम तुम्है सम्यक् प्रकार प्रज्वलित कर सकें । तुम भी (धियः साधय) हमारे दर्शपूर्णमास आदि कर्मोंको सिद्ध करो (त्वे आहुतं हविः) तुम्ह अग्निमें अृत्विजोंके द्वारा होमंप्रण चरु पुरोडाश आदि हविको (देवाः अदन्ति) देवता भक्षण करते हैं (त्वं आदित्यान् आवह) तुम अदितिके पुत्र सब देवताओंको हमारे यज्ञमें लाओ (तान् हि अश्मसि) उनको इस समय हम चाहते हैं (अग्ने तव सख्ये वयं मा रिषामः) हे अग्निदेव ! हमारी तुम्हारे साथ मित्रता होने पर हम किसीसे हिंसित न हों ॥ ३ ॥

प्रति वाः सूर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम् ।
अर्यमणः रिशादसम् ॥ १ ॥

हे मित्रावरुण देवताओं (सूर उदिते) सूर्य देवका उद्घ्य होनेपर अर्थान् प्रातःकालके समय (मित्रम्) तुम्ह मित्र देवता को (वरुणम्) वरुणको (वाम्) तुम दोनोंको (रिशादसम्) शत्रुओंको खानेवाले (अर्यमणम्) अर्यमा देवताको (प्रति गृणीषे) प्रत्येक की स्तुति करता हूँ

राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे ।

इयं विप्रा मेधसातये ॥ २ ॥

(इयं मतिः) इस समय की हुई यह हमारी स्तुति (हिरण्यया) हितकारी और रमणीय (राया) धनसहित (अष्टुकाय शवसे) किसीसे खरिडत न होनेवाले बलकी प्राप्तिके लिये हो (धिप्राः) हे विप्रों! (इयम्) यह स्तुति (मेधसातये) हमारी यज्ञप्राप्तिके लिये हो ॥ २ ॥

ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह ।
इषꣳ स्वश्च धीमहि ॥ ३ ॥

(देव वरुण) हे वरुणदेव ! (सूरिभिः सह) ऋत्विजों सहित (ते) तेरे स्तोता हम (स्याम) सम्पत्तिमान् हो (मित्र) हे मित्र (ते) तेरे स्तोता हम ऋत्विजों सहित सम्पत्तिमान् हों (इषं च स्वः धीमहि) अन्न और स्वर्ग को वा सुवर्णको धारण करें ॥ ३ ॥

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाधो जही मृधः
वसु स्पार्हं तदा भर ॥ १ ॥

हे इंद्र ! तुम (विश्वाः द्विषः अपभिन्धि) सकल शत्रुसेनाओंको बिदीर्ण करो (वाधः मृधः परिजहि) हिंसक संग्रामोंका तुम तिरस्कार करो (स्पार्ह वसु) शत्रुओंका जो ललचानेवाला धन है (तत् अभार) वह हमें दो ॥ १ ॥

यस्य ते विश्वमानुषग्भूरेदत्तस्य वेदति ।
वसु स्पार्हं तदा भर ॥ २ ॥

हे इंद्र (ते दत्तस्य भूरेः यस्य) तुम्हें दियेहुए बहुतसे जिस (विश्वम्) सकल धनको (आनुषक् वेदति) मनुष्य आनुपूर्वीसे निरंतर जानता है (तत् स्पार्हं वसु) उस चाहनेयोग्य धनको (नः आभर) हमें दो ॥ २ ॥

यद्दीडाविन्द्र यत् स्थिरं यत्पर्शानि पराभृतम् ।
वसु स्पार्हं तदा भर ॥ ३ ॥

(इंद्र) हे इंद्र ! तुमने (यत् वीडौ) जो धन दूसरोंसे विचलित न होनेवाले मनुष्योंमें (यत् स्थिरं) जो धन स्वयं अचल मनुष्योंमें (यत् विपर्शानि) जो धन विचाग्शील मनुष्योंमें (पराभृतम्) स्थापन किया है (तत् स्पार्हं वसु नः आभर) वह इच्छा करनेयोग्य धन हमें दो ॥ ३ ॥

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ १ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! तुम (हि) निश्चय (यज्ञस्य ऋत्विजाः स्थः) ज्योतिष्म आदि यज्ञके समय समय पर यजन करनेयोग्य हो (वाजेषु कर्मसु) संग्रामोंमें और यज्ञरूप कर्मोंमें (सस्नी) शुद्ध होतेहुए (तस्य बोधतम्) तिस मेरी स्तुतिको जानो ? तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ २ ॥

(तोशासा रथयावाना वृत्रहणा अपराजिता इन्द्राग्नी) शत्रुओं को मारनेवाले रथमें यात्रा करनेवाले वृत्रासुरके नाशक किसीसे भी पराजय न पायेहुए हे इंद्र और अग्नि देवताओं (तस्य बोधतम्) तिस मेरी स्तुतिको जान ॥ २ ॥

इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नरः ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ३ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! (वाम्) तुम्हारे अर्थ (अद्रिभिः मदिरं मधु अधुक्षन्) ऋत्विजोंने पापाणोंसे मदकारी सोमरूप अमृत को निचोड़कर पात्रोंमें भराहै (तस्य बोधतम्) तिस मेरी स्तुतिको तुम जानो ॥ ३ ॥

सामवदोत्तरार्चिके सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः ।

अर्कस्य योनिमासदम् ॥ १ ॥

(इन्दो) हे सोम (मधुमत्तमः) अति मधुरतायुक्त (अर्कस्ययो नि आसदम्) पूजनीय यज्ञके स्थानमें बैठनेको (मरुत्वते इन्द्राय पवस्व) मरुता सहित इंद्रके अर्थ वरस ॥ १ ॥

तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृष्वन्ति धर्ष-
सिम् । सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ २ ॥

हे सोम ! (तं धर्णसि स्वाम्) तिस धारण करनेवाले तुझको (विप्राः वचोविदः) बुद्धिमान् स्तोता (परिष्कृण्वन्ति) सुशोभित करते हैं (आयवः त्वा संमृजन्ति) मनुष्य तुझको भलेप्रकार शोधन करते हैं २
रसं ते मित्रो अर्घ्यमा पिबन्तु वरुणः कवे ।

पवमानस्य मरुतः ॥ ३ ॥

(कवे) है कर्मसाधक सोम ! (पवमानस्य ते रसम्) संस्कार कियेहुए तेरे रसको (मित्रः) मित्र देवता (अर्घ्यमा) अर्घ्यमा देवता (वरुणः) वरुण देवता (मरुतः) (मरुतः) मरुत् देवता (पिबन्तु) पियें ॥ ३ ॥

मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि ।
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि

(सुहस्त्या) हे सुन्दर अंगुलियोंसे सुधारेहुए सोम (मृज्यमानः, समुद्रे वाचम् इन्वसि) शोधन कियाजाताहुआ तू कलशमें शब्दको प्रेरणा करता है (पवमान) हे पूज्यमान सोम ! (पिशङ्गं पुरुस्पृहं बहुलं रयिं अभ्यर्षसि) तुम स्तोताओंको सुवर्णके कारण पीतवर्ण अनेकोंके चाहनेयोग्य बहुतसा धन देते हो ॥ १ ॥

पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रद-
द्वने । देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभि-
रञ्जानो अर्षसि ॥ २ ॥

(वृषः पुनानः) मनोरथ पूर्ण करनेवाला सोम संस्कार कियाजाता हुआ सबको शुद्ध करे (अव्यये वारे पवमानः) उनके दशापवित्रमें छानाजाताहुआ (वने अचिक्रदन्) जलमें शब्द करताहुआ (सोम) हे सोम (पवमान) पूज्यमान तू (गोभिः अञ्जानः) गौके दुग्ध घृतादि से मिलायाजाताहुआ (निष्कृतम् अर्षसि) देवताओंके संस्कार किये हुए स्थानको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

एतमु त्थं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम् ।
समादित्येभिरख्यत ॥ १ ॥

(सिन्धुमातरम्) नौ समुद्र हैं माता जिसकी ऐसे (त्यं एतम्) तिस इस सोमको (दश क्षिपः सृजन्ति) दश अंगुलियें शोधती हैं और यह (आदित्येभिः समख्यत) आदित्योंके साथ मिलता है ॥१॥

समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ ।

स०, सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ २ ॥

(सुतः) अभिषव कियाहुआ सोम (पवित्रे) कलशमें (इन्द्रेण समं पति) इन्द्रके साथ युक्त होता है (उत वायुना आ) और वायुके साथ युक्त होता है (सूर्यस्य रश्मिभिः सम्) सूर्यकी किरणोंके साथ मिलता है ॥ २ ॥

स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान् ।

चारुमित्रे वरुणे च ॥ ३ ॥

हे सोम ! (मधुरः चारुः सः) मधुर रसवाला कल्याणरूप वह तू (नः) हमारे यज्ञमें (भगाय वायवे पूष्णे मित्रे वरुणे च पवस्व) भग वायु पूषा मित्र और वरुण देवताके अर्थ वरस ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्धिके सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खंडः समाप्तः

रेवतीर्नः सधमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः ।

क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १ ॥

(क्षुमन्तः) अन्नवान् हम (याभिः) जिन गौओंके साथ (मदेम) आनन्द भोगते हैं (इन्द्रे सधमादे) इन्द्रके हमारे साथ हर्षयुक्त होने पर (नः) हमारी वह गौएं (रेवतीः तुविवाजाः) धी दूध आदिवालीं और बलवालीं हों ॥ १ ॥

आ घ त्वावां त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवी-

यानः । ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २ ॥

(धृष्णो) हे धृष्टतायुक्त इन्द्र ! (त्वावान्) तुझसा देवता (त्मना युक्तः) हमारे ऊपर अनुग्रह बुद्धिसे युक्त होकर (ईयानः) हमारा याचना कियाहुआ (स्तोतृभ्यः) स्तोतोओंके ऊपर अनुग्रह करनेको उनके इच्छित पदार्थको (घ आ ऋणोः) अवश्य ही लाकर डालें (चक्रयोः अक्षं न) जैसे कि रथके पहियोंमें धुरी डालते हैं ॥ २ ॥

आ यद्दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम् ।

ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३ ॥

(शतक्रतो) हे इन्द्र ! (यत् दुवः कामम्) जो इच्छित धनकी प्राप्ति रूप स्तोताओंकी कामना है उसको (जरितृणाम्) स्तोताओंके ऊपर अनुग्रह करनेको (आऋणोः) लाकर डालो (शचीभिः अक्षं न) जैसे कि गाड़ीके योग्य व्यापारोंसे धुरीको लाकर डालते हैं ॥ ३ ॥

सुरूपकृत्नुमतये सुद्रुघामिव गोदुहे ।

जुह्मसि द्यविद्यवि ॥ १ ॥

(सुरूपकृत्नुम्) सुन्दररूपयुक्त कर्मके कर्ता इन्द्रको (उतये) अर्ज्ञाके लिये (द्यवि द्यवि) प्रतिदिन (जुह्मसि) आह्वान करते हैं (गोदुहे सुद्रुघां इव) जैसे गौण दुहनेवालेके लिये सुन्दर दूध देनेवाली गौओंको पुकारते हैं ॥ १ ॥

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव ।

गोदा इदेवतो मदः ॥ २ ॥

(सोमपाः) हे सोम पीनेवाले इन्द्र ! सोम पीनेको (नः सवना उप आगहि) हमारे तीनों सवनोंके समीप आओ (सोमस्य पिव) सोम को पियो (रेवतः मदः) धनवान् तुम्हारा प्रसन्न होना (गोदा इन्) गौओंकी प्राप्ति करानेवाला ही है ॥ २ ॥

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् ।

मानो अति र्व्य आगहि ॥ ३ ॥

(अथ) सोमपानके अनन्तर हे इन्द्र (ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम) तेरे अत्यन्त समीप वर्त्तमान सुन्दर बुद्धिवाले पुरुषोंमें स्थित होकर हम तुम्हें जानें । तुम भी (आगहि) आओ । और (नः अती) हमें छोड़कर (माख्यः) हमसे अन्य पुरुषसे अपना स्वरूप मतकहो ३

उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव ।

महान्तं त्वा महीनां सप्राजं चर्षणीनाम् ।

देवी जनित्र्यजीजनद्द्रा जनित्र्यजीजनत् ॥ १ ॥

(इंद्र) हे इन्द्र ! (उभे रोदसी) द्यावा पृथिवी दोनोंको (यत् आप प्राथ) जो तू पूर्ण करता है (उपा इव) जैसे कि उपा अपने प्रकाशसे सब जगत्का भर देती है (महीनां महान्तम्) बड़ोंके बड़े (चर्षणीनां सम्राजं त्वा) मनुष्योंके ईश्वर तुमको (देवी जनित्री) अदिति देवीरूपा माता (अजीजनत्) उत्पन्न करती हुई । इस कारण वह (भद्रा, जनित्री अजीजनत्) श्रेष्ठ माता हुई ॥ १ ॥

दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्तिं विभर्षि मन्तुमः ।

पूर्वेण मधवन्पदा वयामजो यथा यमः ।

देवीजनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत् ॥२॥

(मन्तुम) हे जानवान इंद्र ! (दीर्घं अङ्कुशं यथा) बड़े अङ्कुशकी समान (शक्तिं विभर्षि) शक्ति नामक शस्त्रको धारण करने हो (मधवन्) हं धनवान् इन्द्र (यथा अजः पूर्वेण पदा) जैसे वकरा अगले चरणसे (वयां, यमः) शाब्दको खेंचता है तैसे तुम शत्रुओंको खेंचते हो (देवी जनित्री अजीजनत्) अदिति देवीने तुमको प्रकट किया है (भद्रा जनित्री अजीजनत्) इस कारण वह श्रेष्ठ माता हुई ॥ २ ॥

अव स्म दुर्हणायतो मर्त्तस्य तनुहि स्थिरम् ।

अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मांश्च अभिदा-

सति । देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजी-

जनत् ॥ ३ ॥

(दुर्हणायतः मर्त्तस्य) दुःखदायक हरण करनेवाले मनुष्य शत्रुके (स्थिर अवतनुहि) दृढ़ बलको क्षीण करो (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमें मारना चाहता है (तम् इम्) उस इस शत्रुको (अधस्पदं कृधि) अपने चरणके नीचे दबाहुआ करो (देवी जनित्री अजीजनत्) तुम्हें अदिति देवीरूपा माताने प्रकट किया है (भद्रा जनित्री अजीजनत्) इसकारण वह श्रेष्ठ माता हुई ॥ ३ ॥

सामनेदेशतराँचिके सप्तमाध्यायस्य पञ्चम खण्डः समाप्त

परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत् ।

मेदेषु सर्वधा असि ॥ १ ॥

(गिरिष्ठाः स्वानः सोमः) पाषाणोंके मध्यमें स्थित शब्द करताहुआ सोम (पवित्रे पर्यक्षरत्) दशापवित्रमेंको चारों ओरको टपकता है हे सोम ! तू (मदेषु सर्वधा असि) मदकारी सघन करनेवालोंमें सबका पोषण करनेवाला है ॥ १ ॥

त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ २ ॥

हे सोम ! (त्वं विप्रः) तू विशेष तृप्त करनेवाला है (त्वं कविः) तू बुद्धिवर्धक है इसकारण तू (अन्धसः जातं मधु प्र) अन्नसे उत्पन्न हुए मधुररसको देता है (मदेषु सर्वधा असि) मादकोंमें सबका धारक है २

त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ ३ ॥

हे साम (विश्वे देवासः) सकल देवता (सजोषसः) समान प्रीति-वाले होकर (त्वे पीतिम्) तेरे पानको (आशत) प्राप्त हुए (मदेषु सर्वधा असि) तू मादकोंमें सबका धारण वा सकल मनोरथोंका दाता है ३

स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडा-
नाम् सोमां यः सुक्षितीनाम् ॥ १ ॥

(यः सोमः) जो सोम (वसूनां आनेता) धनोंका लानेवाला है (यः रायाम्) जो दूधवाली गौओंको लानेवाला है (यः इडानाम्) जो अन्नोंका लानेवाला है (यः सुक्षितीनाम्) जो सुन्दर पुत्र भृत्यादि युक्त स्थानोंको देनेवाला है (सः सुन्वे) वह सोम ऋत्विजोंके द्वारा सुसिद्ध किया गया ॥ १ ॥

यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वाय्य-
मणा भगः । आ येन मित्रावरुणा करामह

एन्द्रमवसे महे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यस्य ते इन्द्रः पिबात्) जिस तेरे रसको इन्द्र पीता है (यस्य मरुतः) जिसको मरुत् पीते हैं (वा) और (अर्यमणा भगः यस्य) अर्यमाके साथ भग देवता जिसको पीता है (येन महे अवसे मित्रावरुणा आ, इन्द्रं आ) जिस सोमके द्वारा बड़ीभारी रक्षाके लिये

मित्रावरुण देवताको अभिमुख करते है और इन्द्र देवताको अभिमुख करते हैं ॥ २ ॥

तं व. सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।

शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्त्तिभिः ॥ १ ॥

(सखायः) हे मित्र ऋत्विजों ! (व मदाय पुनानं तं अभि गायत) तुम देवताओंके मदकें लिये पूयमान सोमकी स्तुति करो (शिशुं न) जैसेबालकोंके आभूषणोंसे और दुग्ध आदि पिलानेसे सुंदर करने हैं तैसे ही सोमको (हव्यैः गूर्त्तिभिः स्वदयन्त) हवि और स्तुतियोंसे स्वादयुक्तकरो ॥ १ ॥

संवत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिनवानो अज्यते ।

देवादीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २ ॥

(देवादीः मदः मतिभिः परिष्कृतः हिनवानः इन्दुः समज्यते) देवताओंका रक्तक आनन्ददायक और स्तुतियोंसे शोभायमान प्रेरणा कियाजाता हुआ सोम वसतीवरी जलोसे भलेप्रकार सींचाजाता है (मातृभिः वत्सः इव) जैसे कि—बछड़ा माता गौओंके द्वारा प्रेमसे सींचा जाता है ॥ २ ॥

अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये ।

अयं देवेभ्यो मधुमत्तर सुतः ॥ ३ ॥

(अयं दक्षाय साधनः) यह सोम बल बढ़ानेके लिये साधन है (अयं शर्धाय वीतये) यह सोम बल प्राप्ति और देवताओंके भक्षणके लिये है (अयं सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः) यह सोम अभिषव किया हुआ इन्द्रादि देवताओंके लिये परममधुरतायुक्त होता है ॥ ३ ॥

सोमाः पवन्त इन्द्रोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः ।

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः १

(मित्राः) देवताओंके मित्ररूप (स्वानाः) संस्कार कियेजाते हुए (अरेपसः स्वाध्यः) पापरहित और ध्यान करनेमें सुन्दर (स्वर्विदः गातुवित्तमाः इन्द्रवः सोमाः) सर्वज्ञ वा स्वर्गदायक मार्गके प्राप्त करानेवाले और दीप्तियुक्त सोम (अस्मभ्यम् पवन्ते) हमारे अर्थ कलशमें प्राप्त होतेहैं ॥ १ ॥

ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः ।

सूरासो न दर्शतासो जिगत्तवो ध्रुवा घृते ॥२॥

(पूतासः विपश्चितः) पवित्र और बुद्धिको बढ़ानेवाले (दध्याशिरः घृते जिगत्तवः) दधिसे मिले और वसतीवरी जलमें जानेवाले (ध्रुवाः ते सोमासः) जिस पात्रमें स्थिर रहनेवाले वह सोम (सूरासः न) सूर्योकी समान (दर्शतासः) पात्रोंमें सबके दर्शन योग्य हैं ॥ २ ॥

सुस्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि ।

इपमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥३॥

(गौः अधि त्वचि) गौकी कांतिरूप दूधमें (चितानाः) दीम्बनेवाले (विभ्रद्रिभिः सुस्वाणासः) अनेको प्रकारके पापाणोंसे कूटेजाते हुए (वसुविदः) धनदेनेवाले यह सोम (अस्मभ्यं अभितः इप समस्वरन्) हमें चारों ओरसे अन्न देते हैं ॥ ३ ॥

अया पवा पवस्वैता वसूनि मांश्च श्रत्व इन्दो

सरसि प्रधन्व । व्रघ्नश्चिद्यस्य वातो न जूति

पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात् ॥ १ ॥

हे सोम ! (अया पवा) इस पवित्र करनेवाली धारासे (एना वसूनि) इन धनोंको (पवस्व) वरसा (इन्दो मांश्च श्रत्व सरसि प्रधन्व) हे सोम ! प्रतिष्ठा करनेवालोंको प्राप्त होनेवाला वसतीवरी जलमें पहुँच (यस्य) जिस सोमका शोधन होने पर (व्रघ्नश्चिन्) सबका मूलभूत आदिन्य भी (वातः न) वायुकी समान (जूतिम्) वेगको प्राप्तहुआ (पुरुमेवश्चिन्) अधिक बुद्धिवाला इन्द्र भी (तकवे मह्यम्) सोमको प्राप्त होनेवाले मुझ (नरं धात्) यज्ञादि कर्म करनेवाला पुत्र देय ॥१॥

उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य

तीर्थे । पष्टिं, सहसा नैगुतो वसूनि दृक्षं न

पक्वं धूनवद्रणाय ॥ २ ॥

हे सोम (उत) और (श्रवाय्यस्य तीर्थे) सबके सुननेयोग्य तेरे स्थान (नः श्रुते) हमारे प्रसिद्ध यज्ञमें (एना पवया) इस पवित्र

धारासे (पवस्व) वरस (नैगुतः) सोम (षष्टि सहस्रा वसूनि) साठ सहस्र धनोंको (रणाय) शत्रुओंके जीतनेके लिये (धृनवत्) हमें देता-हुआ (वृक्षं न पक्वम्) जैसे पक्के फलों वाला वृक्ष फलार्थी को फल देता है ॥ २ ॥

महीमे अस्य वृषनाम शूषे, माथ्यंश्चत्वे वा पृ-
शने वा वधत्रे । अस्वापयन्निगुतः स्नेहयच्चा
पामित्राँ अपाचितो अचेतः ॥ ३ ॥

(मही) बहुत (वृषनाम) बाणोंका वरसामा और शत्रुओंको नमाना (हमे अस्य शूषे) यह दोनों कर्म इस सोमके सुखदायक होते हैं । जो कर्म (मांश्चत्वे) घोड़ोंके द्वारा होनेवाले युद्धमें (वा पृशने) या बाहु-युद्धमें (वा वधत्रे) अथवा शत्रुनाशन युद्धमें (निगुतः अस्वापयन्) शत्रुओंको मारताहुआ (स्नेहयत्) युद्धसे शत्रुओंको भगाताहुआ । हे सोम (अमित्रान् अपाचेत) शत्रुओंको दूर कर (अपाचितः इतः) अग्नि होत्र न करनेवालोंको हमारे पाससे अलग कर ॥ ३ ॥

अग्नेत्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो ।

भुवो वरुथ्यः ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (वरुथ्यः) भजनेयोग्य (त्वम्) तू (नः अन्तमः) हमारे अत्यन्त समीप (उत) और (त्राता) रक्षक (शिवः) सुखकारी (भवः) हो ॥ १ ॥

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो ।

रयिं दाः ॥ २ ॥

(वसुः) व्यापक (वसुश्रवाः) व्यापक अन्नवाला (अग्निः) सब का अग्रणी अग्नि तू (अच्छ नक्षि) हमारे अभिमुख होकर व्याप्त हो (द्युमत्तमः रयिं दाः) अत्यन्त दीप्तिमान् तू हमें धन दे ॥ २ ॥

त त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे
सखिभ्यः ॥ ३ ॥

(शोचिष्ठ दीदिवः) हे अत्यन्त कान्तिमान् अपने तेजोंसे दीप्त अग्नि

देव ! (तं त्वा सुम्नाय सखिभ्यः) ऐसे तुम्है सुखके लिये और पुत्रादि हितकारियोंके लिये (नूनं ईमहे) अवश्य ही प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥

इमा नुकं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः

(इमा भुवनानि) यह सब भुवन (नुकं सीषधेम) शीघ्र ही हमारे सुखका साधन करें (इन्द्रः च विश्वे देवाः च) इन्द्र और विश्वेदेवा भी मेरे इस मनोरथ को सिद्ध करें ॥ १ ॥

**यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह
सीषधातु ॥ २ ॥**

(आदित्यैः सह इन्द्रः) अदितिके पुत्र अन्य देवताओं सहित इन्द्र (नः यज्ञं च तन्वं च प्रजाञ्च सीषधातु) हमारे यज्ञको भी शरीरको भी और सन्तानको भी सफलमनोरथ करें ॥ २ ॥

**आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा
करत् ॥ ३ ॥**

(आदित्यैः मरुद्भिः सगणः इन्द्रः) अदितिके पुत्र मित्रादि देवता, मरुत् और गणों सहित इन्द्र (अस्मभ्यं भेषजा करत्) हमारे लिये कार्यसाधक औषधोंका सम्पादन करें ॥ ३ ॥

प्रवोर्चोप ॥ १ ॥

हे ऋत्विक् यजमानो ! (वः उप प्रार्च) तुम समीप होकर इन्द्रका भले प्रकार पूजन करो ॥ १ ॥

सामवेदोत्तराधिके सप्तमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः सप्तमाध्यायस्य समाप्तः ।

अष्टम अध्याय ।

**प्रकाव्यमृशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा
विवक्ति । महिब्रतः शुचिवन्धुः पावकः पदा
वराहो अभ्येति रेभन् ॥ १ ॥**

(उशना इव) उशना ऋषिकी समान (काव्यं ब्रुवाणः देवः) स्तोत्रका उच्चारण करता हुआ स्तोता (देवानां जनिमा प्र विवक्ति) इन्द्रादि देवताओंके प्रकट होनेको उत्तमतासे कहता है (महिब्रतः)

अनेकों पराक्रमवाला (शुचिबन्धुः पावकः वराहः) दीप्त तेजवाला पापों का शोधक श्रेष्ठ दिनमें संस्कार किया हुआ सोम (रेभन् पदा अभ्येति) शब्द करता हुआ पात्रोंमें जाता है ॥ १ ॥

प्रहृथं सासस्तृपला वग्नुमच्छाऽमादस्तं वृ-
पगणा अयासुः । अङ्गोषिणं पवमानथं सखा-
यो, दुर्मर्षं वाणं प्र वदन्ति साकम् ॥ २ ॥

(हंसासः वृपगणाः) शत्रुओंके सताये हुए वृषगण नामक ऋषि (अमान्) शत्रुओंके बलसे आसित हो (तृपला, वग्नुं, अच्छ, अस्तं, प्रायासुः) शीघ्र ही अभिषवके शब्दकी ओरको लक्ष्य करके यज्ञशाला में पहुँचे (सखायः) मित्ररूप स्तोता (अङ्गोषिणं, दुर्मर्षं, पवमानं, वाणं साकं प्र वदन्ति) स्तोत्रकेयोग्य शत्रुओंको असह्य सोमके निमित्त वाग्नामक वाजेंको एकसाथ बजाते हुए ॥ २ ॥

स योजत उरुगायस्य जूतिं, वृथा क्रीडन्तं
मिमते न गावः । परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो
दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृजः ॥ ३ ॥

(सः उरुगायस्य जूतिं योजते) यह, अनेकोंसे स्तुति किये हुए अपनी गतिको अन्तरिक्षमें प्रेरणा करता है (वृथा क्रीडन्तं गावः न मिमते) अनायास गमन करते हुए सोमकी गतिका अन्य गमन करनेवाले माप नहीं कर सकते (तिग्मशृङ्गः परीणसं कृणुते) तीक्ष्णतेजवाला अन्तरिक्षवाणी सोम अनेकों प्रकारके तेजको फैलाता है (दिवा हरिः ददृशे) दिनमें हरे वर्णका दीखता है (नक्तं मृजः) रात्रिमें स्पष्ट प्रकाशयुक्त दीम्बता है ॥ ३ ॥

प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः ।
सोमासो राये अक्रमुः ॥ ४ ॥

(स्वानासः सोमासः) अभिषवके समय पात्रोंमें शब्द करते हुए सोम (रथा इव) शब्दायमान रथोंकी समान (अर्वावन्तो न) हींसते हुए घोड़ोंकी समान (श्रवस्यवः) शत्रुओंसे अन्न लेना चाहते हुए (राये अक्रमुः) यजमानोंके धनके लिये पराक्रम करते हैं ॥ ४ ॥

हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः ।

भरासः कारिणामिव ॥ ५ ॥

युद्धमें जातेहुए (रथा इव) रथोंको समान (हिन्वानासः) यज्ञमें जातेहुए सोम (गभस्त्योः दधन्विरे) ऋत्विजोंकी भुजाओंमें स्थापन कियेजाते हैं (भरासः कारिणां इव) भारवाहियोंके हाथोंमें जैसे ॥५॥

राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते

यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ६ ॥

(सोमासः) सोम (प्रशस्तिभिः राजानः न) स्तुतिरूप वाणियोंसे राजे जैसे (सप्त धातृभिः यज्ञः न) सात होत्राओंसे यज्ञ जैसे (गोभिः अञ्जते) गोघृणादिसे संस्कार कियेजाते हैं ॥ ६ ॥

परि स्वानास इन्द्रवो मदाय बर्हणा गिरा ।

मधो अर्षन्ति धारया ॥ ७ ॥

(स्वानासः इन्द्रवः) अभिषव कियेजातेहुए सोम (बर्हणा गिरा) वड़ीभारी स्तुतिरूप वाणीसे युक्त होकर (मदाय मधाः धारया परि अर्षन्ति) मधुकें लिये मधुररसकी धारामें चागे औरसे वरसते हैं ७

अपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उपसा भगम् ।

सूरा अण्वं वितन्वते ॥ ८ ॥

(विवस्वतः आपानासः) इन्द्रके पीनेकी वस्तुरूप (उपसः भगं जिन्वन्तः) उषाकी शांभाको फेंलातेहुए (सूराः) सोम (अण्वं वितन्वते) अभिषवके समय शब्दको करते हैं ॥ ८ ॥

अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः ।

वृष्णो हरस आयवः ॥ ९ ॥

(मतीनां कारवः) स्तुतियोंके कर्त्ता (प्रत्नाः) पुरातन (वृष्णः हरसः) सोमको लानेवाले (आयवः) मनुष्य ऋत्विज (द्वारा) अप ऋण्वन्ति) यज्ञके द्वारोंको खोलते हैं ॥ ९ ॥

समीचीनास आशत होतारः सप्त जानयः ।

पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १० ॥

(सर्माचीनासः) श्रेष्ठ (जानयः) जातिमें सदृश (एकस्य पदं पिप्रतः) सोमके स्थानको पूर्ण करनेहुए (सप्त आशत) सात होता व्यापते हैं अर्थात् कर्मानुष्ठानमें लगते हैं ॥ १० ॥

नाभा नामिं न आददे चक्षुषा सूर्यं दृशे ।
कवेरपत्यमादुहे ॥ ११ ॥

(चक्षुषा सूर्यं दृशे) चक्षुसे सूर्यके देखनेको (नामिं नः नाभा आददे) ब्रह्मकी नाभिरूप सोमको मैं अपनी नाभिमें ग्रहण करता हूँ अर्थात् सोमको पीकर नाभिस्थानमें पहुँचाता हूँ (कवेः अपत्यं आदुहे) सोम की किरणको पूर्ण करता हूँ ॥ ११ ॥

अभि प्रियं दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम् ।
सूरः पश्यति चक्षसा ॥ १२ ॥

(सूरः) श्रेष्ठ पराक्रमवाला इन्द्र (चक्षसा) चक्षुसे (दिवः प्रियं, पदम्) अपने प्रीतिपात्र (गुहा हितम्) अध्यर्चुओं करके हृदयमें स्थापन कियेहुए अर्थात् पियेहुए सोमको (अभिपश्यति) देखता है ॥ १२ ॥

मामं वशं न गार्चिकं अत्र माध्यापस्य प्रथमं त्वष्ट समाप्तः

असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रियः ।
विदाना अस्य योजना ॥ १ ॥

(अस्य योजना विदानः) इस यजमानके कियेहुए तिन देवताओं के योग्य संबन्धोंको जानतेहुए (सुश्रियः इन्द्रः) शोभायमान सोम (धर्मन् ऋतस्य पथा असृग्रम्) कर्ममें यज्ञके मार्गसे रचेजाते हैं ॥ १ ॥

प्रधारामधो अप्रियो महीरपो विगाहते ।
हविर्हविःषु वन्द्यः ॥ २ ॥

(हविःषु वन्द्यः हविः) हवियोंमें प्रशंसाके योग्य हविरूप सोम (महीः अपः विगाहते) बहुतमे जलोंका विलोडन करता है (मधोः अप्रियः धाराः प्र) सोमकी मुख्य धारें पड़ती हैं ॥ २ ॥

प्र युजा वाचो अप्रियो वृषो अचिक्रदद्वने ।
सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ ३ ॥

(अग्रियः युजाः वाचः प्र) हवियोंमें मुख्य सोम युक्त वाणियोंको प्रकट करता है (वृषः सत्यः अध्वरः) मनोरथपूरक सत्यस्वरूप इसा से रहित सोम (सद्य, अभि, वने, अचिक्रदत्) यज्ञशालाके प्रति जल में शब्द करता है ॥ ३ ॥

परि यत्काव्या कविर्नृम्णा पुनानो अर्षति ।
स्वर्वाजी सिषासति ॥ ४ ॥

(कविः नृम्णा पुनानः) सोम बलोंका शोधन करताहुआ (काव्या यद् परिअर्षति) स्तोत्रोंको जब प्राप्त होता है तब (स्वः बाजी सिषासति) स्वर्गमें पलवान् अन्नवान् इन्द्र यज्ञमें आनेको अपने बलका सेवन करना चाहता है ॥ ४ ॥

पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव भीदति ।
यदीमृष्वन्ति वेधसः ॥ ५ ॥

(यद् ईम् वेधसः ऋष्यन्ति) जब इस सोमको कर्मोंके कर्त्ता अस्त्रिज प्रेरणा करने हैं तब (पवमानः स्पृधः अभिसीदति) धरसना हुआ यह सोम स्पर्धा करनेवाले यज्ञमें विघ्नकारी राक्षसाविको नष्ट करनेको पहुँचता है (विशः राजा इव) जैसे कि—राजा स्पर्धा करने वाले मनुष्योंको नाश करनेको जाता है ॥ ५ ॥

अथ्या वारेपरि प्रियो हरिर्वनेषु सिदति ।
रेभो वनुष्यते मती ॥ ६ ॥

(हरिः प्रियः) हरे वर्णका और देवताओंका प्यारा सोम (वनेषु) जलोंमें मिलाहुआ (अथ्याः वारे परिसीदति) उनके पवित्रमें छुनता है (रेभः मती वनुष्यते) अभिषवके समय शब्द करताहुआ स्तुतिसे सेवन कियाजाता है ॥ ६ ॥

स वायुमिन्द्रमश्विना सादं मदेन गच्छति ।
रणा या अस्य धर्मणा ॥ ७ ॥

(यः, अस्य, धर्मणा, रणा) जो यजमान सोमके क्रयण अभिषव आदि कर्मोंसे क्रीड़ा करता है (सः वायु इन्द्रं अश्विना मदेन साकं गच्छति) वह यजमान वायु इन्द्र और अश्विनीकुमारको मदके सहित पाना है ॥ ७ ॥

आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः ।
विदाना अस्य शक्मभिः ॥ ८ ॥

जिन यजमानोंकी (मधोः ऊर्मयः) सोमकी तरङ्ग (मित्रावरुणा भगं पवन्ते) मित्रावरुण देवता और भग देवताके अर्थ बरसती हैं वह यजमान (अस्य सोमस्य विदानः) इस सोमको जानतेहुए (शक्मभिः) सुखोंसे युक्त होते हैं ॥ ८ ॥

अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये ।
श्रवो वसूनि संजितम् ॥ ९ ॥

(रोदसी) हे द्यावापृथिवी के अधिष्ठात्री देवताओं ! तुम (मध्वः वाजस्य सातये) देवताओंको हृष देनेवाले सोमरूप अन्नके लाभ के लिये (अस्मभ्यं रयिं धवः वसूनि संजितम्) हमें धन अन्न और पशु आदि सम्पत्तियें दो ॥ ९ ॥

आ ते दक्षं मयो भुवं वह्निमद्या वृणीमहे ।
पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ १० ॥

हे सोम ! हम यजन करनेवाले (ते दक्षं अद्य आवृणीमहे) तेरे बल की आज अभिमुख होकर आराधना करने हैं वह तेरा बल (मयो भुवम्) सुखको उत्पन्न करनेवाला (वह्निम्) धनादिकी प्राप्ति करानेवाला (पान्तम्) शत्रुओं से रक्षा करनेवाला और (पुरुस्पृहम्) कामना सिद्धिके निमित्त अनेकों को चाहने योग्य है ॥ १० ॥

आ मन्द्रमावरेण्यमाविप्रमा मनीषिणम् ।
पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ ११ ॥

हे सोम ! (मन्द्रम् आ) मदकारी तेरी आराधना करते हैं (वरेण्यं आ) सबके सेवनीय तेरी सेवा करते हैं (विप्रम् आ) तुझ बुद्धिमान् की आराधना करते हैं (मनीषिणम् आ) तुझ स्तुतिवाले की आराधना करते हैं (पान्तं पुरुस्पृहं आ) सबकी रक्षा करनेवाले और अनेकों को चाहनेयोग्य तेरी आराधना करते हैं ॥ ११ ॥

आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वाम् ।
पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ १२ ॥

(सुक्रतो) हे श्रेष्ठ बुद्धिवाले सोम ! (रथिं आ) धनकी प्रार्थना करते हैं (सुचेतुनं आ) श्रेष्ठ ज्ञानकी प्रार्थना करते हैं (तनुषु आ) अपने पुत्रोंमें धन और श्रेष्ठ ज्ञानकी प्रार्थना करते हैं (पान्तं पुरुस्पृहं आ) सबकी रक्षा करनेवाले और अनेकोंके चाहने योग्य तेरी हम आराधना करते हैं ॥ १२ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या, वैश्वानरमृत
आजातमग्निम् । कविं, सम्राजमतिथिं ज-
नानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ १ ॥

(दिवः मूर्धानम्) द्युलोकके मस्तकरूप (पृथिव्याः अरतिम्) पृथिवीके स्वामी (वैश्वानरम्) सकल मनुष्योंसे संबन्ध रखनेवाले (ऋते आ जातम्) यज्ञके निमित्त सृष्टिकी आदि में उत्पन्न हुए (कविं सम्राजम्) क्रान्तकर्मा और भलेप्रकार विराजमान (जनानां अतिथिम्) यजमानोंके अतिथिकी समान पूजनीय (आसन्) देवताओंके मुखरूप (नः) हमारे (पात्रम्) रक्षक वैश्वानर अग्नि (देवाः) देवता वा ऋत्विज (आजनयन्त) यज्ञमें अरगियोंसे प्रकट करते हुए ॥ १ ॥

त्वां विश्वे अमृत जायमानं, शिशुं न देवा
अभि संनवन्ते । तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्,
वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ २ ॥

(अमृत) हे अमर अग्ने (विश्वे देवाः) सकल स्तुति करनेवाले (जायमानं त्वाम) अरगियोंसे प्रकट होते हुए तुझको (शिशुं न अभिसंनवन्ते) बालककी समान सराहते हैं (वैश्वानर) हे अग्ने ! (यद्, पित्रोः अदीदे) जब पालन करनेवाले याचापृथिवीके मध्यमें दीप्त होता है, तब यजमान (तव क्रतुभिः अमृतत्वं आयन्) तेरे ज्योतिष्मत् आदि यज्ञोंके द्वारा देवभावको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

नाभिं यज्ञानां, सदनं, रयीणां, महामाहा-
वमभि संनवन्त । वैश्वानरं, रथ्यमध्वरा-
णां, यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः ३ ॥

(यज्ञानां नाभिम) बह्नोंके नाभिरूप (रयीणां सदनम्) धनोंके षड्वितीय भण्डार (महाम्) बड़े (आहावम्) जिसमें आहुति दीजाती है ऐसे अग्नि (अभिसंनवन्ते) ऋत्विज् भलेप्रकार स्तुति करते हैं तथा (वैश्वानरं अध्वराणां रथ्यं) सकल मनुष्योंके संबन्धी यज्ञोंके निर्वाहकर्ता (यज्ञस्य केतुम्) यज्ञके ज्ञापक अग्नि (देवाः जनयन्त) देवता वा ऋत्विज मन्थनसे उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विषा गिरा ।

महिअत्रावृतं बृहत् ॥ १ ॥

हे मेरे ऋत्विजों ! (वः मित्राय वरुणाय) तुम मित्रावरुणके अर्थ (विषा गिरा गायत) व्यापक वाणीसे स्तुति करो (महिअत्रौ) हे अधिकबलवाले मित्रावरुण देवताओं ! (ऋतम्) यज्ञमें (बृहत्) बृहत्सी स्तुतिके लिये आओ ॥ १ ॥

सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च ।

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २ ॥

(या मित्रश्च वरुणश्च) जो मित्र और वरुण (उभा) दोनों (सम्राजा) सबके स्वामी (घृतयोनी) जलके उत्पादक (देवा) प्रकाशवान् (देवेषु प्रशस्ता) सब देवताओंमें श्रेष्ठ है उनकी स्तुति करो २

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।

महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३ ॥

(ता) वह मित्रावरुण देवता (नः) हमें (पार्थिवस्य) मूलोकके (दिव्यस्य) द्युलोकके (महः रायः) बृहत्से धनके देनेको (शक्तम्) समर्थ हो । हे देवताओं ! (वाम) तुम दोनोंके (देवेषु महि) देवताओंमें पृजनीय (क्षत्रम्) बलकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ।

अर्णवीभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥

(चित्रभानो इन्द्र !) हे विचित्र प्रकाशवाले इन्द्र ! (आ याहि) इस कर्ममें आइये (अर्णवीभिः सुताः) ऋत्विजोंकी अरुण लियोंसे सिद्ध कियेहुए (तना पूतासः) नित्य शुद्ध (इमे) यह सोम (त्वायवः) तुम्हारे हैं ॥ १ ॥

इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः ।
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (धिया इषित) हम यजमानोंकी भक्तिसे प्रेरणा कियेहुए (विप्रजूतः) ऋत्विजों करके प्रेरणा कियेहुए तुम (सुतावतः वाघतः) अभिषव किये सोमवाले ऋत्विजके (ब्रह्माणि) वेदरूप स्तोत्रोंको (उप) स्वीकार करनेके लिये (आयाहि) इस कर्ममें आओ २

इन्द्रायाहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः ।
सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥

(हरिवः) हे इन्द्र ! तुम (तूतुजानः) शीघ्रताकरते हुए (ब्रह्माणि उप) वेदरूप स्तोत्रोंके स्वीकार करनेको (आयाहि) इस कर्ममें आओ (सुते नः चनः दधिष्व) सोमके अभिषववाले इस कर्ममें हमारे हविरूप अन्नको धारण करो ॥ ३ ॥

तमाडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्
कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ १ ॥

(यः अर्चिषा विश्वा वना परिष्वजत्) जो अग्नि ज्वालारूप तेजसे सकल वनोंको घेर लेता है । और (जिह्वया कृष्णा कृणोति) ज्वालामें जलाकर कृष्ण वर्णके करदेताहै हे स्तोत्रः ! (त इडिष्व) उस अग्नि की स्तुति करो ॥ १ ॥

य इद्ध आविवासति सुम्नामिन्द्रस्य मर्त्यः ।

द्युम्नाय सुतरा अपः ॥ २ ॥

(यः मर्त्यः) जो मनुष्य (इद्धे) प्रज्वलित अग्निमें (इन्द्रस्य मुम्न आविवासति) इन्द्रके अर्थ सुखदायक हविको अर्पण करता है । उस मनुष्यके (द्युम्नाय सुतरा अपः) अन्नके लिये सुखसे पार पाने योग्य वर्णके जलोंको इन्द्र करै ॥ २ ॥

ता नो वाजवतीरिष आशून् पिष्टतमर्वतः ।

एन्द्रमग्निं च वोढवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र अग्नि देवताओं ! (ता) वह तुम (इन्द्रं च अग्निं आ वोढवे)

इन्द्र और अग्नि को सब ओरसे हवि पहुँचानेकेलिये (नः) हमें (वाजवतीः इपः) बलयुक्त अन्न (आशन् अर्चतः) शीघ्रगामी घोड़े (पिपृतम्) दो ॥ ३ ॥

सामवेदात्तरात्रिके षष्ठमाध्यायस्य तृतीया खंड समाप्तः

प्रो अयासीदिन्द्रुरिन्द्रस्य निष्कृतः सखा स-
ख्युर्न प्रमिनाति सं गिरम् । मर्य इव युवति-
भिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा १

(इन्द्रुः) सोम (इन्द्रस्य निष्कृत प्रो अयासीत्) इन्द्रके उदररूप स्थानको प्राप्त हाता है और प्राप्त होकर (सखा सख्युः न सङ्किं प्रमिनाति) मित्ररूप हुआ मित्र इन्द्रके उदरमें नहीं समाता है (मर्यः युवतिभिः इव) मनुष्य जैसे तरुणी स्त्रियोंके साथ मिलता है तैसे (सोमः समर्षति) सोम वसन्तीवगी जलोंके साथ मिलता है । अभि- पव कालके पीछे सोम (शतयामना पथो कलशे) अनेकों साधनसा- मग्रीवाले दशापवित्रके मार्गसे द्रोणकलशमें जाता है ॥ १ ॥

प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः सं-
वरणेप्वक्रमुः । हरिं क्रीडन्तमभ्यनूषत स्तु-
भोऽभि धेनवः पयसेदशिश्नयुः ॥ २ ॥

हे सोमो ! (वः धियः) तुम्हारा ध्यान धरनेवाले (मन्द्रयुवः पनस्युवः विपन्युवः) मदकारी शब्दको चाहनेवाले और स्तुतिके अभि- लापी स्तोता (संवरणेप्वक्रमुः) यज्ञमण्डपोंमें कर्मानुष्ठानोंमें लगते हैं (स्तुभः हरिं क्रीडन्तं अभ्यनूषत) स्तोता हरे वर्णके क्रीडनशील सोमकी स्तुति करते हैं (धेनवः पयसा इत् अभिशिश्नयुः) गौएँ अपने दूधसे इस सोमकी ओरको लक्ष्म करके अधिक दुग्ध देती हैं ॥ २ ॥

आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पव-
स्व पवमान ऊर्मिणा । या नो दोहते त्रिरह-
न्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

(इन्दो सोम पवमानः) हे दीप्त सोम ! पवित्र तू (नः संयतं पि- प्युषी इषम्) हमारे संग्रह करेहुए बहुतसे अन्नको (ऊर्मिणा पवस्व) प्रवाहरूप अपने रसमें पवित्र करो (या इत्) जो अन्न (नः अहन्

त्रिः असश्चुषी) हमारे दिनमेंके तीन सवनोंमें निर्वाधरूपसे (क्षुमत् वाजबत् मधुमत् सुवीर्यं दोहते) सर्वत्रप्रसिद्ध बलवान् मधुरताभरे सुन्दरशक्तिमान् पुत्रको देता है ॥ ३ ॥

नकिष्टं कर्मणा नशयश्चकार सदावृधम् ।
इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्त्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमो-
जसा ॥ १ ॥

(यः) जो पुरुष (सदावृधं विश्वगूर्त्तं ऋभ्वसं ओजसा अधृष्टं इन्द्रं) सदा वृद्धि देनेवाले सबके प्रशंसनीय महान और अपने बलसे शत्रुओंका निरस्कार न पानेवाले तथा शत्रुओंका निरस्कार करनेवाले इन्द्र को (न) इस समय (यज्ञैः चकार) यज्ञोंके द्वारा अनुकूल करलेता है (तम्) उस पुरुषको । दृमरा डह करनेवाला पुरुष (कर्मणा नकिः नशन्) हनन आदि व्यापारसे नहीं दबा सकता ॥ १ ॥

अपाढमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरु-
ज्यः : सं धेनवो जायमाने अनोनवृद्यावः
क्षामीरनोनवुः ॥ २ ॥

(अपाढं उग्रं पृतनासु सासहिं) असहनशील परमबली शत्रुमेनाओंमें निरस्कार करनेवाले । इन्द्रकी मैं स्तुति करना हूँ (यस्मिन् जायमाने) जिस इन्द्रके प्रकट होनेपर (महीः उरुज्यः धेनवः) महिषियें और बड़े वेगवाली एवं हविसे तृप्त करनेवाली गौण और वकरियें (समनोनवुः) प्रणाम करती हैं (द्यावः क्षामीः समनोनवुः) द्युलोक और पृथिवी लोकके सकल प्राणी भी प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्त

सखाय आनिषीदत पुतानाय प्रगायत । शिशुं
न यज्ञैः परिभूषत श्रिये ॥ १ ॥

(सखायः) हे मित्र स्तौता और ऋत्विजों ! (आ निषीदत) स्तुति करनेको बैठो (पुतानाय प्रगायत) सोमके अर्थ अधिकतर स्तुतिगान करो फिर स्तुति कियेहुए सोमको (शिशुं न) जैसे बालक पुत्रको पिता आभूषणोंसे सुशोभित करते हैं । तैसे (यज्ञैः श्रिये परिभूषत) यजनके हवि आदि पदार्थोंसे शोभाके निमित्त भूषित करो ॥ १ ॥

समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम् ।
देवाव्यां ऽ३ मदमभि द्विशवसम् ॥ २ ॥

हे ऋत्विजों ! (गयसाधनम् देवाव्यं मदं द्विशवसम् ईम्) घरके साधन देवताओंके रक्तक मदकारी द्युलोक और भूलोकके बलको बढ़ाने वाले इम सोमको (मातृभिः वत्सं न) जैसे माताके साथ बछड़ेको युक्त करते हैं तैसे (अभिसं सृजत) वसतीवरी जलोंसे मिलाओ ॥ २ ॥

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये ।
यथा मित्राय वरुणाय शंतमम् ॥ ३ ॥

(शर्धाय) वेगके अर्थ (वीतये) देवताओंके पीनेके लिये (मित्राय वरुणाय) मित्र और वरुण देवताके अर्थ (यथा शन्तमम्) जैसे सुख दायक हो तैसे (दक्षसाधनं पुनाता) बलके साधन सोमको पवित्र करो ३

प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं विवार-
मव्यम् ॥ १ ॥

(वाजी सहस्रधारः) बलवान् और अनेकों धाराओंवाला सोम (अद्यं वात्तिरः प्राज्ञाः) ऊनके पवित्रमेंको लुनकर अनेकों धारोंसे धरसता है ॥ १ ॥

स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्रिर्मृजानो गोभिः
श्रीणानः ॥ २ ॥

(सहस्ररेताः) बहुतसे वीर्य वा अधिक जलवाला (अद्रिः मृजानः) वसतीवरी जलोंसे धोयाजानाहुआ (गोभिः श्रीणानः सः) गोघृतादि से मिलायाजानाहुआ वह सोम (अज्ञाः) धरसता है ॥ २ ॥

प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्धेमाणो अ-
द्रिभिः सुतः ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (नृभिः धेमानः) ऋत्विजों करके नियममें कियाहुआ (अद्रिभिः सुतः) पाषाणोंसे कूटाहुआ (इन्द्रस्य कुक्षा) इन्द्रके उदररूप कलशमें (प्रयाहि) पहुँच ॥ ३ ॥

ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ।

ये वाऽदः शर्यणावति ॥ १ ॥

(ये सोमासः परावति) जो सोम अतिदूर देशमें (ये अर्वावति सुन्विरे) और जो समीपस्थानमें शोधेजाते हैं (वा ये अदः शर्यणावति) और जो कुरुक्षेत्रके जघनरूप अध्वरमें शर्यणावन् नामक मधुररसयुक्त सोमवाला सरोवर है इस सरोवरमें जो सोम इन्द्रके निमित्त शुद्ध कियेजाते हैं । वह हमको इच्छित फल दे ॥ १ ॥

ये आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम् ।

ये वा जनेषु पञ्चमु ॥ २ ॥

(ये आर्जीकेषु) जो सोम दूरके ऋजीक देशोंमें (ये कृत्वसु) जो सोम कृत्यान् नामक कर्मप्रधान देशोंमें जो सोम (पस्त्यानां मध्ये) सरस्वती आदि नदियोंके समीप (वा ये पञ्चसु जनेषु) और जो सोम जिनमें निषाद पांचवाँ है ऐसे चारों बणोंमें । सुसिद्ध कियेजाते हैं वह साम हमें इच्छित फल दे ॥ २ ॥

ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम् ।

स्वाना देवास इन्द्रवः ॥ ३ ॥

(स्वानाः देवासः) अभिषेच कियेजाते और दिपतेहुए (इन्द्रवः ते) पात्रोंमें बरसनेहुए वह सोम (नः) हमारे अर्थ (दिवस्परि) धुलोकसे (वृष्टिं सुवीर्यम् आपवन्ताम्) वर्षाको और श्रेष्ठ वीरतायुक्त पुत्रको दें ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके आष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड समाप्तः

आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात् ।

अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १ ॥

(अग्ने वत्सः) हे अग्ने वत्स ऋषि (त्वां कामये गिरा) तुम्हें चाहनेवाली स्तूतिसे (ते मनः) तेरे मनको (परमाच्चित् सधस्थात्) परमोत्तम धुलोकरूप स्थानसे (आयमन्) यहां बुलालेता है ॥ १ ॥

पुरुत्राहि सदृङ्ङसि दिशो विश्वा अनु

प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (पुरुत्रा हि सदृङ् अस्ति) सकल देशोंमें तू समान दृष्टि रखनेवाला है । इसीकारण (विश्वाः दिशः, अनु, प्रभुः) सकल दिशाओंका ईश्वर है (त्वा समत्सु हवामहे) ऐसे तुम्हें संग्रामोंमें रक्षाके लिये पुकारते हैं ॥ २ ॥

समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे ।

वाजेषु चित्रराधसम् ॥ ३ ॥

(समत्सु वाजयन्तः) मद्युक्त संग्रामोंमें बल चाहनेवाले हम (अवसे) रक्षाके लिये (वाजेषु चित्रराधसम्) संग्रामोंमें याचना करनेयोग्य धनवाले (अग्नि हवामहे) अग्निकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥

त्वं न इन्द्राभर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे ।
आ वीरं पृतनासहम् ॥ १ ॥

(शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र) हे अनेकों कर्मवाले विशेष ज्ञाना इन्द्र तुम (नः नृम्णं ओजः आभर) हमें अन्न और बल दो (पृतनासहं वीरं आ) सेनाओंका तिरस्कार करनेवाले वीरपुत्रको भी दो ॥ १ ॥

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो व-
भूविथ । अथा ते सुम्नमीमहे ॥ २ ॥

(वसो शतक्रतो) ये व्यापक इन्द्र ! (त्वं नः पिता वभूविथ) तुम हमारे पिताकी समान पालनकर्त्ता होओ (त्वं माता) तुम माताकी समान धारणकर्त्ता होओ (अथते सुम्न ईमहे) और हम तुमसे सुम्नको याचना करते हैं ॥ २ ॥

त्वा ऽ शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुपब्रुवे सहस्कृत
स नो रास्व सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

(सहस्कृत शुष्मिन् पुरुहूत) स्तोत्राओंके द्वारा बलयुक्त किये हुए बलवान् और अनेकों यजमानोंके पुकारे हुए हे इन्द्र (वाजयन्तं त्वा उपब्रुवे) बल चाहते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं (सः नः सुवीर्यं रास्व) वह तुम हमें धेष्ठ धन दो ॥ ३ ॥

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमाद्रिवः ।

राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्याभर ॥१॥

(अद्रिवः चित्र इन्द्र) हे यज्ञधारी चित्ररूप इन्द्र ! (त्वादातं यत् मे इह नास्ति) तुम्हारे देनेयोग्य जो धन है वह मेरे पास इस लोकमें नहीं है (विदद्वसो) प्राप्त है धन जिसको ऐसे हे इन्द्र (तत् उभया हस्ती) वह दोनो हाथोंसे (नः आभर) हमें दो ॥ १ ॥

यन्मन्यसेवरेष्यमिन्द्र द्युक्षं तदाभर ।

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दानवः ॥२॥

(इन्द्र यत् द्युक्षं वरेष्यं मन्यसे) हे इन्द्र ! जिस अन्नको तुम परमोत्तम मानते हो (तत् आभर) वह हमें दो (ते वयम्) तेरे कहलानेवाले हम (तस्य अकूपारस्य) तिस्र सुंदर पारघाले अन्नके (दानवः विद्याम) दानको पानेवाले हों ॥ २ ॥

तते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत् ।

तेन दृढा चिदाद्रिव आ वाजं दार्षिं सानये ३

(अद्रिवः) हे इन्द्र ! (ते दिक्षु प्रराध्यं श्रुतं बृहत् यत् मनः अस्ति) तेरा दिशाश्रामे स्तुतिके योग्य प्रसिद्ध महान जो मन है (तेन दृढा-चित् वाजं सानये आर्षिं) उस मनसे दृढ़ भी अन्नको हमारे सेवन के लिये देते हो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके अष्टमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः

अष्टमाध्यायश्च समाप्तः

नवम अध्याय

शिशुं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति, शुम्भन्ति विप्रं

मरुतो गणैः । कविर्गोर्भिः काव्येन कविः सन्

सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ १ ॥

(जज्ञानं शिशुम्) प्रकट हुए अतएव बालक की समान स्थित (हर्यतं मरुतः मृजन्ति) सबके चाहें हुए सोमको मरुत् शुद्ध करते हैं (गणैः विप्रं शुम्भन्ति) बुद्धिवर्धक सोमको अपने सात संख्याके गणसे सुशोभित

करते हैं, तदनन्तर (कविः काव्येन कविः गीर्भिः पवित्रं अत्येति)सोम स्तुतिके कर्मसे शब्द करता हुआ स्तुतियोंके साथ कलशमें जाता है १

ऋषिमाना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रनीथिः पद-
वीष्कवीनाम् । तृतीयं धाम महिषः सिषासन्
सोमो विराजमनु राजति ध्रुप् ॥ २ ॥

(ऋषिमनाः ऋषिकृत्) सयको देखनेके स्वभाववाला है मन जिस का. इसीकारण सबको देखनेवाला अर्थात् प्रकाशकर्ता (स्वर्षाः सह-
स्रनीथः) सबका वा सूर्यका सेवनकर्ता और बहुतसी स्तुतिवाला
(कवीनां पदवीः) स्तोताओंके स्खलित पदोंका सम्यक् प्रकार संयो-
जन करनेवाला (यः) जो सोम है वह (महिषः) महान् पूजनीय
सोम (तृतीयं धाम सिषासन्) तीसरे धाम ध्रुलोकको सेवन करना
चाहता हुआ (स्तुप् विराजं अनुरोजति) स्तुति किया जाता हुआ विशेष
दीप्यमान इन्द्रको प्रकाशित करना है ॥ २ ॥

चमूषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स
आयुधानि विभ्रत् । अपामूर्मिंश्च सचमानः
समुद्रं तुरीय धाम महिषो विवक्ति ॥ ३ ॥

(चमूषत् श्वेनः) चमसपात्रों में स्थित और प्रशंसनीय (शकुनः
विभृत्वा) सोमार्थ्य देनेवाला और पात्रोंमें विहार करनेवाला (गोविन्दुः
द्रप्सः)यजमानोंको गौपं प्राप्त करानेवाला और धारण करनेवाला(अपां,
ऊर्मिं समुद्रं सचमानः) जलोंके प्रेरक अन्तरिक्षको सेवन करता हुआ
(महिषः तुरीयं धाम विवक्ति) महान् सोम चौथे धाम चन्द्रलोक
को सेवन करता है ॥ ३ ॥

एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्।
वर्धन्तो अस्य वीर्यम् ॥ १ ॥

(एते सोमाः) यह अभिषुत सोम (अस्य वीर्यं वर्धन्तः) इस इन्द्र
की शक्तिको बढ़ाते हुए (इन्द्रस्य कामं प्रियं समभ्यक्षरन्) इन्द्र के
इच्छित और प्रसन्नता देनेवाले रसको बरसाने हैं ॥ १ ॥

पुनानासश्चमूषदोगच्छन्तो वायुमाश्विना ।
ते नो धत्त सुवीर्यम् ॥ २ ॥

(पुनानासः चमूषद्ः) अभिषव किये जातेहुए और पात्रों में स्थित हे सोमो ! तुम (वायुं अश्विना गच्छन्तः) वायु और अश्विनीकुमारों को प्राप्त होतेहुए (ते) तुम (नः सुवीर्यं धत्त) हमें श्रेष्ठ वीरता दो ॥

इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय ।
देवानां योनिमासदम् ॥ ३ ॥

(सोम पुनानः) हे सोम ! पूयमान तू (इन्द्रस्य राधसे) इन्द्रके आराधन के लिये (हार्दि चोदय) हृदयके स्थानको प्रेरणा कर (देवानां योनिं आसदम्) देवयजन के साधन यज्ञस्थानको मैं प्राप्त हुआ हूँ ३

मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्तधीतयः
अनु विप्रा अमादिपुः ॥ ४ ॥

हे सोम ! (त्वा दश क्षिपः मृजन्ति) तुम्हें दश अंगुलियें शुद्ध करती हैं (सप्त धीतयः हिन्वन्ति) सात हात्रक तुम्हें अपने २ व्यापारों से तृप्त करते हैं (विप्राः अनु अमादिपुः) स्तोता फिर तुम्हें मद में करते हैं ॥ ४ ॥

देवेभ्यस्त्वा मदाय कथं, सृजानमति मेष्यः ।
संगोभिर्वासयामसि ॥ ५ ॥

हे सोम ! (मेष्यः अतिमृजानम्) दशापवित्र स्वरूप ऊनके रोमों में वर्त्तमान (कं त्वा) सुखरूप तुम्हें (देवेभ्यः मदाय) देवताओंके भद्र के लिये (गोभिः संवासयामः) गो घृतादि सहित स्थापित करते हैं ५

पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः ।
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६ ॥

(पुनानः कलशेषु आ) पूयमान और कलशों में निखोड़ा जाता हुआ (अरुषः हरिः) दमकता हुआ हरे वर्णका सोम (गव्यानि वस्त्राणि परि अव्यत) गौदुग्धादि के घसों को आच्छादित करता है ॥ ६ ॥

मघोन आपवस्व नो जहि विश्वा अपाद्विषः ।

इन्द्रो सखायमाविश ॥ ७ ॥

(इन्द्रो मघानः नःआपवस्व) हेसोम! हम धनवानोंके अभिमुख होकर बरस (विश्वा द्विषः अपजहि) सकल द्वेष करनेवालों का नष्ट कर (सखायं आविश) हमारे मित्र इन्द्र को प्राप्त हो ॥ ७ ॥

नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपोतं स्वर्विदम् ।

भक्षीमहि प्रजामिषम् ॥ ८ ॥

हे सोम ! (नृचक्षसं स्वर्विदं त्वाम्) मनुष्यों के द्रष्टा सर्वज्ञ और इन्द्रके पियेहुए तुम्हें सेवन करने हुए (वयं प्रजां इषं भक्षीमहि) हम पुत्रादि सन्तान और अन्नको भोगें ॥ ८ ॥

वृष्टिं दिवः परिस्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि ।

सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥ ९ ॥

(सोम) हे सोम नृ (दिवः वृष्टिं परिस्रव) द्युलोकसे वर्षाको टपका (पृथिव्या अधिद्युम्नम्) पृथिवी पर अन्नको उत्पन्न कर (नः सह पृत्सु धाः) हमारे बलको सग्रामोंमें स्थित कर ॥ ९ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नक्षमाध्यायस्य प्रथमः खंडः समाप्तः

सोमःपुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः ।

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १० ॥

(सहस्रधारः अत्यविः) अनेकों धारोंवाला और दशापवित्रमें को छुनाहुआ (पुनानः सोमः) पवित्र करनेवाला सोम (वायोः इन्द्रस्य) वायु और इन्द्रके पीनेके लिये (निष्कृतं अर्षति) संस्कार करेहुए पात्र में पहुँचता है ॥ १० ॥

पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्रगायत ।

सुष्वाणं देववोतये ॥ ११ ॥

(अवस्यवः) हे रक्षा चाहनेवाले उग्राता आदि ! तुम (पवमान विप्रम्) शुद्ध करनेवाले और विशेष कर देवताओंको तृप्त करनेवाले

(देववीतये सुष्वाणं अभि प्रगायत) देवताओंके पीनेके लिये सुसिद्ध कियेहुए सोमके अभिमुख होकर वेदगान करो ॥ २ ॥

पवन्ते वाजसातय सोमाः सहस्रपाजसः ।

गृणाना देववीतये ॥ ३ ॥

(वाजसातये देववीतये गृणानाः) अन्नकी प्राप्ति और देवयज्ञकी सिद्धिके लिये स्तुति कियेजातेहुए (सहस्रपाजसः सोमा) मनुष्यों को बहुतसा बल देनेवाले सोम (पवन्ते) वरसते हैं ॥ ३ ॥

उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः ।

द्युमदिन्दो सुवीर्यम् ॥ ४ ॥

(इन्दो) हे सोम (द्युमत् सुवीर्यं पवस्व) दीप्तिमान् श्रेष्ठ सामर्थ्य को वरसाओ (उत नः वाजसातये बृहतीः षः) और हमारे संग्राम के लिये बहुतसे अन्न वरसाओ ॥ ४ ॥

अत्या हियाना न हेतृभिरमृशं वाजसातये ।

विवारमव्यमाशवः ॥ ५ ॥

(वाजसातये हियानाः) संग्रामके लिये प्रेरणा कियेहुए सोम (आशवः न) शीघ्रगामियों की समान (हेतृभिः) ऋत्विजों से (अव्यं वारं व्यत्यसृग्रम्) उनके पवित्रमें को टपकाये जातेहैं ॥ ५ ॥

ते नः सहस्रिणं रथिं पवन्तामा सुवीर्यम् ।

स्वाना देवास इन्दवः ॥ ६ ॥

(ते स्वानाः देवासः इन्दवः) वह स्तूयमान रिपते हुए सोम (नः सहस्रिणं रथिं सुवीर्यं आपवन्ताम्) हमें सहस्रों संख्या का धन और श्रेष्ठ वीरता दें ॥ ६ ॥

वाश्ना अर्षन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातरः ।

दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७ ॥

(वाश्नाः इन्दवः) शब्दायमान सोम (मातरः वत्सं न) जैसे माता गौएं बछड़ोंकी ओरकोजाती हैं, तैसे (अभ्यर्षन्ति) पात्र में को जाते हैं (गभस्त्योः दधन्विरे) बाहुओंमें धारण कियेजाते हैं ॥ ७ ॥

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत् ।

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ८ ॥

सोम (इन्द्राय जुष्टः) इन्द्रके लिये पर्बाप्त होताहै (मत्सरः पवमानः) तृप्तिकारी सोम (कनिक्रदत् विश्वा द्विषः अपजहि) शब्द करता हुआ हमारे सकल द्वेषियों को नष्ट करै ॥ ८ ॥

अप घ्नन्तो अरावणः पवमानाः स्वर्दृशः ।

योनादृतस्य सीदत ॥ ९ ॥

(पवमानाः) हे सोमो ! (अरावणः अपघ्नन्तः) दान न देनेवाले यजमानोंको नष्ट करतेहुए (स्वर्दृशः) सबके द्रष्टा तुम (ऋतस्य योनौ सीदत) यज्ञके मण्डपमें विगजो ॥ ९ ॥

सामवेदात्तराचिके नवमाध्यायस्य द्वितीयः खंडः समाप्तः

सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया ।

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ ॥

(ऋतस्य सुताः) यज्ञके लिये सुसिद्ध कियेहुए (मधुमत्तमाः इन्दवः) अतिमधुररसवाले टपकतेहुए (सोमाः इन्द्राय धारया असृग्रम्) सोम इन्द्रके अर्थ धारासे रचेजाने हैं ॥ १ ॥

अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः ।

इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ २ ॥

(विप्राः) हे ऋत्विजों ! (सोमस्य पीतये) सोमको पीने के लिये (इन्द्रं अभ्यनूषत) इन्द्रकी स्तनिकरते हे (धेनवः गावो वत्सं न) जैसे तृप्त करनेवाली गौएँ बछड़ोंकी आरको शब्द करती है ॥ २ ॥

मदच्युत्श्रैति सादने सिन्धोरुर्मा विपश्चित् ।

सोमो गौरी अधि श्रितः ॥ ३ ॥

(मदच्युत् सोमः) मदकारी रसको वरसने वाला सोम (सादने श्रैति) यज्ञशालामें निवास करता है (सिन्धोः ऊर्मा विपश्चित्) नदी की तरङ्गोंमें प्रवीण सोम (गौरी अधिश्रितः) माध्यमिक गान्धर्वी वाणीमें रहता है ॥ ३ ॥

दिवो नामा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते ।

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ४ ॥

(यः) जो (सुक्रतुः कविः विचक्षणः) श्रेष्ठ ज्ञानमय अनुभवी और विशेष द्रष्टा है । वह (सोमः) सोम (दिवः नामा) अन्तरिक्ष के नाभिरूप (अव्याः वारे महीयते) ऊनके पवित्र में संस्कार पाता है ४

यः सोमः कलशेष्या अन्तः पवित्र आहितः।

तमिन्दुः परिष्वजे ॥ ५ ॥

(यः सोमः कलशेष्या आ) जो सोम कलशों में है (पवित्रे अन्तः आहितः) पवित्र के मध्य में स्थापित किया गया है (तं इन्दुः परिष्वजे) उस अंशभूत सोममें चन्द्रमाका अभिमानी देवता प्रवेश करता है ॥ ५ ॥

प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टापि ।

जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम् ॥ ६ ॥

(इन्दुः) सोम (मधुश्च्युतं कोशं जिन्वन्) मधु टपकानेवाले कलशको पूर्ण करता हुआ (समुद्रस्य अधिविष्टापि) अन्तर्गिह के आधाररूप स्थान में (वाचं प्रेषति) शब्दको करता है ॥ ६ ॥

नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सर्वदुघाम् ।

हिन्वानो मानुषा युजा ॥ ७ ॥

(नित्यस्तोत्रः वनस्पतिः) नित्य प्रशंसा किया जानेवाला वनोंका स्वामी सोम (मानुषा युजा हिन्वानः) ऋत्विजोंको युग्मरूपसे प्रेरणा करता हुआ (सर्वदुघां) अमृतकी समान प्रियवचनों को प्रकाशित करनेवाली (अन्तः) स्तोताओं के मध्यमें स्थित (धेनाम्) स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७ ॥

आ पवमान धारय रयिष्ठं सहस्रवर्चसम् ।

अस्मे इन्दो स्वाभुवम् ॥ ८ ॥

(पवमान इन्दो) हे संस्कार किये जानेहुए सोम ! (सहस्रवर्चसं

स्वाभुषं) अनेकों दीप्तिवाले सुंदर भवनको (रथिं अस्मे धारय) और धनको हमारे विषैँ स्थापन कर ॥ ८ ॥

अभि प्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः ।
सोमो हिन्वे परावति ॥ ९ ॥

(कविः, सुतः) क्रान्तकर्मा अभिषव कियाहुआ (परावति) श्रेष्ठ स्थानमें स्थित हुआ (विप्रः सः) विशेष तृप्त करनेवाला वह सोम (धारया) अपनी धारासे (दिवः प्रिया अभि हिन्वे) युलोक के प्यारे स्थानोंकी आरकी प्रेरणा करता है ॥ ९ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नवमाध्यायस्य तृतीय खण्डः समाप्त

उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरुर्मैरिव स्वनः ।
वाणस्य चोदयापविम् ॥ १ ॥

हे साम ! (सिन्धोः ऊर्मै स्वनः इव) समुद्रकी तरङ्गसे उठे हुए शब्दकी समान (ते शुष्मासः उन् ईरते) तेरे वेग उठते हैं । वह तू (वाणस्य पविं चोदय) वाण नामक वाजं के शब्दको प्रेरणा कर ॥ १ ॥

प्रसवेत उदरिते तिस्रो वाचो मखस्युवः ।
यदव्य एषि सानावि ॥ २ ॥

(ते प्रसवे) तेरा प्रादुर्भाव होनेपर (मखस्युवः तिस्रः वाचः उदीरते) यज्ञकी इच्छावाले यजमान के ऋक्-यजु-सामरूप तीन वाक्य प्रकट होते हैं (यद् सानावि अव्ये एषि) जबकि तू श्रेष्ठ पवित्रों में पहुँचता है ॥ २ ॥

अव्या वारैः परिपियं, हरिं, हिन्वन्त्याद्रि-
भिः । पवमानं मधुश्च्युतम् ॥ ३ ॥

(प्रियं हरिम्) देवताओं के प्यारे और हरेवर्णके (अद्रिभिः) पाषाणों से कुचले हुए (मधुश्च्युतम् पवमानम्) मीठे रसके टपकानेवाले सामको ऋत्विज (अव्याः वारैः परिहिन्वन्ति) भेड़ों की ऊनके पवित्र में को छोड़ते हैं ॥ ३ ॥

आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे ।
अर्कस्य योनिमासदम् ॥ ४ ॥

(मदिन्तम कवे) हे परमहर्षदायक सोम ! (अर्कस्य योनिं आसदम्) पूजनीय इन्द्रके उदररूप स्थानमें पहुँचनेके लिये (पवित्रं धारया आपवस्व) पवित्रमेंको छुनकर धारसे अभिमुख होकर वरस ॥ ४ ॥

स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः ।

एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५ ॥

(मदिन्तम) हे परमहर्षदायक सोम ! (अक्तुभिः गोभिः अञ्जानः) मिलानेके साधन गोदुग्धादिसे प्रशंसनीय होताहुआ (पवस्व) वरस तदनंतर (इन्द्रस्य जठरं आविश) इन्द्रके उदरमें प्रवेश कर ॥ ५ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नवमाध्यायस्य चतुर्थे खंड समाप्तः

अया वीती परिस्रव यस्त इन्दो मदेष्वा ।

अवाहन्नवतीर्नव ॥ १ ॥

(इन्दो अया वीती परिस्रव) हे सोम ! इस रसके द्वारा इन्द्रके भक्षणके लिये चारों ओर वरस (ते यः मदेषु) तेरा जो रस संग्रामों में (नव नवतीः अवाहन) निन्यानवे शत्रु पुरियोंको नष्ट करताहुआ १

पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंवरम् ।

अध त्यं तुर्वशं यदुम् ॥ २ ॥

(सद्यः पुरः) शीघ्र ही शत्रुओंके नगरको। इन्द्रका पियाहुआ सोमरस नष्ट करताहुआ (इत्थाधिये दिवोदासाय) सत्यकर्मा दिवोदास राजा के अर्थ (शम्बरम्) शत्रुनगरोंके स्वामीको (अथान्यं तुर्वशम्) फिर उस तुर्वस नामक दिवोदासके वैरीको (यदुम्) यदु नामक राजाको (अवाहन) सोमरस पीकर इन्द्र मारता हुआ ॥ २ ॥

परि नो अश्वमश्वविद्रोमदिन्दो हिरण्यवत् ।

क्षरा सहस्रिणीरिषः ॥ ३ ॥

(इन्दो) हे सोम ! (अश्ववित्) घोड़े प्राप्त करानेवाला तू (नः) हमें (गोमन् हिरण्यवत् अश्वम्) गौण और मुवर्ण सहित अश्व (सहस्रिणीः रिषः) बहुतसे अन्न (परित्तर) दो ॥ ३ ॥

अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमोऽअरावणः ।

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १ ॥

(सोमः) सोम (मृधः अपघ्नन्) हिंसक शत्रुओंको मारताहुआ (अराव्यः अप) अदाताओंको नष्ट करताहुआ (इन्द्रस्य निष्कृतम् गच्छन् पवते) इन्द्रके स्थानको प्राप्त होताहुआ धारासे वरसता है ।

महो नो राय आभर पवमान जंही मृधः ।

रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २ ॥

(पवमान इन्द्रां) हे पूजमान सोम ! (नः महः रायः आभर) हमें बहूनसे धन दो (मृधः जहि) शत्रुओंको मारो (वीरवत् यश रास्व) पुत्रादि सहित कीर्ति दो ॥ २ ॥

न त्वा शतं चन द्रुतो राधो दित्सन्तमामिनन् ।
यत्पुनानो मखस्यसे ॥ ३ ॥

हे सोम ! (यत् पुनानः मखस्यते) जब पूजमान तू धन देना चाहता है । तब (राधः दित्सन्तं त्वा) धन देना चाहनेहुए तुझ (शतञ्चन द्रुतः) बहुतसे भी हिंसक शत्रु (न आमिनन्) नहीं रोकसकते ॥ ३ ॥

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ।

हिन्यानो मानुषरिपः ॥ १ ॥

हे सोम ! (मानुषीः अपः हिन्यानः) मनुष्योंके हिनकारी जलोंको प्रेरणा करताहुआ (यया धारया सूर्यम् अरोचयः) जिस धारामे सूर्य को प्रकाशित करता है (अया पवस्व) तिस धारासे वरस ॥ १ ॥

अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि ।

अन्तरिक्षेण यातवे ॥ २ ॥

(पवमानः) सोम (मनावधि अन्तरिक्षेण यातवे) मनुष्यके अन्तरिक्ष मार्गसे जानेको (सूरः एतशं अयुक्त) प्रेरक आदित्यके एतश नामक अश्वको जोड़ता है ॥ २ ॥

उत त्या हरितो रथे मूरो अयुक्त यातवे ।

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन् ॥ ३ ॥

(उत इन्दुः) और सोम (इन्द्र इति ब्रुवन्) इन्द्र पेसा कहता हुआ
(त्याः हरित) उन हरे वर्णके घोड़ोंको (सूरः रथे) सूर्यके रथमें
(यातवे अयुक्त) गमन करनेको जोड़ता है ॥ ३ ॥

सामवेदात्तरार्चिके नवमाध्यायस्य पञ्चम. खण्डः समाप्त

अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा, यजिष्ठं दूत
मध्वरे कृणुध्वम् । यो मर्त्येषु निध्रुविर्ऋतावा,
तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः ॥ १ ॥

हे देवताओं ! (वः) तुम (अग्निभिः सजोषा) अन्य अग्नियोंस-
हित (यजिष्ठम्) परमपूज्य (अग्निं देवम्) अग्निदेवको (अध्वरे
दूतं कृणुध्वम्) यज्ञमें दूत बनाओ (यः मर्त्येषु निध्रुविः) जो देवता
होकर भी मनुष्योंमें अधिकनासे रहताहै (ऋतावा तपुर्मूर्धा) यज्ञका
संबन्धी और तापप्रद तेजवाला है (घृतान्नः पावकः) घृतको भक्षण
करनेवाला और सयका शोधक है ॥ १ ॥

प्रोथदश्वा न यवसेविष्यन्, यदा महः संवर-
णाद्यस्थात् । आदस्य वातो अनुवाति शोचि,
रथ स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ २ ॥

(यवसे अविष्यन्) घासमें चुगतेहुए (प्रोथन् अश्वः नः) हींसने
हुए घोड़ोंकी समान (महः संवरणान्) बड़े निरोधमें दावरूप अग्नि
(यदा व्यस्थान्) जब फैलेहुए वृत्तांमें स्थित होता है (आत् अस्य
शोचिः अनुवातः वाति) तब इस अग्निकी लपट वायुके पीछे २ चलती
है । (अध) अनंतर । हे अग्ने ! (ते व्रजनं कृष्णं अस्ति) तेरा मार्ग
कृष्णवर्ण है ॥ २ ॥

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्वजरा
इध्रानाः । अच्छाद्यामरुपो धूम एपि सन्दूतो
अग्न ईयसे हि देवान् ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्ने (नवजातस्य वृष्णः) नवीन प्रकटहुए और वर्षा
करनेवाले (यस्य ते) जिस तेरी (अजरा इध्रानाः उच्चरन्ति) जरा

रहित ज्वालापं प्रज्वलित होनी हुई निकलती हैं (अग्ने अरुपः धूमः वृत्तः) हे अग्निदेव ! प्रकाश करता हुआ धूमयुक्त दत्तरूप तू (द्यां अच्छ समेपि) धूलोकमेंको जाता है। फिर तहांके (देवान् हि ईयसे इन्द्रादि देवताओंको अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे ।

स वृषा वृषभो भुवत् ॥ १ ॥

(महे वृत्राय हन्तवे) बड़े भारी वृत्रासुरको मारनेके लिये (त इन्द्रं वाजयामसि) उस इन्द्रको सोम और स्तुतियोंसे बलवान् करते हैं (वृषा सः वृषभः भुवत्) धनोंकी वर्षा करनेवाला वह इन्द्र हम स्तोताओंको और सोम अर्पण करनेवालोंको धनका दाता है ॥ १ ॥

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः सवले हितः ।

द्युम्नो श्लोकी स सोम्यः ॥ २ ॥

(सः इन्द्रः दामने कृतः) उस इन्द्रको स्तुति करनेवालोंको धन देने के लिये ही प्रजापतिने रचा है (ओजिष्ठः सः सवले हितः) प्रभावशाली वह इन्द्र बलदायक सोमके पीनेको सृष्टिकालमें ब्रह्माने स्थापित किया है (द्युम्नः श्लोकी सः सोम्यः) अन्नवाच और प्रशंसावाला वह इन्द्र सोमके योग्य है ॥ २ ॥

गिरा वज्रो न संभृतः सवलो अनपच्युतः ।

ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३ ॥

(गिरा संभृतः) स्तुतिरूप वाणीसे स्तोताओं करके तीक्ष्ण किया हुआ (वज्रो न) जैसे कि—ब्रह्मानेवालोंसे वज्रनामक आयुध तीक्ष्ण कियाजाता है तैसे तीक्ष्ण कियाहुआ, इसीकारण (सवलः अनपच्युतः) बलवाम् और दूसरों से न दबनेवाला (उग्रः अस्तृतः) महान् और किसी शत्रुसे चोट न खानेवाला इन्द्र (ववक्षे) स्तुति करनेवालोंको धन देना चाहता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नवमाध्यायस्य पञ्चः खण्डः समाप्त

अध्वर्यो अद्भिः सुतथं सोमं पवित्र आनय

पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १ ॥

(अश्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमम्) हे अश्वर्यु पापाणोंसे अभिषघ कियेहुए सोमको (पवित्रे आनय) दशापवित्रमें पहुँचा (इन्द्राय पा-
नवे पुनाहि) इन्द्रके पीनेके लिये पवित्र कर ॥ १ ॥

तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोर्व्याशत ।
पवमानस्य मरुतः ॥ २ ॥

(त्ये देवाः मरुतः) वह इन्द्रादि देवता और मरुत देवता (इन्दो)
हे सोम ! (तव मधोः पवमानस्य अन्धसः) तेरे मदकारी पवित्र अन्न
रूप रसको (व्याशत) भक्षण करने हैं ॥ २ ॥

दिवः पीयूषमुत्तमं, सोमामिन्द्राय वज्रिणे ।
सुतोता मधुमत्तमम् ॥ ३ ॥

हे ऋत्विजों ! (मधुमत्तमं दिवः पीयूषम्) परम मधुगतायुक्त और
द्युलोकके अमृतरूप (उत्तमं सोमम्) श्रेष्ठ सोमको (वज्रिणे इन्द्राय
सुनोत) वज्रधारी इन्द्रके अर्थ अभिषुत करो ॥ ३ ॥

धर्त्ता दिवः पवते कृत्वयो रसो. दक्षो देवाना-
मनुमाद्यो नृभिः हरिः । सृजानो अत्यो न
सत्वभिर्वृथा पाजासि कृणुषे नदीष्वाम् ॥ १ ॥

(कृत्वयः रसः) शोधन करनेयोग्य और रसरूप (देवानां दक्षः)
देवताओंको बलदायक (नृभिः अनुमाद्यः) ऋत्विजोंके स्तुति करने
योग्य (धर्त्ता) सबका धारक सोम (दिवः पवते) अन्तरिक्षमेंके
दशापवित्रमेंको वरसता है (हरिः सत्वभिः सृजानः) हरे धर्ताका सोम
हम प्राणियोंसे रचाजाताहुआ (अत्यो न) जैसे शिक्षित घोड़ा अना-
यासमें ही चलाजाता है तैसे (नदीषु वृथा पाजासि कृणुषे) वसती
घरी जलोंमें अपने बलोंको फेरता है ॥ १ ॥

शूरो न धत्त आयुधा गभस्तयोः स्वाःऽ३सिषा-
नुरथिरो गविष्टिषु । इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्न-
पस्युभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २ ॥

यह सोम (शूरः न) शूरकी समान (गभस्त्वोः आयुधा धत्ते) हाथोंमें आयुधोंको धारण करता है (स्वः सिपासन) सुखके साधन वा यज्ञको संघन करना चाहताहुआ (रथिनः गविष्टिषु) रथवान् यजमानकी गौओंकी इच्छाओंमें (इन्द्रस्य शुष्मं ईरयन्) इन्द्रके बलको प्रेरणा करताहुआ (इन्दुः) सोम देवता (अपस्युभिः मनीषिभिः हिन्वानः सृज्यते) कर्मानुष्ठानके अभिलाषी ऋत्विजों करके प्रेरणा कियाहुआ गोदुग्धादिसे मिलायाजाता है ॥ २ ॥

इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा, तविष्यमाणो
जठरेष्वाविश । प्र नः पिन्व विद्युद्भ्रव रोद-
सी, धिया नो वाजाँ उपमाहि शश्वतः ॥ ३ ॥

(सोम पवमान) हे सोम ! संस्कार कियाजाताहुआ तू (तविष्य माणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आविश) बढ़ायाजाताहुआ इन्द्रके उदरमें बड़ी धारासे प्रवेश कर (विद्युत् अभ्रव) जैसे विजली मेघोंको बुहती है तैसे (नः रोदसी प्रपिन्व) हमारे लिये घुलोक श्रीरभूलोक को दुह (धिया नः शश्वतः वाजान् उपमाहि) कर्मके द्वारा हमारे अर्थ बहुतसे अज्ञोंको हमारे समीपमें रच ॥ ३ ॥

यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

सिमा पुरु नृषूतो अस्यानवेसि प्रशर्ध तुर्वशे १

(इन्द्र) हे इन्द्र (यत्) यद्यपि तुम (प्राक् अपाक् उदक् वान्यक् नृभिः ह्यसे) पूर्वदिशामें वर्त्तमान पश्चिम दिशामें वर्त्तमान उत्तर दिशामें वर्त्तमान वा नीचेकी दिशामें वर्त्तमान स्तोताओं करके तुम उनके अपने २ कार्यके समय पुकारेजाते हो तथापि (सिम) हे श्रेष्ठ इन्द्र ! (अनवे) अनु राजाके राजर्षि पुत्रके विषयमें (पुरु नृषूतः असि) अधिकतर उनके मनुष्योंसे प्रेरणा कियेजाते हो अर्थात् उस राजाके हितके लिये तुम्हें स्तोता प्रसन्न करलेते हैं (प्रशर्ध) हे अधिकतासे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले इन्द्र ! (तुर्वशे) तुर्वश राजाके विषय में भी उसके ऋत्विजोंसे प्रेरणा कियेजाते हो ॥ १ ॥

यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे

सचा । कण्वासस्त्वा स्तोमेभिर्ब्रह्मवाहस इन्द्रा-

यच्छन्त्यागहि ॥ २ ॥

(यद्वा इन्द्र) यद्यपि हे इन्द्र ! (रुमे रुशमे श्यावके रूपे) रुम रुश श्यावक और रूपके विषयमें (सचा मादयसे) एक साथ प्रसन्न किये जाते हो ; तथापि (ब्रह्मवाहसः कण्वासाः स्तोत्रेभिः) स्तुति पहुँचाने वाले कण्वगोत्री ऋषि बहुतसे स्तोत्रोंके साथ तुमहैं वशमें करलेते हैं (इन्द्र आगहि) हे इन्द्र तुम हमारे कर्ममें आओ ॥ २ ॥

उभयं शृणवन्न इन्द्रो अर्वागिदं वचः ।
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ
आगमत् ॥ १ ॥

(उभयं इदं वचः) स्तोत्ररूप और शास्त्ररूप दोनों प्रकारके इस वचनको (नः अर्वाक् इन्द्रः शृणवन्) हमारे अभिमुख होकर इन्द्र सुनै (मघवान्) धनवान् इन्द्र (सत्रान्या धिया) हमारे साथ प्रतिष्ठा पानेवाली बुद्धिसे युक्त, इसीमें (शविष्ठः) अतिबलवान् हुआ (सोमपीतये आगमत्) सोमपान करनेको आवै ॥ ३ ॥

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टत-
क्षतुः । उतोपमानां प्रथमो निपीदसि सोमका-
मं हि ते मनः ॥ २ ॥

(धिषणे) द्युलोक और पृथिवी लोकके निवासी (स्वराजं वृषभं तं हि) स्वयं विराजमान जगत्का उपकार करनेवाले तिस इन्द्रको ही (ओजसा निष्टतक्षुः) अपने बलसे प्राप्त होते हैं (उन) और हे इन्द्र (उपमानां प्रथमः निपीदसि) उपमानभूत अन्य देवताओंमें मुख्य होकर घेदीमें विराजमान होताहै (हि ते मनः सोमकामम्) निश्चय तेरा मन सोमकी कामनावाला है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नवमाध्यायस्य मन्त्रम खण्ड. समाप्त.

पवस्व देवआयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः ।
वायुमारोह धर्मणा ॥ १ ॥

हे सोम (देवः पवस्व) दिपताहुआ तू धारासे बरस (ते मदः

आयुषक् इन्द्रं गच्छतु) तेरा मदकारी रस उस इन्द्रको पहुँचे (धर्मणा वायुं आरोह) धारण करनेवाले रसके द्वारा वायुको प्राप्त हो ॥ १ ॥

पवमान नि तोशसे रयिथं, सोम श्रवाय्यम् ।
इन्दो समुद्रमाविश ॥ २ ॥

(पवमान इन्द्रो) हे पवमान सोम ! तू (श्रवाय्यं रयि नितोशसे) श्रवण करनेयोग्य शत्रुओंके धनको अत्यन्त पीड़ा देता है वह तू (समुद्रं आविश) द्रोणकलशमें प्रवेश कर ॥ २ ॥

अपघ्नन् पवसेमृधः० ॥ ३ ॥

इसकी व्याख्या प्रथम भाग ६।१।१।६ में हो चुकी ॥ ३ ॥

अभी नो वाजसातमम्० ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या प्रथम भाग ६।२।१।५ में हो चुकी ॥ १ ॥

वयं ते अस्य राधसां वसोर्वसो पुरुस्पृहः ।
निनेदिष्ठतमा इपः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥ २ ॥

(वसो) हे व्यापक सोम ! (पुरुस्पृहः वसोः) अनेकोंके चाहने योग्य और तेरे दियेहुए (अस्य ते राधसः) इस तेरे धनके (नेदिष्ठ-तमाः स्याम) अत्यन्त समीप हों (अध्रिगो ते इपः सुम्ने) हे सोम ! तेरे दियेहुए अन्नके सुखमें समीप हों ॥ २ ॥

परि स्थस्थानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः ।

धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः

(गव्ययुः ऊर्ध्वः यः) गोदुग्धान्तिकी इच्छावाला भ्रवोंमें मुख्य जो सोम (भ्राजान) जैसेकि दामिधं अन्तरिक्षमें जाता है तैसे (अध्वरे धारा याति) यज्ञमें अपनी धारा से जाता है (स्वानः स्यः इन्दुः) अग्निव किया जाता हुआ वह सोम (मदच्युतः अव्ये पर्यन्तरत्) मदके अर्थ वेदोंसे प्रेरणा कियाहुआ ऊनसे पवित्रोंमें को टपकता है ॥ ३ ॥

पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां वि-
श्वाभिधाम ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! (महान् समुद्रः) देवताओंको अर्पण किया जाता है इसकारण महत्त्वयुक्त और जिसमेंसे रस बहते हैं ऐसा (पिता) सबका पालन करनेवाला तू (देवानां विश्वा धाम अभि पवस्व) देवताओंके सकल शरीरोंकी ओरको लक्ष्य करके बरस ॥ १ ॥

शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च
प्रजाभ्यः ॥ २ ॥

(सोम शुक्रः) हे सोम ! दीप्तिमान् तू (देवेभ्यः पवस्व) देवताओंके अर्थ द्रोणकलशमें बरस (दिवे पृथिव्यै प्रजाभ्यः च शम्) द्युलोक पृथ्वीलोक और प्रजाओंको सुखरूप हो ॥ २ ॥

दिवो धर्त्ताऽसि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन् ।
वाजी पवस्व ॥ ३ ॥

हे सोम ! (शुक्रः पीयूषः दिवः धर्त्ता असि) दीप्त और पीनेयोग्य तथा द्युलोकका धारणकर्त्ता है (वाजी सत्ये विधर्मन् पवस्व) बलवान् तू सत्यस्वरूप यज्ञमें बरस ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके षष्ठाध्यायस्य अष्टमः खण्डः समाप्तः

प्रेष्टुवो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् ।
अग्ने रथं न वेद्यम् ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्ने (प्रेष्टुम्) हम स्तोताओंको धन देनेके कारण परम प्रिय (अतिथिम्) अतिथिकी समान पूजनीय वा देवताओंको हवि पहुँचानेके लिये निरन्तर जानवाले (मित्रमिव प्रियम्) मित्रकी समान प्रसन्नता देनेवाले (रथं न वेद्यम्) रथकी समान धनकी प्राप्तिके हेतु (घः स्तुषे) तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

कविमिव प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता ।
नि मर्त्येष्वदधुः ॥ १ ॥

(देवासः) इन्द्रादि देवता (कविमिव प्रशंस्यम्) अनुभवी विद्वान् की समान प्रशंसनीय (यं मर्त्येषु इति) जिस अग्निको मनुष्योंमें आगौ कहीहुई रीतिसे (द्विता) गार्हपत्य और आहवनीय इन दो रूपों करके (न्यादधुः) स्थापन करतेहुए ॥ २ ॥

त्वं यविष्ठ दाशुपो नूँः पाहि शृणुही गिरः ।
रक्षा तोकमुत त्मना ॥ ३ ॥

(यविष्ठ) हे सदा तरुण इन्द्र ! (त्वं दाशुपःनून् पाहि) तू हवि देनेवाले यजमानोंकी रक्षा कर (गिरः शृणुहि) स्तुतियोंको सुन (उत त्मना तोकं रक्ष) और अपने पुरुषार्थसे हमारे पुत्रकी रक्षा कर ॥३॥

ऐन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य ।

गिरिर्न विश्वतः पृथुः पतिर्दिवः ॥ १ ॥

(प्रिय) स्तोताओं को तृप्त करनेवाले (सत्राजिन्) शत्रुओंको जीतने वाले (अगोह्य) किसीसे भी न दबनेवाले (इन्द्र) हे इन्द्र ! (गिरिः न विश्वतः पृथुः) पर्वतकी समान सब ओरसे महान (दिवःपतिः) स्वर्गका स्वामी तू (नः आगधि) हमारे समीप आओ ॥ १ ॥

अभि हि सत्य सोमपा उभे वभृथ रोदसी ।

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥ २ ॥

(सत्य सोमपाः इन्द्र) सत्यस्वरूप सोमके पीनेवाले हे इन्द्र ! जो तू (उभे रोदसी अभिवभृथ) दोनों लोक द्यावा पृथिवीको अपने प्रभाव से छा देता है । वह तू (सुन्वतः वृधः) सोमाभियव करनेवाले यजमानकी वृद्धि करनेवाला (दिवःपतिः असि) स्वर्गलोकका स्वामी है ॥

त्वच्छंहि शश्वतानामिन्द्र दत्ता पुरामसि ।

हन्ता दस्योर्मनोवृधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥

(इन्द्र त्वं हि) हे इन्द्र ! तू ही (शश्वतानां पुरां दत्ता) बहुत से शत्रुनगरोंका नष्ट करनेवाला (दस्योः हन्ता) वृथा समय खोनेवाले असुरका नाशक (मनो वृधः) यज्ञकर्त्ता मनुष्यका वृद्धिकर्त्ता (दिवःपतिः असि) और स्वर्गका स्वामी है ॥ ३ ॥

पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायतः

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता वज्री पुरुष्टुतः १

(पुरां भिन्दुः) असुरों के नगरोंको तोड़नेवाला (युवा) सदा तरुण

(कविः अमितौजाः) अनुभवी और अमितपराक्रमी (विश्वस्य कर्मणः धर्त्ता) सकल ज्योतिष्टोम आदि कर्मोंका पोषक (वज्री पुरु-
पुनः) यजमानोंकी रक्षा करनेको वज्रधारी और अनेकों कर्मोंमें स्तुति
किया हुआ (इन्द्रः अजायत) इन्द्र प्रकट हुआ ॥ १ ॥

त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्विवो विलम् ।

त्वां देवा अविभ्युषस्तुज्यमानास आविपुः २

(अद्रिवः) हे वज्रधारी इन्द्र ! (त्वम्) तू जब (गोमतः बलस्य विलम्
अपावः) देवताओंकी गौण हरनेवाले बलदैत्य के, गौण छिपाने के
विलको खोलता हुआ। तब (तुज्यमानासः देवाः अविभ्युषः त्वां
आविपुः) बल दैत्यके दवाये हुए देवता तुम्हारी रक्षाके कारण बल
दैत्य से भय न पातेहुए तुम्है प्राप्त हुए ॥ २ ॥

इन्द्रमीशानमोजसाभिस्तोमैरनूपत । सहस्रं
यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसाः ॥ ३ ॥

स्तोता (ओजसा ईशानं इन्द्रम्) बलसे जगत् को वशमें रखनेवाले
इन्द्रको (स्तोमैः अभ्यनूपत) स्तोमोंसे स्तुति करने हे (यस्य रातयः
सहस्रम्) जिस इन्द्रके धनके दान सहस्रों (उत वा) और (भूयसीः
सन्ति) सहस्रों से भी अधिक है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके नवमाध्यायस्य नवमः सर्गः नवमाध्यायस्य समाप्तः

दशम अध्याय

अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मन् जनयन्प्रजा भु-
वनस्य गोपाः । वृषा पवित्रे अधिसानो अ-
व्ये बृहत्सोमो वाचधे स्वानो अद्रिः ॥ १ ॥

(समुद्रः गोपाः) जलों की चर्पा करनेवाला और सबका रक्षक सोम
(प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्) विस्तारवाले जलके धारणकर्त्ता अन्त-
रिक्ष में (प्रजाः जनयन् अक्रान्) प्रजाओंको उत्पन्न करता हुआ सब
से बड़ा होता है (वृषा स्वानः) कामनाओंका पूरक और संस्कार
किया जाता हुआ (अद्रिः सः) आदर पानेवाला वह सोम (अधि-
सानो अव्ये पवित्रे) अधिक ऊँचे ऊँचे उनके पवित्रे में (बृहन् वचधे)
अधिक बढ़ता है ॥ १ ॥

मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो, मत्सि मित्रावरुणा
पृथमानः । मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्,
मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥ २ ॥

(देव सोम) हे स्तुतियोग्य सोम ! (न. इष्टये राधसे) हमें अन्न और धन प्राप्त-होनेके लिये (वायुं मत्सि) वायुको प्रसन्न-करो (पृथमानः मित्रावरुणा मत्सि) संस्कार किया जाता हुआ मित्रावरुण देवताओंको प्रसन्न कर (मारुतं शर्धः मत्सि) मरुत् देवता के पलको प्रसन्न कर (देवान् मत्सि) इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्नकर (द्यावा-पृथिवी मत्सि) द्यावापृथिवी को प्रसन्न कर ॥ २ ॥

महत्तत्सोमो महिपश्चकाराऽपां यद्गर्भोऽवृ-
णीत देवान् । अदधादिन्द्रे पवमानञ्चोजोऽज-
नयत् सूर्यं ज्योतिरिन्दुः ॥ ३ ॥

(महिपः सोमः महत् तत् चकार) पूजनीय सोमने बहुतसा कर्म किया (यत्) जो कि (अपां गर्भः देवान् अवृणीत) जलों के गर्भरूप सोमने देवताओंका संवन किया (पवमानः इन्द्रे ओजः अदधान्) पृथमान सोमने इन्द्रमें बल स्थापन किया (इन्दुः सूर्यं ज्योतिः अजनयत्) दीप्त सोमने सूर्यमें तेजको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥

एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते ।

अभि द्रोणान्यासदम् ॥ १ ॥

(देवः अमर्त्यः एषः) द्योतमान और मरणधर्मरहित यह सोम (द्रोणानि अभि आसदम्) द्रोणकलशोंकी ओर स्थित होनेको (पर्णवीरिव दीयते) पत्तीकी समान वेगसे जाता है ॥ १ ॥

एष विप्रैरभिष्टुतोऽपो देवो विगाहते ।

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ २ ॥

(विप्रैः अभिपुनः देवः एषः) स्तोताओंसे प्रशंसा कियाहुआद्योन मान यह सोम (दाशुपे रत्नानि दधत्) हवि देनेवाले यजमानको अनेकों प्रकारके धन देताहुआ (अषः विगाहते) वसतीवरी जलोंमें प्रवेश करताहै ॥ २ ॥

एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः ।

पवमानः सिषासति ॥ ३ ॥

(पवमानः शूरः एषः) पवमान वीर यह सोम (विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्निव) सकल वरणीय धनोंको बलोंसे बशमें करताहुआ (सिषासति) हमें देना चाहताहै ॥ ३ ॥

एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति ।

आविष्कृणोति वग्वनुम् ॥ ४ ॥

(एषः देवः पवमानः) यह दिव्य सोम (रथर्यति) हमारे यज्ञमें आनेका रथ चाहताहै (दिशस्यति) आकर हमें इच्छित पदार्थ देना चाहता है (वग्वनुं आविष्कृणोति) शब्दको प्रकट करताहै ॥ ४ ॥

एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः ।

हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ५ ॥

(एषः देवः पवमानः) यह दिव्य सोम (ऋतायुभिः विपन्युभिः) सन्यकाम स्तोताओं करके (हरिः) अश्वकी समान (वाजाय मृज्यते) संग्रामके लिये स्तुतियोंसे मुशोभित कियाजाता है ॥ ५ ॥

एष देवा विपाकृतोऽति ह्वराथंसि धावति ।

पवमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥

(विपा कृतः) अगुलियोंसे अभिपुन (एषः देवः पवमानः) यह दिव्य सोम (अदाभ्यः ह्वरांसि अतिधावति) किसीसे हिंसित न होना हुआ शत्रुओंके मारनेको जाताहै ॥ ६ ॥

एष दिवं विधावति तिरो रजांसि धारया ।

पवमानः कनिक्रदत् ॥ ७ ॥

(धारया पवमानः एषः) धारासे वरसताहुआ यह सोम (कनि-
क्रदत्) शब्द करता हुआ (रजांसि तिरः) लोकोका तिरस्कार कर
ताहुआ यज्ञस्थानसे (दिवः विधावति) स्वर्गलोकको जाताहै ॥ ७ ॥

एष दिवं व्यासरतिरो रजांस्यस्तृतः।

पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥

(स्वध्वरः एषः पवमानः) श्रेष्ठ यज्ञवाला यह सोम (अस्तृतः)
किसीसे हिंसित न होताहुआ (रजांसि तिरः) लोकोका तिरस्कार
करताहुआ, यज्ञसे (दिवं व्यासरन्) स्वर्गको जाताहै ॥ ८ ॥

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः।

हरिः पवित्रे अर्पति ॥ ९ ॥

(हरिः देवः एषः) हरे वर्णका दीप्तिमान् यह सोम (प्रत्नेन जन्मना)
पुरानी उत्पत्ति से (देवेभ्यः सुतः) देवताओं के लिये सिद्ध किया
हुआ (पवित्रे अर्पति) दशापवित्र में जाता है ॥ ९ ॥

एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः।

धारया पवते सुतः ॥ १० ॥

(एषः उ स्यः) यह हो वह सोम (पुरुव्रतः जज्ञानः) बहुत कर्म
वाला प्रकट होकर (इषः जनयन्) अन्नको उत्पन्न करता हुआ (सुतः
धारया पवते) अभियुक्त हुआ धारासे वरसता है ॥ १० ॥

सामवेदोत्तराधिक दशमाध्यायस्य प्रथम खंड समाप्त

एष धिया यात्याण्ठया शूरो रथेभिराशुभिः।

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १ ॥

(शूरः) पराक्रमी (अण्वया) अंगुलिसे निचोड़ा हुआ (एषः)
यह सोम (इन्द्रस्य निष्कृतम्) इन्द्रके स्वर्ग नामक स्थानको (आशुभिः
रथेभिः गच्छन्) शीघ्रगामी रथोंके द्वारा जाताहुआ (धिया याति) कर्म
करके पहुँचता है ॥ १ ॥

एष पुरु धियायते बृहते देवतातये।

यत्राऽमृतास आशत ॥ २ ॥

(एषः) यह सोम (बृहते देवतातये) महान् यज्ञके लिये (पुरु धियायति) बहुतसे कर्मकी इच्छा करता है (यत्र अमृतासः आशते) जिस यज्ञमें देवता व्याप्त होने हैं ॥ २ ॥

एतं मृजन्ति मर्ज्यमुपद्रोणेष्वायवः ।

प्र चक्राणं महीरिपः ॥ ३ ॥

(आयवः) ऋत्विज (गतीः इयः प्रचक्राणम्) बहुतसे रसरूप अन्नोकी वर्गा करनेवाले (एतं मर्ज्यम्) इस प्राथम्य करनेवाले सोमको (द्रोणेषु उपमृजन्ति) घोंसकलणमें उड़नापर्वक निचोएते हैं ॥ ३ ॥

एष हितो विनीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा ।

यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ ४ ॥

(एषः हितः) यह सोम हविर्धानमें स्थापन किया हुआ (विनीयते) तहाँसे आहवनीयके समीप लेज्या जाता है (अन्तः) हविर्धान और आहवनीयके मध्यदेशमें (शुन्ध्यावता पथा) गुद्धियुक्त मार्गमें (यदी भूर्णयः) जब अर्ज्य अर्पित (तुञ्जन्ति) देवताओंको अर्पण करनेहैं ४

एष रुक्मिभिरिरीयते वाजी शुभ्रेभिरः शुभिः ।

पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ५ ॥

(वाजी) वेगवान् (शुभ्रेभिः अंशुभिः) स्वेत किरणोंसे युक्त (एषः) यह सोम (सिन्धूनां पतिः भवन्) बहनेहुए रसांका म्चामी होता हुआ (रुक्मिभिः ईयते) अर्धयु आदिकोंके साथ जाता है ॥ ५ ॥

एष शृङ्गाणि दोधुवच्छीते युथ्योऽवृषा ।

नृम्णा दधान ओजसा ॥ ६ ॥

(ओजसा नृम्णा दधानः) बलके द्वारा धनोंको हमारे अर्थ धारण करता हुआ (एषः) यह सोम (शृङ्गाणि दोधुवत्) सींगोंकी समान ऊँची किरणोंको अभिपद्यके समय कँपाता है (युथ्यः वृषा शिशीते) जैसे यूपपति वृषभ अपने तीसरे सींगोंका कँपाता है ॥ ६ ॥

एष वसृति पिबदनः पुरुषा ययिवाँ अति ।

अव शादेषु गच्छति ॥ ७ ॥

(वसूनि पिबन्तः एषः) कर्मको रोकनेवाले राज्ञसाको पीड़ा देता हुआ वह सोम (परुषा अति ययिवान्) पर्वके द्वारा लाँघकर जाता-हुआ (शादेषु अवगच्छति) मारने योग्य राज्ञसोंमें पहुँचता है ॥ ७ ॥

एतमु त्यं दश क्षिपो हरिः हिन्वन्ति यातवे ।
स्वायुधं मदिन्तमम् ॥ ८ ॥

(स्वायुधं मदिन्तमम्) श्रेष्ठ आयुधवाले परमहर्षदायक (हरिः न्यं एतम् उ) हरे वर्णके तिम इस ही सोमको (यातवे दश क्षिपः हिन्वन्ति) गमन करनेके लिये दश अंगुलियें प्रेरणा करती हैं ॥ ८ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके दशमाध्यायस्य द्वितीय सर्गः समाप्तः

एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत ।
गच्छन्वाजः सहस्रिणम् ॥ ९ ॥

(वृषा) मनोरथों की वर्षा करनेवाला (रथः) वेगवान (स्यः एषः) वह यह अभिषव किया हुआ सार (सहस्रिणं वाजम्) सहस्रों का अन्न यजमानको देनेके लिये (गच्छन्) द्रोणकलश में प्रवेश करना चाहता हुआ (अव्या वारेभिः अन्वत) अन्नक पावित्र में को छतकर द्रोणकलश में जाता है ॥ ९ ॥

एतं त्रितस्य योषणो हरिः हिन्वन्त्यद्रिभिः ।
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ १० ॥

(त्रितस्य योषणः) त्रिनकी अंगुलियें (इन्द्राय पीतये) इन्द्र के पीनेके लिये (एतं हरि इन्द्रम्) इस हरेवर्ण के सोमको (अद्रिभिः हिन्वन्ति) अभिषवके पापाणों से प्रेरणा करती हैं ॥ १० ॥

एष स्य मानुषोऽप्या श्येनो न विशुसीदति ।
गच्छञ्जारो न योपितम् ॥ ११ ॥

(स्यः एषः) वह यह सोम (मानुषोऽपि विशु) यजमानरूप मनुष्य प्रजाओंमें । (श्येनः न) जैसे वाज पत्नी शीघ्र आता है तैसे (आसीदति) अनुग्रहपूर्वक अकर स्थित हाताहै (योपितं गच्छन् जारः न) जैसे कि—व्यभिचारिणी स्त्रोके पास जानेवाला जार संकेत के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करनेको गुरुरूप से जाता है ॥ ११ ॥

एष स्य मद्यो रसोऽवचष्टे दिवः शिशुः ।
य इन्दुर्वारमाविशत् ॥ ४ ॥

(दिवः शिशुः) द्युलोक में उत्पन्न होनेके कारण उस के पुत्र की समाप्त (यः इन्दुःवारं आविशत्) जो सोम दशा पवित्रमें प्रवेश करता है (स्यः एपः) वह सोम (मद्यः रसः अवचष्टे) मदकारी रसरूप है और सब को ही देखता है ॥ ४ ॥

एष स्य पीतये सुतां हरिरर्षति धर्णसिः ।
क्रन्दन्योनिमभिप्रियम् ॥ ५ ॥

(पीतये सुतः) देवताओंके पीनेके लिये अभिपव किया हुआ (हरिः धर्णसिः) हरे वर्णका और सयका धारक (स्यः एपः) वह यह सोम (प्रियं योनिम्) अपने प्यारे द्रोणकलश रूप स्थानमें (क्रन्दन् अभ्यर्षति) शब्द करता हुआ जाता है ॥ ५ ॥

एतं त्यं हरितां दश मर्मज्यन्ते अपस्युवः ।
याभिर्मदाय शुम्भते ॥ ६ ॥

(त्यं एतम्) ऐसे इस सोमको (दश हरितां) अध्वर्युकी दशअंगुलियों (अपस्युवः मर्मज्यन्ते) कर्मकी इच्छा करती हुई शोधती है (याभिः मदाय शुम्भते) जिन अंगुलियों से इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये शोधा जाता है ॥ ६ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके दशमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः ।
अव्यं वारं विधावति ॥ १ ॥

(वाजी नृभिः हितः) वेगवान् और अध्वर्यु करके पात्रमें स्थापन किया हुआ (विश्वविन् मनसः पतिः) सर्वज्ञ और मन का स्वामी (एषः अव्यं वारं विधावति) यह सोम ऊनके दशापवित्रमें को अनेकों धारों से निकलता है ॥ १ ॥

एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः
विश्वा धामान्याविशत् ॥ २ ॥

(एषः देवेभ्यः सुतः) यह सोम देवताओंके निमित्त अभिपत्र किया हुआ (पवित्रे अक्षरन्) पवित्रमें छुनकर (विरवा धामानि आविशन्) सकल देवशरीरों में प्रवेश करता है ॥ २ ॥

एष देवः शुभायते ऽधि योनावऽमर्त्यः ।
वृत्रहा देववीतमः ॥ ३ ॥

(अमर्त्यः वृत्रहा) मरणघर्म रहित और शत्रुओं का नाशक (देव-वीतमः देवः) देवताओं की परम कामना करनेवाला और दिव्यरूप (एषः अधियोनी शुभायते) यह सोम अपने कलशरूप स्थान में शोभा पाता है ॥ ३ ॥

एष वृषा कनिकदद्दशभिर्जामिभिर्यतः ।
अभि द्रोणानि धावति ॥ ४ ॥

(वृषा एषः) मनोरथों की चर्पा करनेवाला यह सोम (कनिकदत् दशभिः यामिभिः यतः) शब्द करता हुआ और दश अंगुलियोंसे धारण किया हुआ (द्रोणानि अभि धावति) द्रोण कलशोंमें को जाता है ॥४॥

एष सूर्यमरोचयत्पवमानो अधि द्यवि ।
पवित्रे मत्सरो मदः ॥ ५ ॥

(पवित्रे) स्वयं दशापवित्र में स्थित (मत्सरः मदः) प्रसन्नता देनेवाला और प्रसन्न रूप (एषः पवमानः) यह संस्कार कियाजाता हुआ सोम (अधिद्यवि सूर्यं अरोचयत्) द्युलोक में स्थित सूर्य को दीप्त करता है ॥ ५ ॥

एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता ।
पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥ ६ ॥

(वाचः पतिः) स्तुतिरूपा वाणीका स्वामी (अदाभ्यः एषः) किसी से भी हिंसित न होनेवाला यह सोम (संवसानः) सबको आच्छा-दित करता हुआ (विवस्वता सूर्येण हासते) दीप्तिमान् सूर्य करके दशापवित्र में छोड़ाजाता है ॥ ६ ॥

सामवेदोक्तराचिके दशमाध्यायस्य चतुर्थे खण्डःसमाप्तः

एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते ।

पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ १ ॥

(कविः अभिष्टुतः एषः) अनुभवी और स्तुति किया हुआ यह सोम (पुनानः) पवित्र किया जाता हुआ (द्विषः अपघ्नन्) शत्रुओंको दूर करता हुआ (पवित्रे अधितोशते) कृष्ण मृगचर्म पर कूटा जाता है ।

एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परिषिच्यते ।

पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २ ॥

(दक्षसाधनः स्वर्जित् एषः) बलका साधन और सबको जीतने वाला यह सोम (इन्द्राय वायवे) इन्द्र और वायु के अर्थ (पवित्रे परिषिच्यते) दशापवित्र में टपकाया जाता है ॥ २ ॥

एष ऋभिर्विनीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः ।

सोमो वनेषु विश्ववित् ॥ ३ ॥

(दिवः मूर्धा,) धुलोकका शिरकी समान प्रधान (वृषा सुतः) कामनाओं की वर्षा करनेवाला और अभिपद्य किया हुआ (विश्ववित् एषः) सर्वज्ञ यह सोम (वनेषु ऋभिः विनीयते) काठके पात्रों में ऋन्विजों करके अनेकों धारोंसे पहुँचाया जाता है ॥ ३ ॥

एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः ।

इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ ४ ॥

(गव्युः हिरण्ययुः) हमारे लिये गौएँ और मुवर्ण चाहनेवाला (इन्दुः सत्राजित्) दीप्त और बहुतसे शत्रुओंको एकसाथ जीतने वाला (अस्तृतः एषः पवमानः) किसीसे हिंसित न होनेवाला यह सोम (अचिक्रदत्) शब्द करता है ॥ ४ ॥

एष शुष्म्यऽसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥

(वृषा हरिः) मनोरथपूरक और हरे वर्ण का (पुनानः इन्दुः) पवित्र करनेवाला दीप्तिमान् (शुष्मी एषः) बलवान् यह सोम (अन्तरिक्षे असिष्यदत्) दशापवित्र में टपकता है (इन्द्रं आ) इन्द्रको भी आदर के साथ पहुँचता है ॥ ५ ॥

एष शुष्म्यऽदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति ।
देवावीरघशं,सहा ॥ ६ ॥

(देवाघीः अघशंसहा) देवताओंका रक्षक और पापकी सगाहना करनेवालोंका नाशक (अदाभ्यः पुनानः) अहिंसनीय और शोधन किया जाता हुआ (शुष्मा एषः अर्षति) बलवान् यह सोम द्रोणकलश में पहुँचता है ॥ ६ ॥

सामवेदोत्तरार्धिके दशमाध्यायस्य पञ्चमः खंडः समाप्तः

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रं अर्षति ।
निघ्नन् रक्षां,सि देवयुः ॥ १ ॥

(देवयुः सः) देवताओं की कामना वाला वह सोम (पीतये सुतः) इन्द्रादि के पीनेके लिये अभिषेक कियाहुआ (वृषा) इच्छित पदार्थों की वर्षा करता हुआ (रक्षांसि निघ्नन्) राक्षसोंका नाश करताहुआ (पवित्रं अर्षति) दशापवित्र में पहुँचता है ॥ १ ॥

स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णासिः।
अभि योनिं कनिक्रदत् ॥ २ ॥

(विचक्षणः हरिः) सबका द्रष्टा और पापहारी (धर्णासिः सः) सबका धारणकर्ता वह सोम (पवित्रे अर्षति) दशापवित्र में जाता है । फिर (कनिक्रदत् योनिं अभि) शब्द करता हुआ द्रोणकलशमें जाता है ॥२॥

स वाजां रोचनं दिवः पवमानो विधावति ।
रक्षोहा वारमव्ययम् ॥ ३ ॥

(वाजां दिवः रोचनम्) वेगवान् और धुलोकका दीपक (रक्षोहा पवमानः सः) राक्षसोंका नाशक शुद्ध कियाजाता हुआ वह सोम (अव्यय वारं विधावति) ऊनके पवित्रमें छुनकर अनेकों धाराओंसे जाता है ३

स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत् ।
जामिभिः सूर्यं, सह ॥ ४ ॥

(सः) वह सोम (त्रितस्य अधि सानवि) त्रितके बड़ेभारी यज्ञमें (पवमानः) संस्कार किया जाता हुआ (जामिभिः सह सूर्यं अरोचयत्) बड़ेहुए बंधुरूप श्रेष्ठ तेजोंके साथ सूर्यको प्रकाशित करता हुआ ॥४ ॥

स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः ।
सोमो वाजमिवासरत् ॥ ५ ॥

(वृत्रहा वृषा) शत्रुओंका नाशक और वर्षाकर्त्ता (सुतः वरिवो-
वित्) अभिपव कियाहुआ और यजमानको धन देनेवाला (अदाभ्यः
सः सोमः) औरगैले हिसित न होनेवाला वह सोम (वाज इव अस-
रत्) संग्रामके घोड़ेकी समान वेगसे कलशमें जाताहै ॥ ५ ॥

स देवः कविनेषितोऽभिद्रोणानि धावति ।
इन्दुरिन्द्राय मधुं,हयन् ॥ ६ ॥

(देवः इन्दुः स) दिव्य और पतला कियाहुआ वह सोम (कविना
उषितः) अनुभवी अध्वर्युसे प्रेरणा कियाहुआ (इन्द्राय मधुं हयन्)
इन्द्रको अपने रससे पूजताहुआ (द्राणानि अभिधावति) कलशोंकी
ओरको जाताहै ॥ ६ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके दशमाध्यायस्य पष्ठः खण्डः समाप्त

यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभृतं, रसम् ।
सर्वं, स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना १

(यः ऋषिभिः संभृतं रसं पावनीः अध्येति) जो ऋषियोंके सम्पा-
दन कियेहुए वेदके साररूप पवमानदेवतावाले मंत्रोंको पढ़ता है (सः
सर्वं मातरिश्वना स्वदितम्) वह पुरुष भोजनकी सामग्रीमात्रको स्वयं
पवित्र पवनने स्वाद लेकर (पूतं अश्नाति) पवित्रकी हुईकां खाता है १

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम् ।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधुदकम् ॥ २ ॥

(यः ऋषिभिः संभृतं रसम्) जो पुरुष ऋषियोंकी सम्पादनकी हुई
वेदकी साररूप (पावमानीः अध्येति) पवमान देवतावाली ऋचाओं
को पढ़ता है (तस्मै सरस्वती) उसके लिये सरस्वती देवी (क्षीरं
सर्पिः मधु उदकं दुहे) यज्ञका साधन वेदरूप दूध घी और मदकारी
जै स्वयं दुह देती है अर्थात् उसको यज्ञादिविषयक वेदशास्त्र का
ज्ञान कर देती है ॥ २ ॥

पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्च्युतः
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम् ३

(पावमानीः) पवमान देवतावाली ऋचाण (स्वस्त्ययनीः सुदुघाः) कल्याण प्राप्त करानेवाली और श्रेष्ठ फल देनेवाली (घृतश्च्युतः) हमारे ऊपर अनुग्रहरूप घृतको टपकानेवाली है (हि ऋषिभिः रसः संभृतः) नि देह मंत्रद्वाराओंने हमारे लिये फलोंका सार सम्पादन करदिया है (ब्राह्मणेषु अमृतं हितम्) हम वेदपाठियोंमें अविनाशी बल स्थान करदिया है ॥ ३ ॥

पावमानीर्दधन्तु न इमं लोकमथो अमुम् ।

कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीर्देवैः समाहताः ॥ ४ ॥

(देवैः समाहताः पावमानीः देवीः) इन्द्रादि देवताओंकी संपादन की हुई पवमान मंत्रोंकी अभिमानीकी देवियों (नः इमं अथो अमुं लोकं दधन्तु) हमें यह लोक और स्वर्गलोक दे । और उन दोनों लोकोंके (नः कामान्त्समर्धयन्तु) हमारे मतारथोंको सफल करे ॥ ४ ॥

येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा ।

तेन सहस्रवारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ ५ ॥

(देवाः येन पवित्रेण) इन्द्रादि देवता जिन शुद्धिक्त आधतसे (सदा आत्मानं पुनते) सदा अपने शरीरको पवित्र रखते हैं (तेन सहस्रवारेण) उस सहस्र बारोंवाले साधनसे (पावमानीः नः पुनन्तु) पवमान देवतावाली ऋचाण हमें पवित्र करे ॥ ५ ॥

पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्द-
नम् । पुण्यांश्च भक्षान्भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति

(पावनीः स्वस्त्ययनीः) अग्निदेवतावाली या पवमान सोम सोमसंबंधी देवतावाली ऋचाण अविनाशी फल देनेवाली है (ताभिः नान्दनं गच्छति) उन ऋचाओंके राटसे स्वर्गको प्राप्त होता है । इस लोकमें (पुण्यान् भक्षान् च भक्षयति) पुण्यप्राप्त खानपानके पदार्थोंको भोगता है (अमृतत्वं च गच्छति) और अमरभावको भी प्राप्त होता है ।
सामप्रश्नराचिके दशमाध्यायस्य सप्तम खण्ड समाप्त

अगन्म महा नमसा यविष्ठं, यो दीदाय समिद्धः
स्वे दुरोणे । चित्रभानुं रोदसी अन्तरुर्वी
स्वाहुत विश्वतः प्रत्यञ्चम् ॥ १ ॥

(यः स्वे दुरोणे समिद्धः दीदाय) जो अग्नि अपने आहवनीय स्थान में काष्ठोंसे भले प्रकार दीप्त होता है । तिस (यविष्ठम्) परमतरुण (ऊर्वी रोदसी अन्तः चित्रभानुम्) विस्तारवाले द्यावापृथिवीके मध्य में विचित्र कान्ति वाले (स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्) श्रेष्ठ आहुतियों से होमेहुए और सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निको (महा नमसा अगन्म) महान् प्रणाम करनेहुए शरणमें प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

स महा विश्वा दुरितानि साह्वानग्निष्टवे दमे
आ जातवेदाः । स नो रक्षिपद्दुतादवद्याद-
स्मान्गृणत उत नो मघोनः ॥ २ ॥

(महा नः विश्वा दुरितानि साह्वान्) अपने प्रभावसे हमारे सकल पापोंका निरस्कार करनेवाला (जातवेदाः सः अग्निः) धनकामंडारी वह अग्निदेव (दमे आ स्तवे) यज्ञशालामें हमारे द्वारा स्तुति किया जाता है (सः गृणतः नः) वह अग्नि स्तुति करनेवाले हमारी (दुरितात् अवद्यात् रक्षिपत्) पापसे और निन्दित कर्मसे रक्षा करे (उत मघोनः अस्मान्) और हविवाले हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥

त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने, त्वां वर्धन्ति मति
भिवसिष्ठाः । त्वे वसु सुषणनानि सन्तु, यूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥

(अग्ने त्वं वरुणः उत मित्रः) हे अग्ने ! तुम पापोंको दृष्ट करनेवाले वरुण और पुण्य प्राप्त करनेमें मित्र जो (वसिष्ठाः त्वां मतिभिः वर्धन्ति) जितेंद्रियोंमें श्रेष्ठ ऋषि तुम्हें स्तुतियोंसे बढ़ाते हैं (त्वे वसु सुषणना- नि सन्तु) तेरे विषय विद्यमान धन हमारे सेवन योग्य हों (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) तुम सब देवता स्वस्ति योंसे सदा हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥

यहाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्या वृष्टिमाँ इव ।

स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥ १ ॥

(यः इन्द्रः) जो इन्द्र (वृष्टिमान् पर्जन्यः इव) वरसनेवाले मेघकी समान (तेजसा महान्) अपने तेज करके ही सबसे बड़ा है । वह इन्द्र (वत्सस्य स्तोमैः वावृधे) पुत्ररूप स्तोताके स्तोत्रोंसे बढ़ता है १

कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् ।

जामि ब्रुवत आयुधा ॥ २ ॥

(यद्) जब (कण्वाः इन्द्रं स्तोमः यज्ञस्य साधनं अक्रत) स्तोताओं ने इन्द्रको स्तोत्रोंके द्वारा यज्ञका साधक किया । तब (आयुधा जामि ब्रुवत) शस्त्र निरर्थक कहलाते हैं ॥ २ ॥

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्रयद्गरन्त वह्नयः ।

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ ३ ॥

(यद्) जब (पिप्रतः वह्नयः) आकाशके प्रदेशोको पूर्ण करनेहुए अश्व (ऋतस्य प्रजाम्) यज्ञके निमित्त प्रकटहुए इन्द्रको (प्र भरन्त) वेगके साथ लेजाते हैं । तब (विप्राः) ऋत्विज (ऋतस्य वाहसा) यज्ञको प्राप्त करानेवाले स्तोत्रसे तिस इन्द्रकी रतुति करते हैं ॥ ३ ॥

सामवेदान्तार्चिके दशमाध्यायस्य अष्टम खण्डः समाप्त

पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत ।

जीरा अजिरशोचिषः ॥ १ ॥

(जिघ्नतः) वार २ अंधकारका विनाश करनेवाले (हरैः अजिरशोचिषः) हरे वर्णके और सर्वत्र जानेवाला है तेज जिसका ऐश (पवमानस्य चन्द्राः जीराः असृक्षत) सोमकी, देवताओंको आनन्द देनेवाली धारें पवित्रमेको निकलती है ॥ १ ॥

पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः ।

हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥ २ ॥

(रथीतमः) श्रेष्ठ रथवाला (शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः) दमकते हुए तेजोंसे भी अधिक दमकनेवाला (हरिश्चन्द्रः) हरे वर्णकी धारोंवाला (मरुद्गणः पवमानः) मरुत् हैं सहायक जिसके ऐसा सोम । सबोंको अपनी किरणोंसे व्याप्त करे ॥ २ ॥

पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः ।

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

(पवमान) हे सोम ! (वाजसातमः) बहुत से अन्न और बलका देनेवाला तू (स्तोत्रे सुवीर्यम् दधत्) स्तुति करनेवाले को सुंदर वीर पुत्र वा धन देता हुआ (रश्मिभिः व्यश्नुहि) अपनी किरणों से सब जगत् को भरदे ॥ ३ ॥

परीतो षिञ्चता सुतः सोमो य उत्तमः हाविः ।

दधन्वान्यो नर्यो अप्स्वाऽऽन्तरा सुधाव सो-

ममद्भिभिः ॥ १ ॥

(यः सोमः उत्तमं हविः) जो सोम देवताओं का श्रेष्ठ हवि है (आ यः नर्यः) और जो मनुष्योंका हितकारी सोम (अप्सु अन्तः दधन्वान्) वसतीवरी जलों के भीतर जानाते । और अप्सु जिम (सोमं अद्भिभिः सुधाव) सोमको पापाणों से अभिपुत्र करते हैं । उस (सुतं इतः परिपिञ्चत) सोमको इस स्थान से उपा संचो ॥ १ ॥

नूनं पुनानोऽविभिः परिस्रवाऽदधः सुरभि-

न्तरः । सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्री-

णन्तो गोभिरुत्तरम् ॥ २ ॥

हे सोम ! (अदधः) किसी से भी हिंसा न किया हुआ (सुरभिन्तरः) अन्यन्त सुगन्धिवाला तू (नूनम्) इस समय (पुनान) शोभाजाता हुआ (अविभिः पवित्रैः परिस्रव) ऊनके पवित्र में का वरस (सुते चित्) अभिपुत्र होने पर (अन्धसा गोभिः श्रीणन्तः) भानरूप अन्नसे और गोधृतादिसे मिलाने हुए हम (उत्तरं अप्सु त्वा मदामः) अन्यन्त प्रकट हुए वसतीवरी जलों में स्थित तुम्हको प्रसन्न करते हैं ॥ २ ॥

परि स्वानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुर्वि-

चक्षणः ॥ ३ ॥

(देवमादनः क्रतुः) देवनाओंको तृप्त करनेवाला और यज्ञका साधक (इन्दुः विचक्षणः) दोष और मयका विशेषरूपसे द्रष्टा (स्थानः दक्षसे परि) अभिषव कियाहुआ सोम सबके दर्शनके लिये द्रोणकलशमें धरसता है ॥ ३ ॥

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो
अभि गा अचिक्रदत् । पुनाना वारमत्येष्य-
व्ययथं, श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत् । १।

(अरुष वृषा) प्रकाशवान् और वर्षा करनेवाला (हरिः सोमः असावि) हरे वर्णका सोम सुमिद्ध हुआ (राजेव दस्मः) राजाकी समान दर्शनीय होकर (गाः अभि अचिक्रदत्) जलोंकी ओरको शब्द करता है । फिर पवित्र होता हुआ (अद्यं धारं अत्येषि) उनके पवित्रों में को छुनता है (श्येनः न घृतवन्तं योनिं आसदत्) पत्नीकी समान वेगसे जलभरे अपने कलशरूप स्थान में पहुँचता है ॥ १ ॥

पर्जन्यः पितामहिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या
गिरिषु क्षयं दधे । स्वसार आपो अभि गा
उदासरन् सं ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे ॥२॥

(महिषः पर्णिनः पर्जन्यः पिता) महान् पत्नोंवाले सोमका उत्पादक पर्जन्य की समान सोम (पृथिव्या नाभा गिरिषु क्षयं दधे) पृथिवीके नाभिस्थान पर्वतोंमें स्थानको करता है, (स्वसारः आपः गाः) अंगुलियों बसनीवरीजल और स्तनियों (अभि उदासन्) अभि मुख प्राप्त हों (वीते अध्वरे ग्रावभिः सं वसते) श्रेष्ठ यज्ञमें पापाणों के साथ जाता है ॥ २ ॥

कावेर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो नमृष्टो अभि
वाजमर्षसि । अपसेधन्दुरिता सोम नो मृड
घृता वसानः परियासि निर्णिजम् ॥ ३ ॥

(सोम) हे सोम ! (कविः वेधस्या माहिनं पर्येषि) अनुभवी तू यज्ञविधानकी इच्छासे पवित्रमें पहुँचता है । फिर (मृष्टः अत्यः न वाजं

अभ्यर्षसि) धोया हुआ घोड़ेकी समान वेगसे संग्रामको प्राप्त होता है हे सोम ! (दुग्धिता अपसेधन्) हमारे पापोंको दूर करताहुआ (न मृड) हमें सुख दे (वृतावसानः निर्णिजं परियासि) जलोंको आच्छादन करताहुआ पवित्रभावको प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥

सामवेदात्तराचिके दशमाध्यायस्य नवमः खण्ड समाप्तः

श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वसूनि
जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागं न दीधिमः १

हे हमारे पुरुषों ! (श्रायन्तः सूर्य इव) जैसे सूर्यका आश्रय करने वाली किरणें सूर्यका सेवन करती हैं तैसे (विश्वेत् इन्द्रस्य भक्षत) सकल धन इन्द्रका सेवन करो (जातः वसूनि ओजसा जनिमा) प्रकटहुआ इन्द्र जिन धनोंको अपने बलसे उत्पन्न होनेवाला करता है अर्थात् जो धन इन्द्रके प्रभावसे अवश्य ही प्रकट होतेहैं और हांगे उनको हम (भागं न प्रतिदीधिमः) पितरोंके भागकी समान धारण करें १

अलर्षिरातिं वसुदामुपस्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रा-
तयः । यो अस्य कामं विधत्ता न रोपति मनो
दानाय चोदयन् ॥ २ ॥

हे स्तोता ! (अलर्षिरातिं वसुदां उपस्तुहि) निष्पाप पुरुषोंके लिये दाता और भक्तोंको धन देनेवाले इन्द्रकी स्तुति करो । क्योंकि (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रके दान कल्याणरूप हैं अर्थात् उससे बड़ा पेश्वर्य बढ़ता है (यः मनः चोदयन्) जो इन्द्रअपने मनको इच्छित दान देनेके लिये प्रेरणा करताहुआ (विधत्ता अस्य कामं न रोपति) आराधना करनेवाले इस यजमानकी इच्छाको नष्ट नही करता है ॥ २ ॥

यत इन्द्र भयामहे ततो ना अभयं कृधिमघवन्
शग्धि तव तन्न ऊतये विद्विपो विमृधोजहि १

(इन्द्र यतः भयामहे) हे इन्द्र ! जिन हिंसकोंसे हम भयभीत होते हैं (ततः नः अभयं कृधि) उनसे हमें निर्भय करो (मघवन् नः तव तव ऊतये शग्धि) हे इन्द्र ! हमें अपनी उस रक्षाके द्वारा रक्षित करनेको समर्थ हजिये (विद्विपो विमृधोजहि) हमारे द्वेषियोंको नष्ट करो (मृधः वि) हमारे हिंसकोंको नष्टकरो ॥ ३ ॥

त्व॑, हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि
विधर्ता । तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सु-
तावन्तो हवामहे ॥ २ ॥

(राधसस्पते त्वं हि) हे धनके स्वामी इन्द्र ! तुम निःसन्देह (महः
राधसः क्षयस्य) बहुतसे धन और स्थानके (विधर्ता असि) हमें
देनेके लिये विशेषरूप से धारण करनेवाले हो (गिर्वणः मघवन् इन्द्र)
हे मंत्रोंसे प्रार्थना करने योग्य धनवान् इन्द्र (तं त्वा वयं सुतावन्तः
हवामहे) ऐसे तुमको हम सोमका अभिषव करके आह्वान करते हैं २

सामवेदोत्तरार्धके दशमाध्यायस्य दशम खण्ड समाप्तः

त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे ।
पवस्व म॑, हयद्रयिः ॥ १ ॥

(सोम मन्द्रः ओजिष्ठः) हे सोम ! परम आनन्द देनेवाला और बड़ा
भागी ओजस्वी नू (अध्वरे धारयुः असि) हमारे हिंसा रहित यज्ञ में
अभिषवकी धाराओंको चाहनेवाला हो (मंहयद्रयिः त्वं पवस्व)
अपने उपासकोंको धन देनेवाला होकर द्रोणकलश में पवित्र हो ॥१॥

त्व॑, सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः ।
इन्द्रः सत्राजिदस्तृतः ॥ २ ॥

हे सोम ! (त्वं मदिन्तमः दधन्वान्) नू अत्यन्त मदयुक्त यज्ञका
धारक (मत्सरिन्तमः इन्द्रः) परम मदकारी और दीत (सत्राजित्
अस्तृतः) अपनेकोंको जीतनेवाला और किसीसेभी हिंसितन होनेवाला है ॥

त्व॑, सुष्वाणो अद्रिभिरस्यर्ष कनिक्रदत् ।
द्युमन्त॑, शुष्ममाभर ॥ ३ ॥

हे सोम (अद्रिभिः सुष्वाणः त्वं अचिक्रदत् अभ्यर्ष) पापाणो से
अभिषव किया जाता हुआ नू शब्द करता हुआ द्रोणकलश में प्राप्तहो
(द्युमन्तं शुष्मं आभर) दीप्तियुक्त शत्रुओंका शोधक बल हमें दे ॥ ३ ॥

पवस्व देववीतय इन्द्रो धाराभिरोजसा ।

आ कलशं मधुमान्तसोम नः सदः ॥ १ ॥

(इन्द्रो देववीनये ओजसा धाराभिः पवस्व) हे सोम ! देवताओं के भक्षण के लिये बलसे धाराओं करके कलशमें बरस (सोम मधुमान् नः कलश आसदः) हे सोम ! मदकारी रसवाला तू हमारे द्रोण-कलशमें स्थित हो ॥ १ ॥

तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः ।

त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ २ ॥

(उदप्रुतः तव द्रप्साः) वसतीवरी जलों में को जानेवाले तेरे शीघ्र-गामी रस (मदाय इन्द्रं वावृधुः) मदके लिये इन्द्रको बढ़ाते हैं । तदनन्तर (देवासः कं त्वां अमृताय पपुः) इन्द्रादि देवता सुखदायक तुम्हको अमर होनेके लिये पीते हैं ॥ २ ॥

आ नः सुतास इन्द्रवः पुनाना धावता रयिम् ।

वृष्टिघावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ३ ॥

(वृष्टिघावः स्वर्विदः) धुलोकको वृष्टिके अभिमुख करनेवाले और यजमानोंको स्वर्गप्राप्ति करानेवाले (रीत्यापः सुतासः) जो जलोंको पृथिवी पर बरसनेवाला करदेते हैं और जो संस्कार कियेहुए हैं ऐसे (पुनानाः इन्द्रवः) पवित्र होतेहुए हे सामो ! तुम (नः रयिं आधावत) हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ३ ॥

परित्यष्टं हर्यतं हरिं वभ्रुं पुनन्ति वारेण ।

यो देवान् विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति १

(हर्यतं हरिम्) सबके चाहने योग्य और पापोंको हरनेवाले (वभ्रुं त्यम्) वभ्रुवर्ण तिल सोमको (वारेण परिपुनन्ति) दशापवित्रमें शोधन करने हैं (यः विश्वान् देवान्) जो सकल इन्द्रादि देवताओंको (मदेन सह इत् परिगच्छति) मादक रसके साथ ही प्राप्त होता है ॥ १ ॥

द्विर्यं पञ्च स्वयशसः सखायो अद्रिसः हितम् ।

प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयंत उर्मयः ॥ २ ॥

(द्विः पञ्च) द्विगुण पाच अर्थात् दश (सखायः) समान भावसे कार्यमें लगनेवाली अङ्ग लिये (स्वयशं अद्रिसंहितम्) अपना यश करने वाले और पापाणोंसे कूटेहुए (इन्द्रस्य प्रियं काम्यम्) इन्द्रके प्रिय और

सबके चाहेहुए (ऊर्मयः) तरहोवाले अर्थात् बहुतमं (यं प्रस्तापयन्ते)
जिस सोमको वसतीवरी जलोसे सम्यक् प्रकार धोती है ॥ २ ॥

**इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परिषिच्यते । नरे
च दक्षिणावते वीराय सदानासदे ॥ ३ ॥**

(सोम) हे सोम (वृत्रघ्ने इन्द्राय पातवे) वृत्रासुरके नाशक इन्द्र
के पीनेके लिये और (दक्षिणावते वीराय) जिसके निमित्त कियेहुए
यज्ञमें ऋत्विजोंको दक्षिणा दीजानी है उस वीर इन्द्रके लिये (च)
और (सदानासदे नरे) बहुतसे यज्ञोंके अनुष्ठानमें बैठनेवाले यजमानके
लिये (परिषिच्यसे) पात्रोंमें टपकाये जाते हो ॥ ३ ॥

**पवस्व सोम महे दक्षायश्वो न नित्तो वाजी
धनाय ॥ १ ॥**

(सोम अश्वान) हे सोम ! अश्वकी ममाम (नित्तः) थोकर शुद्ध
क्रियाहुआ (वाजी) वेगवान् तू (महे दक्षाय धनाय पवस्व) बड़ेमारी अन्न
धन और बलके लिये पात्रमें परस ॥ १ ॥

**प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे
द्युम्नाय ॥ २ ॥**

हे सोम ! (सोतारः) ऋत्विज (ते रस मदाय पुनन्ति) तेरे रस
को मदके लिये पवित्र करते हैं (महे द्युम्नाय सोमम्) बड़ेमारी अन्न
और यशके लिये सोम रसको पवित्र करते हैं ॥ २ ॥

**शिशुं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य
इन्दुम् ॥ ३ ॥**

ऋत्विज (देवेभ्यः) देवताओंके लिये (शिशुम् जज्ञानम्) देवताओं
के पुत्रसमान प्रेमपात्र और शुद्ध हातेहुए (हरिं इन्दुं नाम) नरेवर्य
के दाम सोम मा (पवित्रे मृजन्ति) पवित्रमें शोधन करते हैं ॥ ३ ॥

उपोषु जातमसुरं गोभिर्भद्रं परिष्कृतम् ।

इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १ ॥

(ज्ञातं अतरम्) प्रकटहुए और वसतीवरी जलोके प्रेरणा कियेहुए (भङ्गं गोभिः सु परिष्कृतम्) शत्रुओंके नाशक और गोघृतादिसे सुसिद्ध कियेहुए (इन्दुं देवाः उपायासिषुः) सोमको इन्द्रदि देवता प्राप्त होते है ॥ १ ॥

तमिद्धन्तु नो गिरो वः स * स * शिश्वरीरिव
य इन्द्रस्य हृद् सतिः ॥ २ ॥

(य. इन्द्रस्य हृद् सतिः) जो सोम इन्द्रके हृदयका परम सेवक है (तमित् नः गिरः संवद्धन्तु) उस सोमको ही हमारी स्तुतिरूपा वालिये बढ़ावे (वन्तं शिश्वरीः इव) जैसे कि बालकको दूधवाली माताये बढ़ाती है ॥ २ ॥

अर्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिपम् ।
वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥

(सोम नः गवे शं अर्ष) हे सोम ! हमारी गोओंके लिये सुख वरसा (पिप्युषी इपं धुक्षस्व) बहुतसे अन्नको हमारे घरमें भरदे (उक्थ्य समुद्रं वर्द्ध) हे स्तुतियोग्य ! द्रोणकलशके जलका बढ़ा ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक दशमाध्यायस्य एकादश. खण्डः समाप्तः

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति वहिरा-
नुषक् । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १ ॥

(ये आ घा अग्नि इन्धते) जो ऋषि अभिमुख होकर अवश्य ही अग्निको प्रज्वलित करने हैं (येषां युवा इन्द्र सखा) जिनका नित्य तरुण इन्द्र मित्र बना रहनाहै । वह (आनुषक् दहिः स्तृणन्ति) क्रमसे कुशार्थे विद्यमान है ॥ १ ॥

वृहन्निदिधम एषां भूरि शस्त्रं पृथु स्वरुः ।
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २ ॥

(एषां इधमः वृहन् इत्) इन ऋषियोंका समिधाओंका समूह बहुत ही बड़ा है (शस्त्रं भूरि) स्तोत्र बहुत है (स्वरुः पृथुः) शस्त्र बड़ा है (येषां युवा इन्द्रः सखा) जिनका नित्यतरुण इन्द्र सखा है ॥ २ ॥

अयुद्ध इयुधावृत्त * शूर आजति सत्वभिः ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३ ॥

(येषां युवा इन्द्रः सखा) जिनका नित्यतरुण इन्द्र मित्र है, उनमें का कोई (अयुद्ध इत्) पहिले योधा होना हुआ ही (युधावृत्तम्) योधा आंकी सेनासे घिरे हुए शत्रुको (सन्वमिः शत्रुः) अपने बलोंसे शूर होता हुआ (आजति) नमाता है ॥ ३ ॥

य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ।

ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥ १ ॥

(यः एक इत्) जो इन्द्र एक ही (दाशुषे मर्ताय वसु विदयते) दधि देनेवाले यजमानको धन देता है (अप्रतिष्कृतः इन्द्रः) जिसमें कोई प्रतिकृतना नहीं करना ऐसा वह इन्द्र (अङ्ग ईशानः) शीघ्र हा त्वर जगन्का स्वामी होजाता है ॥ १ ॥

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आ विवा-

सनि । उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २ ॥

(बहुभ्य यः चिद्धि) बहुतसे मनुष्योंमेंसे जो यजमान अवश्य ही (सुतावान्) सोमका संस्कार करनेवाला होकर । हे इन्द्र (त्वा आ-विवासनि) तुम्हारी आराधना करता है (तत्) उसका (पत्यते) तीव्र (शवः) बल (इन्द्रः अङ्ग आपत्यते) इन्द्र शीघ्र ही प्राप्त करता है ॥ २ ॥

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पामिव स्फुरत् ।

कदा नः मुश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥

(इन्द्रः) इन्द्र (कदा) कब (अराधसं मर्तम्) देवताओंको दधि देनेवाले मनुष्योंको (पदा क्षुम्पामिव) जैसे चरणसे काठ गलकर उगे हुए लुवाकार फलको कुचलदेतेह तैसे (स्फुरत्) नष्ट करेगा? (कदा) कब (अङ्ग) शीघ्र ही (नः गिर गश्रवत्) हमारी स्तुतियोंको सनेगा ॥ ३ ॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणोर्चन्त्यकर्मकिंणः ।

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशामिव यमिरा ॥ १ ॥

(शतक्रतो) हे इन्द्र ! (गायत्रिण त्वा गायन्ति) त्वाका तीर्ता स्तुतियों का गान करते हैं (अर्किणः शकं अर्चन्ति) अर्चनके लिये त्वाका स्तुतियाँ देना पड़नाय इन्द्रकी भद्रोच्चारणके साथ पूजा करते हैं (यमिरा)

त्वा उद्येमिरे) ब्रह्मा आदि अन्य ऋत्विज तुम्हें उन्नतिके पद पर पहुँचाते हैं (वंशं इव) जैसे कि—नट वांसको ऊँचा करते हैं अथवा जैसे सन्मार्गमें चलनेवाले पुरुष अपने कुलको ऊँचा करते हैं ॥ १ ॥

यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्वम् ।

तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ २ ॥

(यद्) जब (सामोः सानु आरुहः) यजमान सोमवह्नी समिधा आदि लानेको पर्वतके शिखर पर चढ़ता है (भूरि कर्त्वं अस्पष्ट) अनेकों कर्मवाले यज्ञका अनुष्ठान करता है (तद् इन्द्रः) उस समय इन्द्र (अर्थं चेतति) यजमान के प्रयोजन को जानजाता है और जानकर (वृष्णिः यूथेन एजति) मनोरथों की वर्षा करनेवाला होकर देवगणोंके साथ यज्ञभूमि में आनेकी चेष्टा करता है ॥ २ ॥

युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा ।

अथान इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ॥ ३ ॥

(सोमपाः) हे सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (केशिना वृषणा) ग्रीवा पर केशोंवाले और तरुण (कक्ष्यप्राः हरी) पुष्ट अङ्गोंवाले अपने घोड़ोंको (युङ्क्ष्वा हि) अवश्य ही रथ में जोतीं । अथ । इसके अनन्तर (इन्द्र) हे इन्द्र ! (नः गिरां उपश्रुतिं चर) हमारी स्तुतियों सुननेको समीप में आइये ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक ६ दशमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः दशमाध्यायस्य समाप्तः

एकादशो अध्यायः

सुसुमिद्धो न आवाह देवाँ अग्ने हविष्मते ।

होतः पावक यक्षि च ॥ १ ॥

(सुसुमिद्धः) हे अग्ने ! सम्यक् प्रकार प्रज्वलित हुए तुम (नः हविष्मते देवान् आवाह) हमारे यजमान के निमित्त देवताओंको आवाहन करो (होतः पावक) हे पवित्र करनेवाले और होमके सफलकर्ता अग्ने ! (यक्षि च) उन देवताओंका यजन भी करो ॥ १ ॥

मधुमान्तं तनूनपाव्यज्ञं देवेषु नः कवे ।

अद्या कृणुह्यतये ॥ २ ॥

(कवे अग्ने) हे मेधावी अग्निदेव ! (तनूनपात्) तनूनपात नाम वाला तू (अद्य) आज (ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (नः मधुमन्तं यज्ञं देवेषु कृणुहि) हमारे रसयुक्त यजनके योग्य हविको देवताओं में पहुँचाओ ॥ २ ॥

नराशंखंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उपह्वये ।

मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॥ ३ ॥

(इह अस्मिन् यज्ञे) इस देवयजनस्थानमें इस वर्त्तमान यज्ञके विषय (प्रियं मधुजिह्वम्) देवताओंको प्रसन्न करनेवाले और मीठा बोलने वाली जिह्वावाले (हविष्कृतं नराशंखं उपह्वये) हवियोंको देवताओंके समीप पहुँचाकर सकल करनेवाले नराशंस नामक अग्निको आवाहन करता हूँ ॥ ३ ॥

अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आवह ।

असि होता मनुर्हितः ॥ ४ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (ईडितः) हमसे मनुति कियेहुए तुम (सुखतमे रथे देवान् आवह) अन्यन्त सुखदायक किन्हीं रथमें देवताओंको बैठाकर कर्मभूमिमें लाओ (मनुर्हितः होता असि) तुम मन्त्ररूपसे वा मनुष्य यजमानादि रूपसे यहाँ स्थापित और देवताओंका आवाहन करनेवाले हो ॥ ४ ॥

यद्य सूर उदिनेऽनागा मित्रो अर्यमा ।

सुवाति सविता भगः ॥ १ ॥

(यत्) जो धन हमें अपेक्षित है उसको (अद्य सूर उदिने) आज सूर्यका उदय होने पर प्रातःकालके समय (अनागाः) पापनाशक (मित्रः अर्यमा) मित्र और अर्यमा देवता तथा (भगः सविता सुवाति) सेवनीय सविता देवता प्रेरणा करता है ॥ १ ॥

सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः ।

ये नो अहंतिपिप्रति ॥ २ ॥

(सुदानवः) हे श्रेष्ठ दान करनेवाले मित्रादि देवताओं ! (प्र नु यामन्) उत्तमताके साथ शीघ्र ही तुम्हारा आगमन होनेपर (सक्षयः)

सुप्रवीः" अस्तु) अपने निवासस्थान यज्ञ सहित अग्नि देवता हमारा भले प्रकार अधिकतासे रक्षक हो (ये नः ग्रहः अतिपिप्रति) जो तुम मित्रादि देवता हमें पापके पार करते हो ॥ २ ॥

उत स्वराजो आदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये ।

महो राजान ईशते ॥ ३ ॥

(उत ये) और जो मित्रादि देवता तथा (अदितिः) देवमाना (अदब्धस्य व्रतस्य स्वराजः) सुरक्षित हमारे कर्मके स्वामी हैं वह (महः राजानः) बहुतसे हमारे इच्छित धनके स्वामी होतेहुए (ईशते) वह इच्छित पदार्थ हमें देनेकी शक्ति रखते हैं ॥ ३ ॥

उत्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः ।

अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (सोमाः त्वा उन् मदन्तु) सोम तुम्हें उत्तम आनन्द दें अद्रिवः राधः कृणुष्व) हे वज्रधारा ! हमें अन्न दो (ब्रह्मद्विषः अव-जहि) ब्राह्मणोंके द्वेषियोंका नाश करो ॥ १ ॥

पदा पणीनराधसो निवाधस्य महाः असि ।

नहि त्वा कञ्चन प्रति ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (महाः असि) तुम सबसे बड़े हो । त्वा प्रति कञ्चन न हि) तुम्हारी समता करनेवाला कोई भी नहीं है (अराधसः पणीन पदा निवाधस्य) यज्ञादिमें धनका दान न करनेवाले लोगोंको चरणसे दवाकर कष्ट दो ॥ २ ॥

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् ।

त्वः राजा जनानाम् ॥ ३ ॥

(इन्द्र त्वं सुतानां त्वं असुतानां ईशिसे) हे इन्द्र ! तुम नस्कार किये हुए सोमोंके और तुम संस्कार न कियेहुए सोमोंके स्वामी हो (त्व जनानां राजा) तुम सकल प्राणियोंके राजा हो ॥ ३ ॥

सामवेदात्तरार्चिके एकादशाध्यायस्य प्रथम खण्ड समाप्त

आजागृविर्भ्र ऋतं मर्तानां सोमः पुना

असदृचमृषुसपन्ति यं मिथुनासो निकामा
अव्यर्थवा रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥

(जागृचिः) जागरणशील (मृतं मतीनां चित्रः) मन्थस्वरूप स्तुति-
योंका दाता (सोमः पुनानः चमृषु आसदत्) सोम सोधाजानाहुआ
पात्रोंमें स्थित होता है (मिथुनासः निकामा) परस्पर एकद्वे हुए
अपना कामनावाले (रथिरासः सुहस्ताः) यज्ञके परिचालक कल्या-
णरूप हाथवाले (अव्यर्थवः यंसपन्ति) अव्यर्थ जिसको स्पर्श करते हैं ?

स पुनान उप सुरे दधान अभि अप्रा रोदसी
वी प आवः । प्रया चियस्य प्रियासास ऊती
सतो धनं कारिणे न प्रयसत् ॥ २ ॥

(पुनानः दधानः सः) सम्कारयुक्त होताहुआ और यज्ञादि कर्मका
सम्पन्न वह सोम (सः उपगच्छति) प्रेरक इन्द्रके समीप पहुँचना है
(उमे रोदसी) यावा पृथिवी दोनोंको (आ अप्राः) अपनी महिमा
से पूर्ण करताहै (सामः आवः) सोम अपने तेजसे मुझे आच्छादित
करता है (प्रिया) प्रिय पदार्थ देनेवाले (यस्य मृतः) जिस विद्य-
मान सोमको (प्रियासासः) अन्यन्त प्यारी धार (ऊती) हमारी रक्षा
करती है वह (कारिणे न धनं प्रयसत्) भृत्पसमान मुझे धन देयें ?

स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वान् अभि
नोज्यंतिपावान् : यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः
स्वर्धिदो अभिगा अद्रिमिष्णन् ॥ ३ ॥

(वर्धिता वर्धनः) देवताओंको अपनी कला देकर बढ़ानेवाला और
स्वयं बढ़ताहुआ (पूयमानः मीढ्वान्) दशापवित्रके द्वारा शुद्ध होता
हुआ और कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (सः सोमः) वह सोम
(नः ज्यंतिपा अर्धावात्) हम अपने तेजसे रक्षा करें (यत्र) जिस
सोमके प्रनन्त होने पर (पदज्ञाः स्वर्धिदः) पदोंके जाननेवाले और
सर्वज्ञ (नः पूर्वे पितरः) हमारे पुराने पितर (गाः) गौर्ष पानेको
(अद्रि अभि इष्णन्) पर्वकी ओरकी जाना चाहते हैं ॥ ३ ॥

मा चिदन्याद्विशसत सखायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमितस्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था
च शंसत ॥ १ ॥

(सखायः) हे हितकारी स्तोताओं ! (अन्यत् मा चित् विशंसत) इन्द्रके स्तोत्रसे अन्य स्तोत्रको कभी भी उच्चारण मत करो (मा रिपरयत) अन्य स्तोत्रके उच्चारणसे वृथा क्षीण मत होओ (सुते वृषणं इन्द्रम् इत्) सोमका संस्कार होने पर मनोरथोंकी वर्षा करनेवाले इन्द्रकी ही (सचा स्तोत) इकट्ठे होकर स्तुति करो (उक्था च मुहुः शंसत) इन्द्रविषयक मंत्रोंको ही बार बार पढ़ो ॥ १ ॥

अवकाक्षणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीमहम्
विद्वेषणं संवननमुभयङ्करं महिष्ठमुभयावि-
नम् ॥ २ ॥

(वृषभं यथा अवचक्रिणम्) वृषभकी समान शत्रुओंको मारनेवाले (गां न जुवम्) वृषकी समान शीघ्रता करनेवाले (चर्षणीमहम्) शत्रुओंके पुत्रोंको तिरस्कार करनेवाले (विद्वेषणां संवननम्) शत्रुआ से द्वेष करनेवाले और उपासकोंके आराधना करने योग्य (उभयङ्करं महिष्ठम्) निग्रह अनुग्रह दोनोंके कर्ता और परमदाता (उभयाविनम्) दिव्य पार्थिव दोनों प्रकारका ऐश्वर्यवाले इन्द्रकी ही स्तुति करो

उदुत्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरता सत्रा-
जितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव

(उदुत्ये मधुमत्तमाः) वह अन्यन्त मधुर (गिरः स्तोमासः) वेदवाणीरूप स्तोत्र (उदीरते) उच्चारण कियेजाते हैं अर्थात् तुम्हारे निमित्त उच्चारण कियेष्टुण ऊपर फेलते हैं (सत्राजितः धनसा) साथ ही शत्रुओंको जीततेदृष्टुण और धनको पानेवाले (अक्षितोतयः) अटल रक्षावाले (वाजयन्तः रथा इव) अन्न चाहनेवाले रथ जैसे अनेकों प्रकारसे भूतलपर प्रचलित होते हैं ॥ २ ॥

कण्वा इव भगवः सूर्या इव विश्वमिर्द्धातमाशता
इन्द्रं स्तोमभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासौ
अस्वरन् ॥ २ ॥

(कग्वाः इव स्तुवन्तः) कग्वागोत्रवाले ऋषियोंकी समान स्तुति करतेहुए (धीतं विश्वमित् इन्द्रं आशत) ध्यान करेहुए उस व्यापक इन्द्रको ही व्याप्त करते हैं (सूर्या इव) जैसे कि—सूर्यकी किरणें सब जगत्को व्यापलेंती हैं और (प्रियमेधासः आयवः) यज्ञसे प्रेम करने वाले ऋत्विज (महयन्तः) उस इन्द्रकी ही पूजा करतेहुए (स्तोमंभिः अस्वत्) स्तोत्रोंमें प्रशंसाका वर्णन करते हैं ॥ २ ॥

पर्येषु प्रधन्व वाजसातये परिवृत्राणि सक्षणिः
द्विपस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ १ ॥

(तु वाजसानये प्रधन्व) हे सोम ! भलेप्रकार हमें अन्न देनेके लिये नव औरसे पहुँच (सक्षणिः वृत्राणि परि) सहनशील तुम शत्रुओंको प्रतिहृत रूपमें प्राप्त होओ (नः ऋणया) हमारे ऋणको दूर करनेवाले तुम (द्विपः नः य ईरसे) शत्रुओंको मारनेके लिये पहुँचते हो ॥ १ ॥

अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना
पयः । गोजीरया रं१ हमाणः पुरन्ध्या ॥ २ ॥

(पवमान) हे सोम ! (पयः निधारे ऋ) जलको धारण करनेवाले अन्नरिक्तमें ही (शक्मना सूर्य अजीजनः) अपनी शक्तिसे सूर्यको निःसन्देह उत्पन्न किया है (गोजीरया) स्तोत्रोंको गौ आदि पशु देने वाले (पुरन्ध्या) अनेकों प्रकारके ज्ञानसे युक्त (रं१ हमाणः) वंग करते हुए तुम सूर्यको उत्पन्न किया है ॥ २ ॥

अनु हि त्वा सुनं१ सोम मदामसि महे समर्थ
राज्ये । वाजां आभि पवमान प्रगाहसे ॥ ३ ॥

इसकी व्याख्या ५ वें अध्यायके प्रथम खंडमें होचुकी है ॥ ३ ॥

परिप्रधन्वेन्द्रायसोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भ-
गाय ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या ५ वें अध्यायके प्रथम खंडमें होचुकी ? ॥ १ ॥

एवाऽमृताय महे क्षयाय सशुक्रा अर्षदिव्यः
पीयूषः ॥ २ ॥

हे सोम (शुक्रः दिव्यः) दीत और द्युलोकमें उपपन्न हुआ (पीतृषः सः) देवताओंके पीने योग्य तुम (प्रमृताय महि क्षयाय एव अर्प) अमर होनेके लिये और बड़े स्थानके लिये ही बरसा ॥ २ ॥

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात् कृत्वे दक्षाय विश्वे
च देवाः ॥ ३ ॥

(कृत्वे दक्षाय) श्रेष्ठ ज्ञान और बलकी प्राप्तिके लिये (सोम) हे सोम ! (सुतस्य ते) अभिपुत्र तेरे रसको (इन्द्रः पेयात्) इन्द्र पिये (विश्वं देवाः च) सकल देवता भी तेरे रसको पिये ॥ ३ ॥

सामादौत्तरार्चिके एकादशाध्यायस्य द्वितीय मण्डल समप्तः

सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्त्वो, मत्सरासः प्रमु-
तः साकमरिते। तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो,
नेन्द्रादृते पवने धाम किञ्चन ॥ १ ॥

(सूर्यस्य रश्मयः इव) सूर्यकी सर्वत्र व्यापक किरणोंकी समान (द्रावयित्त्वोः मत्सरासः) वहनेवाले और गडकारा (प्रसृतः आशवः स्वर्गासः) अधिकतर सरकार कियेहुए पात्रोंमें फैलेहुए सुसिद्ध सोम (तत तन्तुं साक परिहृते) फैलेहुए दशापवित्रमें एकसाथ जाने हैं और वह सोम । इन्द्रान् ज्ञुते किञ्चन धाम न पवने) इन्द्रके बिना किसी भी अन्य देवताकी आरको नहीं जाते हैं ॥ १ ॥

उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु, मन्द्राजनी
चोदते अन्तरासनि । पवमानः संतनिः सुन्व-
तामिव, मधुमान्द्रप्सः परि वारमर्पसि ॥ २ ॥

(मतिः पृच्यते) स्तुति इन्द्रमें सयुक्त कीजाती है (मधु सिच्यते) मधु रसवाला सोम इन्द्रके लिये यमतीवरीजलोंमें मिलायाजाताहै (मन्द्राजनी आसनि अन्तः उपचोदते) मदकारी रसको बरसानेवाली सोमकी धारा इन्द्रके मुलके भीतर प्रेरणा कीजाती है (संतनिः सुन्वतां पवमानः मधुमान् द्रप्सः वारं परिअर्पति) पात्रोंमें फैलाहुआ यजमानों का प्यमान सोम शोभनाकेसाथ जाताहुआ उनके पवित्रमेंको उनकर निकलता है ॥ २ ॥

उक्षा मिमेति प्रतियन्ति धेनवो, देवस्य देवी-
रुपयन्ति निष्कृतम् । अत्यकमीदर्जुनं वारम-
व्ययमत्कं न नित्तं परि सोमां अव्यत ॥३॥

(उक्षा मिमेति) वृषभसमान सोम शब्द करताहै (धेनवः प्रति यन्ति) गौरूप स्तुतिये उस वृषभरूप सोमका अनुसमन करती हैं (देवस्य निष्कृतम्) दिपतेदृष सोमके संस्कार क्रियेदृष स्थानको स्तुतिये प्राप्त होती है और वह सोम (अर्जुन अव्यय वारं अन्यकामीन्) स्वतः वर्णके ऊर्ती पवित्रमेंको लुनकर निकलता है और वह सोम (अत्कं न नित्तं परि अव्यत) अपने कवचकी समान मिलानेके उज्ज्वल पदार्थोंको आच्छादन करलता है ॥ ३ ॥

अग्निं नरो दीधितिभिररग्योहस्तच्युतं जन-
यत प्रशस्तम् । दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम् ॥१॥

(नरः) हे ऋत्विजों ! तुम (प्रशस्तं दूरे दृशम्) प्राधिक स्तुतिक्रियेदृष और दूर दीधितेदृष (गृहपतिमथव्युम्) गृहोंके रक्षक और अगम्य (अग्निम्) अग्निकी (अरग्योः हस्तच्युतम्) अरगियोंमेंसे अस्त होनेपर (दीधितिभिः जनयन्त) अगुलियोंमें उत्पन्न करो ॥१॥

तमग्निमस्ते वसवो न्यृण्वन्, सुप्रतिचक्षमवसे
कृतश्चित् । दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥

(यः दमे दक्षाय्यः नित्यः आस) जो अग्नि घर घर पूजनीय वा हवियोंमें प्रज्वलित करनेयोग्य और नित्य हुआ (त सुप्रतिचक्ष अग्निम्) उस सुन्दर दर्शनीय अग्निकी (कृतश्चित् अवसे) सब प्रकारके भयसे रक्षा पानेके लिये (वसवः अस्ते नृणवन्) स्तोत्राओंके अग्निशालामें स्थापन किया ॥ २ ॥

प्रेद्धा अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्या य-
विष्ठ । त्वाथं शश्वन्त उभयान्ति वाजाः ॥३॥

(यविष्ठ अग्ने) हे परमतरुण अग्निदेव ! (प्रेद्धः) पूर्णदश प्रज्वलित हुए तुम (अजस्रया सूर्या नः पुरः दीदिहि) निरन्तर ज्वालासे हमारे निमित्त इस आगेके आहवनीय स्थानमें दीप्त होओ ॥ ३ ॥

आयं गौः पृश्निरक्रीदसदन्मातरं पुरः ।
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥

(गौः पृश्निः अयं आक्रीत्) गमनशील और व्याप्त है तेज जिस का ऐसा यह सूर्य उदयाचलको प्राप्त हुआ और फिर घूमकर (पुरः मातरं असदन्) पूर्वदिशामें सकल प्राणियोंकी मातासमान भूमिको प्राप्त होताहै (च पितरं स्वः प्रयन्) और फिर पालक दुलोकको शीघ्र प्राप्त होताहै ॥ १ ॥

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती ।
व्यस्यन्महिषो दिवम् ॥ २ ॥

(अन्तः) द्वावलपृथिवीके मध्यमें (अस्य रोचना) इस सूर्यकी दीप्ति (प्राणान् अपानती) उदयकालके अनन्तर अस्तको प्राप्त होतीहुई (चरति) जाती है (महिषः दिवं व्यस्यन्) महान् सूर्य अन्तर्गता को प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

त्रिंशद्द्वाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते ।
प्रतिवस्तोरह द्युभिः ॥ ३ ॥

(वस्तोः त्रिंशद्द्वाम) दिनकी तीसों घड़ी (द्युभिः विराजति) दीप्तियोंसे यह सूर्य विशेष शोभायमान होता है । उम समय (वाक् पतङ्गाय अह प्रतिधीयते) त्रयीरूपा वाणी सूर्यके निमित्त ही उच्चारण कीजाती है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके एकादशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः

एकादशाध्यायस्यैव समाप्त

द्वादश अध्याय ।

उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये ।
आरे अस्मे च शृण्वते ॥ १ ॥

(अध्वरं उपप्रयन्तः) हिंसारूप प्रत्यवायरहित अग्निष्टोम आदि यज्ञोंको अनुष्ठान करतेहुए हम (आरे च अस्मे श्रावते) दूर होकर भी हमारी स्तुतिकी सुननेवाले (अग्नये मन्त्रं वोचेम) अग्नि देवता के अर्थ इस सूक्तके मंत्रोंका स्तोत्र पढ़नेवाले हों ॥ १ ॥

यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु ।
अरक्षद्दाशुषे गयम् ॥ २ ॥

(पूर्व्यः यः) चिरकालीन जो अग्नि (स्नीहितीषु कृष्टिषु जग्मानासु) वध करनेवाली शत्रुरूप प्रजाओंके इकट्ठी होनेपर (दाशुषे गयं अरक्षत्) हवि देनेवाले यजमानके निमित्त धनकी रक्षा करता है ॥ २ ॥

स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शंतमः ।
उतास्मान्पात्वः हसः ॥ ३ ॥

(शंतमः सः अग्निः) परम कल्याणरूप वह अग्नि (नः वेदः अमात्यं रक्षतु) हमारे धनकी शत्रुओंसे रक्षा करै (उत अस्मान् अंहसः पातु) और हमारी पापसे रक्षा करै ॥ ३ ॥

उत ब्रुवन्तु जन्तवः उदग्निर्वृत्रहाऽजनि ।
धनंजयो रणे रणे ॥ ४ ॥

(वृत्रहा) शत्रुनाशक (रणे रणे धनञ्जयः) प्रत्येक संग्राममें शत्रुओंके धनकी जीतनेवाला (अग्निः उदजनि) अग्नि अरगियोंमेंसे प्रकट हुआ (उत जन्तवः ब्रुवन्तु) तदनन्तर सकल ऋत्विज उस अग्निकी स्तुति करै ॥ ४ ॥

अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः ।
अरं वहन्त्याशवः ॥ १ ॥

(अग्ने देव) हे अग्निदेव ! (ये तव साधवः अश्वासः) जो तुम्हारे सुशील घोड़े (आशवः अर वहन्ति) शीघ्रगामी होकर पूर्णरूपसे तुम्हारे रथको पहुँचाते हैं (हि युङ्क्ष्व) उनको ही अपने रथमें जोड़ो ॥ १ ॥

अच्छानो याह्यावहाऽभिप्रयाथ्सि वीतये ।
आ देवान्त्सोमपीतये ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (नः अञ्छ याहि) हमारे अभिमुख आओ (वीतये सोमपीतये) हविभक्षण करनेको और सोमपान करनेको (प्रयांसि अभि देवान् आवह) हविरूप अन्नोंकी ओरको देवताओंका आवाहन करो २

उदग्ने भारत द्युमदजस्त्रेण दविद्युत्तत् ।

शोचा विभा ह्यजर ॥ ३ ॥

(भारत अग्ने उत् शोच) हे यजमानों का भरण करनेवाले अग्नि-देव ! ऊँचे होकर प्रज्वलित हूजिये (अजर दविद्युत्तत्) हे जरारहित अग्ने अत्यन्त द्योतमान तुम (द्युमत् अजस्त्रं ण विभाहि) दीप्तिमान् अविच्छिन्न तेजसे विशेषरूपसे सकल जगत् को प्रकाशित करो ॥३॥

प्रसुन्वानायान्धसो मर्त्तो न वष्ट तद्वचः ।

अप श्वानमराधसंश्रुता मखं न भृगवः ॥१॥

(सुन्वानाय अन्धसः) अभिपव किये जातेहुए भोजन योग्य सोम के (तत् वचः मर्त्तः न वष्ट) उस प्रसिद्ध शब्दको कर्म में विघ्न करने-वाला श्वान न सुनै । हे स्तोताओं ! (अराधसं श्वानं अपहत) साध-कतारहित उस श्वानको मारो (भृगवः मखं न) जैसे भृगुओंने अप-राधी मखको मारा था ॥ १ ॥

आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः ।

सरज्जारो न योषणां वरं न योनिमासदम् ॥२॥

(जामिः अन्के आ अव्यत) देवताओंका बन्धुरूप सोम दशापवित्र में सम्बद्ध होता है (ओण्योः भुजे पुत्रः न) जैसे रक्षक माता पिताके भुजाओं में पुत्र आवद्ध होता है । तदनन्तर यह सोम (योनि आस-दम्) अपने स्थान कलश में प्राप्त होनेको (सरत्) जाता है (जारः योषणां न) जैसे जार पुरुष व्यभिचारिणी स्त्रीको पानेके लिये जाता है (वरः न) जैसे वर कन्याको प्राप्त करनेके लिये जाता है ॥ २ ॥

स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी ।

हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम् ॥३॥

(दक्षसाधनः सः वीरः) बलका साधन वह सोम शक्तिमान् है (यः रोदसी वितस्तम्भ) जिस सोमने द्यावापृथिवीको अपने तेजसे आच्छादित किया (वेधाः न) जैसे यजमान अपने घरको प्राप्त होता है तैसे ही (हरिः योनि आसदम्) हरे वर्णका सोम अपने स्थान कलशमें प्राप्त होनेको (पवित्रे अव्यत) दशा पवित्र में संबद्ध होता है ३

सामवेदोत्तरार्चिके द्वादशाध्यायस्य प्रथमः खंडः समाप्तः

अभ्रातृव्यो अनात्वमनापिरिन्द्र जनुषा सना-
दसि । युधे दापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥

(इन्द्र त्वं जनुषा अभ्रातृभ्यः) हे इन्द्र ! तू जन्मसे ही शत्रुरहित
(सनात् अना अनापिः असि) सदाकालसे नियन्तारहित और बन्धु
रहित है और जब तू (आपित्वं इच्छसे) बान्धवको चाहता है तब
(युधेत्) युद्ध करताहुआ ही स्तोनाओंका सखा होता है ॥ १ ॥

नकीरेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सु-
राश्वः । यदा कृणोषि नदनुष्टंसमूहस्यादित्पि-
तेव ह्यसे ॥ २ ॥

(रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे) हे इन्द्र ! केवल धनवान् अर्थात्
यज्ञादि न करनेवाले मनुष्यको तू सखाभावके लिये आश्रय नहीं करता
है (सुराश्वः ते पीयन्ति) सुरा पीकर मतवाले हुए नास्तिकोंकी
समान वह यज्ञादि न करनेवाले पुरुष तुम्हें अप्रसन्न करते हैं । इस
कारण तुम उनका आश्रय नहीं करते हो (यदा नदनुं कृणोषि) जब
तुम स्तुति करनेवालेको अपना करलेते हो । तब (समूहसि) उसको
धन आदि देने हो (आदिन् पिता इव ह्यसे) तदनन्तर उस धन
पानेवाले स्तोनाके द्वारा पिताकी समान स्तुतियोंके द्वारा आह्वान
कियेजाते हो ॥ २ ॥

आ त्वा सहस्रमाशतं युक्ता रथे हिरण्यये ।
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये

(इन्द्र) हे इन्द्र (ब्रह्मयुजः केशिनः) हमारे दियेहुए हविसे युक्त
और ग्रीवापर केशीवाले (हिरण्यये रथे युक्ताः) सुवर्णके रथमें जुड़े
हुए (सहस्रं शतं हरयः) सहस्रों और सैंकड़ों विभूतियोंसे युक्त तुम्हारे
अश्व (सोमपीतये त्वा वहन्तु) सोमको पीनेके लिये तुम्हें हमारे
यज्ञमें लावें ॥ १ ॥

आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेष्या ।

शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य

पीतये ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (मध्वः विवन्नणस्य अन्धसः पीतये) मधुर रसवाले स्तु-
तियोग्य सोमको पीनेके लिये (हिरण्यये रथे) सुवर्ण के रथमें जड़े
हुए (मयूरशेफ्या शितिपृष्ठा हरी) मोरकी समान चित्रवर्ण की पूँछ
और स्वेत पीठवाले घोड़े (त्वा आवहताम्) तुम्है यज्ञमें पहुँचावें २

पिवात्वाऽऽस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव ।
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुर्मदाय
पत्यते ॥ ३ ॥

(गिर्वणः) हे वेदमन्त्रों से स्तुति करने योग्य इन्द्र ! (परिष्कृतस्य
रसिना सुतस्य अस्य नु पिव) अभिपवादि सं संस्कार किये हुए
रसयुक्त सिद्ध किये हुए इस सोमको शीघ्र पियो (पूर्वपाः इव) जैसे
कि—वायु सब देवताओं से पहिले पीता है (चारुः इयमासुतिः)
सुन्दर यह सोमरस (मदाय पत्यते) हर्ष उत्पन्न करनेको समर्थ है॥

आ सोता परिषिञ्चताऽश्वं न स्तोममप्तुर-
रजस्तुरम् । वनप्रक्षमुदप्रुतम् ॥ १ ॥

हे ऋत्विजों ! (अश्वं न) घोड़की समान वेगवान् (स्तोमं अप्तुरम्)
स्तुति योग्य और जलोंके प्रेरक (रजस्तुरं वनप्रक्षम्) तेजों के प्रेरक
और जलकी समान वहने वाले (उदप्रुतं आसोन) जलमें तैरने हुए
सोमको शुद्ध करो (परिषिञ्चित) और चारों ओरसे वसनीवगी आदि
के द्वारा सींचो ॥ १ ॥

सहस्रधारं दृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने ।
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं
बृहत् ॥ २ ॥

(सहस्रधारं दृषभम्) अनेकों धाराओं वाले और मनोरथोंके पूरक
(पयोदुहं प्रियम्) दूधकी समान साररूप रसको सींचनेवाले और
तृप्त करने वाले सोमको (देवाय जन्मने) देव शरीरोंके अर्थ संस्कृत
करो (देवः ऋतम्) दिव्य और सत्यस्वरूप (बृहत् ऋतजातः) महान्
और जलसे उत्पन्न हुआ (यः राजा ऋतेन विवावृधे) जो सोम वस-

तीवरी नामक जलसे विशेष बढ़ता है ॥ २ ॥

सामवेदान्तरात्रिके द्वादशाध्यायम् । द्वितीय खण्डः समाप्त

अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया ।

समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १ ॥

(समिद्धः शुक्रः) सम्यक् प्रकार प्रज्वलित और स्वेतवर्णका (आहुतः विपन्यया) हवियोंसे होमाहुआ और स्तुति कियाजाना हुआ (द्रविणस्युः अग्निः) स्तोताओंको धन देना चाहताहुआ अग्नि (वृत्राणि जङ्घनत्) राक्षसादि शत्रुओंका वा अन्धकार और अज्ञानका सम्यक् प्रकार नाश करे ॥ १ ॥

गर्भे मातुः पितुः पिता विद्विद्युतानो अक्षरे ।

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २ ॥

(मातुः गर्भे) भूमिरूपा माताके गर्भरूप मध्यभागमें (अक्षरे) नखसनेवाले वंशीरूप स्थानमें (विद्विद्युतानः) विशेषरूपसे प्रज्वलित होताहुआ (पितुः पिता) हवि पहुँचाकर सद्के पितारूप द्युलोकका पालन करनेवाला अग्नि (ऋतस्य योनि आसोदन्) यक्षकी उत्तरवेदी में स्थित होताहुआ शत्रुओंका नाश करे ॥ २ ॥

ब्रह्म प्रजावदाभर जातवेदा विचर्षणे ।

अग्ने यद्दीदयद्विवि ॥ ३ ॥

(जातवेद. विचर्षणे अग्ने) हे प्राणिमात्रके जाना विशेष द्रष्टा अग्ने (प्रजावत् ब्रह्म आभर) पुत्र पौत्रादि सहित आज हमें दो (यत् द्विवि दीदयत्) जो अन्न द्युलोकमें देवताओं के विषय शोभा पाता है ॥ ३ ॥

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो, देवो देवेभिः सम-

पृक्त रसम् । सुतः पवित्रं पर्येतिरेभन्, मितेव

सद्म पशमन्ति हाता ॥ १ ॥

(अस्य प्रेषा हेमना) इस सोमके प्रेरक हिरण्य करकौ (पूयमानः देवः) पवित्र होता हुआ दीप्यमान सोम (रसं देवेभिः समपृक्त) अपने रसको देवताओं में संयुक्त करता है । तदनन्तर (सुतः रेभन्

पवित्रं पर्येति) अभिपुन सोम शब्द करताहुआ उनके पवित्रमेंको छुन कर निकलता है (होता मित्ता पशुमन्ति सञ्च इव) जैसे दंयनाओंका आह्वान करनेवाला ऋत्विज, जिनमें गौ घोड़े बंधे हैं ऐसे यज्ञशालामें बनाये हुए घरों में जाता है ॥ १ ॥

भद्रा वस्त्रा समन्याऽऽवसानो, महान्कविर्नि-
वचनानि शंसन् । आवच्यस्व चम्बोः पूय-
मानो, विचक्षणो जागृविर्देववीतौ ॥ २ ॥

(भद्रा समन्या वस्त्रावसानः) कल्याणरूप संग्रामके योग्य तेजोंको धारण कियेहुए (महान् कविः निवचनानि शंसन्) महान् अनुभवी और ऋत्विजोंके स्तोत्रोंकी प्रशंसा करताहुआ (विचक्षणः जागृविः) विशेष द्रष्टा और जागरणशील हे सोम ! तू (पूयमानः) मस्कार किया जाताहुआ (देववीतौ चम्बोः आवच्यस्व) यज्ञमें पात्रोंमें प्रवेश कर २

समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये, यशस्तरौ
यशसां क्षैतो अस्मे । अभिस्वर धन्वा पूय-
मानो, पूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥

(यशसां यशस्तरः) यशवालोंमें परमयशस्वी (क्षैतः प्रियः) भूमि पर उत्पन्न हुआ और तृप्त करनेवाला सोम (सानो अव्ये अस्मे समृ-
ज्यते) उनके श्रेष्ठ पवित्रमें हमारे लिये ऋत्विजोंसे पवित्र कियाजाता है (पूयमानः त्वं उ) पवित्र कियाजाताहुआ तू ही (धन्वा अभिस्वर) अन्तर्हितमें चारों ओर शब्द कर (पूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात) हे सोम ! तू हमें कल्याणकारी रक्षाके साधनोंसे सदा रक्षा कर ॥ ३ ॥

एतो न्विन्द्रः स्त्वाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वाऽसः शुद्धैर्गशीर्वान्ममत्तु १

एक समय इन्द्रने वृत्रादि असुरोंको मारकर अपनेको ब्रह्महत्याके दोषसे लिप्त समझा और उससमय इन्द्रने उग्र दोषसे कृपणके लिये ऋषियोंसे कहा, कि-तुम मुझे शुद्ध करो यही इस मंत्रमें कहा है कि- (शु पत उ) तुम शीघ्रहीआओ और आकर (शुद्धेन साम्ना) शुद्धि उत्पन्न करनेवाले सामके द्वारा (शुद्धैः उक्थैः) शुद्ध मंत्रोंसे (शुद्ध

इन्द्रं स्तवामः) शुद्धहुए इन्द्रको स्तुति करने हैं (वावृध्वांसं) उन साम और शस्त्ररूप मंत्रोंसे पापरहित होनेके कारण वढेहुए इन्द्रको (शुद्धः आशीर्वात्) शुद्धि करनेवाले गो घृतादिसँ मिलाहुआ सोम (ममन्तु) का प्रसन्न करै ॥ १ ॥

इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः
शुद्धो रयिं निधारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥

(इन्द्र शुद्धः नः आगहि) हे इन्द्र साम आदिसे शुद्ध हुआ तू हमारे कर्मानुष्ठानमें आओ (शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः) शुद्ध मन्त्रोंके साथ पापरहित हुआ तू आओ (शुद्धः रयिं निधारय) शुद्ध हुआ तू हमारे विपै अधिकताके साथ धनको स्थापन कर (सोम्यशुद्धः ममद्धि) हे सोमके योग्य इन्द्र ! शुद्ध हुआ तू सोमसे हर्षको प्राप्त हो ॥ २ ॥

इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषो
शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाजं सिषाससि ३

(इन्द्र शुद्धः हि नः रयिम्) हे इन्द्र ! शुद्ध हुआ तू हमें धन दे (शुद्धः दाशुषे रत्नानि) शुद्ध हुआ तू हवि देनेवाले यजमानको बहुत से रत्न दे (शुद्धः वृत्राणि जिघ्रसे) पापरहित तू कर्ममें विघ्न करने वाले शत्रुओंको नष्ट करता है (शुद्धः वाजं सिषाससि) शत्रुमारण के दांपका परिहार होनेके लिये हमारे मंत्रोंसे शुद्ध हुआ तू हमें अन्न देना चाहता है अर्थात् जब २ मैं शत्रुओंको मारू तब २ तुम शुद्धि देने वाले मंत्रोंसे मुझें शुद्ध करो इस इच्छासे हमें धन और अन्न देना चाहता है ॥ ३ ॥

सामवेदान्तरात्रिके द्वादशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

अग्नेः स्तोमं मनामहे सिध्रमय दिविस्पृशः ।
देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १ ॥

(द्रविणस्यवः) धनकी इच्छावाले हम (दिविस्पृशः, देवस्य अग्नेः) सूर्यरूप से आकाश में व्यापनेवाले प्रकाशवान् अन्निके (सिद्धं स्तोमम्) पुरुषार्थों के साधक स्तोत्रको (अय मनामहे) आज उच्चारण करते हैं ॥ १ ॥

अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वाम् ।

स यक्षद्वैव्यं जनम् ॥ २ ॥

(होना यः अग्निः मानुषेषु आ) होमको सिद्ध करनेवाला जो अग्नि मनुष्यों में रहता है (सः नः गिरः जुषत) वह अग्नि हमारी स्तुतियोंका सेवन करै (द्वैव्यं जनं यज्ञन्) देवसंबंधी जनका यजन करै २

त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः ।

त्वया यज्ञं वितन्वते ॥ ३ ॥

(अग्ने जुष्टः वरेण्यः होता त्वम्) हे अग्ने ! सर्वदा प्रसन्न सबके वरण करनेयोग्य और होमके साधक तुम सबमें बड़े हो । सब यजमान (त्वया यज्ञं वितन्वते) तुम्हारे द्वारा यज्ञानुष्ठान करते हैं ॥ ३ ॥

**अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावश-
न्त वाणीः । वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि-
रत्नधा दयते वार्याणि ॥ १ ॥**

(त्रिपृष्ठं वृषणम्) तीन स्तोत्रवाले और कामनाओंकी वर्षा करने वाले (वयोधां अङ्गोषिणम्) अन्नके दाता और शब्द करनेवाले सोम की ओरको (वाणीः अभ्यवाशन्त) स्तोताओंकी वाणियोंशब्द करती हैं (वरुणः न) वरुणकी समान (वना वसानः) जलोंको आच्छादन करताहुआ (सिन्धुः रत्नधाः) बहनेवाला और रत्नोंका दाता सोम (वार्याणि दयते) स्तोताओंको धन देता है ॥ १ ॥

**शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान्, जेता पवस्व स-
निता धनानि । तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा सम-
त्सवः षाढः साह्वान्पृतनासु शत्रून् ॥ २ ॥**

(शूरग्रामः सर्ववीरः) शूरोंके समूह और अनेकों वीरोंवाला (सहावान् जेता) सहनशील और शत्रुओंको जीतनेवाला (धनानि सनिता) धनोंका देनेवाला (तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा) तीव्र आयुध और शीघ्रता करनेवाले धनुषवाला (समत्सवः षाढः) संग्रामोंमें किसीसे सहा न होनेवाला (पृतनासु शत्रून् साह्वान्) सेनाओंमें शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाला हे सोम तू (पवस्व) द्रोणकलशमें बरस ॥ २ ॥

उरु गव्यूतिरभयानि कृणवन्, समीचीने आप-
वस्वा पुरन्धी । अपः सिषासन्नुषसः स्वाऽ-
३ऽर्गाः, संचिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान् ॥ ३ ॥

हे सोम ! (उरुगव्यूतिः) विस्तोर्णं मार्गवाला तू (अभयानि कृणवन्)
स्तुति करनेवालों को अभय देताहुआ (पुरन्धी समीचीने कुर्वन् आप-
वस्व) इन छायापृथिवीको सङ्गत करताहुआ वरस (अपः उपसः स्वः
गाः सिषासन्) जल उषा सूर्य और किरणोंको पुष्टिके लिये सेषन
करना चाहताहुआ (संचिक्रद) शब्द कर (महः वाजान् अस्म
भ्यम्) बहुतसे अन्न हमें दे ॥ ३ ॥

त्वमिन्द्र यशा अस्यूजीषी शवसस्पतिः । त्वं
वृत्राणि ह॑ँ,म्यप्रतीन्येकइत्पुर्वनुत्तश्चर्षणी-
धृतिः ॥ १ ॥

(इन्द्र त्वम्) हे इन्द्र तू (शवसस्पतिः ऋत्रीषी) अन्न और बलकी
रक्षा करनेवाला तथा संस्कार कियेहुए सामका स्वामा (यशा आस)
और यशस्वी है (अनुत्तः चर्षणीधृतिः त्वम्) किसीसे न दधनेवाला
और यजमानादिकी रक्षा करके धारण करनेवाला तू (एक इत्) किसी
की सहायताके बिना ही (अप्रतीनि वृत्राणि पुरु हंसि) बड़े २ बल-
वान् भी असह्य शत्रुओंको अधिकताके साथ मारता है ॥ १ ॥

तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतस॑ँ, राधोभागमि-
वेमहे । महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सु-
म्ना नां अश्नुवन् ॥ २ ॥

(असुर इन्द्र) हे बलवान् इन्द्र ! (तं प्रचेतसं त्वा उ) ऐसे भुणों
वाले और श्रेष्ठ ज्ञानवाले तुमसे ही (भागं इव) जैसे कोई अपने पिता
से अपने भागका धन माँगता है तैसे ही हम (राधः नूनम् ईमहे)
धन इस समय माँगते हैं (कृत्तिः इव) यश वा अन्नकी समान (ते
मही शरणा) तेरा महान् स्थान खुलोकमें है (ते सुम्नानः प्राश्नुवन्)
तुम्हारे पुत्रादि विषय के सुख हमें प्राप्त हों ॥ २ ॥

यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्
अस्य यज्ञस्य सुकृतुम् ॥ १ ॥

हे अग्ने (देवेषु देवम्) देवताओंमें अधिकतर दानी (होतारं अम-
र्त्यम्) देवताओंका आह्वान करनेवाले और अविनाशी (अस्य यज्ञस्य
सुकृतुम्) इस यज्ञके श्रेष्ठ कर्त्ता (यजिष्ठं त्वा ववृमहे) परम यष्टा तेरी
हम भक्ति करते हैं ॥ १ ॥

अपां न पातथं सुभगथं सुदीर्घितेमग्निमु
श्रेष्ठशोचिषम् । स नो मित्रस्य वरुणस्य सो-
अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥ २ ॥

(अपां नपातम्) जलोंका पतन न करनेवाले अथवा हविसे जल,
जलसे वनस्पति और वनस्पतिसे अग्नि होता है इसप्रकार जलोंके पौत्र
समान (सुभगं सुदीर्घितम्) श्रेष्ठ धन और सुन्दर दीर्घितवाले (श्रेष्ठशो-
चिषं अग्नि उ) श्रेष्ठ ज्वालावाले अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं (सः नः)
वह अग्नि हमारे लिये (दिवि मित्रस्य वरुणस्य घुम्नम् यत्नम्) देव-
यजन भूमिमें मित्र और वरुण देवताके सुखके लिये यजन करे (सः
अपाम्) वह अग्नि जल देवताके सुखके लिये भी यजन करे ॥ २ ॥

सामवेदान्तराचिके द्वादशाध्यायस्य चतुर्थे खंडे समाप्त

यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः ।
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १ ॥

(अग्ने पृत्सु यं मर्त्यं अवाः) हे अग्निदेव ! संग्रामोंमें जिस यजमान
की तुम रक्षा करते हो (वाजेषु यं जुनाः) संग्रामोंमें जिस पुरुषको प्रेरणा
करते हो (सः) वह यजमान (शश्वतीः इषः यन्ता) नित्य अर्घ्योंको
वशमें करसकता है ॥ १ ॥

नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित् ।
वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ २ ॥

(सहन्त्य) हे शत्रुओंका निरस्कार करनेवाले अग्ने ! (अस्य कयस्य-
चित् पर्येता नकिः) ऐसे किसी भी यजमान पर आक्रमण करनेवाला

कोई नहीं है और इस यजमानका (श्रवाय्यः वाजः अस्ति) श्रवण करनेयोग्य सुन्दर बल है ॥ २ ॥

स वाजं विश्वचर्षणिरवद्भिरस्तु तरुता ।
विप्रोभिरस्तु सनिता ॥ ३ ॥

(विश्वचर्षणिः सः) सकल मनुष्योंसे युक्त वह अग्नि (अर्षद्भिः वाजं तरुता अस्तु) अश्वोंके द्वारा संग्रामको तरनेवाला हो (विप्रोभिः सनिता अस्तु) ऋत्विजोंके सहित प्रसन्न हुआ अग्नि हमें इच्छित फल देनेवाला हो ॥ ३ ॥

साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो, दश धीरस्य धी-
तयोधनुत्रीः । हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य, द्रोणं
ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ १ ॥

(साकमुक्षः स्वसारः मर्जयन्त) एकसाथ सींचनेवाली कर्ममें इधर उधरको जाती हुई अंगुलियों सोमको शुद्ध करती हैं (दशधीतयः धीरस्य धनुत्रीः) दश अंगुलियों देवताओंके ध्यान करनेयोग्य वा चाहेहुए सोम की प्रेरक होनी हैं । तदनन्तर (हरिः सूर्यस्यजाः पर्यद्रवत्) हरे वरुण का सोम सूर्यकी जायारूप दिशाओंमेंको जाता है (वाजी न अत्यः) घोड़ेकी समान गतिवाला सोम (द्रोणं ननक्षे) द्रोणकलशमें व्यापता है ?

सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो, वृषा दधन्वे पुरु-
वारो अद्भिः । मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्,
संगच्छते कलश उस्त्रियाभिः ॥ २ ॥

(वावशानः वृषा) देवताओंको चाहताहुआ और कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (पुरुवारः) अनेकोंके वरण करनेयोग्य सोम (अद्भिः संदधन्वे) वसतीवरी जलों करके धारण कियाजाता है (मातृभिः शिशुः न) जैसे कि—माता पिताकी चाहनावाले बालकको माता पिता दूध देकर धारण करते हैं । (मर्यः योषां न) जैसे मनुष्य तरुणी स्त्री को प्राप्त होता है तैसे ही (निष्कृतं अभियन्) अपने संस्कारयुक्त स्थान को जाताहुआ सोम (कलशे उस्त्रियाभिः संगच्छते) द्रोणकलशमें गो-घृतादिसे मिलता है ॥ २ ॥

उत प्र पिप्य ऊधरध्न्याया, इन्दुर्धाराभिः सचते
सुमेधाः । मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्री-
णन्ति वसुभिर्न नित्तैः ॥ ३ ॥

(उत अघ्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये) और न मारने योग्य गौके दुग्धस्थान
अयनको सोम भक्षणकं तृणादिमें प्रवेश करके अधिक पूर्ण करता है (सुमे-
धाः इन्दुः धाराभिः सचते) श्रेष्ठ बुद्धिवाला वह सोम धाराओं करके
मिलता है (गावः चमूपु मूर्धानं पयसा अभिशीणन्ति) गौण पात्रों में
स्थित उत्तम सोमको अपने दधसे आच्छादित करती हैं (नित्तैः वसुभिः
नः) जैसे कि—धुलेहुप वस्त्रोंसे आच्छादन करते हैं ॥ ३ ॥

पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः ।
आपिनो बोधि सधमाद्ये वृधेऽऽस्मां अबन्तु
ते धियः ॥ १ ॥

(इन्द्र रसिनः गोमतः नः सुतस्य पिवा मत्स्व) हे इन्द्र ! रसयुक्त
गोधृतादिसे मिलेहुए हमारे संस्कार किये सोमको पियां और तृप्त
होओ (सधमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि) साथ पियेजानेवाले सोमके
विषयमें वंधुकी समान हमारी वृद्धि करनेके लिये सावधान हो (ते
धियः अस्मान् अबन्तु) तेरी अनुग्रहरूपा बुद्धियें हमारी रक्षकहों ॥ १ ॥

भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा नस्तरभिमा-
मातये । अस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः
सुम्नेषु यामय ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (वयं ते सुमतौ वाजिनः भूयाम) तुम्हारी अनुग्रहबुद्धि
होने पर हम अज्ञान हों ((अभिमानये नः, मा स्तः) शत्रुके लिये
हमें नष्ट न होने दो । किन्तु (अभिष्टिभिः चित्राभिः अनिभिः अस्मान्
अवतान्) प्रार्थना करने योग्य विचित्र प्रकारकी रक्षाओंके द्वारा हमारी
रखवाली करो (सुम्नेषु नः आयामय) सुखोंके विषयमें हमें बड़ा
करो अर्थान् हमें सदा सुखी रक्ष्यो ॥ २ ॥

त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे, सत्यामाशिरं परमे

व्योमनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे, चारुणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥ १ ॥

(परमे व्योमनि अस्मै) अन्तरिक्ष में वर्त्तमान इस सोमके अर्थ (त्रिः सप्त) इक्कीस (धेनवः) तृप्त करनेवाली गौण (सत्यां आशिरं दुहहिरे) यथार्थ दुग्धादिको देती हैं । और यह सोम (यत्) जब (ऋतैः अवर्धत) यज्ञों से बढ़ना है । तब (अन्यानि चत्वारि भुवनानि) वसनीवरी आदि अन्य चार जलोंको (निर्णिजे चारुणि चक्रे) शोधने के लिये फलपारुरूप करता है ॥ १ ॥

म भक्ष्यमाणो अमृतस्य चारुण, उभे द्यावा काव्येना विशश्रथे । नेजिष्ठा अपो मध्वहना परिव्यत, यदीदं वस्य श्रवसा सदो विदुः २

(चारुणः अमृतस्य भक्ष्यमाणः सः) फलपारुरूपको जलके लिये याचना किया हुआ वह (उभे द्यावा) दोनों पृथिवी और बुलोकको (काव्येन विशश्रथे स्तुति के द्वारा खुले हुए करदेता है अर्थान् जलसे पूर्ण करदेता है । (नेजिष्ठाः अपो मध्वहना परिव्यत) अन्यन्त दीप जलोंको महत्त्व के साथ आच्छादन करता है (यदि) जब कि ऋत्विज (देवस्य सदः श्रवसा विदुः) द्योतमान सोमके स्थानको हृदिसे युक्त होकर यज्ञके लिये ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवो, ऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । येऽभिनृम्णा च देव्या च पुनत, आदिद्राजानं मनना अगृम्णत ॥ ३ ॥

(अमृत्यवः अदाभ्यासः) मरणधर्म रहित और दूसरों से हिंसित होनेके अयोग्य (अस्य ते केतवः) इस सोम की वह प्रसिद्ध किरणें (उभे जनुषी अनु सन्तु) स्थावर जङ्गमरूप दोनों प्राणियों की रक्षा करें (येभिः नृम्णा च देव्या च पुनते) जिन किरणोंसे सोम वलोंको और देवताओं के योग्य अन्नको भी प्रेरणा करता है (आदित् राजानं मननाः अगृम्णत) अभिषव के अनन्तर ही सोम को स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥

सोमवेदोत्तरार्धके द्वादशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः

अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो, ऽ३ऽभि मित्रा-
वरुणा पूयमानः । अभी नरं धीजवनश्रं रथे-
ष्टामभान्द्रं वृषणं वज्रवाहुम् ॥ १ ॥

हे सोम ! (गृणानः वीति वायुं अभि अर्ष) स्तुति किया जाता हुआ तू पानके लिये वायुको प्राप्त हो (पूयमानः मित्रावरुणा अभि) पवित्र से शुद्ध होता हुआ मित्रावरुण देवताको प्राप्त हो (नरं धीजवनं नरेष्टां अभि) सबके नेता बुद्धिकी समान वेगवाले रथमें स्थित अश्विनीकुमारों को प्राप्त हो (वृषणं वज्रवाहुं इन्द्रं अभि) मनोरथोंकी वर्षा करने वाले हाथमें वज्रधारी इंद्रको प्राप्त हो ॥ १ ॥

अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षा, ऽभि धेनूः सुदुघाः
पूयमानः । अभि चन्द्रा भर्त्तवे नो हिरण्या,
ऽभ्यश्वात्रथिनो देव सोम ॥ २ ॥

(देव सोम) हे स्तुतिके योग्य सोम ! तू हमें (सुवसनानि वस्त्रा अभ्यर्ष) श्रेष्ठ वस्त्रोंयुक्त रक्षा करनेवाले धन दे (पूयमानः सुदुघाः धेनूः अभि) पवित्रसे शोधित तू श्रेष्ठ दूधवाली नवीन विवाहिता गौण दे (भर्त्तवे नः चन्द्रा हिरण्यानि अभि) भरणके लिये हमें आनन्ददायक सुवर्ण दे (रथिनः अश्वान् अभि) रथयुक्त घोड़े दे ॥ २ ॥

अभी नो अर्षदिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थि-
वा पूयमानः । अभि येन द्रविणमश्नुवामाभ्या-
र्षेयं जमदग्निवन्नः ॥ ३ ॥

हे सोम ! (पूयमानः) संस्कार किया जाता हुआ तू (नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष) हमें अलोकके धन दे (पार्थिवा विश्वा अभि) भूलोकके सकल पेश्वर्य दे (येन वयं द्रविणं अश्नुवाम अभि) जिस तेरी सामर्थ्यसे हम धनोंको भागें वह सामर्थ्य भी हमें दे (जमदग्निवत् आर्षेयं नः) जैसे तूने जमदग्निको दिया था तैसे ऋषिकुमारोंके योग्य धन हमें भी दे ॥ ३ ॥

यज्जायथा अपूर्व्यं मघवन्वृत्रहत्याय । तत्पृ-

थिर्वीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम् ॥ १ ॥

(अपूर्व्यं मघवन्) हे सबसे आदिपुरुष धनवान् इन्द्र ! (वृत्रहत्याय यत् त्वं जायथाः) शत्रुओंका नाश करनेको जब तुम प्रकट हुए (तत् पृथिवी अप्रथयः) तब तुमने पृथिवीको दृढ़ किया (उतो तत् दिवं अस्तभ्नाः) और तब ही तुमने धुलोकको ऊँचा धाम बनाया ॥ १ ॥

तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हस्कृतिः ।

तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम् ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! तू जब प्रकट हुआ था (तत् ते यज्ञः अजायत) उससमय ही तेरे लिये अग्निष्टाम आदि यज्ञ प्रकट हुए थे (उत तत् हस्कृतिः अर्कः) और उस समय ही दिनकी व्यवस्था करनेवाला सूर्य प्रकट हुआ (यन् जातं यन् जन्त्वम्) जो उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न होगा (तत् विश्वं अभिभूः असि) उस सबका नूनं तिग्स्कार किया है

आमासु पक्वमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि ।

धर्मं न सामन् तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे

बृहत् ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (आमासु पक्वं ऐरयः) अपक्व गौओंमें परिपक्व दुधको नूनं प्ररणा किया (दिवि सूर्यं आरोहयः) अन्तरिक्षमें सूर्यको स्थापित किया (धर्मं सामन् न) जैसे प्रवर्गको सोमोंसे तपाते हैं तैसे हे स्तः, ता-ओ (सुवृक्तिभिः तपत) श्रेष्ठ स्तुतियोंसे इन्द्रको तपाओ (गिर्वणसे जुष्टं बृहत्) वेदमंत्रोंसे प्रार्थना करने योग्य इन्द्रके अर्थ प्रसन्नता देने वाले बृहत् साम को गाओ ॥ ३ ॥

मत्स्यऽपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरा

मदः । वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥

(हरिवः) हे पापहारिणी शक्तिवाले इन्द्र ! (महः पात्रस्य इव ते) यह महान् सोम जैसे धारण कर्ता पात्रका होता है तैसे ही तेरा है (वृष्णो ते) अभीष्टफल देनेवाले तेरे लिये (मत्सरः मदः) मदकारी और तृप्तिदाता (वषा इन्दुः) वर्मा करनेवाला और वहनवाला (वाजी सहस्रसातमः) अश्ववान् और सहस्रोंको दान देनेवाला साम सम्पादन किया है (अपायि मत्सि) इसको पियो और प्रसन्न होओ ॥ १ ॥

आ नस्तेगन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः ।

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमर्त्यः ॥ २ ॥

(इन्द्र ते) हे इन्द्र तुझको (नः) हमारा (वृषा मद्ः) अभीष्ट-
वाता और मदकारी (वरेण्यः सहावान्) वरणीय और हमारे उच्चा-
रण किये मंत्रोंकी सहायतावाला (सानसिः पृतनाषाट्) हमारे स्वेचन
करने योग्य और शत्रुसेनाओंका तिरस्कार करनेवाला (अमर्त्यः मत्सराः
गन्तु) अविनाशी सोम प्राप्त हो ॥ २ ॥

त्वंहि शूरः सनिता चोदयो मनुपो रथम् ।

सहावान्दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ३

हे इन्द्र ! (त्वं हि शूरः सनिता) तू ही निश्चय शूर है और दान
देनेवाला है, इसकारण (मनुपः रथं चोदयः) मुझ मनुष्यके मनोरथ
को वा स्वर्गगमनके साधनको प्रेरणा कर और (सहावान्) सहायता-
युक्त होकर (अग्निः शोचिषा पात्रं न) जैसे अग्नि अपनी ज्वालासे
अपने आधारभूत पात्रको जला देता है तैसे (दस्युं अव्रतं ओषः)
धोखा देनेवाले अर्थात् यज्ञके अधिकारी होकर भी यज्ञ न करने
वाले को भस्म कर ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके द्वाशाध्यायस्य षष्ठः ऋगङ् द्विशाध्यायस्य ऋमातः

अयोदश अध्याय

पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्भि दिवस्परि ।

अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १ ॥

हे सोम ! तू (दिवः वृष्टि नः सु आ पवस्व) अन्तरिक्षमें वर्षाको
हमारे लिये सुन्दरताके साथ परमा (अपां ऊर्भि परि) जलोंकी तरङ्गों
को वरसा (अयक्ष्माः बृहतीः इषः) गेगरहित बहुतसे अन्नोंको बरसा ?

तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन् ।

जन्यास उप नो गृहम् ॥ २ ॥

हे सोम ! तू (तया धारया पवस्व) उस धारासे यहाँ बरस (यया
जन्यासः गावः इव नः गृहं उप आगमन्) जिस धारासे शत्रुके देशकी
गौण इस देशमें हमारे घर आजाय ॥ २ ॥

घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः ।

अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥ ३ ॥

हे सोम ! (यज्ञेषु देववीतमः) यज्ञोंमें अधिकतर देवताओंका चाहा हुआ तू (अस्मभ्यं घृतं धारया पवस्व) हमारे निमित्त साररूप जल को धारोंसे बरसा (वृष्टिमा पव) वर्षाको गिरा ॥ ३ ॥

स न ऊर्जे व्याऽऽव्ययं पवित्रं धाव धारया ।

देवासःशृणवन् हि कम् ॥ ४ ॥

हे सोम ! (सः) वह अभिपव कियाहुआ तू (नः ऊर्जे) हमारे अन्नके लिये (अव्ययं पवित्रं धारया विधाव) ऊनके पवित्रमें धारसे पहुँच (देवासः हि कं शृणवन्) देवता अवश्य गमनसमयके तेरे शब्दको सुने ॥ ४ ॥

पवमानो असिष्यदद्रक्षां॑स्यपजङ्घनत् ।

प्रत्नवद्रोचयन् रुचः ॥ ५ ॥

(रक्षांसि अपजङ्घनत्) राक्षसोंका नाश करताहुआ (रुचः प्रत्नवत् रोचयन्) अपनी दीप्तियोंको अति पुरातनसी प्रकाशित करता हुआ (पवमानः असिष्यदत्) सोम उपकता है ॥ ५ ॥

प्रत्यस्मै पिपीषतेविश्वानि विदुषे भर ।

अरं गमाय जग्मये पश्चादध्वने नरः ॥ ७ ॥

हे अध्वर्यु ! (नरः) यज्ञोंका परिचालक तू (विश्वानि विदुषे) सकल जाननेयोग्य बातोंको जाननेवाले (अरं गमाय जग्मये) पर्याप्त गति और यज्ञोंमें जानेवाले स्वभाववाले (पश्चादध्वने) सबके अप्र-गामी (पिपीषते अस्मै प्रतिभर) पीनेकी इच्छावाले इस इंद्रको सोम दे ६

एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम् ।

अमत्रेभिर्ऋजीषिणामिन्द्रं॑ सुतेभिरिन्दुभिः २

हे अध्वर्युओं ! (अमत्रेभिः ऋजीषिणम्) ग्रहचमसादि पात्रोंसे शत्रु-ओंके बलको ग्रहण करनेवाले (सुतेभिः इन्दुभिः) अभिपव किये हुए सामोंसे युक्त (सोमेभिः सोमपातमम्) अन्यन्त सोमपान करनेवाले (एतेन इन्द्रं आ प्रत्येतन) इस इन्द्रके अभिमुख जाकर प्रार्थना करो २

यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ ।
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तं तमिदेषते ॥ ३ ॥

हे अध्वर्युओं ! (सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः) अभिषुत दिपते हुए सोमो करके (यदि प्रतिभूषथ) यदि इन्द्रकी शरणजाओगे तो (मेधिरः विश्वस्य वेद) यज्ञवाला इन्द्र तुम्हारे सकल मनोरथोंको ध्यानमें रखेगा और ध्यान में रखकर (धृषत्) शत्रुओंको भयदायक होता हुआ (तमित् एषते) तुम्हारी सकल कामनाओंको सफल करेगा ॥ ३ ॥

अस्मा अस्मा इदन्धसो ध्वर्यो प्रभरा सुतम् ।
कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धतोभिशस्ते रवस्व-
रत् ॥ ४ ॥

(अध्वर्यो) हे अध्वर्यु ! (अस्मा अस्मा इत्) इस इन्द्र के अर्थ ही तुम (अन्धसः सुतं प्रभर) अन्नरूप सोमके रसको अर्पण करो । वह इन्द्र (समस्य जेन्यस्य शर्धतः) समस्त जीतने योग्य उत्साही शत्रुके (अभिशस्तेः) हिंसनसे (कुवित् अवस्वरत्) अधिकतर हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके त्रयोदशाध्यायस्य प्रथम सर्गः समामः

बभ्रवे नु स्वतवसेरुणाय दिविस्पृशे ।
सोमाय गाथमर्चत ॥ १ ॥

हे स्तोताओं ! (बभ्रवे स्वतवसे) बभ्रुवर्ण और अपने बलवाले (अरुणाय दिविस्पृशे) कभी अरुणवर्णवाले और धूलोकका स्पर्श करने वाले (सोमाय गाथं अन्वर्चत) सोम के अर्थ स्तुतिरूपा वाणीका उच्चारण करो ॥ १ ॥

हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन ।
मयावाधावता मधु ॥ २ ॥

हे ऋत्विजों ! (हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः) हाथमेंसे छूटे हुए पाषाणों से (सुतं सोमं पुनीतन) अभिषवकिये हुए सोमको पवित्रमें शुद्ध करो और मधु मधु आधावन) मदकारी सोममें गौके दूधको डालो २

नमसेदुपसादत दध्नेदभिश्चीणानि ।

इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥

हे ऋत्विजों ! (नमसेन् उपसादत) नमस्कारसे ही सोमको प्राप्त होओ (दध्नेन् अभिश्चीणीन) दधिसे भी सोमको मिलाओ (इन्द्रे इन्दुं दधातन) इन्द्रके विषे सोमको स्थापन करो ॥ ३ ॥

अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे ।

देवेभ्यो अनुकामकृत् ॥ ४ ॥

(सोम) हे सोम (अमित्रहा विचर्षणिः) शत्रुओंका नाशक और विशेष द्रष्टा (देवेभ्यः अनुकामकृत्) देवताओंके अर्थ अर्भाष्ट काम करनेवाला तू (गवे शं पवस्व) हमारी गौओं को सुख दे ॥ ४ ॥

इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिषिच्यसे ।

मनश्चिन्मनसस्पतिः ॥ ५ ॥

(सोम मनश्चिन् मनसः पतिः) हे सोम ! मनका ज्ञाना और मनका ईश्वर तू (इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे) इन्द्र के पीनेके लिये और हर्ष प्राप्त होनेके लिये पात्रोंमें सींचाजाना है ॥ ५ ॥

पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरिहि णः ।

इन्दविन्द्रेण ना युजा ॥ ६ ॥

(इन्द्रो पवमान) हे दीप्त सोम ! तू (सुवीर्यं रयिम्) सुन्दर वीरता युक्त धन (न युजा इन्द्रेण) हमारे सहायक इन्द्रके द्वारा (नः रिरिहि) हमें दे ॥ ६ ॥

उद्घेदभिश्चुतामघं वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमेषि सूर्य ॥ ७ ॥

(सूर्य) हे सूर्यस्वरूप इन्द्र ! (चुतामघम्) पृथिक् धनवाले (वृषभं नर्यापसम्) याचकोंके लिये धनकी वर्षा करनेवाले और मनुष्यों के हितकारी कर्मवाले (अस्तारं अभि उदेपि) स्तोताकी ओरको लक्ष्य करके उदित हांते हो ॥ ७ ॥

नव यो नवतिं पुरो विभेद बाह्वोजसा ।

अहिं च वृत्रहाऽवधीत् ॥ २ ॥

(यः नव नवतिम्) जो इन्द्र निन्यांनवे (पुरः) शम्बरोसुरके पुरों को (बाह्वोजसा विभेद) भुजाओं के बलसे विदीर्ण करता हुआ (च वृत्रहा अहिं अवधीत्) और जो वृत्रासुरका नाशक इन्द्र किसीसे भी न मरनेवाले वृत्रासुरको मारता हुआ वह हमें धन देय ॥ २ ॥

स न इन्द्रः शिवः सखाऽश्वावद्गोमयवमत् ।

उरुधारं व दोहते ॥ ३ ॥

(सः शिवः नः सखा इन्द्रः) वह कल्याणरूप हमारा मित्ररूप इन्द्र हमें (अश्ववत् गोमत् यवमत् दोहते) अश्वों सहित गौओं सहित और अन्न सहित धन देय (गा धारा इव) जैसे दुहने के समय गौ बहुतसी दूधकी धारें देती हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके त्रयोदशाध्यायस्य द्वितीये खण्डे समाप्तः ।

विभ्राड् बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपता-
वविहृतम् । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना

प्रजाः पिपर्त्ति बहुधा विराजति ॥ १ ॥

(विभ्राट्) विशेष दीप्यमान सूर्य (यज्ञपतौ अविहृतं आयुः दधत्) यज्ञ करनेवाले यजमानकी अकुटिल आयु करता हुआ (बृहत् सोम्यं मधु पिबतु) बहुतसे सोमरूप मधुको पिये (यः वातजूतः) जो सूर्य महावायु करके प्रेरणा किया हुआ (त्मना अभिरक्षति) स्वयं ही सब जगत्को देखता हुआ पालन करता है (प्रजाः पिपर्त्ति) वर्षा करके प्रजाओंका पालन करता है (बहुधा विराजति) विशेषरूपसे विराज मान होता है ॥ १ ॥

विभ्राड् बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्मन्दिवो ध-
रुणे सत्यमर्पितम् । अमित्रहा वृत्रहादस्यु-
हन्तमं ज्योतिर्जज्ञे अमुरहा सपन्नहा ॥ २ ॥

(विभ्राट् बृहत्) विशेष विराजमान और प्रौढ़ (सुभृतं वाजसातमम्)

पूर्ण पुष्ट और बल तथा अन्नका परम दाता (धर्मन् दिवः धरणे अ-
र्पितम्) वायुके धारण करने योग्य घुलोकके धारणकर्त्ता सूर्यमण्डल
में स्थापित (सन्यं अमित्रहा) अविनाशी और आवरण करनेवालोंका
नाशक (दस्युहन्तमं असुरहा) बृथा समय खोनेवालों और असुरोंका
नाशक (सपन्नहा ज्योतिः जह्ने) तथा शत्रुओंका नाशक सूर्यसंबंधी
तेज प्रकट हुआ ॥ २ ॥

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धन-
जिदुच्यते बृहत् । विश्वभ्राड्भ्राजो महि सू-
र्यो दृश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम् ॥ ३ ॥

(इदम्) यह सौर तेज (श्रेष्ठम्) श्रेष्ठ (ज्योतिषां ज्योतिः) ग्रह
नक्षत्र आदि अन्य ज्योतियोंका भी प्रकाशक (उत्तमं विश्वजित्)
उत्तम और विश्वको जीतनेवाला (धनजित् बृहन् उच्यते) धनको
जीतने वाला और ऐसे अनेकों गुणोंसे युक्त कहाता है (विश्वभ्राद्
भ्राजः) विश्वभरको प्रकाशित करनेवाला और स्वयं प्रकाशमय (महि
सूर्यः) महान् सूर्य (दृशे) दीखने का कारण (उरुसहः) बहुत
विस्तारवाला और अन्धकार का नाशक है (अच्युतम् ओजः पप्रथे)
अविनाशी तेजोरूप बलको फैलाता है ॥ ३ ॥

इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्यो-
तिरशीमहि ॥ १ ॥

(इन्द्र नः क्रतुं आभर) हे इन्द्र ! हमें कर्मका फल वा ज्ञान दो (यथा
पिता पुत्रेभ्यः) जैसे पिता पुत्रोंको धन देता है तैसे (नः शिक्ष) हमें
धन दो (पुरुहूत यामनि जीवाः) अनेकों के पुकारे हुए इन्द्र ! यह मैं
हम (ज्योतिः अशीमहि) सूर्यको प्रतिदिन पावें ॥ १ ॥

मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योऽऽमा शि-
वासोऽवक्रमुः । त्वया वयं प्रवतः शश्वतीर-
पोऽति शूर तरामसि ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अज्ञाताः वृजनाः दुराध्यः अशिवासः नः मा अषक्रमुः)
जिनका गमन न मालूम हो ऐसे पापाचरणी दुष्टबुद्धि अमङ्गल
पुरुष हमारा तिरस्कार न करसके (शूर त्वया वयं प्रवतः) हे शूर !
तेरे द्वारा हम स्तोता रक्षित होते हुए (बह्वीः अपः अतितरामसि)
बहुत से जलों के पार हों ॥ २ ॥

अद्याऽद्या श्वः श्व इन्द्र त्रास्व परे च नः ।
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा
नक्तं च रक्षिषः ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (अद्याद्य) जिस २ समय को आज इस शब्द से
कहा जाता है (श्वः श्वः) जिसको कल्ल शब्दसे कहाजाना है (परे च)
और जो परसों के शब्दसे कहा जाता है उस समय में हमारी रक्षा
करो (सत्पते) हे सज्जनोंके पालक इन्द्र (विश्वा च अहा) सबही
दिनों में (नः जरितृन् दिवा नक्तं च रक्षिषः) हम स्तोताओंकी रात
दिन रक्षा करो ॥ १ ॥

प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः संमिश्रो वी-
र्याय कम् । उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो
नि या वज्रं निमिमिक्षतुः ॥ २ ॥

(अयं मघवा वीर्याय कम) यह धनवान् इन्द्र वीर्य करनेके लिये (प्रभङ्गी
शूरः) शत्रुओं को तोड़नेवाला और पराक्रमी (तुवीमघः संमिश्रः)
बहुत से धनवाला और भले प्रकार मिलाने वाला है (इन्द्र ते उभा
बाहू वृषणा) हे इन्द्र ! तेरे दोनों भुज अभीष्टफलोंकी चर्पा करनेवाले
हैं (शतक्रतो या वज्रं निमिमिक्षतुः) हे इन्द्र ! जो तुम्हारे भुजदण्ड
वज्ररूपी आयुधको धारण करते हैं ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके त्रयोदशाध्यायस्य तृतीयः खंडः समाप्तः

जनीयन्तोन्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः ।

सरस्वन्तश्छं हवामहे ॥ १ ॥

(जनीयन्तः पुत्रीयन्तः) पत्नीको चाहतेहुए और पुत्रोंकी इच्छा
करतेहुए (सुदानवः अग्रवः) श्रेष्ठ दान करनेवाले शरणमें आयेहुए
हम (नु सरस्वन्तं हवामहे) आज सरस्वती देवताका आवाहन करतेहैं ?

उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा ।
सरस्वती स्तोम्याऽभूत् ॥ २ ॥

(उत नः प्रियासु प्रिया) अरे हमारे प्रिय पदार्थोंमें भी परमप्रिय (सप्तस्वसा) गायत्री आदि मान छन्द जिसकी बहिन हैं श्रौंग नदी-रूपमें गङ्गा आदि सात नदियें जिसकी बहिन हैं ऐसी (सुजुष्टा सरस्वती) पुरातन ऋषियोंकी संवन कीहुई सरस्वती देवी (स्तोम्या भूत्) स्तुति करनेयोग्य है ॥ २ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥

(यः सविता देवः) जो सविता देवता (नः धियः प्रचोदयान्) हमारे कर्मोंको वा धर्मादिविषयक बुद्धियोंको प्रेरणा करता है (तत् देवस्य सवितुः) तिस द्योतमान और सर्वान्तर्यामी रूपसे प्रेरक जगत्त्रया परमेश्वरके (वरेण्यं भर्गः) सन्स्वरूप होनेके कारण वा जाननेयोग्य होनेके कारण भजनीय और अविद्या एवं उसके कार्योंको भस्म करनेवाले स्वयंज्योति परब्रह्मस्वरूप तेजका (धीमहि) हम ध्यान करते हैं। अथवा (यः नः धियः प्रचोदयात्) जो सूर्य हमारे कर्मोंको प्रेरणा करता है (सविता देवस्य) उस सबके उत्पादक द्योतमान सूर्य के (तत् वरेण्यं भर्गः) उस सबके देखनेयोग्य होनेसे प्रसिद्ध, सबके भजनयोग्य और पापोंको नाश देनेवाले तेजोमण्डलको (धीमहि) हम ध्यान करनेयोग्य मानकर मनमें धारण करते हैं ॥ १ ॥

सोमानांश्च स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । क-
क्षीवन्तं य औशिजः ॥ २ ॥

इसकी व्याख्या पीछे ऐन्द्रपर्वके द्वितीय अध्यायमें हाचुकी है ॥ २ ॥

अग्ने आयूँषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः
आ रे वाधस्व दुच्छुनाम् ॥ ३ ॥

(अग्ने आयूँषि पवसे) हे अग्ने ! तू हमारी आयुओंको पवित्र करता है (नः ऊर्जं इषं च आसुव) हमारे लिये बल और अन्न पहुँचा (दुच्छुनां आरे वाधस्व) कुत्तोंकी समान दुष्ट राक्षसोंको हमसे दूर कर और पीड़ित कर ॥ ३ ॥

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।
महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ १ ॥

(ता) वह मित्रावरुण देवता (नः) हमें (पार्थिवस्य दिव्यस्य) पृथिवीके और धुलोकके (महः रायः शक्तम्) बहुतसा धन देनेका समर्थ हों (वां महि क्षत्रम्) तुम्हारा पूजनीय बल (देवेषु) देवताओं में प्रसिद्ध है, उसकी हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

ऋतमृतेन सपन्नेषिरं दक्षमाशाते ।
अद्रुहा देवौ वर्धते ॥ २ ॥

(ऋतेन ऋतं सपन्ता) जलसे यज्ञको स्पर्श करतेहुए (इषिरं दक्ष आशाते) इच्छा करनेवाले वृद्धिको प्राप्तहुए यजमानको रक्षा करते हुए (अद्रुहा देवौ वर्धते) द्रोह न करनेवाले मित्रावरुण देवता वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः ।
बृहन्तं गर्त्तमाशाते ॥ ३ ॥

(वृष्टिद्यावा) वृष्टिके निमित्त है स्तुति जिनकी (रीत्यापा) जिन को इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है पंसे (दानुमत्याः इयः पती) देने योग्य अन्नके स्वामी मित्रावरुण देवता (बृहन्तं गर्त्तं आशाते) बड़े भारी रथ पर सवार होते हैं ॥ ३ ॥

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः ।
राचन्ते रोचना दिवि ॥ १ ॥

परम पेश्वर्यवान् होनेसे ही इन्द्रका इन्द्रपन है, उस परम पेश्वर्य को इन्द्र अग्नि वायु आदित्य और नक्षत्ररूपसे स्थित होकर पाना है, सोई दिखाते हैं—(ब्रध्नम्) आदित्यरूपसे स्थित (अरुषम्) हिंसा रहित अग्निरूपसे स्थित (चरन्तम्) वायुरूपसे सर्वत्र विचरनेवाले इन्द्रको (परितस्थुषः) त्रिलोकीमें वर्त्तमान प्राणी (युञ्जन्ति) देवता मानकर अपने कर्ममें संयुक्त करते हैं (रोचना दिवि रोचन्ते) उस इन्द्रके ही मूर्त्तिविशेष नक्षत्र धुलोकमें प्रकाशते हैं ॥ १ ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे ।

शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥

(अस्य रथे) आदिन्यादि मूर्त्तियोंमें स्थित इन्द्रके रथमें (काम्या विपत्तसा) चाहनेयोग्य और रथके दोनो ओर जुड़ेहुए शोणा धृष्णू) लालवर्णके और प्रगल्भ (नृवाहसा हरी युञ्जन्ति) इन्द्र और उसके सारथिआदिको ढोनेवाले हरिनामक दो घोड़ोंको सारथि रथमें जोड़तेहैं केतुं कृष्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

समुषद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥

(मर्याः) हे मनुष्यों ! इस आश्चर्यको देखो कि-यह आदिन रूप इन्द्र (अकेतवे केतुं कृषवन्) रात्रिमें निद्राके वशमें होनेके कारण ज्ञान रहित प्राणीको प्रातःकालके समय ज्ञान देताहुआ (अपेशसे पेशः) रात्रिमें अन्धकारसे ढके होनेके कारण मानो रूपरहितहुएको रूप देता हुआ अर्थात् प्रकाशित करताहुआ (उपद्भिः समजायथाः) प्रतिदिन उपःकालोंके द्वारा उदित होता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके त्रयोदशाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड समाप्तः

अयं॑ सोम इन्द्र तुभ्यं॑ सुन्वे, तुभ्यं पवते
त्वमस्य पाहि । त्वं॑ ह यं चकृषे त्वं ववृष
इन्दुं मदाय युज्याय सोमम् ॥ १ ॥

(इन्द्र अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे) हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारे लिये संस्कारयुक्त किया है (तुभ्यं पवते) यह तुम्हारे लिये गवित्र होता है (त्वं अस्य पाहि) तुम इसको पियो (त्वं ह यं चकृषे) तुमने ही जिस सोमको किया है (इन्दुं सोमं मदाय युज्याय त्वं ववृषे) जिस दीप्त सोमको मदके लिये और सहायताके लिये तुमने वरण किया है ?

स ईषं॑ रथो न भूरिषाड्योजि, महः पुरूणि
सातये वसूनि । आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता
स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥ २ ॥

(स ई महः) वह यह महान् इन्द्र (भूरिषाड् रथः इव) अधिक बौद्ध सहनेवाले रथकी समान (पुरूणि वसूनि सातये) हमें बहुतसे

धन प्राप्त होनेके लिये (अयोजि) यज्ञमें संयुक्त किया जाताहै (आ-
दीम्) युक्त होनेके अनन्तर (विश्वा नहुष्याणि जाता) सकल मनु-
ष्योंके हमारे विरोधी पुरुष (ऊर्ध्वा) ऊपर को मुख करके (वने स्व-
र्षाता नवन्तु) प्रार्थनीय स्वर्गलाभ करानेवाले संग्राममें जायें ॥ २ ॥

शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वाऽनभिशस्ता
दिव्या यथा विट् । आपो न मक्षु सुमतिर्भवा
नः, सहस्राप्साः पृतनाषाड् न यज्ञः ॥ ३ ॥

हे सोम ! (शुष्मी मारुतं शर्द्धः न पवस्व) बलवान् तू मरुत् देव-
ताओंके बलकी समान पवित्र हो (यथा दिव्याः विट् अनभिशस्ताः)
जैसे दिव्य प्रजायें अनिन्दितरूपसे पवित्र होती हैं (आपः न मक्षु नः
सुमतिः भव) जलोंकी समान शीघ्र पवित्र हुआ तू हमारे लिये सुमति
हो (सहस्राप्साः पृतनाषाड् न यज्ञः) अनेकों रूपवाला तू सेनाओंका
तिरस्कार करनेवाले इन्द्रकी समान, पृजनीय है ॥ ३ ॥

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः ।
देवेभिर्मानुषे जने ॥ १ ॥

(अग्ने त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता) हे अग्नि देव ! तुम सकल यज्ञों
में होमको सिद्ध करनेवाले हो । क्योंकि (देवेभिः मानुषे जने हितः)
देवताओंने तुमको मनुष्य यजमानोंमें होता रूपसे स्थापन करा है ॥१॥

स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः ।

आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (सः नः अध्वरे) वह तुम हमारे यज्ञमें (मन्द्राभिः जिह्वा
भिः) स्तुतियोग्य ज्वालाओंसे (महः यज) देवताओंका यजन करो
(देवान् आवक्षि) इन्द्रादि देवताओंका आवाहन करो (यक्षि च) और
उनको हवि देकर तृप्त भी करो ॥ २ ॥

वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा ।

अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥

(वेधः सुक्रतो देव अग्ने) हे विधातः कर्मको श्रेष्ठ करनेवाले दाना-

दिगुण युक्त अग्ने ! तुम (यज्ञेषु अध्वनः पथः च वेत्थ) यज्ञोंमें बड़े मार्ग और छोटे मार्गोंको भी जानते हो (इस कारणसे यज्ञमार्गसे चूके हुए यजमानको ठीक मार्ग बताओ ॥ ३ ॥

होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया ।

विदथानि प्रचोदयन् ॥ १ ॥

(होता अमर्त्यः) होमको सिद्ध करनेवाला और अमर (देवः विदथानि प्रचोदयन्) प्रकाशवान् और जाननेयोग्य कर्मोंको प्रेरणा करता हुआ अग्नि (मायया) कर्मविषयक ज्ञानके साथ (पुस्तात् पति) कर्म आरम्भ होनेके प्रथमकालमें ही हमारे समीप आता है ॥ १ ॥

वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते ।

विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २ ॥

(वाजी वाजेषु धीयते) बलवान् अग्नि संग्रामोंमें देवताओं करके शत्रुओंके नाशके लिये स्थापन कियाजाता है (अध्वरेषु प्रणीयते) अग्निहोत्रादिके विषै अध्वर्यु आदिकों करके आहवनीय आदि स्थानोंमें स्थापित कियाजाता है, इसीकारण (विप्रः यज्ञस्य साधनः) मेघायुक्त अग्नि यज्ञादिका साधक होता है ॥ २ ॥

धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमादधे ।

दक्षस्य पितरं तना ॥ ३ ॥

जो अग्नि (धिया चक्रे) आधान पवमानेष्टिरूप कर्मके द्वारा आहवनीय रूपसे किया गया, इसीकारण (वरेण्यः) सकल यजमानोंके कर्मका अङ्गरूप होनेसे जो अग्नि (भूतानां गर्भमादधे) स्थावर जङ्गमरूप सकल प्राणियोंके भीतर अपनेको ही गर्भरूपसे सर्वत्र स्थापन करता हुआ (पितरं दक्षस्य तना) सकल जगत्के पालक उस अग्नि को दक्ष प्रजापतिकी पुत्री वेदीरूपा भूमि दर्शपूर्णमास अग्निहोत्र आदि कर्मकी सिद्धिके लिये धारण करती है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके त्रयोदशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः

आ सुते सिञ्चत श्रियः रोदस्योरभिश्चियम् ।

रसा दधीत वृषभम् ॥ १ ॥

हे अश्वर्युओं ! (सुते) गोदुग्धमें (रोदस्योः अभिश्रियम्) घावा पृथिवीका आश्रय करनेवाले अर्थात् अग्नि देवताका संयोग होनेसे घावा पृथिवीमें बढेहुए (श्रियं आसिञ्चत) बकरीके दूधको सींचो सेवनके अनन्तर (रसा वृषभं दधीत) बकरीके दूधमें अभीष्टदाता अग्नि को स्थापन करो ॥ १ ॥

ते जानत स्वमोक्षया ३ २ सं वत्सासो न मातृभिः
मिथो नसन्त जामिभिः ॥ २ ॥

(ते स्वं ओक्ष्यासं जानत) वह गौणं अपने निवास महावीरको जानै अर्थात् तहां दुहानेको आवें (वत्सासः मातृभिः न) जैसे बछुड़े माताओंके पास जाकर मिलजाते हैं । तैसे (जामिभिः मिथः नसन्त) अपने वंधुओं सहित हरएक महावीरको आकर मिलें ॥ २ ॥

उपस्रक्वेषु वप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि ।
इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ ३ ॥

(स्रक्वेषु वप्सतः) ज्वालाओं से भक्षण करनेवाले अग्निके (नमः) अन्नरूप गो दुग्धको (धरुणम्) इन्द्र अग्निके धारक अजादुग्धको (दिवि उपकृण्वते) अन्तरिक्ष में अर्पण करते हैं अर्थात् जब अग्नि महावीर-स्थानको जलाना है तब उसके ऊपर दोनों प्रकारके दूधको सींचते हैं तदनन्तर (इन्द्रे अग्ना नमः स्वः नमः) इन्द्र और अग्निके विषयमें सम्पूर्ण गोदुग्ध और अजादुग्धरूप अन्नका अर्पण करते हैं ॥ ३ ॥

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपन्-
मणः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रून्नु यं
विश्वे मदन्त्युमाः ॥ १ ॥

(ज्येष्ठं तदित्) जगत्का कारण और सबका आदिपुरुष होनेके कारण सबका बडा वह ब्रह्म ही (भुवनेषु आस) पृथिवी आदि सकल लोकोंमें स्वप्रकाशरूपसे दीतहुआ (यतः उग्रः स्त्वेपन्मणः जज्ञे) जिस उपादानरूप ब्रह्मसे उग्र और प्रदीप्त बलवाला सूर्यरूप इन्द्र प्रकट हुआ और वह (जज्ञानः सद्यः शत्रून् निरिणाति) उदय होताहुआ शीघ्र ही उपासकोंके पापरूप शत्रुओं को नष्ट करता है (यन्नु विश्वे ऊमाः मदन्ति) जिस सूर्यरूपसे उदय होतेहुए इन्द्र ही औरको देखकर सकल

प्राणी यह मुझ ही अभीष्ट फल देनेको उदित हुआ है ऐसा जानकर प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥

**वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं
दधाति । अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते न-
वन्त प्रभृता मद्देषु ॥ २ ॥**

(शवसा वावृधानः) बलसे बढ़ाहुआ इमी कारण (भूर्योजाः शत्रुः) बड़ा बलवान् और बैरियोंको काटनेवाला इन्द्र (दासाय भियसं दधाति) समयको नष्ट करनेवाले शत्रुके लिये भयकरना है (अव्यनत् न व्यनत् च सस्ति) श्वास लेनेवाले जंगम और श्वास न लेनेवाले स्थावर प्राणियोंको भी वर्ण आदिसे सम्यक् प्रकार शुद्ध करता है । हे इन्द्र ! (ते मद्देषु) तुम्हें हवि और स्तुतियोंसे हर्ष प्राप्त होनेपर (प्रभृता सं नवन्ते) तुम्हारे विशेषरूपसे पोषण कियेहुए सकल प्राणी स्तुति करनेको और हवि अर्पण करनेको इकट्ठे होते हैं ॥ २ ॥

**त्वे ऋतुमपि वृञ्जन्ति विश्वेद्विर्यदेते त्रिर्भव-
न्त्युमाः । स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा
समदः सुमधु मधुना ऽभियोधीः ॥ ३ ॥**

हे इन्द्र ! (त्वे विश्वे ऋतुव्यञ्जन्ति) तुम्हारे विषे सकल यजमान अनुष्ठानयोग्य कर्मको समाप्त करते हैं (अपि) पृथिवी आदि सकल भूत सकल प्राणियों के मन और सकल यज्ञ तुम्हारे विषे हा समाप्त कियेजाने हैं (यत् एते ऊमाः) क्योंकि-यह तुम्हें तृप्त करनेवाले यजमान (द्विः त्रिः भवन्ति) पहिले एककी होतेहुए फिर ल्या और पुरुषरूप से उत्पन्न होकर दोवार और तदनन्तर सन्तान सहित तीनवार जन्म धारण करनेवाले होते हैं । हे इन्द्र तुम (स्वादोः स्वादीयः) प्यारे घर धन आदिकी अपेक्षा भी परम प्रिय सन्तानको (स्वादुना संसृज) प्रियरूप माता पिताके मिथुनसे संयुक्त करो (अदः मधु) इस प्रिय सन्तानको (मधुना सु अभियोधीः) हर्षके हेतु अन्य पौत्ररूप सन्तान से भलेप्रकार क्रीड़ा कराओ ॥ ३ ॥

**त्रिकदुकषु महिषा यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्प-
त्सोममपिवद्विष्णुना सुतं यथावशम् । स ई**

ममाद् महि कर्म कर्त्तवे महामूरुः सैनः सश्व-
देवो देवः सत्य इन्दुः सत्यामिन्द्रम् ॥ १ ॥

(महिषः तुविशुष्मः) पूजनीय और अधिक बलवाला (तृम्पत्) तृप्त होता हुआ इन्द्र (त्रिकद्रुकेषु सुतम्) ज्योतिगौ और आयुनामक अभिप्लवकं दिनों में अभिषुत (यथाशिरं सोमम्) यवके सत्तुओं से मिलेहुए सोमको (विष्णुना) विष्णु देवताके साथ (यथावशं अपि-
बत्) यथेच्छ पीता है (सः) वह सोम (महाम् उरुम्) महान् और विस्तीर्ण तेजवाले (ईम्) इस इन्द्रको (महि कर्म कर्त्तवे) वृत्रवध आदि महान् कर्म करने के लिये (ममाद्) हर्षयुक्त करतो हुआ (सत्यः इन्दुः) सत्यरूप और टपकता हुआ (देवः सः) द्योतमान वह सोम (सत्यं देवम्) सत्यस्वरूप और सोमकी कामना करनेवाले (एनं इन्द्रं सश्वत्) इस इन्द्रको व्यापै ॥ १ ॥

साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ ।
साकं वृद्धो वीर्यैः सासहिर्मृधो विचर्षणिः ॥ दा-
ता राधः स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन सैनः
सश्वदेवो देवः सत्य इन्दुः सत्यामिन्द्रम् ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! तू (क्रतुना साकं जातः) कर्म या प्रहाके साथ प्रकट हुआ था (ओजसा साकं ववक्षिथ) बलके साथ विश्वके भारको उठाना चाहता है (प्रचेतन) हे श्रेष्ठ ज्ञानवाले इन्द्र ! (वीर्यैः साकं वृद्धः) शत्रुवध आदि पराक्रमोंके साथ वृद्धिको प्राप्त हुआ तू (मृधः सासहिः) संग्रामोंका तिरस्कार करता है (विचर्षणि स्तुवते) पुण्य करनेवाले और पाप करनेवालोंको विशपरूपसे देखनेवाला तू स्तुति करनेवाले यजमानके अर्थ (राधः काम्यं वसु दाता) इष्टसाधक प्रार्थनायोग्य धन देता है (सत्यः इन्दुः) सत्यस्वरूप और टपकता हुआ (देवः सः) द्योतमान वह सोम (सत्यं देवम्) सत्यस्वरूप और सोमकी कामना करनेवाले (एनं इन्द्रं सश्वत्) इस इन्द्रको व्यापै ॥ २ ॥

अधत्विषीमाँ अभ्योजसा कृविं युधा भवदा-
रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्रवावृधे । अध-

तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्रचेतय सैनः सश्र-
द्देवो देवः सत्य इन्दुः सत्यामिन्द्रम् ॥ ३ ॥

(अथ त्विपीमान्) सोमपान करनेके अनन्तर दीप्तिमान् इन्द्र (ओजसा कृत्वि युधा अभ्यभवत्) वल करके कृविनामक असुरको युद्धमें जीतताहुआ (रोदसी आपृणत्) यावा पृथिवीको अपने तेजसे पूर्ण करताहुआ (अस्य मज्जना प्रवावृधे) इस पियेहुए सोमके बलसे अधिक वृद्धिको प्राप्त हुआ। वह इन्द्र सोमके दो भाग करके (अन्यं जठरे अन्न) एक भागको अपने पेटमें धरताहुआ (ई प्रारिच्यत) दूसरे भागको देवताओंके लिये बचाताहुआ। हे इन्द्र ! तू (प्रचेतय) उस सोमको पीनेके लिये देवताओंको चेतन कर। (सत्यः इन्द्र) सत्यस्वरूप और टपकताहुआ (देवः सः) द्योतमान वह सोम (सत्यं देवम्) सत्यस्वरूप और सोमकी कामाना करनेवाले (एनं इन्दुं सश्रत्) इस इन्द्रको व्यापै ॥ ३ ॥

सामवेदात्तशाक्तिक प्रयोदशाध्यायस्य षष्ठ खण्डः त्रयोदशाध्यायश्च समाप्त

चतुर्दश अध्याय

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथाविदे ।

सूनुः सत्यस्य सत्पतिम् ॥ १ ॥

हे स्तोता ! (सत्यस्य सूनुम्) यज्ञके पुत्रसमान (सत्पति गोपति इन्द्रं अभि प्र अर्च) सत्पुरुषोंके रत्नक गौओंके वा वेदमंत्रोंके स्वामी इन्द्रको अधिकतासे पूजो (गिरा यथा विदे) स्तुतिसे जिसप्रकार वह जानै कि—मुझे यज्ञमें जाना चाहिये ॥ १ ॥

आ हरयः समृजिरेरुषारधि वह्निषि ।

यत्राभि सं नवामहे ॥ २ ॥

(हरयः) पापहारी इन्द्रके अश्व (अरुषी) दमकतेहुए (अग्निव-
ह्निषि) बिछीहुई कुशाओं पर (आससृजिरे) स्थित हो (यत्र अभि संनवामहे) जिन कुशाओं पर स्थित इन्द्रकी हम स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु ।

यत्सीमुपहरे विदत् ॥ ३ ॥

(गावः वज्रिणे इन्द्राय मध आशिरं दुदुहं) गौणं वज्रधारी इन्द्रके लिये मधुर दुग्धादिको देतो हैं (यत्) जब (उपहरे मधु सीम् विदत्) समीप में वर्त्तमान सोमरसको सब ओर से पीता है ॥ ३ ॥

आनो विश्वासु हव्यमिन्द्रः समत्सु भूषत ।
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन् परमज्या ऋ-
चीषम ॥ १ ॥

हे ऋत्विजों ! (विश्वासु समत्सु) सकल अस्त्रयुद्धों में (हव्यम्) सकल देवताओं करके अपनी रक्षाके लिये पुकारने योग्य इन्द्र को लक्ष्य करके (नः ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत) हमारे यज्ञ में स्तोत्रोंको वा हविरूप अन्नोंको तथा प्रातःसवन आदिको समीप में सुशोभित करो (वृत्रहन् परमज्याः ऋचीषम) पापके नाशक और युद्धों में शत्रुओंके नाशके लिये अविनाशी प्रत्यञ्जावाले वा बल करके श्रेष्ठ शत्रुओंको मारनेवाले तथा स्तुतियों के द्वारा अभिमुख करने योग्य हे इन्द्र ! तुम हमें इच्छित पदार्थ दो ॥ १ ॥

त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशान-
कृत् । तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य
शवसो महः ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (प्रथमः त्वं राधसां दाता असि) सर्वोमें मुख्य तुम धनों के दाता हो (ईशानकृत् सत्यः असि) अपने उपासकोंको ऐश्वर्ययुक्त करनेवाले तुम सत्यकर्मा हो । इसीसे हम (तुविद्युम्नस्य) बहुतसे धन और अन्नवाले (शवसः पुत्रस्य महः) बलके पुत्रसमान तुम महात्मा के (युज्या वृणीमहे) भनोंकी प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

प्रत्नं पीयूषं पृथ्यं मदुक्थ्यं महो गाहादिव आ
निरधुक्षत । इन्द्रमभिजायमानं समस्वरन्

(दिवः पीयूषम्) स्वर्गवासी देवताओंके पीनेयोग्य (पुराण यत्) पुरातन सोमरूप अन्न (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय है (पृथ्यम्) उस पुरातन सोमरूप अन्नको (महः गाहान् दिवः आ निरधुक्षत) महान् अवगाहन चूलोकसे अभिमुख होकर दुहन हे तदनन्तर (इन्द्रं अभि जायमानं समस्वरन्) इन्द्रके निमित्त उत्पन्न हुए सोमकी स्तुति करते हैं ?

आदीं केचित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो
दिव्या अभ्यऽनूषत । दिवोन वारः सविता
व्यूणते ॥ २ ॥

(आत् पश्यमानासः दिव्याः वसुरुचः) तदनन्तर इसको देखतेहुए
द्युलोकवासी वसुरुच (आप्यं अभ्यनूषत) बान्धवोंके योग्य इस
सोमकी स्तुति करतेहुए । किसके अनन्तर उन्होंने स्तुति की सो कहते
हैं, कि—जबतक (दिव सविता) द्योतमान सबका प्रक सूर्य अन्ध
कार नहीं दूर करना है अर्थात् सूर्योदयमें पहिले ही सोमकी स्तुति की ॥ २

अथ यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा
भुवनाऽभि मज्मना । यूथे न निष्ठा वृषभो वि-
राजसि ॥ ३ ॥

(पवमान अथ) हे सोम ! इसके अनन्तर (यत् इमे रोदसी) जब
इन द्वायापृथिवीके विषे (इमा विश्वा भुवना च) इन सकल प्राणियोंमें
भी (मज्मना) बल करके (यूथे निष्ठा वृषभः न) गौशोंके समूहमें
विराजमान वृषभकी समान (विराजसि) विराजमान होते हैं ॥ ३ ॥

इमम् पु त्वमस्माकं, सनिं गायत्रं नव्याथं-
सम् । अग्ने देवेषु प्रवोचः ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वं अस्माकम्) तुम हमारे (इपं ऊ. रु.) इस सामने
होतेहुए भी (सनिम्) हविके दानकी (नव्यांस गायत्रं देवेषु प्रवोचः)
नवीन स्तुतिरूप वचनको भी देवताओंके आगे विष्णु रूपसे कहो ॥ १ ॥

विभक्ताऽसि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाकया
सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ २ ॥

(चित्रभानो विभक्ता असि) हे विचित्र किरणोंवाले अग्ने ! तुम
विशिष्ट धनके देनेवाले हो (सिन्धाः उपाके ऊर्मा आ) जैसे नदीके
समीपमें तरङ्गरूपा छोटी २ गूलोंका विभाग करते हैं तैसे (दाशुषे
सद्यः क्षरसि) हवि देनेवाले पजमानको तत्काल कर्मफलोंकी वर्षा
करके देते हो ॥ २ ॥

आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु शिक्षा
वस्वो अन्तमस्य ॥ ३ ॥

हे अग्ने (नः परमेषु वाजेषु आभज) हमें उत्तम द्युलोकके भोगोंमें पहुँचाओ (मध्यमेषु आ) अन्तरिक्ष लोकके भोगोंमें पहुँचाओ (अन्त-मस्य वस्वः शिक्ष) भूलोकके धन दो ॥ ३ ॥

अहमिद्धि पितुप्परि मेधामृतस्य जग्रह ।

अहं सूर्य इवाजनि ॥ १ ॥

(पितुः मन्यस्य मेधाम्) पालन करनेवाले इन्द्रकी अनुग्रहरूपी बुद्धिकी (अहमिन् परि जग्रह) मैंने ही पाया है इसीकारण (अहं सूर्यः इवः अजनि) मैं सूर्यकी समान प्रकाशमय प्रकट हुआ ॥ १ ॥

अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववन् ।

येनन्द्रः शुष्ममिद्धे ॥ २ ॥

(कण्व इव अहम्) कण्वकी समान मैं भी (प्रत्नेन जन्मना) पुनः तन जन्म करके इन्द्रके विषयके स्तोत्रोंको शोभायमान करता हूँ (येन इन्द्रः शुष्मं इधे इत्) जिन स्तोत्रसमूहके द्वारा इन्द्र शत्रुओंके नाशक बलको अदृश्य ही धारण करता है ॥ २ ॥

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवु ऋपयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद्वंस्व सुष्टुतः ॥ ३ ॥

(इन्द्र ये त्वां न तुष्टुवुः) हे इन्द्र ! जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की (च ये ऋपयः तुष्टुवुः) और जिन ऋषियोंने तेरी स्तुति की उनमें (ममेद्वंस्व सुष्टुतः) मैंने ही स्तोत्रसे उत्तमताके साथ स्तुति किया हुआ बुद्धिको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

सामवेदसंहिता उत्तरार्चिक चतुर्दशोऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

अग्ने विश्वभिरग्निभिर्जापि ब्रह्म सहस्कृतः ।

ये देवत्राय आयुषु तेभिर्नो महया गिरः ॥१॥

(सहस्कृत अग्ने) हे बलसे उत्पन्न किये हुए अग्निदेव ! (विश्वेभिः अग्निभिः ब्रह्म जपस्व) सकल पूजनीय अग्नियों सहित हमारे दिये

हुए हविका सेवन करो (ये देवता) जो अग्नि देवताओं में है (ये आयुषु) जो अग्नि मनुष्योंमें है (नेभिः नः गिरः महय) उन अग्नियों के सहित हमारी स्तुतिरूपा वाणियोंको पूजो ॥ १ ॥

प्र स विश्वेभिरग्नाभेरग्निः स यस्य वाजिनः
तनये तोके अस्मदा सम्यक् वाजैः परीवृतः२

(यस्य वाजिनः) जिस अग्निके हविसे यजन करनेवाले बहुत हैं (सः अग्निः) वह अग्नि (विश्वेभिः अग्निभिः) सकल पूजनीय अग्नियों सहित (वाजैः परीवृतः) हमें देनेयोग्य अग्नोसहित (सम्यक्) ठीक समय पर (अस्म प्र आ) हमारे यहाँ अधिकतासे आवै (तनये तोके) वह अग्नि हमारे पुत्र और पौत्रों के यहां भी आवे ॥२॥

त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय ।

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥ ३ ॥

(अग्ने त्वं अग्निभिः) हे अग्ने ! तू अपनी विभूतिरूप अग्नियों सहित (नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धय) हमारे स्तोत्र और यज्ञको बढ़ा (त्वम् नः देवतातये रायः दानाय चोदय) तू हमारे यज्ञके निमित्त धनका दान करनेको देवताओंको प्रेरणा कर ॥ ३ ॥

त्वे सोम प्रथमा वृक्तवर्हिषो, महे वाजाय श्र-
वसे धियं दधुः । स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय १

(प्रथमा वृक्तवर्हिषः) सर्वोंमें मुख्य और यज्ञके लिये कुशच्छेदन करनेवाले (महे वाजाय श्रवसे) बहुतसे बल और अन्नके लिये (त्वे धियं दधुः) तुम्हारे विषे बुद्धिको स्थापन करतेहुए तिसकारण (वीर सः त्वम्) हे वीर सोम ! वह तू (नः वीर्याय चोदय) हमें सामर्थ्य के लिये प्रेरणा करो अथवा पुत्रविषयक सुखके लिये हमें प्रेरणा करो १

अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कंचिज्जन-
पानमक्षितम् । शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः

हे सोम ! तू (श्रवसा अभ्यमिततर्दिथ) अन्नके कारण पवित्रको भेदन करताहुआ (न कञ्चित् जनपानं अक्षित उत्सम्) जैसे मनुष्यों के पीनेयोग्य कुण्डको पूर्ण रखनेके लिये किसी वाघड़ी आदिको तोड़

कर जल निकालते हैं (गभस्व्योः शर्याभिः भरमाणः न) जैसे जल भरनेवाला भुजाओंकी अंगुलियोंसे किसी जलाशयको तोड़ता है ॥२॥

अजीजनो अमृत मर्त्याय कमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः । सदाऽसरोवाजमच्छा सनिप्यदत् ॥ ३ ॥

(अमृत) हे मरणधर्मरहित सोम (अमृतस्य चारुणः अमृतस्य धर्मन्) सत्य और कल्याणरूप जलको धारण करनेवाले अन्तर्दिग्मे (कं मर्त्याय अजीजनः) सूर्यको मनुष्योंके लिये उत्पन्न करता हुआ और (सनिप्यदत्) देवताओंका सेवन करता हुआ (वाजं अच्छ) सप्राप्तकी ओरको (सदा असर.) सदा जाता है ॥ ३ ॥

एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सोम्यं मधु ।
प्र राधाँसि चोदयते महित्वना ॥ १ ॥

(इन्दुं इन्द्राय आसिञ्चत) सोमरसका इन्द्रके लिये सोचो (सोम्यं मधु पिवाति) सोमके मधुरसको इन्द्र पिय और पीकर (महित्वना राधाँसि प्रचोदयते) अपनी महिमा से स्तोताओंको धन देय ॥ १ ॥

उपो हरीणां पतिञ्चराधः पृञ्चन्तमब्रवम् ।

नूनञ्चश्राधे स्तुवतो अश्वस्य ॥ २ ॥

(हरीणां पति राधः पृञ्चन्तम) पापरागी अश्वोंके स्वामी और स्तोताओंको धनयुक्त करनेवाले इन्द्रकी (उपा अभवम्) विशेषरूप से मैं स्तुति करता हूँ । अश्वस्य स्तुवत नून श्राधि) अश्व अपिके पुत्रकी अनुष्ठानकी हुई मेरी स्तुतिको हे इन्द्र ! तुम इस समय सुनो ॥२॥

नह्याऽऽङ्गपुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत् ।

न की राया नैवथा न भन्दना ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (न्वन् पुरा न जज्ञे) तुमसे पहिले कोई उत्पन्न नहीं हुआ (अङ्ग वीरतरः नहि) हे समर्थ इन्द्र ! तुमसे अधिक वीर भी कोई नहीं हुआ (रायः नकिः) धनमें भी तुमसे अधिक कोई नहीं है (एवथा न) संग्राममें चढ़ाई करनेवाला भी तुमसे अधिक कोई नहीं है (भन्दना न) स्तुतियाँ भी तुमसे अधिक कोई नहीं है ॥३॥

नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् । पतिं वो
अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १ ॥

हे यजमानों (ओदतीनां नदं वः) आदित्यरूपमे उषाओंके उत्पा-
दक इन्द्रको तुम्हारे लिये आह्वान करता है (योयुवतीनां नदम्) चन्द्र
किरणोंके उभावृक्को तुम्हारे लिये आह्वान करता है (अघ्न्यानां पति
वः) गौओंके स्वामीका तुम्हारे लिये आह्वान करता है (धेनूनां इषु-
ध्यसि) हे यजमान ! तू गौओंके दूधरूप अन्नको चाहता है ॥ १ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके चतुर्धाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्ड समाप्तः

देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्वासिचम् ।
उद्धा सिन्नध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते

(द्रविणोदाः देवः) धनोंका दाता अग्नि देवता (वः पूर्णा आसिचं
विवष्टु) तुम्हारी हविसे पूर्ण स्रुचको कामना करे (उत्सिन्नध्वं वा)
और सोमसे पात्रको मीचा (पृणध्वं वा) और पात्रको हविसे पूर्णकरो
(आदित् देव वः ओहते) तदनन्तर ही अग्निदेव तुम्हारा भरण
करता है ॥ १ ॥

तः होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अ-
कृण्वत । दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमग्निर्ज-
नाय दाशुषे ॥ २ ॥

(देवाः) देवता (प्रचेतसंतम्) श्रेष्ठ बुद्धिवाले उस अग्निका(अध्व-
रस्य वह्निं होतारं अकृण्वत) यज्ञका वाहक और होता बनाने हुए
(अग्निः) वह अग्नि (विदधते दाशुषे जनाय) उपासना करनेवाले
और हवि देनेवाले यजमान के अर्थ (सुवीर्यं रत्नं दधाति) सुन्दर
वीरतायुक्त रमणीय धन देता है ॥ २ ॥

अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्वतान्यादधुः ।
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो
गिरः ॥ १ ॥

(यस्मिन् व्रतानि आदधुः) जिस अग्निमें यजमानोंने कर्म समर्पण किये (गानुवित्तमः अदर्शि) विशेष मार्गीका ज्ञाता वह अग्नि प्रकट हुआ (नुजातं आर्यस्य वर्द्धनम्) सम्यक् प्रकार प्रकट हुए और धेंछ वर्णके वृद्धिपूर्णा (अग्निं नः गिरः उपोनक्षन्तु) अग्नि देवताको हमारी स्तुतिरूप वाणियों प्राप्त हों ॥ १ ॥

यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्कृत्यानि कृणवतः । स-
हस्रसां मेधसाताविव त्मनाऽग्निं धीभिर्नम-
स्यत ॥ २ ॥

(यस्मान् चर्कृत्यानि कृणवतः) जिस कारण कि—कर्त्तव्य कर्म करनेवाले मनुष्योंको (कृष्टयः रेजन्ते) अन्य मनुष्य कम्पायमान करते हैं, निम्नकारण इससमय हे मेरे मनुष्यों! (सहस्रसाम्) सहस्रों गीणों और धन देनेवाले अग्निको (मेधसाता धीभिः त्मना नमस्यत) यज्ञमें कर्त्तव्य कर्मोंमें स्वयं प्रणाम करो ॥ २ ॥

प्र दैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना ।
अनु मातरं पृथिवीं विवावृते तस्थौ नाकस्य
शर्मणि ॥ ३ ॥

इसकी व्याख्या आग्नेय पर्व अध्याय १ खण्ड ५ में होचुकी ॥ ३ ॥

अग्निश्चायु २पि पवस आमुवोर्जमिषं च नः ।

आरे वाधस्व दुच्छुनाम् ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या १३ वें अध्याय ४ खण्डमें होचुकी ॥ १ ॥

अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।

तमीमहे महागयम् ॥ २ ॥

(पाञ्चजन्यः ऋषिः) देव मनुष्य आदि पाँच प्रकारके प्राणियोंको असीष्ट फल देनेवाला और सबका द्रष्टा (पवमानः अग्निः) पवमान रूप अग्नि (पुरोहितः) कर्मके लिये ऋत्विजों करके आगों स्थापन कियागया है (त महागयं ईमहे) उस अनेकों यज्ञशालाओंवाले अग्नि को हम याचना करते हैं ॥ २ ॥

अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ।
दधद्रथि मयि पोषम् ॥ ३ ॥

(अग्ने स्वपाः) हे अग्ने श्रेष्ठ कर्मवाले तूम् (अस्मे) हमें (वर्चः पवस्व) तेज दो (मयि रथि पोषं दधन्) मेरे विषे धन और पुष्ट गौ आदि को स्थापन करो ॥ ३ ॥

अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया ।
आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १ ॥

(पावक) हे पवित्र करनेवाले (अग्ने देव) अग्निदेव (रोचिषा मन्द्रया जिह्वया) अपनी दीमिससे और देवताओंको हर्ष देनेवाली जिह्वो से (देवान् आवक्षि यक्षि च) देवताओंका आवाहन करो और यज्ञ भी करो ॥ १ ॥

तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम् ।
देवाँ आ वीतये वह ॥ २ ॥

(घृतस्नो चित्रभानो) हे घृतसे उदन्न हुए और नाना प्रकारकी दीमिवाले अग्निदेव ! (स्वर्दृशं तं त्वा ईमहे) सबके द्रष्टा तिस तुझ से हम याचना करते हैं, कि—(वीतये देवान् आवह) हवि नक्षण करनेके लिये देवताओंका आवाहन कर ॥ २ ॥

वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तसमिधीमहि ।
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ ३ ॥

(कवे अग्ने) हे अनुभवो अग्निदेव ! (वीतिहोत्रं द्युमन्तम्) यज्ञ के प्रेमा और दीमिमान् (बृहन्तं त्वा अध्वरे समिधीमहि) महान् तुझ को यज्ञमें प्रज्वलित करते हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके षतुर्वंशाध्यायस्य तृतीयः खंडः समाप्तः

अत्रानो अग्नि उतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्माणे ।
विश्वासु धीषु वन्द्य ॥ १ ॥

(विश्वासु धीषु वन्द्य अग्ने) सकल कर्मोंमें वन्दनीय हे अग्ने ।

(गायत्रस्य प्रथमर्षिणि) गायत्री छन्दवाले सूक्तके निमित्त होनेपर (नः ऊक्तिभिः अथ) हमको अपने रक्षाके साधनोंसे रक्षा करो ॥ १ ॥

आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम् ।

विश्वासु पृत्सु दुष्टरम् ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (सत्रासाहं वरेण्यम्) एकसाथ दारिद्र्यके नाशक और घरणीय (विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्) सकलसंप्रामोमें शत्रुओंको दुस्तर (रयिं नः आभर) धन हमें दे ॥ २ ॥

आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोपसम् ।

मार्डीकं धेहि जीवसे ॥ ३ ॥

(अग्ने नः जीवसे) हे अग्निदेव ! हमारे जीवनके लिये (सुचेतुना) सुन्दर ज्ञानसे युक्त (विश्वायुपोपसं मार्डीकम्) जीवनभर शरीर आदि के पोषक और सकल सुखदायक (रयिं नः धेहि) धन हमें दो ॥३॥

अग्निं हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु ।

तेन जेष्म धनं धनम् ॥ १ ॥

(नः धियः) हमारे कर्म वा स्मृतियों (अग्निं हिन्वन्तु) अग्निको हमारे यज्ञके लिये उधत कर (आशुमिवाशुं सप्ति इव) जैसे कि— योद्धा संप्रामोमें शीघ्रगामी घोड़ोंको उधत करते हैं (तेन धनं धनं जेष्म) उस अग्निके द्वारा हम सकल धनोंको जीत ॥ १ ॥

यया गा आकरामहै सेनयाग्ने तवोत्या ।

तां नो हिन्व मघत्तये ॥ २ ॥

(सेनया यया तव ऊत्या) सेनारूप वा धनसहित जिस तुम्हारी रक्षासे (अग्ने) हे अग्निदेव ! (गाः आकरामहै) गौओंको पावें (तां नः मघत्तये हिन्व) उस रक्षाको हमें धन प्राप्त होनेके लिये प्रेरणा करो

आऽग्ने स्थूरं पृथुं गोमन्तमश्वि-

नम् । अङ्ग्धि खं वर्त्तया पविम् ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (स्थूरं पृथुं गोमन्तं अश्विनं रयिं आभर) बहुतसे विस्तारवाले गौओं और घोड़ोंसे युक्त धन हमें दो (खं अङ्ग्धि)

आकाशको अपने तेजोंसे प्रकाशित करो (पविं वर्त्तय) आयुधको हमारे शत्रुओंमें घुमाओ ॥ ३ ॥

अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि ।
दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥ ४ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (जनेभ्यः ज्योतिः दधत्) सकल प्राणियों के लिये प्रकाश करतेहुए तुमने (नक्षत्रं अजरम्) निरन्त गमन करने वाले और जरारहित (सूर्यं दिवि आरोहयत्) सूर्यको धुलोकमें स्थापन किया है ॥ ४ ॥

अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत् ।
बोधा स्तोत्रे वयो दधत् ॥ ५ ॥

(अग्ने विशां केतु प्रेष्ठः श्रेष्ठः असि) हे अग्निदेव ! तुम यजमानोंके ह्यान दाता अतएव परमप्यारं और सबसे श्रेष्ठ हो (उपस्थसत्) यज्ञशाला में स्थित हुए तुम (स्तोत्रे वयः दधत् बोध) स्तोताको अन्न देतेहुए हमारे स्तोत्रको स्वीकार करो ॥ ५ ॥

अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ।
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ १ ॥

(मूर्धा) देवताओंमें श्रेष्ठ (दिवः ककुत्) धुलोकसे भी ऊँचा (पृथिव्याः पतिः अयं अग्निः) पृथिवीका स्वामी यह अग्नि (अपां रेतांसि जिन्वति) जलके बीजरूप सकल स्थावर जङ्गम प्राणियोंको प्रेरणा करता है ॥ १ ॥

ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपतिः ।
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ २ ॥

(अग्ने स्वःपतिः) हे अग्ने ! स्वर्गका स्वामी तू (वार्यस्य दात्रस्य हि ईशिषे) वरणीय और देनेयोग्य धनके स्वामी हो (शर्मणि तव स्तोता स्याम्) सुख पानेके लिये मैं तुम्हारा स्तोता होऊँ ॥ २ ॥

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते ।
तव ज्योतीष्यर्चयः ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (शुचयः शुक्लाः) निर्मल और स्वेतवर्ण (भ्राजन्तः अर्चयः) दीप्यमान अर्चिये (तद्य ज्योतीषि उदीरते) तुम्हारे तेजों को प्रेरणा करती हैं ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके चतुर्दशाध्यायस्य चतुर्थः अक्षरः चतुर्दशाध्यायश्च समाप्तः

पञ्चदश अध्याय

कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः ।

कोह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १ ॥

(अग्ने जनानां ते कः जामिः) हे अग्निदेव ! मनुष्योंमें तुम्हारा बन्धु कौन है? अर्थात् तुम सकल गुणोंमें अधिक हो इस कारण तुमसा तुम्हारा बन्धु कोई नहीं है (दाश्वध्वरः कः) सख्चे दानसे तुम्हारा यजन करनेवाला कौन है? (को ह) नू कैसे स्वरूपवाला है इस बातको कौन जानता है ? (कस्मिन् श्रितः असि) तू किस स्थानका आश्रय करके रहता है ? उस स्थानको भी कोई, नहीं जानता तो फिर हम तुम्हारा दर्शन कैसे होसका है ? ॥ १ ॥

त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः ।

सखा सखिभ्य ईडयः ॥ २ ॥

(अग्ने त्वं जनानां जामिः मित्रः, प्रियः असि) हे अग्निदेव ! ऐसे अर्चिस्तय प्रभाववाले भी तुम अनुग्रह करनेके कारण सब पुरुषोंके बन्धु और तृप्त करनेवाले तथा यजमानोंके रक्षक हो (ईडयः सखिभ्यः सखा) स्तुतियोग्य तुम ऋत्विजोंके सखासमान अत्यन्त प्रिय हो ॥ २ ॥

यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत् ।

अग्ने यक्षि स्वं दमम् ॥ ३ ॥

(अग्ने नः) हे अग्निदेव ! हमारे लिये (मित्रावरुणा यज) मित्रावरुण देवताओंको हविसे पूजा (देवान् यज) देवताओंको पूजा (ऋतम्) अमोघ फलदाता यज्ञको पूजा और इसके लिये (बृहत् स्वं दमं यक्षि) बड़ीभारी अपनी यज्ञशालाको प्राप्त होओ ॥ ३ ॥

ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमाँसि दर्शतः ।

समग्निरिध्यते वृषा ॥ १ ॥

(ईडेन्यः नमस्यः) स्तुतियोंसे पूजनीय और सबको नमस्कार करने योग्य (तमांसि तिरः) अन्धकारोंका तिरस्कार करनेवाला (दर्शतः घृषा अग्निः) दर्शनीय और अभीष्टफलदाता अग्नि (इध्यते) आहुतियोंके द्वारा प्रज्वलित कियाजाता है ॥ १ ॥

वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वोन देववाहनः ।

तं हविष्मन्त ईडते ॥ २ ॥

(वृषा उ) अघश्य ही इच्छित फलोंकी वर्षा करनेवाला (अश्वः न देववाहनः) जैसे घोडा राजाको अपने नगरमें पहुँचाता है तैसे ही देवताओंको हविके समीप पहुँचानेवाला (अग्निः समिध्यते) अग्नि आहुतियोंसे भलेप्रकार प्रदीप्त कियाजाता है (तं हविष्मन्त ईडते) ऐसे अग्निकी हम यजमान हवि लियेहुए स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि ।

अग्ने दीद्यतं बृहत् ॥ ३ ॥

(वृषन् अग्ने) हे अभीष्ट फलोंकी वर्षा करनेवाले अग्निदेव (वृषणः वयम्) घृत आदिकी आहुति देनेवाले हम (वृषणम्) आहुतियोंके द्वारा जलकी वर्षा करनेवाले (दीद्यन्तं बृहत् समिधीमहि) विपतेहुए महान् अग्निको प्रज्वलित करते हैं ॥ ३ ॥

उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः ।

अग्ने शुक्रास ईरते ॥ १ ॥

(दीदिवः) हे दीप्त अग्ने ! (समिधानस्य ते) भलेप्रकार प्रज्वलित कियेजातेहुए तेरी (बृहन्तः शुक्रासः) बड़ी और जाज्वल्यमान (अर्चयः उदीरते) लपटें निकलती हैं ॥ १ ॥

उप त्वा जुह्वो मम घृताचीर्यन्तु हर्यत ।

अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥ २ ॥

(हर्यत अग्ने) हे कामना कियेहुए अग्निदेव ! (मम घृताचीः जुह्वः त्वाः उपयन्तु) मेरी घी धरसानेवालीं झुं चें तुम्हें प्राप्त हों (न हव्याः जुषस्व) हमारे हवियोंको सेवन करो ॥ २ ॥

मन्द्रं छं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम् ।

अग्निमीडे स उ श्रवत् ॥ ३ ॥

(मन्त्रं होतारम्) हर्ष देनेवाले और देवताओंके आह्वानकर्त्ता (ऋ-
विषजं चित्रभानुम्) प्रत्येक ऋतुमें यजन करनेयोग्य और नानाप्रकार
की किरणोंवाले (विभावसुं अग्नि ईडे) दीप्तिरूप धनवाले अग्निकी
स्तुति करता हूँ (सः श्रवत् उ) वह अग्नि हमारी स्तुतिको अवश्य
ही सुनता है ॥ ३ ॥

पाहि नो अग्न एकया पाह्युऽऽत द्वितीयया ।
पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा पते पाहि चतसृ-
भिर्वसो ॥ १ ॥

(अग्ने नः एकया पाहि) हे अग्ने ! हमें एक ऋचासे रक्षा करो
(उत द्वितीयया पाहि) और दूसरी ऋचासे रक्षा करो (ऊर्जा पते
तिसृभिः गीर्भिः पाहि) हे बलोंके स्वामी ! तीन वाणियोंसे रक्षाकरो
(वसो चतसृभिः पाहि) हे व्यापक चार वाणियोंसे रक्षाकरो ॥ १ ॥

पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अरावणः प्रस्म वाजेषु
नोऽव । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं
नक्षामहे वृधे ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (विश्वस्मान् रक्षसः अरावणः नः पाहि) सकल राक्षसों
में और अदानामें हमारी रक्षा कर (स्म वाजेषु प्राव) हमें संग्रामों
में रक्षित कर (हि) क्योंकि (नेदिष्ठं आपिं त्वामिद्धि) अत्यन्त समी-
पस्थ बन्धुरूप तुमको ही (देवतातये वृधे नक्षामहे) यज्ञसिद्धिके लिये
और वृद्धिके लिये शरण्य जानते हैं ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिकं द्वादशाध्यायस्य चतुर्थं बृह नमामः

इनो राजन्नरतिः समिद्धो, रौद्रो दक्षाय सुषुमां
अदर्शि । चिकिद्धिभाति भासा बृहताऽसिक्नी
मेति रुशतीमपाजन् ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (इनः) तू सवका ईश्वर है । (अरतिः समिद्धः) हवि
लेकर देवताओंको प्राप्त होनेवाला और सम्यक् प्रकार दीप्त (रौद्रः

सुषुमान्) शत्रुओंको भयदायक और उपासकोंके लिये श्रेष्ठ पदार्थ उत्पन्न करनेवाला (दक्षाय अदर्शि) यजमानोंके धनादिवृद्धि वा कर्मवृद्धिके लिये सर्वो करके देखाजाता है (चिकित् विभाति) सब को जाननेवाला विशेषरूपसे दीप्त होता है (रुशती अपाजन्) श्वेत दीप्तिको सब ओर फैलाता हुआ (बृहता भासा) बड़ीभारी ज्वा-ओंके तेजसहित (असिक्नीं पति (सायंकालके होमकी सिद्धिके लिये रात्रिको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

कृष्णां यदेनीमभि वर्षसाऽभूज्जनयन्योषां
बृहतः पितुर्जाम् । ऊर्ध्व भानुः सूर्यो स्तम्भा-
यन्दिवो वसुभिररतिर्विभाति ॥ २ ॥

वह अग्नि (यत्) जब (बृहतः पितुः जां पोषां जनयन्) महान् और सब जगत्का पालन करनेवाले पितासमान आदित्यसे उत्पन्न हुई उषाको प्रकाशित करता हुआ (कृष्णा एनीं) कृष्ण वर्णकी बीत-तां हुई रात्रिको (वर्षसा अभिभूत) अपने ज्वालारूपसे दवाता है, उस समय (अगतिः) गमनस्वभाव अग्नि (दिवः वसुभिः) द्युलोकको छादेनेवाले अपने तेजोंसे (सूर्यस्य भानुम्) सूर्यकी दीप्तिको (ऊर्ध्व स्तभायन्) ऊपर ही रोकता हुआ (विभाति) विशेषरूपसे दिपता है २

भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो
अभ्येति पश्चात् । सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्,
उशद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात् ॥ ३ ॥

(भद्रः भद्रया सचमानः आगात्) कल्याणरूप और सेवनीय उषा से सेवन किया हुआ अग्नि गार्हपत्यसे आहवनीयको प्राप्त होता है, (पश्चात् जारः स्वसारं अभ्येति) तदनन्तर शत्रुओंका नाशक वह स्वयं आई हुई उषाको प्राप्त होता है (सुप्रकेतैः द्युभिः वितिष्ठन् अग्निः) परमचेतन तेजोंके साथ सर्वत्र वर्तमान वह अग्नि (उशद्भिः वर्णैः रामं अभ्यस्थात्) स्वेतवर्णके फैले हुए अपने तेजोंसे रात्रिके अन्धकार को सायं होमके समय हटाकर स्थित होता है ॥ ३ ॥

कया ते अग्ने अद्भिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम् ।
वराय देव मन्यवे ॥ १ ॥

(अङ्गिरः ऊर्जः नपात् देव अग्ने) हे सर्वभ्रगामी हविरूप अम्बके प्रपौत्र द्योतमान अग्ने ! (धराय मन्यवे ते) सबके धरणीय और शत्रुओंके ऊपर क्रोध करनेवाले तेरे अर्थ (कया उपस्तुतिम्) किस वाणी से स्तोत्र अर्पण करूँ ? ॥ १ ॥

दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो ।

कदु वोच इदं नमः ॥ २ ॥

(सहसः यहः) हे बलसे उत्पन्नहुए अग्निदेव ! (कस्य यज्ञस्य मनसा दाशेम) कौनसे देवयजन करनेवाले यजमानके मनसे युक्त हुए हम तुम्है हवि कर्पण करें ? (इदं नमः कत् वोचे उ) यह हवि धा नमस्कार कब उच्चारण करूँ ? ॥ २ ॥

अथा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षिताः ।

वाजद्रविणसो गिरः ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (अथ) इसके अनन्तर (त्वं हि) तुम ही (अस्मभ्यं कुरु) हमारे लिये ऐसा करो कि—(नः विश्वाः गिरः) हमारी सकल स्तुतिरूप वाणियों (सुक्षिताः वाजद्रविणसः) हमें श्रेष्ठ पुत्रपौत्रादियुक्त वा श्रेष्ठस्थानोंके स्वामी और अन्न तथा धनयुक्त करें ॥ ३ ॥

अग्न आयाह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं

बर्हिरासदे ॥ १ ॥

(अग्ने होतारं त्वा वृणीमहे) हे अग्निदेव ! देवताओंका आह्वान करनेवाले तुम्हारी हम प्रार्थना करते हैं (अग्निभिः आयाहि) अपनी विभूतिरूप अग्निओं सहित आओ (यजिष्ठं त्वाम्) पूजनीय तुमको (प्रयता हविष्मती) अर्घ्ययुक्तोंके हाथकीनियत की हुई घृतमयी हवि (बर्हिः आसदे) कुशाओं पर प्राप्त हो (अनक्तु) वह प्राप्त होकर तुम्है सीधे ॥ १ ॥

अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सूचश्च-

रन्त्यध्वरे । ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं

यज्ञेषु पूर्व्यम् ॥ २ ॥

(सहस्रः सूनो अङ्गिरः) हे बलके ! पुत्र सर्वत्रगामी ! (त्वा अश्वरे अच्छ) तुम्हें यज्ञमें प्राप्त होनेको (स्रुचः चरन्ति) स्रुचजाती हैं (ऊर्जाः नपातं घृतकेशम्) अन्न वा बलके रक्षक और प्रदीप्त ज्वाला वाले (पूर्व्यम् अग्निम्) मनोरथ पूर्ण करनेवाले वा पुरातन अग्निकी (यज्ञेषु इमहे) यज्ञोंमें स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥

अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम् ।

अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसुम् पुरुप्रशस्त-
भूतये ॥ १ ॥

(नः गिरः) हमारी स्तुतियें (शीरशोचिषं दर्शतं अच्छ यन्तु) अज्ञानशील ज्वालाओंवाले दर्शनीय अग्निके अभिमुख जायें (ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (नमसा यज्ञासः) घृतादिरूप हृदिसे युक्त हमारे यज्ञ (पुरुवसुं पुरुप्रशस्तं अच्छ) अधिक धनी परमप्रशंसनीय अग्नि के अभिमुख प्राप्त हों ॥ १ ॥

अग्निं॑, सूनुं॑, सहस्रो जातवेदसं दानाय
वार्याणाम् । द्विता योऽभूदमृतो मर्त्येष्व्वा होता
मन्द्रतमो विशि ॥ २ ॥

(यः अमृतः) जो अग्नि देवताओंमें अमरणधर्मा है वह (मर्त्येषु च अभूत्) मनुष्योंमें भी है (द्विता) इस रीतिसे दो प्रकारका है । देवताओंमें अग्निका अमर होना प्रसिद्ध ही है, अब मनुष्योंमें कैसा है सो कहते हैं (विशि होता मन्द्रतमः) मनुष्य यजमानरूपा प्रजाओंमें होमको सुसिद्ध करनेवाला और परम आनन्द देनेवाला होता है । (सहस्रः सूनुं जातवेदसं अग्निम्) बलके पुत्रसमान प्राणिमात्रके ज्ञाता अग्निको (वार्याणां दानाय आ) अन्न धनादिके दानके लिये आह्वान करता हूँ ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः

अदान्यः पुर एता विशामग्निर्मानुषीणाम् ।

तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १ ॥

(मानुषीणां विशां पुरः एता) मनुष्य प्रजाओंका सन्मार्गदर्शक होने से अग्रगन्ता, अतएव (तूर्णाः) वैदिक कर्मका अनुष्ठान करनेमें आलस्यरहित हुई उन प्रजाओंका (रथः) हवि पहुँचानेके कारण रथकी समान (सदा नवः अग्निः) प्रत्येक कर्ममें तत्काल मन्थनसे उत्पन्न कियाजानेके कारण सदा नवीन अग्नि (अदाभ्यः) किसीके तिरस्कारके योग्य नहीं है ॥ १ ॥

अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वान् अश्रोति मर्त्यः । क्षयं पावकशोचिषः ॥ २ ॥

(दाश्वान् मर्त्यः) हवियोंको अर्पण करनेवाला यजमान (वाहसा) हवि पहुँचानेवाले अग्निके द्वारा (प्रियांसि अभि अश्रोति) प्रिय अर्पणको सब ओरसे पाता है (पावकशोचिषः क्षयम्) और पवित्र प्रकाशवाले अग्निसे स्थानको पाता है ॥ २ ॥

साहान्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृतः ।

अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३ ॥

(अभियुजः विश्वाः साहान्) चढ़ाई करनेवाली सकल संताओंका अपने बलसे तिरस्कार करनेवाला (अमृतः देवानां क्रतुः अग्निः) शत्रुओंसे न बचनेवाला देवताओंका पोषक अग्नि (तुविश्रवस्तमः) अधिकतासे अनेकों प्रकारके अन्नोंवाला है, इसकारण हमें भी बहुतसा अन्न देय ॥ ३ ॥

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो

अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १ ॥

(आहुतः अग्निः नः भद्रः) अहुतियोंसे तृप्त कियाहुआ अग्नि हमारे लिये कल्याणरूप हो (सुभग भद्रा रातिः) हे श्रेष्ठ धनवाले अग्निदेव कल्याणरूप तुम्हारा दान हमें प्राप्त हो (अध्वरः भद्रः) हमारा यज्ञ कल्याणरूप हो (उत प्रशस्तयः भद्राः) और स्तुतियों भी कल्याणरूप हों ॥ १ ॥

भद्रं मनः कृणुष्व दृत्रतूर्ये येना समत्सु सा-

सहिः । अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा

ते अभिष्टये ॥ २ ॥

हे अग्ने (वृत्रतूर्ये मनः भद्रं कृणुष्व) संग्राममें हमारे मनको कृत्याग दाता करो (येन समन्तु सामहिः) जिस मनसे तुम संग्राममें शत्रुओं को निरस्कार करते हो (शर्धतां भूरि स्थिरा अवननुहि) निरस्कार करनेमें समर्थ शत्रुओंकी दृढ़ सेनाओंको भी पराजित करो (अभि-
ष्टये ते वनेम) हम अभीष्ट फल पानेके लिये हवि और स्तोत्रोंसे तुम्हारी आराधना करते हैं ॥ २ ॥

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो ।

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ १ ॥

(सहसः यहः अग्ने) हे बलके पुत्र अग्ने (गोमतः वाजस्य ईशानः) तुम बहुतसी गौओंसहित अन्नके स्वामी हो (जातवेदः अस्मे महि श्रवः देहि) हे जातवेदः ! हमें बहुतसा अन्न दो ॥ १ ॥

स इधानो वसुः कविराग्नेरोडेन्या गिरा ।

रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ २ ॥

(सः अग्निः) वह अग्नि (इधानः वसुः) दीप्त और सबको निवास देनेवाला (कविः गिरा ईडेन्यः) अनुभवो और वेदमन्त्रोंसे स्तुति करनेयोग्य है (पुर्वणीक अस्मभ्यं रेवत् दीदिहि) हे अग्निको सुखरूप ज्वालाओंसे युक्त अग्ने ! हमारे लिये धनहित प्रज्वलित हजिये ॥ २ ॥

क्षपो राजन्नुत त्मनाऽग्ने वस्तोरुतोषसः ।

स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३ ॥

(राजन् अग्ने) हे विराजमान अग्निदेव ! (वस्तोः उत उपसः) सकल दिनोंमें और रात्रियोंमें (क्षप) राक्षसादिकोंको अपने पुरुषों के द्वारा पीड़ित करो (उत त्मना) और स्वयं भी उनको पीड़ा दो (तिग्मजम्भ सः रक्षसः प्रतिदह) हे तीक्ष्णमुख ऐसे ! तुम उन राक्षसोंको एक एक करके भस्म करदो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके पञ्चदशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

विशो विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम् ।

अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः १

हे ऋत्विजों और यजमानों ! (वः) तुम (विशः विशः अतिथिम्) सकल

प्रजाके पृजनीय (पुरुप्रियं अग्निम्) बहुतोंके प्यारे अग्निकी स्तुतिसे उपासना करो (वः शूपस्य मन्मभिः) तुम्हारे लिये बलप्राप्त कराने-वाले साधनोंसे और स्तोत्रोंसे (दुर्यं वचः स्तुषे) गुहामें स्थित अग्नि की वाणीसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्षिरासुतिम् ।
प्रशशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २ ॥

(यम्) जिसको (जनासः हविष्मन्तः) यजमान हवि धारण किये हुए (मित्रं न) आदित्यकी वा मित्रकी समान (सर्षिरासुतिम्) वृत् के हवनके साथ (प्रशस्तिभिः प्रशंसन्ति) स्तोत्रोंसे प्रशंसा करते हैं २

पन्याशंसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता ।
हव्यान्यैरयद्विवि ॥ ३ ॥

(पन्यांसं जातवेदसम्) तुमने अच्छा किया इसप्रकार यजमानकी प्रशंसा करतेहुए अग्निकी स्तुति करते हैं (यः देवतानि उद्यता हव्यानि) जो देवयज्ञमें उद्यत हवियोंको (दिवि ऐरयन्) वृत्लोकमें प्रेरणा करता है अर्थात् देवताओंके पास पहुँचाना है ॥ ३ ॥

समिद्धमग्निं * समिधा गिरा गृणे, शुचिं
पावकं पुरो अध्वरे ध्रुवम् । विप्रं * होतारं
पुरुवारमद्गुहं, कविं * सुम्नैरीमहे जातवेदसम्

(समिधा समिद्धं अग्निं गिरा गृणे) सामधाओंसे दीमहुए अग्नि की वेदमंत्रोंसे स्तुति करना है (शुचिं ध्रुवं पावकं अध्वरे पुरः) स्वयं शुद्ध निश्चल और दूसरोंको पवित्र करनेवाले पावकको मैं यज्ञम आगे स्थापन करना है (विप्रं होतारम्) मेधावी और देवताओंका आह्वान करनेवाले (पुरुवारं अद्गुहम्) अनेकोंसे वरणीय और सबके अनुकूल (कविं जातवेदसम्) अनुभवी अग्निको (सुम्नैः ईमहे) धन की याचना करते हैं ॥ १ ॥

त्वां दूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे
पायुमीड्यम् । देवासश्च मर्त्तासश्च जागृविं विभुं
विशपतिं नमसा निषेदरे ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (देवासः च मर्त्तासः च) देवता और मनुष्य भी (अमृतं युगे युगे हव्यवाहम्) अमर और प्रत्येक यज्ञानुष्ठान के समय में देवताओंके पास हवि पहुँचानेवाले (पायुं ईडयं त्वाम्) पालन कर्त्ता और स्तुतिके योग्य तुमको (दूतं दधिरे) दूत बनातेहुए और वह दोनो देवता और मनुष्य (जागृवि विभुं विश्पतिं नमसा निषेदिरे) जागरणस्वभाव व्याप्त और प्रजारत्तक अग्निकी नमस्कार वो हविसे उपासना करते हैं ॥ २ ॥

विभूषन्नग्न उभयाँ अनुव्रता, दूतो देवानां
रजसी समीयसे । यत्ते धाति ५ सुमतिमावृ-
णीमहे, ऽध स्मानस्त्रिवरुथः शिवो भव ॥ ३ ॥

(अग्ने उभयान् विभूषन्) हे अग्ने ! देवता और मनुष्य दोनोको सुशोभित करतेहुए तम (अनुव्रता देवानां दूतः) कर्मोंमें देवताओंके दूत होतेहुए (रजसी समीयसे) युलोकमें हवि पहुँचानेको और इस लोकमें हवि लेजानेको विचरते हो (यत् ते) क्योंकि तुम्हारे लिये (धाति सुमति आवृणीमहे) कर्म और श्रेष्ठ स्तुतिको भजते हैं (अध त्रिवरुथः अस्मान् शिवः भव) इसके अनन्तर तीनों स्थानोंमें स्थित तु हमको सुखकारी होओ ॥ ३ ॥

उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः ।
वायोरनीके अस्थिरन् ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (हविष्कृतः) यजमानके लिये (गिरः जामयः देदिशती) स्तुतियें वहिनोंकी समान तुम्हारे गुणोंको गान्तीहुई (वायोः अनीके त्वा उपास्थिरन्) वायुके समीप तुम्हें प्रदीप्त करतीं हुई स्थापित करती हैं ॥ १ ॥

यस्य त्रिधात्ववृत्तं बर्हिस्तस्थावसंदिनम् ।
आपश्चिन्निदधा पदम् ॥ २ ॥

(यस्य) जिस अग्निका (त्रिधातु अवृत्तम्) तीन पदोंवाला और आवरणरहित (अवसन्दिनं बर्हि तस्थौ) बिना बंधाहुआ कुशसमूह स्थित है तिस अग्निमें (आपः चित् पदं निदधाति) जल भी पद स्थापन करता है ॥ २ ॥

पदं देवस्य मीढुषो ऽनाधृष्टाभिरुतिभिः ।

भद्रा सूर्य इवोपदृक् ॥ ३ ॥

(मीढुषः देवस्य पदम्) अभीष्टफल देनेवाला द्योतमान अश्विनका स्थान (अनाधृष्टाभिः ऊतिभिः) अवाधित रक्षाओंसे सेवनीय होता है तथा इसकी (उपदृक्) उपदृष्टि भी (सूर्य इव भद्रा) सूर्यकी समान भजनीय है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक पञ्चदशाध्यायस्य चतुर्थ खण्डः पञ्चदशाध्यायश्च समाप्त

षोडश अध्याय

अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः ।

समीचीनास ऋभवः समस्वरन् रुद्रा गृणन्त

पठ्यम् ॥ १ ॥

(इन्द्र आयवः) हे इन्द्र ! मनुष्य स्तोता (पूर्वपीतये) सबसे पहिले सोम पीनेके लिये (स्तोमेभिः त्वा अभि) स्तोत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करते हैं (समीचीनासः ऋभवः समस्वरन्) इकट्ठेहुए ऋभु आदि स्तोता तुम्हारी ही स्तुति करतेहुए (रुद्राः पठ्यं गृणन्त) रुद्रपुत्रोंने पुरातन वृद्ध तुम्हारी स्तुति की ॥ १ ॥

अस्येदन्द्रो वावृधे वृणयः शवो मदे सुतस्य

विष्णवि । अथा तमस्य महिमानमायवोऽ-

नुप्रवन्ति पूर्वथा ॥ २ ॥

(इन्द्रः सुतस्य विष्णवि मदे) इन्द्र देवता अभिपुत्र सोमका सर्व-शरीरव्यापी हर्ष प्राप्त होनेपर (अस्येन् वृणयं शवः वावृधे) इस यजमानके ही वीर्य और बलको बढ़ाता है (आयवः अथ) मनुष्य स्तोता इससमय (पूर्वथा) पूर्वकालकी समान (अस्य तं महिमानं अनुप्रवन्ति) इस इन्द्रकी पर्वोक्त महिमाका गान करते हैं ॥ २ ॥

प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः ।

इन्द्राग्नी इप आवृणे ॥ १ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि देवताओं ! (उक्थिनः) वेदपाठी (त्वां प्रार्चन्ति) तुम्हारी स्तुतियोंसे पूजा करते हैं (नीथाविदः जरितारः) सामगानमें प्रवीण उद्गाता आदि इच्छित फल पानेके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं (इयः आ वृणे) मैं भा अन्न पानेके लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ ॥ १ ॥

**इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम् ।
साकमेकेन कर्मणा ॥ २ ॥**

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र और अग्नि देवताओं ! (दासपत्नीः) शत्रुओं की पालन की हुई (नवतिं पुर) नवसे पुरियोंको (एकेन कर्मणा) एक ही उद्योगसे (साकम्) एकसाथ (अधूनुतम्) कम्पायमान करते हुए ऐसे तुम्हें मैं आह्वान करना हूँ ॥ २ ॥

**इन्द्राग्नी अपमस्पर्युष प्रयन्ति धीतयः ।
ऋतस्य पथ्याऽऽनु ॥ ३ ॥**

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र और अग्नि देवताओं ! (धीतयः) होता आदि (ऋतस्य पथ्याः अनु) कर्मफलके मार्गोंकी ओरको ध्यान देकर (अपम. परि उपप्रयन्ति) हमारे कर्मानुष्ठानके सब ओर अधिकतासे वर्त्तमान हैं ॥ ३ ॥

**इन्द्राग्नी तविषाणि वा २ सधस्थानि प्रयांसि
च । युवोरपत्न्य २ हितम् ॥ ४ ॥**

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र और अग्नि देवताओं ! (वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि) तुम्हारे बल और अन्न परस्पर मिले हुए रहते हैं (अपत्न्य युवोः हितम्) वर्गकी धाराओंका प्रेरकपन तुम्हारे विषे स्थित है ४

**शग्ध्युऽऽपुशचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ।
भगं न हि त्वा यशसंवसुविदमनु शूर चरा-
मसि ॥ १ ॥**

(इन्द्र शग्धि) हे इन्द्रदेव ! अभीष्टफल दो (विश्वाभिः ऊतिभिः शचापते शूर) सकल रक्षाओं सहित हे शचीपति शूर इन्द्र ! (भगं

न यशसम्) भाग्यकी समान यशस्वी (वसुविदं त्वां अनुचरामसि)
धन प्राप्त कराने वाले आपकी हम उपासना करते हैं ॥ १ ॥

पौरौ अश्वस्य पुरुकृद्भवामस्युत्सो देव हिर-
ण्ययः । नकिर्हि दानं परि मधिपत्वे यद्यद्यामि
तदाभर ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! तुम (अश्वस्य पौरः) अश्वोंकी पृत्ति करनेवाले (गवां
पुरुकृत् असि) गौओंकी अधिकता करनेवाले हो (देव हिरण्ययः उत्सः)
हे देव ! सुवर्णमय और प्रवाहकी समान तृप्त करनेवाले हो । हे इन्द्र !
(त्वे दानम्) तुम्हारे विषे वर्तमान हमारे दानयोग्य धनको (न किः
हि परिमधिपत्) कोई भी नष्ट नहीं करसकना है । इसकारण (यत्
यत् यामि) जो जो मैं याचना करता हूँ (तत् आभर) वह दो ॥ २ ॥

त्व ँ ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । उद्धा-
वृषस्व मध्वन् गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये १

(त्वं वसुत्तये हि पदि) हे इन्द्र ! तुम मुझे धन देनेको अवश्य ही
आओ (चेरवे भगं विदाः) और आकर सदाचरणसे रहनेवाले मुझे
ऐश्वर्य दो (मध्वन् गविष्टये उद्धावृषस्व) हे धनाधीश ! गौपं चाहने
वाले, मुझे गौपं दो (उद्दिन्द्राश्वमिष्टये उत्) हे इन्द्र अश्वोंकी चाहना
वाले मुझे अश्व दो ॥ १ ॥

त्वं पुरु सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय
मंहसे । आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्रं
गायन्तोऽवसे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वम्) तुम (पुरुणि सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय
मंहसे) बहुतसे सहस्रों और सैंकड़ों गौओं आदिके यथ हवि देनेवाले
यजमानको देनेहो (पुरन्दरं इन्द्रम्) शत्रुओंके नगर नष्ट करनेवाले
इन्द्रको (अवसे) रक्षाके लिये (गायन्तः) स्तुति करतेहुए (विप्र-
वचसः आ पुरन्दरम्) अनेकों प्रकारके श्रेष्ठ वचनवाले हम अभिमुख
करते हैं ॥ २ ॥

यां विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्

मघानं पात्रा प्रथमान्यस्मै प्रस्तोमा यन्त्व-
ग्नये ॥ १ ॥

(होता मन्द्रः यः) देवताओंका आह्वान करनेवाला और आनन्द देनेवाला जो अग्नि (विश्वा वसु जनानां द्यते) सकल प्रकारके धन अपने सेवकोंको देता है (अस्मै अग्नये) इस अग्निके अर्थ (मघो न प्रथमानि) मदकारी सोमकी समान मुख्य (पात्रा स्तोमा प्रयन्तु) पात्र और स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १ ॥

अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो मर्मृज्यन्ते
देवयवः । उभे तोके तनये दस्म विश्पते परि
राधो मघोनाम् ॥ २ ॥

(दस्म विश्पते) हे दर्शनीय प्रजाओंके स्वामा अग्निदेव ! जिस तुभको (सुदानवः देवयवः) श्रेष्ठ दानवाले और देवताओंको अपना बनानवाले यजमान (रथ्यं अश्वं न गीर्भीः मर्मृज्यन्ते) रथमें जुतने वाले घोड़ेकी समान स्तुतियोंसे सेवा करते हैं । वह नू हमारे यजमानोंके (तनये तोके उभे) पुत्र पौत्र दोनोंमें (मघोनां राधः परि) धनवानोंका धन दो ॥ २ ॥

नामवदेत्तरार्चिके षोडशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

इमं मे वरुणश्रुधी हवमया चमृडय ।
त्वामवस्युराचके ॥ १ ॥

(वरुण मे इम हवं श्रुधि) हे वरुणदेव ! मेरे इस आह्वानको सुनो (अयमृडय च) और आज मुझे सुख भी दो (अवस्युः त्वां आचके) रक्षा चाहताहुआ मैं तुम्हारे अभिमुख होकर स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

कया त्वं न ऊत्या ऽभि प्रमन्दसे वृषन् ।
कया स्तोतृभ्य आभर ॥ १ ॥

(वृषन्) हे इच्छित फल वरसानेवाले इन्द्र ! (कया ऊत्या) किस रक्षाके द्वारा (त्वं नः अभिप्रमन्दसे) तुम हमको अधिक आनन्द देते हो (कया स्तोतृभ्यः आभर) और किस रक्तक आगमनसे हम स्तोताओंका भरण करते हो ॥ २ ॥

इन्द्रमिद्वेतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं स-
मीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये १

(देवातातये इन्द्रमित् हवामहे) यज्ञके लिये सब देवताओंमें इन्द्रका ही आह्वान करते हैं (अध्वरं प्रयति इन्द्रम्) यज्ञका फँलाव होनेपर इन्द्रका आह्वान करते हैं (समीके वनिनः इन्द्रम्) यज्ञसमाप्ति होने पर सेवा करनेवाले हम इन्द्रका ही आह्वान करते हैं (धनस्य सातये इन्द्रम्) धनके लाभके लिये इन्द्रको आह्वान करते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यम-
रोचयत् । इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि यमिर
इन्द्रे स्वानास इन्द्रवः ॥ २ ॥

(इन्द्रः शवः महा रोदसी पप्रथत्) यह इन्द्र अपने बलकी महिमा से धुलोक और पृथ्वी लोकको पूर्ण करना हुआ (इन्द्रः सूर्यम अरोच-यत्) अद्रने राहुके ढके हुए सूर्यकी प्रकाशित किया (इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि यमिर) इस इन्द्रमें ही सकल भुवन उठते हुए हैं (स्वानासः इन्द्रवः इन्द्रे) अभिपूयमाण सोम इन्द्रमें ही नियमित होते हैं ॥ २ ॥

विश्वकर्मन्हविषा वावृधानः, स्वयं यजस्व त-
न्वाऽऽऽ स्वाहिते । मुह्यन्त्वन्ये अभिता ज-
नास, इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ १ ॥

(विश्वकर्मन्) हे विश्वभरके कर्मोंका साधन करनेवाले विश्वकर्मा नामक इश्वर! (हविषा वावृधानः) हविरूप विश्वके कर्म से वा मेरे दिये हुए हविसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ (स्वयं) स्वयं ही (तन्वा स्वाहिते यजस्व) अपने शरीरकी आहुति दिये हुए अग्नि में हविको अर्पण करो (अन्ये जनासः) यज्ञन करनेवाले अन्य मनुष्य (अभितः मुह्यन्तु) चारों ओर मोहको प्राप्त हों (इह) इस यज्ञमें (अस्माकं मघवा) हमारे दिये हुए हविरूप धनसे धनवाला यह इन्द्र (सूरिः अस्तु) स्वर्गका दाता हो ॥ ३ ॥

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषाऽसि
तरति सयुग्वभिः सूरौ न सयुग्वभिः ।

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः ।
विश्वा यद्रूपा परियास्पृक्वभिः सप्तास्येभि-
ऋक्वभिः ॥ २ ॥

(पुनानः) पृथमान सोम (हरिण्या अया रुचा) हरे वर्णकी इस दीप्यमान धारासे (विश्वा द्वेषांभि नग्नि) सकल द्वेषियों का नाश करता है (सूरः सयुग्भिः न) जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे अन्धकार का नाश करता है (पृष्ठस्य धारा रोचते) दशापवित्र पर सींचे हुए उस सोमकी धारा दिपती है (पुनानः हरिः अरुपः) स्वच्छ किया हुआ हरे वर्णका सोम देदीप्यमान होता है (यः सप्तास्यैः ऋक्भिः ऋक्भिः विश्वा रूपा परि याति) जो सोम रसको ग्रहण करनेवाले ६ मुख जिनके ऐसे स्तुत्य तेजोंसे सकल नक्षत्रों में व्याप्त होता है ॥२॥

प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सथं रश्मिभि-
र्यतते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः । अ-
गमन्नुकथानि पौंथस्येन्द्रं जैत्राय हर्षयन्,
वज्रश्च यद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥

(चेकितत् प्राचीं प्रदिशं अनुयाति) जाननेवाला सोम पूर्वा नामक श्रेष्ठ दिशाको जाता है (दैव्यः दर्शतः रथः रश्मिभिः संयतते) दिव्य और दर्शनीय तुम्हारा रथ सूर्यकी किरणोंसे मिलता है (पौंस्या उकथानि अगमन्) पौरुषके सूत्रक स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हैं (जैत्राय इन्द्रं हर्षयन्) जयप्राप्तिके कारणभूत वह स्तोत्र इन्द्रको प्रसन्न करते ह (वज्रः च) वज्र भी इन्द्रको प्राप्त होता है (यत् समत्सु अनपच्युता भवथः) जब संग्रामोंमें हे सोम और इन्द्र तुम दोनों शत्रुओं से पराजय नहीं पाते हो तब स्तोत्र और आगमन आदि होते हैं ॥३॥

त्वथं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्म-
र्जयसि स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे ।
परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । त्रि-
धातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥

हे सोम तू ! (पण्डिनां त्यत् वसु) पण्डियोंके हरेहुए उस गौ आदि धनको (विद्) प्राप्त हुआ (आ ऋतस्य धीतिभिः मातृभिः स्वेदमे सम्मर्जयसि) और यज्ञको धारण करनेवाला वसतीवरी नामक जलो करके अपने यज्ञमें भलेप्रकार शुद्ध होता है (परावतः न साम तत्) दूर देशसे जैसे सामकी ध्वनि सुनीजाती है तैसे तुम्हारी सामध्वनि सबोंकरके सुनीजाती है (यत्र धीतयः रणन्ति) जिस ध्वनिके होने पर यज्ञके कर्त्ता यजमान आनन्दमें मग्न होते हैं (रोचमानः त्रिधातुभिः अरुषीभिः) वह क्षिपताहुआ साम तीनो लोकोंको धारण करवेवाली दीप्तियोंसे (वयः दधे वयः दधे) स्तोताओंको अन्न देता है यजमानोंको अन्न देता है ॥ ४ ॥

सामवेदात्तरार्चिके षोडाशाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड समाप्तः

उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजपामुत ।

नृवत्कृणुह्ययते ॥ १ ॥

(उत) और हे पूषा देवता ! (गोषणिं अश्वसाम्) गौएँ देनेवाली और घोड़े देनेवाली (वाजसां उत नृवन्) अर्नोंकी देनेवाली और पुत्र सेवकादि पुरुषोंकी देनेवाली (धियम्) बुद्धिको अथवा कर्मको (नः ऊतये कृणुहि) हमारी रक्षाके लिये करो ॥ १ ॥

शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः ।

विदा कामस्य वेनतः ॥ २ ॥

(सत्यशवसः नरः) हे अमोघ बलवाले मरुतों ! (शशमानस्य स्वेदस्य) स्तुतियोंसे तुम्हारी सेवा करनेवाले और स्तुतिके मंत्रोंको उच्चारण करनेमें हुए परिश्रमके कारण स्वेदयुक्त हुए (वा वेनतः) और चाहनावाले स्तोताके (कामस्य विद) इच्छित फलको दो ॥ २ ॥

उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्यमृतस्य ये ।

सुमृडीका भवन्तु नः ॥ १ ॥

(ये अमृतस्यः सूनवः) जो अमर प्रजापतिके पुत्र हैं वह देवता (नः गिरः उपशृण्वन्तु) हमारी स्तुतियोंको सुनै (नः सुमृडीकाः भवन्तु) हमारे लिये श्रेष्ठ सुख देनेवाले हों ॥ १ ॥

प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे ।

शुची उप प्रशस्तये ॥ १ ॥

(शुची) हे पवित्र द्यावापृथिवी ! (प्रशस्तये उप) प्रशंसा करने के लिये तुम्हारे समीपमें (द्यवी वाम्) द्योतमान तुम दोनोंके अथ (उप-स्तुति महि अभिभरामहे) स्तोत्रको अधिकताके साथ सम्पादन करते हैं

पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः ।

ऊह्याथे सनादतम् ॥ २ ॥

हे देवियों ! (तन्वा दक्षेण) अपनी मूर्ति करके और बल करके भी (मिथः पुनाने) यज्ञ और यजमान प्रत्येकको शुद्ध करनी हुईं तुम (राजथः) ईश्वरी होती हो (सनात् ऋतं ऊह्याथे) सदा यज्ञका निर्वाह करती हो ॥ २ ॥

मही मित्रस्य साधथस्यरन्ती पिप्रती ऋतम् ।

परि यज्ञं निषेदथुः ॥ ३ ॥

(मही) महती द्यावा पृथिवी देवियों ! तुम (मित्रस्य साधथः) मित्रभूत स्तोताके अभीष्टको सिद्ध करती हो (ऋतं तरन्ती यज्ञं परि निषेदथुः) अन्नको तारती और पूर्ण करती हुईं सब ओरसे यज्ञका आश्रय करता हो ॥ ३ ॥

अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम् ।

वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (अयमु ते) यह सोम तेरे निमित्त सम्पादन किया है (समतसि) जिस सोमको तुम भलेप्रकार निरन्तर प्राप्त होते हो (कपोतः गर्भधि इव) जैसे कि—कपोत पत्नी गर्भधारिणी कपोतीको प्राप्त होता है (तच्चित्) तिस कारणसे ही (नः वचः ओहसे) हमारी स्तुतिको प्राप्त होते हो ॥ १ ॥

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते ।

विभूतिरस्तु सूनृता ॥ २ ॥

(राधानां पते गिर्वाहः) धनोंके स्वामी और स्तुतियोंके उठायेहुए (वीर) हे शूर इन्द्र ! (यस्य ते स्तोत्रम्) जिन तुम्हारा स्तोत्र ऐसा है तिन तुम्हारी (विभूतिः सूनृता अस्तु) लक्ष्मी प्रिय सत्यरूपा वाणीहो ॥ २ ॥

उर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन् वाजे शतक्रतो ।
समन्थेषु ब्रवावहै ॥ ३ ॥

(शतक्रतो अस्मिन् वाजे) हे इन्द्र ! इस संग्राममें (नः ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (उर्ध्वः तिष्ठ) उत्सुक रहो । हम तुम मिलकर (अन्थेषु) और कार्योंमें (संब्रवावहै) विचार करें ॥ ३ ॥

गाव उप वदाऽवटे मही यज्ञस्य रप्सुदा ।
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १ ॥

(गावः) हे गौओं ! तुम (अवटे उपवद्) महावीरको प्राप्त होओ क्योंकि (यज्ञस्य रप्सुदा) यज्ञके साधन मंत्रसं दुहनेयोग्य गौ और और अजाके दूध बहुत अपेक्षित है (उभा कर्णा हिरण्यया) इस महावीरके दोनों कर्णरूपरुक्म सुवर्ण रजतमय हैं ॥ १ ॥

अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु ।
अवटस्य विसर्जने ॥ २ ॥

(अद्रयः) आदर कियेजाते हुए अध्वर्यु आदि (अभ्यारमिन्) समीप पहुँचकर ही (निषिक्तं मधु) श्रेष्ठ रस मधुको (पुष्करे) बहुत बड़े उपयमनीय पात्रमें डालते हैं (अवटस्य विसर्जने) महावीरके विसर्जन के समय होमनेके अनन्तर महावीरको आसन्दीमें स्थापन करो ॥ २ ॥

सिञ्चन्ति नमसाऽवटमुच्चाचक्रं परिज्मानम् ।
नीचीनवारमक्षितम् ॥ ३ ॥

(उच्चाचक्रम्) जिसके ऊपरके भागमें चक्र बनाहुआ है (परिज्मानम्) नीचे होकर गए हुए (नीचीनवारम्) नीचे द्धारवाले (अक्षितम्) क्षीणतारहित (अवटं नमसा सिञ्चन्ति) महावीरको नमस्कार के साथ होमते हैं ॥ ३ ॥

सामवेदसंहिता उत्तरार्चिके षोडशाध्यायस्य तृतीये गेह समाम्

मा भेम मा श्रमिप्मोग्रस्य सरुये तव ।
महत्ते वृष्णा अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम
तुवशं यद्म ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (उग्रस्य तव सख्ये मा भेम) तीक्ष्णस्वभाववाले तुम्हारी मित्रता प्राप्त होनेपर हम किसी भी शत्रुसे भयभीत न हों (माश्रमिस्म) किसीसे भी पीड़ित न हों (वृष्णः ते महन् कृतं अभिचख्य) उपास-कोके मनोरथ पूरे करनेवाले तेरा बड़ाभारी वृत्रयथादि चरित्र स्तुतिके योग्य है, क्योंकि—(तुर्वशं यदुं पश्येम) हम तुर्वश और यदुको आप के अनुग्रहसे आनन्दके साथ जीवन देखते हैं ॥ १ ॥

सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य
रोषति । मध्वा सम्पृक्ताः सारधेण धेनवस्तूय-
मेहि द्रवा पिव ॥ २ ॥

(वृषा) अभीष्टफलदाना इन्द्र (सव्यां स्फिग्यं अनु) वाई ओरक कमरके भागसे (वावसे) सकल प्राणियोंको आच्छादित करता है (दानः अस्य न रोषति) काटनेवाला शत्रु इस इन्द्रको कष्ट नहीं देसकता है अथवा हे यजमान हवियोंका अर्पण करनेवाला तू इस इन्द्र के क्रोधको नहीं उत्पन्न होने देता है (सारधेण सम्पृक्ताः धेनवः) मधुमत्तिकाके मधुकी समान रसवाले दुग्धादिसे युक्तहुए धेनुकी समान आनन्ददायक ह हमारे सोम (तूयं मेहि) शीघ्र ही हमारे समीप आओ और आकर (द्रव) जिस उत्तरवेदीमें सोम होमेजाते हैं उसमें शीघ्र पहुँचो और फिर (पिव) अध्वर्युके द्वियेहुए सोमको पियो ॥ २ ॥

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम ।
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽग्निस्तोमै-
रनूपत ॥ १ ॥

(पुरुवसो) हे बहुतधनवाले इन्द्र ! (मम याः इमाः गिरः) मेरी जो यह स्तुतियाँ हैं (त्वा वर्धन्तु) तुम्हें वृद्धियुक्त करें (पावकवर्णाः) शुचयः विपश्चितः) अग्निसमान तेजवाले यह शुद्ध स्तोता (स्तोमैः अभ्यनूपत) स्तोत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करने हैं ॥ १ ॥

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव
पप्रथे ! सत्यः सो अस्य महिमा गृण शवो
यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ २ ॥

(अयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्रकृतः) यह इन्द्र सहस्रों ऋषियों करके बलवान् किया हुआ (समुद्र इव पप्रथे) समुद्रकी समान विस्तारकी प्राप्त हुआ (अस्य सत्यः सः महिमा शवः) इस इन्द्रकी सत्य यह महिमा और बल (यज्ञेषु विप्रराज्ये गृणे) यज्ञोंमें ब्राह्मणोंके स्तुतिरूप यज्ञोंके युद्धमें स्तुति की जाती है ॥ २ ॥

यस्याऽयं विश्व आर्यो दासः शेवधिषा अरिः ।
तिरश्चिदयं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते
रयिः ॥ १ ॥

(यस्य अयं विश्वः आर्यः शेवधिषा अरिः) जिस यज्ञका यह सब लोक प्रभुभी भृत्यकी समान निधिका रक्षक है (अयं रुशमे) स्वामी और नियन्ता (पवीरवि) सरस्वतीके पिता (तिरश्चिन् तुभ्येन्) तिरोभूत भी है इन्द्र तेरे अर्थ ही (सः रयिः अज्यते) वह हविरूप धन प्राप्त होता है अभिप्राय यह है, कि—ब्राह्मण क्षत्रियादि सब लोक गृहस्पति है वह राजसूय आदि यज्ञोंकी स्विकारोंसे बढ़ता है, ऐसा यज्ञ मन्त्ररूपा सरस्वती के पितास्थानीय परमेश्वररूप में गृह होकर भी है इन्द्र ! तेरे अर्थ हवि देनेको ही प्रकट होता है, ऐसी तेरी महिमा है ।

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अर्कमा-
नृचुः । अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यश्शवास्मे
इन्द्रवः ॥ २ ॥

(तुरण्यवः विप्रासः) यागादि कर्ममें त्वग करनेवाले प्रवीण ऋत्विज (मधुमन्तं घृतश्चुतम्) मधुक्षार आदिकी आहुतियों से युक्त और घृत जिसपर टपक रहा है ऐसे (अर्कं आनृचुः) पूजनीय इन्द्रकी पूजा करते हैं । इस लिये कि—(अस्मे रयिः पप्रथे) हमारा हविरूप धन प्रसिद्ध हो (वृष्ण्यं शवः) सोमकी वर्षा करनेवाला बलभी प्रसिद्ध हो (अस्मे स्थानासः इन्द्रवः) हमारे यज्ञोंके संस्कार किये हुए सोम प्रसिद्ध हों ॥ २ ॥

गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनियः ।
शुचिं च वर्णमधि गोषु धारय ॥ १ ॥

(सुदक्ष इन्दो) हे श्रेष्ठ बलवाले साम (सूनः नः) अभिषव किया हुआ तू हमें (गोमत् अश्ववन् धनिव) यज्ञकी साधन गौब्राह्मणे युक्त और घोड़ोंसे युक्त धन दे । तदनन्तर (शुचि वर्णं च गोषु अभिधारय) पवित्र दीप्यमान वर्ण और रसकोमें गौके दुग्धादिमें मिलाऊँ १

स नो हरीणां पते इन्दो देव प्सरस्तमः ।

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥ २ ॥

(हरीणां पते देव इन्दो) हमारे हरे वर्णके पशुओं के स्वामी हे दिव्य सोम ! (प्सरस्तमः नर्यः) अत्यन्त दीप्त रूपयुक्त और ऋत्विजोंका हितकारी (सः नः रुचे भव) यह तू हमारी दीप्तिका करनेवाला हो (नखा सख्ये इव) जैसे कि-मित्र अपने मित्रके लिये दीप्ति करता है

सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कंचिदत्रिणम् ।

साह्वँ इन्दो परि बाधो अप द्वयुम् ॥ ३ ॥

हे सोम ! (त्वं सनेमि अस्मत् आ) तुम पुगनी मित्रता हमारे विषे प्रकट करो (अदेवं कञ्चिन् अत्रिणं अप) हमारी दीप्ति जो रोकनेवाले प्रत्येक राजसको हमसे दूर करो (इन्दो साह्वान्) हे सोम शत्रुओं का तिरस्कार करनेवाला तू (बाधः परि) बाधा देनेवालों को नष्ट करो (द्वयुम्) भूट सत्य दोनों से युक्त अथवा भीतर बाहर दो प्रकारकी मायावाले राजसको हमसे दूर करो ॥ ३ ॥

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति

मध्वाऽभ्यञ्जते । सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्तमु-

क्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृह्णते ॥ १ ॥

उस सोमको ऋत्विज (अञ्जते) गोदुग्धादिसे मिलाते हैं (व्यञ्जते) अनेकोंप्रकारसे मिलाने हैं (समञ्जते) भलेप्रकार मिलाते हैं । देवता (ऋतुरिहन्ति) उस व नकर्त्ता सोमका स्वाद लेते हैं (मध्वा अभ्यञ्जते) फिर उस ही सोमका मधर गोरससे मिलाते हैं । उस ही सोमको (सिंधाः उच्छ्वासे) रानके अधारभूत ऊँचे स्थानमें (पतयन्तं उत्तणम्) जातेहुए सेचन करनेवाले (पशुम्) द्रष्टा सोमको (हिरण्यपावाः अप्सु गृह्णते) सुवर्णसे पवित्र करतेहुए वसतीवरी जलोंमें ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारा
ऽत्यन्धो अर्षति । अहिर्न जूर्णामति सर्पति
त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्दृषा हरिः ॥ २ ॥

हे ऋत्विजो ! (विपश्चिते पवमानाय गायत) मेंधायी पवमान सोम की स्तुति गाओ (महि धारा न अन्धः अत्यर्षति) वह सोम बड़ी-भारी वर्णाकी धाराकी समान रसहय अन्नको देता है (अहिः न जीर्णात्वचं अनिसर्पति) सर्पकी समान पुगनी त्वचाको अभिपव आदिकर्मसे त्यागता है (दृषा हरिः) अभीष्टफलदाना तरे वर्णका सोमरस (अन्धः न क्रीडन् असरन्) अशकी समान क्रीड़ा करना हुआ द्रोण फलशमं जाता है ॥ २ ॥

अग्नेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां
भुवनेष्वर्षितः । हरिर्धृतम्बुः सुदृशीको अ-
र्णवो ज्योतीरथः पवते राय आणवः ॥ ३ ॥

(अग्नेगः राजा) अग्नेगामी और विराजमान (आप्य. त. विष्यते) जलोंमें संस्कार कियाजानाहुआ सोम स्तुति कियाजाना है जो सोम (अह्नां विमानः भुवनेषु अर्षितः) चन्द्रकलाकी न्यूनाधिकताके वशी-भूत होनेसे दिनोंकी रचना करनेवाला और वसतीधरी जलोंमें स्था-पित है वह सोम स्तुति कियाजाना है और (हरिः धृतम्बुः) हरेवर्णका तथा जलोंमें फलाहुआ (सुदृशीकः अर्णवः) सुन्दर दर्शनीय और जलवान् (ज्योतीरथः) ज्योतिर्मय स्थवाला (रायः आणवः) धन प्राप्त करानेवाला और स्थान प्राप्त करानेवाला है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक षोडशाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः षोडशाध्यायस्य समाप्तः

सप्तदश अध्याय

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः ।
चनो धाः सहसो यहो ॥ १ ॥

(सहसः यहः अग्ने) हे बलके पुत्र अग्निदेव ! (विश्वेभिः अग्निभिः) सकल आहवनीय अग्निषोसे युक्त तुम (इमं यज्ञम्) इस हमारे यज्ञ को (इदं वचः) और इस हमारी स्तुतिका सेवन करतेहुए (चनः धाः) हमें अन्न दो ॥ १ ॥

यच्चिद्धि शश्वता तना देवं देवं यजामहे ।

त्वे इद्धयते हविः ॥ २ ॥

(यच्चिद्धि) यद्यपि (शश्वता तना) नित्य और विस्तारवाले हवि से (देवं देवं यजामहे) इन्द्र वरुण आदि अन्य देवताओंका यजन करने हैं तथापि (हविः) वह सब हवि (त्वयि एव इद्धयते) तुम्हारे विप्रे ही होमाजाताहैं ॥ २ ॥

प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर्होता मन्दो वरेण्यः ।

प्रियाः स्वर्गनयो वयम् ॥ ३ ॥

(विश्वपतिः होता) प्रजाओंका पालक और होमका साधक (मन्दः वरेण्यः) प्रसन्नरूप और वरणीय अग्नि (नः प्रियः अस्तु) हमारा प्यारा हो (स्वर्गनयः वयं प्रियाः) श्रेष्ठ अग्निवाले हम भी तुम्हारे प्रिय हैं

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ ॥

हे ऋत्विज यजमानो ! (विश्वतः जनेभ्यः परि) सकल लोकोंसे ऊपर स्थित (इन्द्रं वः हवामहे) इन्द्रक, तुम्हारे लिये आह्वान करते हैं । इसकारण वह इन्द्र (अस्माकं केवलः अस्तु) हमारा असाधारण हो अर्थात् हमारे ऊपर औरोंसे अधिक अनुग्रह करे ॥ १ ॥

स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि ।

अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ॥ २ ॥

(सत्रादावन्) हे हमारे सकल अभीष्टफलोंको एक साथ देनेवाले (वृषन्) हे वृष्टि करनेवाले इन्द्र (सः) वह प्रसिद्ध तू (नः अमुं चरुं अपावृधि) हमारे इस मेघको उद्धाटित करो (अस्मभ्यं अप्रतिष्कृतः) हमारे लिये निषेधका शब्द उच्चारण करनेवाले नहीं हो ॥ २ ॥

वृषा यूथेव वथ्सगः कृष्टीरियर्त्यो जसा ।

ईशानो अप्रतिष्कृतः ॥ ३ ॥

(ईशानः अप्रतिष्कृतः) समर्थ और याचना किये हुए पदार्थका कभी निषेध न करनेवाला (वृषा) मन्त्रेर्थोंकी वर्षा करनेवाला इन्द्र

(ओजसा कृष्टाः इति) अपने बलसे अनुग्रह करनेको मनुष्योंके पास पहुँचता है (वंसगः यथेव) जैसे सुंदर गतिवाला वृषभ गौश्रोके यथ में पहुँचनाहै ॥ ३ ॥

त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांशसि चोदय । अ-
स्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः

(वसो चित्रः त्वम्) हे व्यापक अग्ने ! दर्शनीय नू (ऊत्या राधांसि नः चोदय) रक्षा सहित अन्न हमें दो (अग्ने त्वं अस्य रायः रथी असि) हे अग्ने ! तुम इस धनके पहुँचानेवाले हो (नः तुचे गाधं तु विदा) हमारे पुत्रादि को प्रतिष्ठा शीघ्र दो ॥ १ ॥

पर्षि तोकंतनयं पृष्टभिष्ट्वमदब्धैरप्रयुत्वभिः
अग्ने हेडांशसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि
हरांसि च ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वम्) नू (अदब्धैः अप्रयुत्वभिः) किसी से भी हिंसित न होनेवाले और इकट्ठे हुए (पर्षिभिः) रक्षाके साधनों से (तोकं तनयं पर्षि) पुत्र और पौत्रका पालन कर (दैव्या हेडांसि नः युयोधि) देवसम्बन्धी क्रोधोंको हमसे दूर कर (अदेवानि हरांसि च) मनुष्योंकी हिंसाओंको भी हमसे दूर कर ॥ २ ॥

किमित्तं विष्णो परिचक्षि नाम प्रयद्ववक्षे शि-
पिविष्टां अस्मि । मा वर्षो अस्मदपगूह एतद्
यदन्यरूपः संमिथे वभूथ ॥ १ ॥

(विष्णो) हे विष्णो ! (ते तत् नाम) तुम्हाका वह नाम (कि परिचक्षि) क्या प्रसिद्ध करनेयोग्य है ? किन्तु स्वयं प्रसिद्ध है (यत् नाम) जिस नामको (शिपिविष्टां अस्मि इति प्रवक्षे) मैं शिपिविष्ट अर्थात् किरणों करके युक्त हूँ, ऐसा कहते हो। ऐसे प्रसिद्धरूपवाले हो इसकारण (एतद् वर्षो अस्मत् मा अपगूहः) इसरूपको हमसे छिपा-हुआ मत रक्खो (यत्) जोकि (संमिथे) संग्राममें (अन्यरूपः इत्) अन्यरूपको धारण करके ही (वभूथ) हमारे सहायक होते हो इसकारण परमतेजस्वी विष्णुरूपका हमें दर्शन दो ॥ १ ॥

प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमर्यः शंसामि
वयुनानिविद्वान् । तं त्वा गृणामि तवसमत-
व्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ २ ॥

(शिपिविष्ट) हे किरणोंसे युक्त विष्णुभगवन् ! (ते तत्) तुम्हारे उस प्रसिद्ध विष्णुनामको (अर्यः) स्तुतियों वा हवियोंका स्वामी (वयुनानिविद्वान्) जाननेयोग्य पदार्थोंको जानताहुआ (हव्यम्) आह्वानयोग्य नामको मैं (अद्य प्रशंसामि) आज प्रशंसा करता हूँ (तम्) तिम (तवसम्) परमपुद्ध (अस्य रजसः पराके क्षयन्तम्) इसलोक के दूरदेशमें निवास करनेवाले (त्वा अतव्यान् गृणामि) तुम विष्णु को तुम्हारा छोटा मैं स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥

वपट् ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व
शिपिविष्ट हव्यम् । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गि-
रो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥

(विष्णो ते आसः आ वपट् कृणोमि) हे विष्णुदेव ! तुम्हारे निमित्त मुखसे अभिमुख वपट्कारके द्वारा हविका होम करता हूँ (शिपिविष्ट) हे किरणोंसे युक्त विष्णो ! (तत् मे हव्यं जुषस्व) उस वषट्कार युक्त मेरे हविका सेवन करो (सुष्टुतयः मे गिरः त्वा वर्धन्तु) श्रेष्ठ स्तुतिरूपा मेरी वाणियो तुम्हें बढ़ावें (यूयम्) हे विष्णो ! तुमको आदि लेकर सब देवता (स्वस्तिभिः नः सदा पात) कल्याणरूपा शक्तियोंसे हमारी सदा रक्षा करो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके मघ्नदशाध्यायस्य प्रथमः खंडः समाप्तः

वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु
आयाहि सोमपीतये स्पाहो देव नियुत्वता १

(वायो शुक्रः) हे वायुदेव ! व्रत करने आदिसे दीप्तहुआ मैं (दिविष्टिषु) द्युलोकके सुम्नोंकी इच्छायें होनेपर (ते मध्वः) तुम्हारे निमित्त मधुर्ग सोमर्ग (पूर्व अयामि) अरौरीसे पहिले अर्पण करता हूँ (देव स्पाहः) हे वायुदेव ! चाहने योग्य तूम (नियुत्वता) नियुत् नामक अपने अश्वके द्वारा (सोमपीतये आयाहि) सोम पान करनेको आइये १

इन्द्रश्च वायवेषां सामानां पीतिमर्हथः ।

युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक् २

(वायो) हे वायु तुम (इन्द्रः च) और इन्द्र भी (एषां सामानां पीतिं अर्हथः) इन ग्रहण करेहुए सामोंका पान करनेके योग्य हो (हि युवां इन्द्र च यन्ति) निश्चय तुमको सोम प्राप्त होते हैं (निम्नं आपः न सध्यक्) जैसे कि—खोशुए नीचे स्थानमें को जल एक साथ ही पहुँचते हैं ॥ २ ॥

वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती ।

नियुत्वन्ता न ऊतय आयातं सोमपीतये ३

(वायो इन्द्रः च) हे वायुदेव ! तुम और इन्द्र । शवसः पती) बल के रक्षक (शुष्मिणा) बलवान् । नियुत्वन्ता) नियुत् नामक घोड़ों वाले तुम दोनो (नः ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (सोम पीतये) सोमपान करनेको (सरथं आयातम्) एकसे रथमें बैठकर आओ ॥ ३ ॥

अध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्रगाहसे ।

यदीविवस्वतो धियो हरिः हिन्वान्त यातवे १

(क्षपा अध) रात्रिके अनन्तर प्रातःकालके समय (परिष्कृतः) जलोसे शोभायमान हे सोम ! तू (वाजान् अभि प्रगाहसे) बल वा घोड़ोंकी ओरको जाताहै (धिवस्वतः धियः) उपासना करनेवाले यजमानकी कर्मकी साधन अगुलिये (हरिं यातवे यदि हिन्वन्ति) हरं वर्णके तुझ सोमको पात्रोंमें जानेके लिये यदि प्रेरणा करती है तब तुम सघनोंको प्राप्त होते हो ॥ १ ॥

तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः ।

यं गात्र आसभिर्दधुः पूरा नूनं च सूरयः २

(अस्य तं मर्जयामसि) उस सोमके उस रसको शोधते हैं (यः मदः इन्द्रपातमः) जो मदकारी रसरूप और इन्द्रके अन्यन्न पीनेयोग्य है (यं सूरयः पूरा च नूनं) जिस सोमरसको स्तोत्राओंने पहिले धारण किया और अब भी धारण करते हैं (गात्र आसभिः दधुः) नृणादिमें स्थित जिस सोमको गौण मुखोंमें नृणादिरूप करके मन्त्रण करती है ॥ २ ॥

तं गाथया पुराप्या पुनानमभ्यनूपत ।

उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रतीः ३

(पुनानं पुराप्या गाथया अभ्यनूपत) पूजना सोमको पुरातन स्तुतिसे स्मोना प्रणसा करने है (उता) और (२, २ विभ्रतीः) कर्म के लिये नष्टताका धारण करती हुई (धीतयो देवानां कृपन्त) अंगुलिये देवताओंको सोमरूप हवि देनेकेलिये समर्थ होनी है ॥ ३ ॥

अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमो-
भिः । सघ्राजन्तमध्वराणाम् ॥ १ ॥

(अध्वराणां सम्राजं न्वा अग्निं नमोभिः वन्दध्या) यज्ञोंके राजा तुम्हें अग्निको स्तुतियों करके और हवियों करके हम वन्दना करते हैं (वा-
ग्वन्त अश्वं न) जैसे घोड़ा अपने बाधक मच्छर आदिको बालोंसे दूर करदेता है तैसे तुम भी अपनी ज्वालाओंसे हमारे विरोधियोंको हटाओ ॥ १ ॥

स घ नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः ।

मीड्वाँ अस्माकं वभूयात् ॥ २ ॥

(स घ नः सुशेवः) वही अग्नि हमारे लिये मोड्डलिक मुखवाला हो (शवसा सूनुः पृथुप्रगामा) बलका पुत्र और बड़े गमनवाला वह अग्नि (अस्माकं मीड्वाँ वभूयात्) हमारे मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हो २

स नो दूराञ्चाराध निमर्त्यादघायेः ।

पाहि सदमिद्दिश्वायुः ॥ ३ ॥

हे अग्ने (दिश्वायुः) विश्वस्थापी तू (दूरान् चारान् च) दूरसे और समीपसे भी (अनाथाः मर्त्यान्) हमारा अनिष्ट करना चाहते हुए मनुष्यसे (नः सदमिन् निपाति) हमारी सदा रक्षा करो ॥ ३ ॥

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि सृधः ।

अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः

(इन्द्र त्वम्) हे इन्द्र ! तू (प्रतूर्तिषु विश्वाः सृधः अभि असि) सभ्रामोंमें सकल शत्रुसैनाओंका निरन्कार करने हा (तूर्यत्वम्) हे

शत्रुओंके वाधक इन्द्र ! तू (अशस्त्रिहा) देवताओंकी विपत्तियोंका नाशक है (जनिता) अशुओंकी विपत्तियोंका उत्पादक है (वृत्रतः) सकल शत्रुओंका सबप्रकारसे वाधक है (तन्मन्यवः असि) वाधा देने-वालोंको सब प्रकारसे कष्टदाता है ॥ १ ॥

अनु ते शुष्मं तुरयन्तर्मायतुः क्षोणी शिशुं
न मातरा । विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे
वृत्रं यदिन्द्र त्वामि ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (तुरयन्त ते शुष्मम्) शत्रुओंका नाश करनेवाले तेरे बल के (क्षोणी मातरा शिशु न अनुर्मायतुः) व्यावापृथ्वी, उसे माना पिता बालकके पीछे २ जाने है तैसे अनुगामी होने है (इन्द्र) हे इन्द्र (यत् वृत्रं त्ववसि) क्योंकि तू वृत्र नामक शत्रुको नष्ट करता है इसकारण (ते मन्यवे) तेरे क्रोधके निमित्त (विश्वा स्पृधः) सकल संग्राम करनेवाली सेनाएं (श्नथयन्त) भिन्न होती हैं ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके ऋषदशाध्यायस्य द्वितीयः पण्ड ममात्

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्त्तयत् ।

चक्राण ओपश दिवि ॥ १ ॥

(यज्ञः इन्द्रं अवर्द्धयत्) यजमानोंका कियाहुआ यज्ञ इन्द्रको बढ़ाता है, (यत्) क्योंकि वह इन्द्र (दिवि ओपश चक्राणः) अन्तरिक्षमें मेघ को ल्यायाहुआ वा अपनेमें स्थित वीर्यको अन्तरिक्षमें करताहुआ (भूमिं व्यवर्त्तयत्) वर्षा आदि देवर्ग भूमिको विशेष पुष्ट करता है ॥ १ ॥

व्या३न्तरिक्षमातिरन् मदे सोमस्य रोचना ।

इन्द्रो यदाभिनद्वलम् ॥ २ ॥

(सोमस्य मदे) सोमको पीनेसे हर्ष होनेपर (इन्द्रः) इन्द्र (रोचना अन्तरिक्षम्) दीप्यमान अन्तरिक्षको (ति अतिरन्) विशेषरूपसे सम्पन्न करता है (यत्) क्योंकि (बलम् अभिनत्) मेघको विदीर्ण करता है ॥ २ ॥

उद्गा आजदाङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा स-
ताः । अर्वाञ्च नुनुद बलम् ॥ ३ ॥

(गुहासती. गाः आविष्कृण्वन् अङ्गिरोभ्यः उदाजत्) गुहामें स्थित होकर भी न दीखती हुई अपहारकोंकी छिपाई हुई गौओंको प्रकाशित करताहुआ ऋषियोंको लाकर देताहै (बल अर्वाञ्च नुनुदं) उन हरण करनेवालोंके अधिपति बलनामक असुरको नीचा मुखकरके भगादेताहै ३

त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम् ।

आच्यावयस्यतये ॥ १ ॥

यजमान कहता है कि— हे स्तोतः (सत्रासाहम्) अनेकोंका निरस्कार करनेवाले (वः विश्वासु गीर्षु आयतम्) तुम्हारे सकल स्तोत्रोंमें फैलेहुए (त्यमु) उन इन्द्रको ही (ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (आच्यावयसि) अपने स्तोत्रोंसे यज्ञमें हमारे अभिमुख भेजो ॥ १ ॥

युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम् ।

नरमवार्यक्रतुम् ॥ २ ॥

(युध्म सन्तं अनर्वाणम्) शत्रुओंके ऊपर प्रहार करने हुए विद्यमान तथा दूसरोन्ने जिनकी गति नही गेकी जाती ऐसे (अनपच्युत सोमपाम्) संग्रामोंमें शत्रुओंसे न डबनेवाले और सोम पीनेवाले तथा उस सोमका मद होने पर (अवार्यक्रतुं नरम्) जिनके पराक्रम को थोथा नहीं निवारण करसकते ऐसे सबके नेता इन्द्रका हमारे यज्ञमें आवाहन करो ॥ २ ॥

शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरुविद्वां ऋर्चापम ।

अत्रा नः पार्ये धने ॥ ३ ॥

(ऋर्चापम इन्द्र) हे दर्शनाय ३३! (विद्वान्) सब विषयोंके जाननेवाले तुम (रायः आ) पहुँचने धन-सम्पत्ति लेकर (नः पुरुशित्त) हमें अनेकों बार दो (पार्ये धने नः अत्र) शत्रुओंके हरण कियेहुए धन से हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥

तव त्यदिन्द्रियं बृहन् तव दक्षमुत क्रतुम् ।

वज्रं शिशाति धिपणा वरेण्यम् ॥ १ ॥

हे इन्द्र (धिपणा) स्तुति (त्यद् इन्द्रियं बृहत्) उस तुम्हारे बड़े भारी बलकी (तव दक्षम्) तुम्हारे शत्रुओंको सुखानेवाले बलकी

(उत क्रतुम्) और पराक्रम रूप बर्मको (वरेष्यं वज्रम्) वरणीय वज्रको (शिशानि) तीक्ष्ण करती है ॥ १ ॥

तव द्यौरिन्द्र पौंस्त्रस्यं पृथिवी वर्धति श्रवः ।

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २ ॥

(इन्द्र द्यौः तव पौंस्यं पृथिवी श्रवः वर्धति) हे इन्द्र ! द्युलोक तेरे बलको और पृथिवी तेरे यशको बढ़ाती है (त्वाम्) ऐसे तुमको (आपः पर्वतासः च हिन्विरे) जल और मेघ अपना स्वामी समझ कर प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

त्वां विष्णुर्वृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः ।

त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम् ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (वृहन् क्षय) महान् पहुँचनेयोग्य स्थानरूप वा परम धाम का देनेवाला (विष्णुः मित्रः वरुणः च गृणाति) विष्णु मित्र और वरुण तुम्हारी स्तुति करता है (मारुतं शर्द्धः त्वां अनुमदति) मरुत देवता का बल तुम्हें हर्ष देता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके मतदशाध्यायस्य तृतीयः लघः समाप्तः

नमस्ते अग्न आजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ।

अमैरमित्रमर्दय ॥ १ ॥

(अग्ने देव) हे अग्निदेव (कृष्टयः) यजमान (आजसे) बल पाने के लिये (ते) तुम्हारे अर्थ (नमः गृणन्ति) नमस्कारका उच्चारण करते हैं। इसीकारण मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ (अमैः अमित्रं अर्दय) तुम अपने बलोंसे शत्रुओंका नाश करो ॥ १ ॥

कुवित्सु नो गविष्टयेग्ने संवेषिषो रयिम् ।

उरुकृदुरुणस्कृधि ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्ने तुम (नः गविष्टये) हमारी गौओंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये (कुवित्सु रयिं संवेषिषः) बहुतसा धन दो (उरुकृत् नः उरु कृधि) बड़ा करनेवाले तुम मुझे बड़ा करो ॥ २ ॥

मा नो अग्ने महाधने परावर्गभारभृद्यथा ।

सं वर्ग * स * रयिं जय ॥ ३ ॥

(अग्ने नः महाधने) हे अग्ने ! हमें इस संप्राममें (मापरावर्क) मन त्यागो (यथा भारभृत) जैसे भारवाही अन्नमें ही भारको त्यागना है मध्यमें नहीं (संवर्गं रथि सञ्जय) शत्रुओंसे इकट्ठे कियेहुए धन को हमारे निमित्त जीतो ॥ ३ ॥

**समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः ।
समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥**

(विश्वाः विशः) सकल प्रजाएं (अस्य मन्यवे सं नमन्त) इस इन्द्रके क्रोधके अर्थ वा मननके साधन स्तोत्रके अर्थ भलेप्रकार नम्र होती हैं (समुद्राय सिन्धवः इव) जैसे समुद्रकी ओरको नदियें स्वयं ही नयनी चलीजाती है ॥ १ ॥

**वि चिद्वृत्रस्य दोधतः शिरो विभेद वृष्णिना ।
वज्रेण शतपर्षणा ॥ २ ॥**

(दोधतः वृत्रस्य चित् शिरः) और जगत्को अत्यन्त कम्पायमान करनेवाले वृत्रासुरके शिरको (वृष्णिना शतपर्षणा वज्रेण विविभेद) वीरना भरं संकड़ों धारवाले वज्रसे काटताहुआ ॥ २ ॥

**ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्त्तयत् ।
इन्द्रध्वर्मव रोदसी ॥ ३ ॥**

(अस्य तत् ओजः तित्विषं) इस इन्द्रका वह बल प्रदीप्तहुआ (यत् इन्द्रः) जिस बलसे यह इन्द्र (उभे रोदसी) दोनो दुलोक और भूलोकको (चर्म इव समवर्त्तयत्) चर्मकी समान भलेप्रकार अपने अधीन रखता है अर्थात् जैसे कोई किसी चमडंको कभी चौड़ा करदेता है और कभी तै करके सकुचत करलेता है तैसे ही यह दोनो लोक इन्द्र के वशमें हैं ॥ ३ ॥

सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तुम्हारे घोड़े (सुमन्मा वस्वी) श्रेष्ठज्ञानवाले और धनवान् (रन्ती सूनरी) रमणीय और सुन्दर नेत्रोंवाले हैं ॥ १ ॥

**सरूप वृषन्नागहीमौ भद्रौ धुर्यावभि ।
ताविमा उपसर्पतः ॥ २ ॥**

(सरूप वृषन्) हे नित्य एकसमानरूपधाले अभीष्टफलदाता इन्द्र (भद्रौ इमौ धुर्यौ अभि आगहि) कल्याणरूप इन रथमें जोड़ेहुए सवारीके योग्य घोड़ोंके द्वारा हमारे यज्ञमें शीघ्र आइये (तौ इमौ उप-सर्पतः) ऐसे यह घोड़े आपकी भलेप्रकार सेवा करते हैं ॥ २ ॥

नीव शीर्षाणि मृद्वं मध्ये आपस्य तिष्ठति ।

शृङ्गेभिर्दशभिर्दिशन् ॥ ३ ॥

हे ऋत्विज् यजमानो! (दशनिः शृङ्गेभिः इवदिशन्) दोनो हाथोंकी दश अगुलियोंसे हमारे इच्छित पदार्थ देतेहुए इन्द्र देवता (आपस्य मध्ये तिष्ठति) यज्ञमें सोमरसके मध्यमें स्थित है उनको देखो और (शीर्षाणि निमृद्वम्) तुम इन्द्रके आगमनसे होनेवाले कल्याणोंको शिरसे धारण करो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके सप्तदशाध्यायस्य चतुर्थे खण्डः सप्तदशाध्यायश्च समाप्तः

अष्टादश अध्याय

पन्यं पन्यमित्स्तोतार आधावत मद्याय ।

सोमं वीराय शूराय ॥ १ ॥

(स्तोतारः) हे अमिषव करनेवाले अध्वर्युओं ! (मद्याय वीराय) प्रसन्न करनेयोग्य और पराक्रमी (शूराय) शूर इन्द्रके अर्थ (पन्यं पन्यं इत्) सर्वत्र ही प्रशंसाके योग्य (सोमं आ धावत) सोमको सन्मुख जाकर अर्पण करो ॥ १ ॥

एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम् ।

इन्द्रं गीर्भिर्गिर्वणसम् ॥ २ ॥

(ब्रह्मयुजा शग्मा) स्तोत्र और हविके द्वारा रथमें जोड़ेजानेहुए सुखदायक वा समर्थ (हरी) पापनाशक इन्द्रके घोड़े (एह) इस यज्ञमें (सखायं गिर्वणसं इन्द्रम् आवक्षत) मित्ररूप और वेदमंत्रोंसे स्तुति करनेयोग्य इन्द्रको लावे ॥ २ ॥

पाता वृत्रहा सुतमा घागमन्नारे अस्मत् ।

नियमते शतमूतिः ॥ ३ ॥

(सुत पाता वृत्रहा) अभिपुत्र सोमको पीनेके स्वभाववाला वृत्रा-
मुरका नाशक इन्द्र (घ आ गमन्) अवश्य हो आवै (अस्मत् आरे)
हमसे दूर न रहै और आकर (श गमतिः) अंतको प्रकारसे रक्षा कर-
नेवाला इन्द्र (नियमते) हमारे शत्रुओंका तिरस्कार करे अथवा हमें
धन देय ॥ ३ ॥

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ।

न त्वामिन्द्राऽतिरिच्यते ॥ १ ॥

(इन्द्र इन्वः त्वा आविशन्तु) हे इन्द्र ! यह रहनेहुए सोमरस
तुमको प्राप्त हों (सिन्धवः समुद्र इव) जैसे कि घहतीहुई नदियों
जाकर समुद्रमें पहुँचजाती हैं । इसकागण हे इन्द्र ! (इन्वा न अतिरि-
च्यते) कोई भी देवता धनमें वा बल में तुमसे अधिक नहीं है ॥ १ ॥

विष्यकथ महिना वृषन् भक्ष्यं सोमस्य जागृवे

य इन्द्र जठरेषु ते ॥ २ ॥

(वृषन् जागृवे) हे अभीष्ट पदार्थोंकी वर्षा करनेवाले सदा साव-
धान इन्द्र ! तुम (सोमस्य भक्ष्यं महिना विष्यकथ) सोमका पान करने
के लिये अपनी महिमासे सर्वत्र व्याप्त रहने हो (इन्द्र) हे इन्द्र (यः
ते जठरेषु) जो सोम तुम्हारे उदरोंमें प्रवेश करता है ॥ २ ॥

अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन् ।

अरं धामस्य इन्दवः ॥ ३ ॥

(वृत्रहन् इन्द्र !) हे पापनाशक इन्द्र (सोमः ते कुक्षये अरं भवतु)
हमारा दिया हुआ सोम तेरी कोखके लिये पर्याप्त हो (इन्दवः) धा-
मभ्यः अरम्) हमारे सोम तुम्हारे तेजोके प्रभावसे सब देवताओंके
निमित्त पर्याप्त हों ॥ ३ ॥

जराबोध तद्विचिड्ढि विशे विशे यज्ञियाय ।

स्नोमथंरुद्राय दृशीकम् ॥ १ ॥

(जराबोध) हे स्तुतिसे प्रज्वलित कियेहुए अग्ने ! (विशे विशे
यज्ञियाय तद् विचिड्ढि) प्रत्येक यजमानरूप प्रजाके ऊपर अनुग्रह
करनेके लिये यज्ञसंबन्धी अनुष्ठानके सिद्ध करनेको यज्ञशालामें प्रवेश

कर यजमान भी (रुद्राय) तुझ रुद्रस्वभाव अग्निके अर्थ (दशीकम) दर्शनीय श्रेष्ठ स्तुतिको करता है ॥ १ ॥

स नो महाॐ, अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः ।
धिये वाजाय हिन्वतु ॥ २ ॥

(महान् अनिमानः) सबसे बड़ा और अपरिच्छिन्न (धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः सः) धूमसे विदित हानेवाला और बहुत आनन्द देनेवाला अग्नि (नः धिये वाजाय हिन्वतु) हमें ज्ञानके लिये और अन्नके लिये प्रेरणा करे ॥ २ ॥

स रेवाँ इव विश्वपतिर्देव्यः केतुः शृणोतु नः ।
उक्थैरग्निरवृहद्भानुः ॥ ३ ॥

(विश्वपतिर्देव्यः) प्रजाओंका रक्षक और देवताओंका संबन्धी (केतुः वृहद्भानुः सः) दूत और अनेकों किरणोंवाला वह अग्नि (रेवान् इव) जैसे यनवान् राजा वन्दियोंके स्तोत्रको सुनता है तैसे (नः उक्थैभिः शृणोतु) हमारी स्तोत्रमयी वाणियोंको सुने ॥ ३ ॥

तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूतान् सत्वनां
श यद् गवे न शाकिने ॥ १ ॥

हे स्तोताओं ! (सुते) सोमका अभिषेक होनेपर (वः) तुम (पुरुहूतान् सत्वने) अनेकों यजमानों केके आह्वान किये हुए शत्रुओंको छोटनेवाले या धनोंका दान करनेवाले इन्द्रके अर्थ (तन् सचा गाय) उस स्तोत्रको इकट्ठे होकर गाओ (यन् गवे न) जो स्तोत्र जैसे गौ को भूम सुखकारी होता है तैसे (शाकिने शम्) शक्तिमान् इन्द्रको सुखकारी होता है ॥ १ ॥

न घा वसुर्नियमते दानं वाजस्य गोमतः ।
यत्सीमुपश्रवद्गिरः ॥ २ ॥

(वसुः) वह सर्वव्यापक इन्द्र (गोमतः वाजस्य दानम्) बहुतसी गौओंसे युक्त अन्नके दानको (न घ नियमते) किसीप्रकार भी नहीं रोकता है (यन् सीम्) यदि यह इन्द्र (गिरः उपश्रवत्) हमारी स्तुतियोंको सुनलेय ॥ २ ॥

कुविसस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहाऽगमत् ।
शचीभिरप नो वरत् ॥ ३ ॥

(दस्युहा) भक्तोंको कष्ट देनेवाले दैत्योंका नाशक इन्द्र (कुविन्सस्य गोमन्तं व्रजं प्रागमन्) बड़ी हिंसा करनेवाले दैत्यके गौओंसे भरे गोठ को बद्धुआ अपने वशर्म करलेंता है (हि) क्योंकि वह दैत्य (शचीभिः नः गाः अपवरत्) अपने कर्म वा प्रजाओंके द्वारा हमारी गौओंको हरण करताहुआ ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिह्न अष्टादश अध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढस्य पाण्डसुले ॥ १ ॥

(विष्णुः) वामन अवतार धारण करनेवाले विष्णुने (इदम्) इस दीखतेहुए सब जगत्के उद्देश्यसे (विचक्रमे) विशेषरूपसे आक्रमण किया उस समय (त्रेधा) तीन प्रकारसे (पदम्) अपने चरणको (निदधे) स्थापन किया (अस्य) इस विष्णुके (पाण्डसुले) धूलियुक्त चरणस्थान में (समूढम्) यह सब जगत् मन्त्रप्रकार अन्तर्गत होगया ॥ १ ॥

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
अतो धर्माणि धारयत् ॥ २ ॥

(अदाभ्यः) कोई भी जिनका हिंसा न करसकै ऐसे (गोपाः) सकल जगत्के रक्षक (विष्णुः) विष्णुभगवान् (ऊनः) पृथिवी आदि इन तीनों लोकोंमें (धर्माणि) अग्निहोत्र आदिको (धारयत्) पोषण करतेहुए (त्रीणि पदा) तीन चरणोंसे (विचक्रमे) आक्रमण किया

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥

हे ऋत्विक् आदि पुरुषों ! (विष्णोः) विष्णुके (कर्माणि) पालन आदि कर्मोंको (पश्यत) देखो (यतः) जिन विष्णुके कर्मोंसे (व्रतानि) अग्नि होत्रादि कर्मोंको (पस्पशे) सकल यजमान करते हैं वह विष्णु भगवान् (इन्द्रस्य) इन्द्रके (युज्यः सखा) अनुकूल सखा हैं ॥ ३ ॥

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥ ४ ॥

(सूरयः) विद्वान् (विष्णोः) विष्णुके (परमम्) श्रेष्ठ (तत्) उस शास्त्रोंमें प्रसिद्ध (पदम्) स्थानको शास्त्रदृष्टिसे (सदा पश्यन्ति) सर्वदा देखते हैं (दिवि इव) जैसे आकाशमें (आततम्) सब ओर को फैलाहुआ (चक्षुः) नेत्र (पश्यति) विशदरूपसे देखता है ॥ ४ ॥

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ ५ ॥

(विष्णोः) विष्णुका (यत्) जो (परमं पदम्) परम पद है (तत्) उस पदको (विपन्यवः जागृवांसः विप्रासः समिन्धते) विशेषरूप से स्तुति करनेवाले प्रमादरहित विद्वान् ऋत्विज भलेप्रकार दीप्त करते हैं ॥ ५ ॥

अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ।

पृथिव्या अधि सानवि ॥ ६ ॥

(विष्णुः) परमेश्वर (पृथिव्याः) इस भूतलसे (अधिसानवि) ऊँचे (यतः) स्वर्गादि लोकमें (विचक्रमे) नानाप्रकारसे चरणको रखताहुआ (अबन्तु) इस भूतलप्रदेशमें (नः) हमें (देवाः) विष्णु आदि देवता (अबन्तु) पापसे वा शत्रुसे रक्षा करें ॥ ६ ॥

मो षु त्वा वाघतश्चनारे अस्मन्निरीरमन् ।

आरात्ताद्वा सधमादं न आगहीह वा सन्नुष

श्रुधि ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हें (वाघतश्च न) यह ऋत्विज भी (अस्मत् आरे) हमसे दूर (मा निरीरमन्) अत्यन्त रमणन करावें, इस कारण तुम (आरात्ताद्वा) दूर वर्तमान होकर भी (न सधमादं आ गहि) हमारे यज्ञमें आइये (इह वा सन्) और यहां विद्यमान होकर भी (उप श्रुधि) हमारे स्तोत्रको सुनो ॥ १ ॥

इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष

आसते । इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे
नपादमादधुः ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (ते सुते) तुम्हारे लिये सोमका संस्कार होनेर (ब्रह्म-
कृतः) स्तोत्र पढ़नेवाले ऋत्विज (मधौ मत्तः न) मधुमें इत्तिकाओं
की समान (सचा आसते) साथ बैठते हैं (वसूयव. जरितारः)
धन चाहनेवाले स्तुतिकर्ता (इष्टम्) अपनी अभिलाष को (रथे
पादं न) रथमें चरखकी समान (आदधुः) समर्पण करते हैं ॥ २ ॥

अस्तावि मन्म पूर्य, ब्रह्मेन्द्राय वेचतः ।

पूर्वांश्रुतस्य बृहतीरनूपत, स्तोतुर्गधा असृ-
क्षत ॥ १ ॥

(अस्तावि) वह इन्द्र हमारे स्तोत्रोंने स्तुति कियाजाना है, हे
ऋत्विजों ! (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ (पूर्य मन्म ब्रह्मयोचन) पुरातन
और मदन करनेयोग्य स्तोत्र को पढ़ो (पूर्वीः श्रुतस्मृहतीः अनूपत)
पूर्वकाल के यज्ञसंस्थानों बृहती छन्दशाले बृहन्सामोंका पढ़ो (स्तोतुः
मंधाः अस्तुत) मुझ स्तोताकी पेंसी ही बुद्धियोंको पंवर देय ॥ १ ॥

सामिन्द्रो रायो बृहतीरधूनूत सं क्षोणीः समु
सूर्यम् । सः शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः
सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २ ॥

(इन्द्रः) इन्द्र (बृहतीः रायः) बहुतसे धन (सधूनूत) मुझ
देय (क्षोणीः समु) भूमियें मुझ भलेप्रकार देय (सूर्यं समु) सूर्य केसी
दीप्ति मुझ देय (शुचयः शुक्रासः इन्द्रं समु) निर्मित सोम इन्द्रको
प्राप्त होते हैं (गवाशिरः सोमाः अमन्दिषुः) गोदुग्ध सहित सोमरस
इन्द्रको प्रसन्न करते हैं ॥ २ ॥

इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परिषिच्यसे । नरे
च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम (वृत्रघ्ने इन्द्राय पातवे) वृत्रासुरके नाशक इंद्र

के पीरके लिये (परिषिच्यसे) तू पात्रोंमें भराजाता है (दक्षिणावने)
 ऋत्विशोंको देनेकी दक्षिणावले (वीराय) वीर इन्द्रके अर्थ हवि देने
 को (स्तनासदे) यज्ञशालामें स्थित (नरे) यजमान को फल देनेके
 लिये मीत्राजाता है ॥ १ ॥

तः सखायः पुरुरुचं वयं यूयं च सूरयः ।

अश्याम वाजगन्ध्यः सनेम वाजपस्त्यम् २

(सखायः) हे स्तोताओं ! (सूरयः यूयम्) बुद्धिमान् तुम (वयं
 च) और हम यजमान भी (तं पुरुरुचं वाजगन्ध्यं अश्याम) उस
 बड़ी दीप्तिवाले शीर बलकारी श्रेष्ठसुगन्धिमय वस्तुओंसे प्रस्तुत हुए
 सोमरसको पियं (वाजपस्त्य सनेम) बलकारी सोमको पियं ॥ २ ॥

परित्यङ्म्यतः हरिं वभ्रुं पुनन्नि वारेण ।

यो देवान् विश्वान् इत्परि मदेन सह गच्छति ३

इसकी व्याख्या पवमानपर्वके ५ वें अध्यायके २ वें खण्डमें हा चुकी ३

कस्तमिन्द्रत्वा वसवा मर्त्योर्दधर्षति श्रद्धा हि
 ते मघवन् पार्ये दिवि वाजी वाजः सिपा-
 सति ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या ऐन्द्रपर्वके ३ अध्याय के ५ वें खण्डमें हो चुकी ॥

मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रि-
 या वसु । तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा
 तरेम दुरिता ॥ २ ॥

हे इन्द्र (मघोनः तव प्रिया वसु) धन वाले तुम्हारे अर्थ हवि रूप
 प्रिय धनोंको (ये ददति) जो पुरुष अर्पण करते हैं उनको (वृत्रहत्येषु
 चोदय) यज्ञ और संग्रामोंमें प्रेरणा करो (हर्यश्व) हे पापहारी
 अश्ववाले इन्द्र ! (तव प्रणीती) तुम्हारी प्रेरणासे (सूरिभिः) स्तोतः
 और पुत्रादिकों सहित (विश्वा दुरिता तरेम) सकल दुःखोंके पार
 होजायें ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके अष्टदशाध्यायस्य द्वितीय खण्डः समाप्तः

एदु मधोर्मदिन्तरः सिञ्चाऽध्वर्यो अन्धसः ।

एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः ॥ १ ॥

(अध्वर्यो) हे अध्वर्यु (मध्वोः अन्धसः) मदकारी सोमरूप अन्नके (मदिन्तरं इत् आसिञ्च) अन्यन्त आनन्ददायक सोमरसको अवश्य ही इन्द्रके सन्मुख वरसाओ (वीरः सदावृधः एव हि स्तवते) समर्थ और सदा बलका बढ़ानेवाला यह इन्द्रही स्तुति कियाजाताहै॥

इन्द्र स्थातर्हरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम् ।

उदानंश शवसा न भन्दना ॥ २ ॥

(हरीणां स्थातः इन्द्र) हे पापहारी अश्वों के स्वामी इन्द्र ! (ते पूर्व्यस्तुति) तुम्हारी पुरातन ऋषियोंकी कीहुई और इस समय भी कीजोतीहुई स्तुति (शवसा न किः उदानंश) कोई भी अपने बलसे नहीं पासकता (भन्दना न) सबके पूजनीय तुम्हारे तेज वा धनको भी कोई नहीं पासकता अर्थात् तुम्हारी समान बलवान् तेजस्वी वा धनी कोई नहीं है ॥ २ ॥

तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः ।

अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम् ॥ ३ ॥

(श्रवस्यवः) अपने लिये अन्न चाहनेवाले हम (वाजानां पतिम्) बलोंके वा अन्नों के स्वामी (अप्रायुभिः यज्ञेभिः वावृधेन्यम्) कर्म में प्रमादरहित वा कर्म करते समय मध्यमें उठकर कहीं न जानेवाले मनुष्योंसे युक्त यज्ञोंकरके बढ़ानेयोग्य (वः तम्) तुम्हारे उस इन्द्रको (अहूमहि) आह्वान करते हैं ॥ ३ ॥

तं गूर्धया स्वर्णरं देवासां देवमरतिं दधन्विरे ।

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १ ॥

हे स्तोतः ! (स्वर्णरं तं गूर्धय) स्वर्गमें देवताओंको हवि पहुँचाने वाले उस प्रसिद्ध अश्विकी स्तुति करो (देवामः देवं अरतिं दधन्विरे) स्तुति करनेवाले ऋत्विज दानादि गुणयुक्त और प्राप्त होनेयोग्य धन को पाते हैं । हे अग्ने ! तुम (हव्यं देवत्रा ऊहिषे) पुरोडाश आदि हवि को देवताओंमें सब ओरसे पहुँचाते हो ॥ १ ॥

विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व
यन्तुरम् । अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रे-
मध्वराय पूर्यम् ॥ २ ॥

(सोभरे विप्र) हे हवि देकर देवताओंको तृप्त करनेवाले ऋषे (विभू-
तराति चित्रशोचिषम्) बहुतसा दान देनेवाले और विचित्र किरणों
वाले (सोमस्य अस्य यन्तुरम्) सोम है साधन जिसका ऐसे इस
यज्ञके पूर्णकर्त्ता (पूर्यं अग्नि अध्वराय ई ईडिष्व) पुरातन अग्निको
यज्ञके निमित्त अवश्य ही स्तुति करो ॥ २ ॥

आ साम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया
जनो न पुरि चम्बोर्विशद्वरिः सदो वनेषु
दधिषे ॥ १ ॥

(सोम) हे सोम ! (अद्रिभिः स्वानः) पाषाणोंसे अभिषव किया
जाताहुआ तू (अव्यया वाराणि तिरः आ) भेड़की ऊनके दशापवित्र
में को छुनताहुआ घरस (हरिः चम्बोः विशत्) हरे वर्णका सोम अधि-
षवणके फलकोंके ऊपर कलशमें प्रवेश करता है (पुरि जनः न) जैसे
कि—नगरमें कोई पुरुष प्रवेश करता है ऐसा तू (वनेषु सदःदधिषे)
काठके वसतीवरी पात्रोंमें स्थान को करता है ॥ १ ॥

स मामृजे तिरो अण्वानि मण्यो मीढ्वान्त्स-
त्तिर्न वाजयुः । अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः
सोमो विप्रेभिर्ऋक्वभिः ॥ २ ॥

(वाजयुः) बल वा अन्न चाहनेवाला (मीढ्वान् सतिः न अनुमाद्यः)
वीर्य सींचनेवाले घोड़ेकी समान हर्षदायक (सः पवमानः सोमः)
वह शोधन कियाजाताहुआ सोम (मण्यः अण्वानि तिरः) भेड़की ऊन
के पवित्रोंमेंको छुनताहुआ (ऋक्वभिः विप्रेभिः मामृजे) स्तुति करने
वाले ऋत्विजों करके स्तुति कियाजाताहुआ शुद्ध होता है ॥ २ ॥

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम् । तस्मा उ

अथ सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ १ ॥

(वयं एनं वज्रिणम्) हम इस वज्रधारी इन्द्रको (इदा ह्यः इह) इस समयके और बीते हुए इन दिनोंमें (अपीपेम) सोमसे तृप्त करते हैं (तस्मा उ) उस इन्द्रके अर्थ ही (इदा) इस यज्ञमें (सुतं भर) अभिषव करे हुए सोमको अर्पण करो (नूनं श्रुते आभूषत) इस समय स्तोत्रका ध्वण होने पर अध्वर्यु आदिके समीप आवै ॥ १ ॥

वृकाश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आगहीन्द्र प्र चित्र-
या धिया ॥ २ ॥

(अस्य वयुनेषु) इस इन्द्रके मार्गों में वा प्रज्ञानों में (उरामथिः वारणः वृकाश्चित्) मार्ग में जानेवालोंको कष्ट देनेवाला और सबको रोकनेवाला लुटेरा भी (आभूषति) अनुकूल होजाता है (सः इन्द्रः) ऐसे शक्तिमान् हे इन्द्र ! (नः इमं स्तोमं जुजुषाणः) हमारे इस स्तोत्र का सेवन करते हुए (चित्रया धिया प्रागहि) नानाप्रकारके फलरूप बुद्धि से युक्त होकर आइये ॥ २ ॥

इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः ।
तद्वां चेति प्र वीर्यम् ॥ १ ॥

(इन्द्राग्नी) हे इन्द्र अग्नि देवताओं ! (दिवः रोचना) स्वर्गके प्रकाशक तुम (वाजेषु परिभूषथः) संग्रामों में सबका तिरस्कार करते हो (वां वीर्यं तत् प्रचेति) तुम्हारी सामर्थ्य ही उन संग्रामोंमें विजयको स्थापित करती है ॥ १ ॥

इन्द्राग्नी अपसस्पर्षुप प्र यन्ति धीतयः ।
ऋतस्य पथ्या अनु ॥ २ ॥

इसकी व्याख्या उत्तरार्चिक अध्याय १६ खण्ड १ में होचुकी ॥ २ ॥

इन्द्राग्नी तविषाणि वाथंसधस्थानि प्रया-
थंसि च । युवोरप्तूर्य हितम् ॥ ३ ॥

इसकी व्याख्या उक्त० अध्याय १६ खण्ड १ में होचुकी ॥ ३ ॥

क ई वेद सुते सचापिवन्तं कद्वयोदधे । अयं
यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रच-
न्धसः ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या पेन्द्रपर्व अध्याय ३ खण्ड ७ में होचुकी ॥ १ ॥

दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । न-
किष्ट्वा नियमदासुते गमो महाश्चरस्यो-
जसा ॥ २ ॥

(मृगः) शत्रुओंको खोजनेवाला (वारणः दानः न) जैसे हाथी
मदके जलोंको धारण करता है तैसे (पुरुत्रा चरथं दधे) अनेकों यज्ञोंमें
विचरणशील मदको धारण करता है (न्वा नकिः नियमत्) तुम्हें
कोई भी अपने वशमें नहीं करसकता (सुते आगमः) हे इन्द्र ! सोमके
अभिषुत होनेपर आइये (नः महान्) हमारे पृजनीय तुम (ओजसा
चरसि) अपने बलसे सर्वत्र विचरते हो ॥ २ ॥

य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृ-
तः । यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योष-
त्यागमत् ॥ ३ ॥

(यः उग्रः सन्) जो उद्गीर्ण बलवाला होकर (अनिष्टृतः) शत्रु-
ओंसे पार न पायाहुआ (स्थिरः) अचल (रणाय संस्कृतः) युद्ध के
लिये शस्त्रोंसे भूषित हुआ (मघवा इन्द्रः) धनवान् इन्द्र (यदि
स्तोतुः हवं शृणवत्) यदि स्तोताके आह्वानको सुनलेना है तो (न
योपति) अन्यत्र नहीं जाता है (आगमत्) तहां ही आता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके अष्टादशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः

पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्द्रवः ।
अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥

(शुक्रासः इन्द्रवः) उज्ज्वल और दिपतेहुए (पवमानाः सोमाः)
पृथमान सोम (विश्वानि काव्या अभि असृक्षत) सकल वैदिक स्तो-
त्रोंके साथ सुसिद्ध कियेजाते हैं ॥ १ ॥

पवमाना दिवस्पय्यन्तरिक्षादसृक्षत ।

पृथिव्या अधि सानवि ॥ २ ॥

(पवमानाः) सोम (दिवः) अन्तरिक्षसे (पृथिव्या. अधिसान-
वि) भूमिके ऊँचे स्थान यज्ञवेदीमें (पर्यसृक्षत) सुसिद्ध होते हैं २

पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः ।

घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः ॥ ३ ॥

(आशवः शुभ्राः) वेगवान् और स्वेनवर्णके (पवमानासः इन्दवः)
पयमान सोम (विश्वाः द्विषः अपघ्नन्तः असृग्रम्) सकल द्वेषियों का
नाश करतेहुए सुसिद्ध होते हैं ॥ ३ ॥

तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानाऽपराजिता ।

इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥

(तोषा वृत्रहणा) शत्रुओंको बाधा देनेवाले और पापके नाशकर्त्ता
(सजित्वाना अपराजिता) समान विजय पानेवाले और किसीसे
तिरस्कृत न होनेवाले (वाजसातमा इन्द्राग्नी हुवे) अन्नके परमदाता
इन्द्र और अग्नि देवताको इस कर्ममें सोमपानके लिये आह्वान करताहैं

प्र वामर्चन्त्युक्थितो नीथाविदो जरितारः ।

इन्द्राग्नी इष आवृणो ॥ २ ॥

इसकी व्याख्या उत्तरार्चिक अध्याय १६ खण्ड १ में होचुकी ॥२॥

इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम् ।

साकमेकेन कर्मणा ॥ ३ ॥

इसकी व्याख्या उत्त० अ० १६ खण्ड १ में होचुकी ॥ ३ ॥

उपत्वा रण्वसंदृशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत ।

अग्ने समृज्महे गिरः ॥ १ ॥

(सहस्कृत अग्ने) हे यत्नमे उत्पन्नहुए अग्निदेव ! (प्रयस्वन्तः)
हविरूप अन्नको लियेहुए हम (रण्वसंदृशं त्वा उप) रमणीय और

दर्शनीय आपके समीप (गिरः ससृज्महे) स्तुतियोंका उच्चारण करते हैं ॥ १ ॥

उप ज्ञायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम् ।
अग्ने हिरण्यसन्दशः ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव (हिरण्यसन्दशः घृणोः ते) सुवर्णकी समान तेजवाले और दिपतेहुए तुम्हारे (शर्म वयं उप अगन्म) शरण आधय वा सुखको हम प्राप्त होते हैं (ज्ञायां इव) जैसे धूपसे अत्यन्त तपे-हुए पुरुष ज्ञायाकी शरण में जाते हैं ॥ २ ॥

य उग्र इव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न वथंसगः ।
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ ३ ॥

(यः) जो अग्नि (उग्रः धन्वी इव) परमबली धनुषधारीकी समान (शर्यहा) बलका नाशक है (वंसगः न तिग्मशृङ्गः) श्रेष्ठ गमनवाले वृषभकी समान तीखे शङ्गोंवाला है (अग्ने) ऐसे हे अग्निदेव ! तुमने (पुरः रुरोजिथ) असुरोंकी तीन पुरियोंको नष्ट किया है ॥ ३ ॥

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् ।
अजस्रं घर्ममीमहे ॥ १ ॥

हे अग्ने (ऋतावानं वैश्वानरम्) यज्ञके संबन्धा सकल मनुष्योंके हितकारीः (ज्योतिषस्पतिं अजस्रम्) तेजके पालक और अविच्छिन्न (घर्मं ईमहे) दिपने हुए तुमसे हम अभीष्ट पदार्थकी याचना करते हैं ॥

य इदं प्रति पप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन् ।
ऋतून्त्सृजते वशी ॥ २ ॥

(यः) जो अग्नि (इदम्) इस जगत् को (यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्) अनुष्ठीयमान यज्ञके सकल विघ्नोंके पार उतारता हुआ अथवा स्वर्गके महाफलको देता हुआ (प्रति पप्रथे) सर्वत्र प्रसिद्ध होता है (वशी) जगत् को वशमें करनेवाला वह अग्नि (ऋतून् उत्सृजते) वसन्त आदि ऋतुओंको उत्तम करता है ॥ २ ॥

अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्या।

सघ्राडेको विराजति ॥ ३ ॥

(भूतस्य भव्यस्य कामः) पूर्वकाल में उत्पन्न हुए और आगेको होनेवाले सकल प्राणियोंका चाहा हुआ (सघ्राद् एकः अग्निः) भले प्रकार विराजमान अद्वितीय अग्निदेव (प्रियेषु धामसु विराजति) अपने प्रिय पृथिवी आदि लोकों में विराजता है ॥ ३ ॥

सामवेदान्तरात्रिके अष्टादशाध्यायस्य चतुर्थः खंडः अष्टादशाध्यायश्च समाप्तः

एकोनविंश अध्याय

अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वा ३७९ऽ स्वाम् । कविर्विप्रेण वावृधे ॥ १ ॥

(कविः अग्निः) अनुभववाला अग्निदेवता (प्रत्नेन जन्मना) समान स्तोत्रसे (स्वां तन्वं शुम्भानः) अपने तेजःस्वरूपको शोभायमान करताहुआ (विप्रेण वावृधे) ऋत्विज करके बढ़ायाजाता है ॥ १ ॥

ऊर्जो नपातमाहुवेऽग्निं पावकशोचिषम् । अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ २ ॥

(ऊर्जः नपातम्) अग्निके पुत्र (पावकशोचिषम्) पवित्र करनेवाली दीप्तिवाले (अग्निम्) अग्निको (स्वध्वरे अस्मिन् यज्ञे) असुरोंसे अत्यन्त अहिंसित इस यज्ञमें (आहुवे) आह्वान करता हूँ ॥ २ ॥

स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । देवैरासत्सि बर्हिषि ॥ ३ ॥

(मित्रमहः अग्ने) हे मित्रोंके पूजनीय अग्निदेव ! (सः) ऐसा तू (शुक्रेण शोचिषा) ज्वालाओंवाले तेज करके (देवैः बर्हिषि आसत्सि) देवताओं सहित यज्ञमें विराजो ॥ ३ ॥

उत्ते श्रुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥

(अद्रिवः सोम) हे पाषाणोंसे सुसिद्ध हुए सोम ! (ते शुष्मासः) तेरे घेग (रक्षः भिन्दन्तः उदस्थुः) राक्षसोंको विदीर्ण करतेहुए उठते

हैं (याः स्पृधः नुदस्व) जो हमें बाधा देनेवाली शत्रुओंकी सेना हैं
उनको तुम पीड़ा दो ॥ १ ॥

अथा निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते ।
स्तवा अविभ्युषा हृदा ॥ २ ॥

हे सोम ! तू (अथा ओजसा निजघ्नः) इस कियेहुए बलसे शत्रु-
ओंको नष्ट करनेवाला है। ऐसे तुझको (अविभ्युषा हृदा) निर्भय
मनसे युक्त मैं (रथसङ्गे हिते) हमारे रथोंके मङ्गल शत्रुओंके नष्ट होने
पर (धने स्तवै) धनके निमित्त मैं स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥

अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या ।
रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३ ॥

(पवमानस्य अस्य व्रतानि) पृथमान इस सोमके कर्म (दूढ्या
नाधृषे) दुष्ट राक्षसोंसे तिरस्कृत नहीं होसकते (यः त्वा पृतन्यति) हे
सोम ! जो शत्रु तुझसे युद्ध करना चाहता है (रुज) उसको पीड़ा दे ३

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीपु वाजि-
नम् । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ४ ॥

(मदच्युतं हरिः) आनन्दकी वर्षा करनेवाले और पापहारी (वा-
जिनं मत्सरम्) बलयुक्त और मदकारी (तं इन्दुम्) उस सोमको
(नदीपु इन्द्राय हिन्वन्ति) वसतीवरी जलोंमें इन्द्रके अर्थ प्रेरणा
करते हैं ॥ ४ ॥

आ मन्दैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । मा
त्वा केचिन्नियेमुरिन्न पाशिनोऽतिधन्वेव
तां इहि ॥ ५ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (मन्दैः मयूररोमभिः) आनन्द देनेवाले और मोरके
रोमकी समान रोमवाले (हरिभिः) पापहारी अश्वोंवाले तुम (आया-
हि) यज्ञमें आइये (केचिन्) कोई भी (त्वा मा नियेमुः) तुम्हें न
रोके (पाशिनः न) जैसे कि पाशधारी व्याधे पत्नियोंको रोका करते
हैं (धन्वेव तान् अति इहि) मरुदेशकी समान उन विघ्नकारियोंको
लांघकर शीघ्र आओ ॥ ५ ॥

वृत्रखादो बलश्च रुजः पुरां दर्मो अपामजः ।
स्थाता रथस्य हयो रभिस्वर इन्द्रो दृढा चि-
दारुजः ॥ २ ॥

(इन्द्रः) वह इन्द्र (वृत्रखादः) वृत्रासुरका नाशक (बलं रुजः)
मेघका भेदक (पुरां दर्मः) शत्रुओंके नगरोंको तोड़नेवाला (अपामजः)
जलोंका प्रेरक (हयोः अभिस्वरे रथस्य स्थाता) अश्वोंको हमारी
ओरको प्रेरणा करनेपर रथ पर स्थित होनेवाला (दृढाचित् आरुजः)
अग्नि बलवान् भी शत्रुओंको नष्ट करनेवाला है ॥ २ ॥

गम्भीराञ्च उदधीञ्च रिव क्रतुं पुष्यसि गा इव ।
प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हृदं कुल्या
इवाशत ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! तू (गम्भीरान् उदधीन् इव) जैसे गभीर समुद्रोंको जल
से पुष्ट करता है (क्रतुं पुष्यसि) तैसे ही इम यज्ञ करनेवाले यजमान
को इच्छित फल देकर पुष्ट करता है (सुगोपाः गाः इव) जैसे श्रेष्ठ
गोपाल तृणादिके द्वारा गौओंको पुष्ट करता है (यथा धेनवः यवसं प्र)
जैसे गौएँ तृणादिको पानी हैं तैसे तुम सोमको पीते हो (कुल्याः हृदं
इव आशते) वह सोम जैसे कृत्रिम नदियें जलाशयको प्राप्त होती हैं
तैसे तुम्हें प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

यथा गौरो अपाकृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम् ।
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमागहि कण्वेषु सु स-
चा पिव ॥ १ ॥

(गौरः तृष्यन्) गौर मृग पिलासा होकर (यथा) जैसे (अप-
कृतम्) जलभरे (इरिणं अवैति) सरोवरको जानकर उधरको जाता
है तैसे (आपित्वे प्रपित्वे) सखाभावको प्राप्त होनेपर हे इन्द्र ! तुम
(नः तूयं आगहि) हमारे समीप शीघ्र ही आओ और आकर (कण्वेषु
सचा सुपिव) हम कण्वोंके विष एक ही यज्ञसे विद्यमान सोमको
श्रेष्ठतासे पियो ॥ १ ॥

मन्दन्तु त्वा मघवान्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय
सुन्वते । आमुष्या सोममपिवश्चमूसुतं ज्येष्ठं
तदधिषे सहः ॥ २ ॥

(मघवन् इन्द्र) हे धनवान् इन्द्र ! (सुन्वते राधः देयाय) अभि-
पव करनेवाले के अर्थ धन देनेको (इन्द्रवः त्वा मन्दन्तु) सोम तुम्हें
प्रसन्न करै । तुम (चमूसुतम्) मित्रावरुणके जलोंसे संस्कार कियेहुए
(सोमं आमुष्य अपिवः) सोमको बलात्कारसे ग्रहण करके पीते हो
(तन् ज्येष्ठं सहः दधिषे) इसकारण तुम बडेभारी श्रेष्ठ बलको धारण
करते हो ॥ २ ॥

त्वमङ्ग प्रशशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् । न
त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः

(अङ्ग शविष्ठ) हेबलवान् इन्द्र ! (देवः) दीप्यमान तुम (मर्त्यं प्रशंसिषः)
स्तुति करनेवाले मनुष्यकी प्रशंसा करते हो (मघवन् इन्द्र त्वदन्यः
मर्दिता नास्ति) हे धनवान् इन्द्र तुम्हें झोंडकर दूसरा कोई मुखदाता
नहीं है (ते वचः ब्रवीमि) इसकारण तुम्हारे लिये स्तुति बोलता हूँ ॥ ११ ॥

मा ते राधाशंसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्
कदाचना दभन् । विश्वा च न उप मिमीहि
मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ २ ॥

(वसो) हे व्यापक इन्द्र (ते राधांसि) तुम्हारे भूत (अस्मान्
कदाचन मा दभन्) हमें कभी विनष्ट न करै (ते ऊतयः मा) कम्पा
यमान करनेवाले तुम्हारे पवन हमें नष्ट न करै (मानुष) हे मनुष्या
के हितकारी इन्द्र ! (चर्षणिभ्यः नः) हम मन्त्रद्रष्टाओंको (विश्वाँ
वसूनि आ उपमिमोहि) सकल धन लाकर दो ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिक एकानविंशोऽध्यायस्व प्रथमः खण्डः समाप्तः

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः ।
दिवो अदर्शि दुहिता ॥ १ ॥

(स्या सूवरी) वह प्राणियोंको श्रेष्ठ प्रेरणा करनेवाली (जनी स्वसुः परि व्युच्छन्ती) फलोंको उत्पन्न करनेवाली और अपनी वहिन समान रात्रिके पिछले भागमें अन्धकारका नाश करनेवाली (दिवः दुहिता) आदित्य की पुत्री समान उषा (प्रत्यदर्शि) सबके देखनेमें आती है॥

अश्वेव चित्राऽरुषा माता गवामृतावरी ।

सखाऽभूदश्विनोरुषाः ॥ २ ॥

(अश्वेव चित्रा) अश्वकी समान विचित्रवर्ण की (अरुषी गवां माता) दीप्यमान और किरणोंकी रचना करनेवाली (अृतावरी उषाः) यज्ञवाली उषा (अश्विनोः सखा) अश्विनीकुमारों के साथ स्तुति वाली (अभूत्) होती है ॥ २ ॥

उत सखाऽस्यश्विनोरुत माता गवामसि ।

उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३ ॥

(उत अश्विनीः सखा अस्मि) और अश्विनी कुमारों की सहचारिणी है (उत गवां माता अस्मि) और किरणोंका निर्माण करनेवाली है (उत उषाः वस्वः ईशिषे) और हे उषा ! तू धनकी स्वामिनी है ॥

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः ।

स्तुषे वामश्विना बृहत् ॥ १ ॥

(एषः प्रिया) यह दृश्यमान और सबकी प्यागी (अपूर्व्या उषा) पहिले मध्य रात्रिके समय विद्यमान न रहने वाली उषादेवता (दिवः व्युच्छति) धूलोकसे आकर अन्धकारको नष्ट करती है (अश्विनी वां बृहत् स्तुषे) हे अश्विनीकुमारों ! तुम्हारी बहुतसी स्तुति करते हैं॥

या दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम् ।

धिया देवा वसुविदा ॥ २ ॥

(या देवा) जो अश्विनीकुमार देवता (दस्त्रा सिन्धुमातरा) दशनीय और समुद्रसे उत्पन्न हुए हैं (रयीणां मनोतरा) धनोंके मन से देनेवाले (धिया वसुविदा) कर्म करके धनके देनेवाले हैं ॥ २ ॥

वच्यन्ते वां ककूहासो जूर्णायामधि विष्टपि ।

यद्वाथं रथो विभिष्पतात् ॥ ३ ॥

हे अश्विनीकुमारों ! (वां रथः) तुम्हारा रथ (जूणायां अश्वि-
ष्टपि) नाना शास्त्रों में प्रशंसनीय स्वर्गलोक में (यद् विभिः पतात्)
जब अश्वों के द्वारा जाता है, उस समय (वां ककुहास वच्यन्ते)
तुम्हारी स्तुतियें बोलीजाती हैं ॥ ३ ॥

उषस्तच्चित्रमाभराऽस्मभ्यं वाजिनीवति ।
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १ ॥

(वाजिनीवति उपः) हे हविरूप अन्नयुक्त उषादेवि ! (अस्मभ्यं
तत् चित्रं आभर) हमें वह चित्र धन दो (येन तोकं च तनयं च
धामहे) जिस धनसे पुत्रोंका और पौत्रोंका भी भरण पोषण करें ॥

उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि ।
रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥ २ ॥

(गोमति अश्वावति) हमारे देनेयोग्य गौओंसे और अश्वोंसे युक्त
(सूनृतावति विभावरि उपः) प्यारी और सन्यवाणीवाली हे प्रकाश
युक्त उषादेवि ! (अद्य इह) इसप्रधान काल में यहाँ (अस्मे रेवत्)
जिसप्रकार हमें धन प्राप्त होनेके कर्मके उपयोगों हो तैसे (व्युच्छ)
रात्रिके अन्धकारको दूर कर ॥ २ ॥

युङ्क्ष्वाहि वाजिनवित्यश्वाः अद्यारुणाः उपः ।
अथा नो विश्वा सौभगान्यावह ॥ ३ ॥

(वाजिनीवति उपः) हे हविरूप अन्नवाली उषादेवि ! अरुणान्
अश्वान्) लाल वर्णके अश्वस्थानीय एक प्रकार के वृषभोंको (अद्य
युञ्च हि) इस समय रथमें जोड़ो (अथ विश्वा सौभगानि नः आवह)
फिर सकल सौभाग्य हमें दो ॥ ३ ॥

अश्विना वर्तिरस्मदा गोमदस्त्रा हिरण्यवत् ।
अर्वाग्रथष्टंसमनसा नियच्छतम् ॥ १ ॥

(अश्विना) हे व्यापक देवताओं ! (दस्त्रा) शत्रुओंका नाश करने
वाले तुम (अस्मन् वर्तिः आ) हमारे घरकी ओरको (गोमत् हिर-
ण्यवत् रथम्) बहुतसी गौण और सुवर्ण से युक्त रथको (समनसा)
समानचित्त होनेहुए (अर्वाक् नियच्छतम्) हमारे सन्मुख लाकर
खड़ा करो ॥ १ ॥

एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्त्तनी ।
उषर्वुधो वहन्तु सोमपीतये ॥ २ ॥

(उषर्वुधः इह सोमपीतये) उषःकालमें जगनेवाले घोड़े इस यज्ञ में सोम पीनेके लिये (दस्रा मयोभुवा) शत्रुओंका नाश करनेवाले और भक्तोंको आरोग्यसुख देनेवाले (हिरण्यवर्त्तनी) सुवर्णका है रथ जिनका ऐसे (देवा) अश्विनीकुमार देवताओंको (आवहन्तु) लावें २ यावित्था इलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रधुः
आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवम् ॥ ३ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों! (यौ) जो तुम (दिवः) द्युलोक से (उपश्राकनीयं ज्योतिः) प्रशंसनीय तेजको (इत्था जनाय चक्रधुः) हम हमारे अनुभवमें आनेवाले प्रकारसे करनेहुए (युवम्) वह तुम (नः ऊर्जं आवहतम्) हमें बलदायक अन्न दो ॥ ३ ॥

मामवेदं चरार्चिकं ष्कोनविशाध्यायस्य हिनीयः खण्डः समाप्तः

अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ।
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन
इषभ्यः स्तोतृभ्य आभर ॥ १ ॥

(तं अग्निं मन्ये) उस अग्निकी मैं स्तुति करता हूँ (यः वसुः) जो सर्वत्र व्यापक है (अस्तं यं धेनवः यन्ति) आश्रयभूत जिस अग्निको गौएं तृप्त करनेको प्राप्त होतीहैं (अस्तं आशवः अर्वन्तः) आश्रयभूत जिस अग्निको शीघ्रगामी घोड़े प्राप्त होते हैं (अस्तं नित्यासः वाजिनः) आश्रयभूत जिस अग्निको नित्यकर्ममें लगे रहनेवाले हविको धारण करे हुए यजमान प्राप्त होतेहैं (स्तोतृभ्यः इषं आभर) हम स्तुति करनेवालोंको हे अग्ने! अन्न दो ॥ १ ॥

अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वर्षणिः ।
अग्नी राये स्वाभुवः सुप्रीतो याति वार्यमि-
षः स्तोतृभ्य आभर ॥ २ ॥

(अग्निः हि) अग्नि देवता अवश्य ही (विशे वाजिनं ददाति) यज

मानके अर्थ अन्नवान् पुत्रको वा अश्वको अथवा अन्नको देताहै (वि-
श्वत्पर्यलिः) सकल मनुष्य जिसके रक्षा करने योग्य हैं वा सकल
मनुष्य जिसका पूजन करते हैं अथवा जो विश्वभरका द्रष्टा है (सः
अग्निः) वह अग्नि देवता (प्रीतः) प्रसन्न हुआ (स्वाभुवं) भले
प्रकार सर्वत्र व्याप्त (वार्यं राये) सबके प्रार्थनीय धनके देनेको (याति)
पहुँचता है (स्तोतृभ्यः इषं आभर) ऐसे अग्निदेव ! तुम स्तुति करने
वालोको अन्न दो ॥ २ ॥

सो अग्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः ।

समर्वन्तो रघुद्रुवः सम् सुजातासः सूरय इषम्
स्तोतृभ्य आभर ॥ ३ ॥

(सः अग्निः) वह अग्नि है कि (यः वसुः) जो व्यापक अग्नि
(गृणे) स्तुति कियाजाता है (यं धेनवः समायन्ति) जिसको गौ
यज्ञके निमित्त पहुँचाती हैं (अर्वन्तः रघुद्रुवः सम्) घोड़े धीरे २ की
चालसे पहुँचाने हैं (सुजातासः सूरयः सम्) सुन्दरतापूर्वक प्रकट
हुए विद्वान् पहुँचाते हैं (स्तोतृभ्यः अन्नं आभर) हम स्तोताओं को
अन्न दो ॥ ३ ॥

महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवत्मती ।

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये

सुजाते अश्वसूनुते ॥ १ ॥

अद्य) आज यज्ञके दिन (उपः) हे उपादेवी ! (दिवित्मती) दीप्ति
वाली तू (न महे राये) हमें बहुतसे धनकी प्राप्ति होनेके लिये (बो-
धय) प्रकाशित करो (यथाचिन् नः अबोधयः) जैसा कि पहिले हमें
प्रकाशित किया था (सुजाते अश्वसूनुते) हे सुन्दर प्रादुर्भाववाली
हे सत्य प्रिय वाणीवाली देवि ! (वाय्ये सत्यश्रवसि) वाय्यके पुत्र मुझ
सत्यश्रवाके ऊपर अनुग्रह करो ॥ १ ॥

या सुनीथे शोचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः । सा

व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये, सुजाते

अश्वसूनुते ॥ २ ॥

(विवः दुहितः) हे सूर्यकी पुत्री ! (या) जिस तूने (सुनीथे शोचद्रथे व्यौच्छः) सुनीथ नामा शुचद्रथके पुत्रके विषे के अन्धकारों को पहिले दूर करा (सुजाते सत्यसूनृते) सुन्दर रीतिसे उत्पन्न और सत्य प्रिय वाणीवाली (सा) वह तू (सहीयसि वाय्ये सत्यश्रवसि) अत्यन्त बलवान् वाय्यके पुत्र मुझ सत्यश्रवाके ऊपर अनुग्रह करो । २।

सानो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिवः । यो
व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते
अश्वसूनृते ॥ ३ ॥

(दिवः दुहितः) हे दुलोक की पुत्री उपादेवि ! (आभरद्वसुसा) धन ला कर देनेवाली तू (नः अद्य व्युच्छः) हमारे आजके दिन अन्धकार को दूर करो (सहीयसि) हे अत्यन्त बलवाली ! (या व्यौच्छः) जो तू पहिले अन्धकारको दूर करनीहुई (सुजाते अश्वसूनृते) हे सुन्दर प्रादुर्भाववाली और हे सत्य प्रियवाणी वाली ! (वाय्ये सत्यश्रवसि) वाय्यके पुत्र मुझ सत्यश्रवाके ऊपर अनुग्रह करो ॥ ३ ॥

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम् । स्तो-
ता वामश्विना वृषिः स्तोमेभिर्भूपति प्रति मा-
ध्वी मम श्रुतच्छंहवम् ॥ १ ॥

(अश्विनौ) हे अश्विनो कुमारों ! (स्तोता ऋषिः) स्तुति करने-वाला मंत्रद्रष्टा (वाम्) तुम्हारे (वृषणं वसुवाहनम्) फलोंकी वर्षा करनेवाले और धन पहुँचाने वाले (प्रति प्रियतमं रथम्) परमप्रिय रथको (स्तोमेभिः प्रतिभूपति) स्तोत्रोंसे सुशोभित करता है, इसकारण (माध्वी) हे मधुविद्या के जाननेवालों (मम हवं श्रुतम्) मेरे आह्वानको सुनो ॥ १ ॥

अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहृषं सना
दस्रा हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा, मा-
ध्वी मम श्रुतच्छंहवम् ॥ २ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! (अत्यायातम्) यजमानोको अतिक्रमण करके आओ (अहं विश्वाः सना तिरः) मैं अपने सकल विरोधियोंका सदा तिरस्कार करूँ (दस्रा हिरण्यवर्त्तनी) शत्रुओं के नाशक और सुवर्णमय रथवाले (सुबुम्णा सिन्धुवाहसा) श्रेष्ठ धनवाले और नदियों को बहानेवाले (माध्वी) मधुविद्या के जाननेवाले तुम (मम हवं श्रुतम्) मेरे आह्वानको सुनो ॥ २ ॥

आ नो रत्नानि विभ्रतावश्विना गच्छतं युवम् ।
रुद्रा हिरण्यवर्त्तनी जुषाणा वाजिनी वसू,
माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ३ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों (रुद्रा हिरण्यवर्त्तनी) रुद्रपुत्र और हिरण्यमय रथवाले (वाजिनीवसू जुषाणा) अन्नयुक्त धनवाले और यज्ञका सेवन करतेहुए (युवं आगच्छतम्) तुम आओ (माध्वी हवं श्रुतम्) हे मधुविद्याके जाननेवालों मेरे आह्वानको सुनो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके एकोनविंशोऽध्यायश्च तृतीय खण्डः समाप्तः

अवोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवा-
यतीमुषासम् । यद्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र
भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १ ॥

(अग्निः जनानां समिधा अवोधि) अग्नि अश्वर्यु आदिकों की समिधाओं से चेतन हुआ (धेनुं इव) जैसे अग्निहोत्र के निमित्त धेनुके प्रति प्रातःकाल चेतन हुआ जाता है (आयतीं उपासं प्रति) आतेहुए उपःकाल मैं (भानवः) उस प्रज्वलितहुए अग्निकी किरणों (वयां प्रोज्जिहानाः यद्वा इव) अपनी शाखाओंको फैलानेवाले बड़े भारी वृक्षोंकी समान (नाकं अच्छ प्रसस्रते) अन्तरिक्ष की ओरको फैलती हैं ॥ १ ॥

अवोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो अग्निः सु-
मनाः प्रातरस्थात् । समिदस्य रुशददर्शि
पाजो महान्देवस्तमसो निरमाचि ॥ २ ॥

(हांता अग्निः देवान् यजथाय अबोधि) यह होमका साधक अग्नि देवताओं के यजनक लिये प्रज्वलित होता है। वह अग्नि (प्रातःसुमनाः) प्रातःकालके समय यजमानों के ऊपर अनुग्रहबुद्धि रूप सुंदर मन वाला होकर (ऊर्ध्वः अस्थान्) ऊपरको उठता है (समिद्धस्य स्थान पाजः अदर्शि) प्रज्वलित हुए इस अग्निका प्रकाशवान् ज्वालारूप बल दीखता है। तदन्तर (महान् देवः तमनः निर्गमोचि) यह महान् देवता सब जगत् को अन्धकारसंशुक्त करता है ॥ २ ॥

यद्दीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्कं शुचि-
भिर्गोभिरग्निः। आद्दक्षिणा युज्यते वाजयन्त्यु-
त्तानामूर्ध्वो अधयज्जुह्वभिः ॥ ३ ॥

(यद् ईम्) जब यह अग्नि (गणस्य रशनां अजीगः) समूहका जगत् को रज्जुकी समान चेष्टाको रोकनेवाले अन्धकारको निगल-जाना है अर्थात् प्रज्वलित होता है, उस समय (शुचिः अग्निः) दीप्त हुआ अग्नि (शुचिभिः गोभिः) दीप्त किरणोंसे (अङ्कं) सकल जगत्को प्रकट करता है (आत्) तदन्तर ही (दक्षिणा) बड़ीभारी घृतकी धारा (वाजयन्ती जुह्वभिः युज्यते) हविरूप अन्न देना चाहता हुई जुह्वनामक यज्ञपात्रों से युक्त होती है (उत्तानां ऊर्ध्वः अधयत्) उस ऊपर फैलीहुई घृतकी धाराको ऊंचा होकर पीता है ३

इद् श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच् चित्रः प्रकेतो
अजनिष्ट विभ्वा। यथा प्रसूता सवितुः सवा-
येवा रात्र्युपसे योनिभरैक् ॥ १ ॥

(ज्योतिषां इद्म् ज्योतिः श्रेष्ठम्) ग्रह नक्षत्र आदि सकल ज्योति-योंमें यह उपा नामक ज्योति सबसे बड़का है अर्थात् ग्रहनक्षत्र आदि केवल अपनेको ही प्रकाशित करते हैं दूसरोंको प्रकाशित नहीं करते, चन्द्रमा यद्यपि दूसरोंको प्रकाशित करता है परन्तु उसका प्रकाश उतना स्पष्ट नहीं है और उपाका प्रकाश तो एक साथ सब जगत्को अन्धकार दूर करके विशेष प्रकाश फैलादेता है (आ अगान्) ऐसा प्रकाश पूर्वदिशा में आया, और आनेपर (चित्रः प्रकेतः) विचित्र प्रकारका और सकल पदार्थोंका ज्ञापक (विभ्वा अजनिष्ट) व्याप्त

होकर प्रकट हुआ (यथा सवितुः प्रसूता रात्री) जैसे सूर्यसे उत्पन्न हुई रात्रि (उषसे सवाय) उषाकी उत्पत्तिके लिये (योनिं आरक्) अपने अन्तिमभागरूप स्थानको कल्पना करती है ॥ १ ॥

रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनानूयस्याः । समानबन्धु अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाते ॥ २ ॥

(रुशती श्वेत्या) दीप्त श्वेतवर्णकी उषा (रुशद्वत्सा आगात्) प्रकाशमय है सूर्यरूप वत्स जिसका ऐसी आई (यस्याः कृष्णा सदनान् आरैक्) आई हुई उषाके लिये रात्रिने अपने पिछले पहररूप स्थानोंकी कल्पना करी, यह रात्रि और उषा दोनो (समानबन्धु) सूर्यनामक एक ही है बान्धव जिनका ऐसी अर्थात् उषाका उदय होनेहुए सूर्यसे सम्बन्ध होता है और रात्रिका अस्त होतेहुए सूर्यसे सम्बन्ध होता है इसकारण सूर्यरूप बंधुवाली (अमृते) कालरूप नित्य होनेसे जिनका कभी मरण ही नहीं होता ऐसी (अनूची) पाहले रात्रि फिर उषा इसप्रकार क्रम से आनेजानेवाली अथवा सूर्यकी गतिके अनुसार चलनेवाली (वर्णं आमिनाते) सकल प्राणियोंके रूपको उत्पन्न करती हुई अथवा अपने रूपको नष्ट करती हुई, उषासे रात्रिका अन्धकार दूर होना है और रात्रिसे उषाका प्रकाशस्वरूप दूर होता है ऐसी वह दोनो (द्यावा चरतः) अन्तरिक्ष मार्गसे प्रतिदिन विचरती हैं ॥ २ ॥

समानो अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३ ॥

(स्वस्त्रोः अध्वा समानः) उषा और रात्रिरूपा दोनो वहिनोका आकाशरूप मार्ग एक ही है (अनन्तः) उनका वह मार्ग अविनाशी है (तं देवशिष्टे अन्यान्या चरतः) उस मार्गमें प्रकाशमय सूर्यसे शिक्षा पाईहुई एक एक क्रमसे विचरती हैं (सुमेके नक्तोषासा) सकल प्राणियोंकी श्रेष्ठ उत्पत्ति करनेवाली रात्रि और उषा (विरूपे समनसा) अन्धकार और प्रकाशस्वरूप विरुद्ध रूपोंवाली और एकसमान मतिवाली हैं इसकारण (न मेथेते न तस्थतुः) न परस्पर स्पर्धा करती हैं न कहीं स्थित रहती हैं, किंतु सदा लाकोंके ऊपर अनुग्रह करनेको आतीजाती हैं ॥ ३ ॥

आभात्यग्निरुषसामनीकमुद्विप्राणां देवया वा-
चो अस्थः । अर्वाञ्चानूनरथ्येह यातं पी-
पिवाऽसमश्विना घर्ममच्छ ॥ १ ॥

(उपसां अनीकं अग्निः आभाति) उपःकालोंका सुखरूप अग्नि दीप्त होताहै (विप्राणां देवयाः वाचः उदस्थः) विद्वान् स्तोताओंकी देवताओंको चाहनेवाली स्तुति उठती है, इसकारण (रथ्या अश्विना) हे रथके अभिमानी अश्विनीकुमारों ! (अर्वाञ्चा) हमारे अभिमुख होतेहुए (नूनं इह) आज यज्ञके दिन इस यज्ञमें (पीपिवासंघर्मं अच्छ आयातम्) अपने अङ्गोंसे पुष्ट दीप्त यज्ञके प्रति अथवा गोघृतादिसे पुष्ट प्रवर्ग्यके प्रति आओ ॥ १ ॥

न सऽस्कृतं प्रमिमीतो गमिष्ठाऽन्ति नूनमाश्वि-
नोपस्तुतेह । दिवाभिपित्वेऽवसा गमिष्ठा प्र-
त्यवर्ति दाशुषे शंभविष्ठा ॥ २ ॥

हे अश्विनीकुमारों ! (संस्कृतं न प्रमिमीतः) संस्कार किये हुए घर्मको नष्ट न करो, किन्तु (अन्ति नूनं इह गमिष्ठा अश्विना उपस्तुता) घर्मके समीप इस समय इस यज्ञमें अवश्य पहुँचनेवाले तुम अश्विनीकुमार स्तुति किये जाते हो (दिवाभिपित्वे अवसा अवर्ति प्रत्या-गमिष्ठा) दिनका प्रारम्भ काल प्रातःकाल होनेपर रक्षा करनेवाले अन्न सहित, जैसे प्राणजाते हुए को अन्न प्राप्त होता है तैसे प्राप्त होने हो और आकर (दाशुषे शंभविष्ठा) हवि देनेवाले यजमान को सुखदेते हो ॥ २ ॥

उतायातऽसंगवे प्रातरहो मध्यंदिन उदिता
सूर्यस्य । दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदोर्ना
पीतिरश्विना ततान ॥ ३ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! (अह्न) दिनके (सङ्गवे) सङ्ग वकाल में, पिङ्गलीरात में गौण ठंडी घाम खाकर दुहने के स्थान पर आती हैं उसको सङ्गवकाल कहते हैं उस समय (प्रातः) प्रातःकाल में (मध्यन्दिने) मध्याह्नमें (सूर्यस्य उदिता) सूर्यके प्रचण्डता के

समय अपराह्न काल में (दिवा) दिन में (नक्तम्) रात में अर्थात् हरसमय (शन्तमेन अतस्मा) परमसुखदायक रक्षा सहित (आयातम्) आश्रा (उत) और (इदानीं पीतिः न) इस समय अन्य देवताओं के पानकी समान (तनान) सोमपान करो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके एकेनभिशाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड समाप्तः ।

एता उ त्या उपसः केतुमकृत, पूर्वे अर्धे रज-
सा भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना आयुधानीव
धृष्णवः, प्रति गावोऽरुपीर्यन्ति मातरः ॥ १ ॥

(त्या. एताः उपसः) वह यह प्रभातकालके अभिमानी देवता (केतुमकृत) अन्धकारसे ढके हुए सकल जगत्के ज्ञापक प्रकाशको करनेहुए इसकारण (रजसः पूर्वे अर्धे) अन्तरिक्षके पूर्वकी ओरके अर्धभागमें (भानुं अञ्जते) प्रकाशको प्रकट करने हैं (धृष्णवः आयुधानि इव) जैसे योधा शस्त्रोंका संस्कार करने हैं तैसे (निष्कृण्वानाः) अपने प्रकाशसे जगत्का संस्कार करनेहुए (गावः अरुपीः) गमनका है स्वभाव जिनका ऐसे और दिपनेवाले (मातरः उपसः) सूर्यके प्रकाशको रचनेवाले वा जगत्की जननी समान प्रभातकालके अभिमानी देवता (प्रतियन्ति) प्रतिदिन आते हैं वह देवता हमारी रक्षा करें १

उदपत्नन्नरुणा भानवो वृथा, स्वायुजो अरुपीर्गा
अयुञ्जत । अकन्नपासो वयुनानि पूर्वथा, रुश-
न्तं भानुमरुपीरशिश्रयुः ॥ २ ॥

(अरुणाः भानवः) अरुण वर्णके उपःकालके प्रकाश (वृथा उदप-
मन्) अनायास ही उदय होते हैं तदनन्तर उपःकालके देवता (स्वा-
युजः) सुखपूर्वक रथमें जोड़नेके योग्य (अरुपीः गाः अयुञ्जत) स्व-
तवर्णकी पहिले उठी हुई किरणोंको अपने वाहनमत्त चापाये वृषभों
की समान अपने रथमें जोड़ने हुए इसप्रकारके रथपर चढ़कर
(उपासः) प्रभातकाल के अभिमानी देवता (पूर्वथा वयुनानि
अकन्) पहिले दिनोंमें सकल प्राणियोंके जानोंको करनेहुए, उपःकाल
होनेपर ही सकल प्राणी जानयुक्त होते हैं तदनन्तर (अरुपीः) विरा-
जमान वह प्रभातकालके देवता (रुशन्तं भानुं अशिश्रयुः) शुक्लवर्ण
सूर्यकी सेवा करते हैं अर्थात् सूर्यके साथ एकाकार होजाते हैं ॥ २ ॥

अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः, समानेन यो-
जनना परावतः । इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे,
विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

(सुकृते सुदानवे) सुकर्म करनेवाले और श्रेष्ठदान देनेवाले (सन्वते यजमानाय) अभिप्रेत करनेवाले यजमानके अर्थ (विश्वेदह इषं वहन्तीः) वहनमा अन्न देनेहुए (नारीः) जगत्को प्रेरणा करनेवा ले उषः कालके देवता (विष्टिभिः) अपने तेजोंसे (समानेन योजनेन आ परावतः अर्चन्ति) एक ही उद्योगमें दूरदेश पश्चिमदिशा पर्यन्त आकाशको पूजते हैं अर्थात् एकसाथ व्याप्त होजाते हैं (अपसः न) जैसे कि— युद्ध करनेगे लगेहुए पुरुष अपने आयुधोंसे सब देशोंमें फल पड़ते हैं ३

अवांध्यग्निर्ज्म उदेति सूर्यो व्यूऽ३पाश्चन्द्रा
महावां अर्चिषा । आयुक्षानामश्विना यातवे
रथं प्रासावीदेवः सविता जगत्पृथक् ॥ १ ॥

(अग्निः ज्मः अवांयि) यह अग्नि स्थापित होनेपर वेदीसे प्रज्व-
लित हुआ (सूर्यः उदेति) सूर्य उदय होता है (मही उषा अर्चिषा
चन्द्रा वि आयः) बड़ाभारा उषा बड़ेभारी तेजसे प्राणियोंको अन्न दे-
नेकी हुई अन्नवाणोंको दूर करता है (अश्विना) इसकारण है अश्वि-
नो कुमार्गो ! (रथं यातव आयुक्षानाम्) रथको यज्ञशाला में जाने के
निये जाडो (सविता देवः जगत् पृथक् प्रासावीत्) सकल कर्मोंकी
आजा देनेवाला देवता सकल प्राणियोंको अपने २ कर्ममें लगावै ॥१॥

यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं, धृतेन नो मधु-
ना क्षत्रमुक्षतम् । अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जि-
न्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ २ ॥

(अश्विना) हे अश्विनीकुमार्गो ! (यद् वृषणं रथं युञ्जाते) जब
अभीष्ट फल देनेवाले रथको जोडतेहो तब (नः क्षत्रं धृतेन मधुरेण
उक्षतम्) हमारे बलको वा हमारी क्षत्रिय जातिको धृतेकी समान
पोषक अमृतसे सांचने हो और (अस्माकं पृतनासु ब्रह्म जिन्वतम्)

हमारी पुत्र सेवकादि प्रजाओं में ब्रह्मतेज वा अन्नको दो और (वयं शूरसाता धनां भजेमहि) हम शूरोंके संग्रामोमें उनके धनको पावें २

अर्वाङ् त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो, जीराश्वो
अश्विनोर्यातु सुष्टुतः । त्रिवन्धुरो मघवा वि-
श्वसौभगः, शं न आवक्षद् द्विपदे चतुष्पदे ३

(अश्विनोः रथः अर्वाक् यातु) अश्विनीकुमारोंका रथ हमारे सन्मुख आवै (त्रिचक्रः मधुवाहनः) तीन पहियों वाला और अमृतका धारण करनेवाला (जीराश्वः, सुष्टुतः) शीघ्रगामी घोड़ोंसे युक्त और हमारा स्तुति किया हुआ (त्रिवन्धुरः मघवा विश्वसौभगः) नीचे ऊँचे तीन काठोंवाला धनभरा और सकल सौभाग्ययुक्त वह रथ (नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्) हमारे दो पाये पुत्रादि और चौपाये गौ घोड़ों आदिको सुख देय ॥ ३ ॥

प्र ते धारा असश्वतो दिवो न यान्ति वृष्टयः ।

अच्छा वाजं सहस्रिणम् ॥ १ ॥

हे सोम ! (ते असश्वतः धारा.) तेरी सङ्गरहित धारें (सहस्रिण वाजं अच्छ प्रयन्ति) अपरिमित अन्न हमें देती हैं (दिवः वृष्टयः न) जैसे धूलोककी वर्षा की धारे प्रजाओंको बहुतसा अन्न देती हैं ॥१॥

अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति।

हरिस्तुज्ञान आयुधा ॥ २ ॥

(हरिः) पापहारी वा हरेवर्णका सोम (विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः) सकल देवताओं के प्रिय कर्मोंको देखता हुआ (आयुधा तुज्ञानः) अपने शस्त्रोंको राक्षसोंके ऊपर प्रेरणा करता हुआ (अभ्यर्षति) यज्ञमें आता है ॥ २ ॥

स मर्मज्ञान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः ।

श्येनो न वं सु षीदति ॥ ३ ॥

(सुव्रतः सः) श्रेष्ठ कर्मवाला वह सोम (आयुभिः मर्मज्ञानः इभः राजा इव) ऋत्विजोंसे शुद्ध किया जाता हुआ निर्भय राजाकी समान

(अयेनः न) वाज पत्नी की समान वेगसे (वंसु सीदति) वसन्तीवरी जलोंमें पहुँचता है ॥ ३ ॥

स न विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि ।
पुनान इन्द्रवाभर ॥ ४ ॥

(इन्द्रो पुनानः) हे सोम ! पूज्यमान तू (दिवः अधि) धुलोक में स्थित (उत पृथिव्याः) और पृथ्वीलोक में स्थित (विश्वा वसु नः आभर) सकल धन हमें दे ॥ ४ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके एकोविंशोऽध्यायस्य पञ्चमः खण्डः एकोविंशोऽध्यायश्च समाप्तः

विंश अध्याय

प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्ण सुतस्यौजसः ।
देवाँ अनुप्रभूषतः ॥ १ ॥

(वृष्णोः सुतस्य) अभीष्ट फलोंकी वर्षा करनेवाले और संस्कार कियेहुए (देवान् अनु प्रभूषतः) देवताओंके विषे प्रभु बननेकी इच्छावाले (अस्य धाराः औजसः प्राक्षरन्) इस सोमकी धारें बल से सींचीगइ ॥ १ ॥

सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा ।
ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम् ॥ २ ॥

(वेधसः कारवः) यज्ञकर्मके विधाता अध्वर्यु आदि (गिरा गृणन्तः) वाणीसे स्तुति करतेहुए (ज्योतिः जज्ञानम्) दीप्यमान और बढ़तेहुए (उक्थ्यं सप्तिं मृजन्ति) स्तुतियोग्य और बढ़तेहुए सोमको शोधते हैं ॥ २ ॥

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो ।
वर्द्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥

(प्रभूवसो उक्थ्य सोम) हे बहुत धनवाले स्तुतियोग्य सोम ! (पुनानाय ते) पूज्यमान तेरे (तानि सुषहा) वह तेज श्रेष्ठ रक्षा करनेवाले है (समुद्रं वर्द्धः) समुद्रकी समान उसको रससे पूर्ण कर ॥ ३ ॥

एष ब्रह्मा य ऋत्वि य इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे १

(यः इन्द्रः नाम श्रुतः) जो इन्द्र नामसे प्रसिद्ध है (णपः ऋत्विजः ब्रह्मा) जो यह वसन्तादिमें यज्ञादिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है (गृणे) उसकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

त्वमिच्छवस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २ ॥

(शवसः पतेः) हे बलके स्वामी अर्थात् परम बलवान् इन्द्र ! (त्वामित्) तुमको ही (संयतः न) सम्यक्प्रकार नियममें रहनेवाले पुरुष केसी (गिरः) घेदमंत्रोंकी स्तुतियों (यन्ति) प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥

विस्त्रुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (पथा स्त्रुतयः यथा) जैसे राजमार्गसे छोटे २ मार्ग अनेकों ओरको जाते हैं तैसे ही (त्वत् रातयः वियन्तु) तुमसे अनेकों प्रकारके दान उपासकोंकी ओरको जाते हैं ॥ ३ ॥

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तयामसि ।

तुविकृर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम् । १ ।

हे इन्द्र ! हम (ऊतये सुम्नाय) अपनी रक्षा और सुखके लिये (रथं यथा) रथकी समान (तुविकृर्मिमृतीषहम्) अनेकों कर्मवाले और हिंसकोंका निरस्कार करनेवाले (शविष्ठ सत्पतिम्) अत्यन्त बलवान् और सज्जनोंके रक्षक (त्वा इन्द्रं आवत्तयामसि) तुम इन्द्रकी परि-
क्रमा करते हैं ॥ १ ॥

तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते ।

आपप्राथ महित्ना ॥ २ ॥

(तुविशुष्म तुविक्रतो) महान् बली और अनेकों विचित्र कर्मवाले (शचीवः मते) अनेकों पराक्रमोंमें युक्त हे पूजनीय इन्द्र ! (विश्वया महित्वना आपप्राथ) विश्वव्यापी महिमासे तुमने विश्वभरको पूर्ण करा है ॥ २ ॥

यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः ।

हस्तावज्र ः हिरण्ययम् ॥ ३ ॥

(यस्य महः ते हस्ता) जिस तुम्ह महापुरुषके हाथ (ज्मायन्तं हिरण्ययं वज्रं परीयतुः) पृथिवीमें सर्वत्र व्यापनेवाले सुवर्णमय वज्रको ग्रहण करते हैं ॥ ३ ॥

आ यःपुरं नार्मिणीमदीदेदत्यः कविर्नभन्यो ३
नार्वा । सूरु न रुक्वाञ्छतात्मा ॥ १ ॥

(यः) जो अग्नि (नार्मिणी पुरम्) यजमानोंकी वेदीरूप स्थानको (अदीदेत्) दीप्त करता है (य. अर्वा नभन्यः न अन्यः कविः) जो अग्नि गमनशील वायुकी समान अपेक्षित स्थान पर जानेवाला और क्वाप्तवर्णी है (शतान्मा सूगः न रुक्कान्) अनेकों यजमानोंकी यज्ञ शालाओंमें अनेकों रूपसे रहनेवाला जो अग्नि सूर्यकी समान दीप्यमान रहता है ॥ १ ॥

अग्नि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि
शुशुचानो अस्थात् । होता यजिष्ठो अपांसु
सधस्ये ॥ २ ॥

यह अग्नि (द्विजन्मा) दो अरणियोंमें मध्ये पर उत्पन्न हुआ (त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानः) गार्हपत्य आदि तीन स्थान और सकल पृथिव्यादि लोकोंको प्रकाशित करता (होता यजिष्ठः) देवताओंका आह्वान करनेवाला और परमपूजनीय होता हुआ (अपांसु सधस्ये अस्थात्) प्रोक्षणदिके जलोंके स्थान यागशालामें स्थित होता है

अयं स होता यो द्विजन्मा, विश्वा दधे वा-
र्याणि श्रवस्या । मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश

(यः द्विजन्मा) जो दो अरणियोंसे उत्पन्न हुआ है (सः होता) वह देवताओंका आह्वान करनेवाला (अयम्) यह अग्नि (विश्वा वार्याणि) सकल अष्ट कर्मोंको (श्रवस्या दधे) हविरूप अन्न वा यशकी इच्छासे धारण करता है (अस्मै यः मर्त्यः ददाश) इस अग्नि को जो मनुष्य यजमान हवि देता है (सुतुकः) वह अष्ट पुत्रवाला होता है ॥ २ ॥

अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः ऋतुं न भद्रं हृ-
दिसृष्टशम् । ऋध्यामा त ओहैः ॥ १ ॥

(अग्ने अद्य) हे अग्ने ! आजके दिन हम ऋत्विज आदि (ओहैः

ते स्तोत्रोः) इन्द्रादिको पहुँचानेवाले तुम्हारे स्तोत्रोः (अश्वं न वोढारम्) अश्वकी समान हवि पहुँचानेवाले (कर्तुं न भद्रम्) यज्ञकी समान सेवनीय (हृदिस्पृशं तं ऋध्यामः) हृदयके प्यारे तिस अग्निको हम बढ़ाते है ॥ १ ॥

अथा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः ।

रथीर्ऋतस्य बृहतो बभूथ ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्ने ! (अथा हि) इस समय ही तुम (भद्रस्य दक्षस्य) सेवनीय और बढेहुए (साधोः ऋतस्य) अभीष्टफलोंके साधक और सन्यरूप (बृहतः क्रतो रथी बभूथ) हमारे बड़ेभारी यज्ञके नेता होते हो ॥ २ ॥

एभिर्नो अर्कैर्भवा नो अर्वाक् स्वाङ्णं ज्योतिः

अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः ॥ ३ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (ज्योतिः स्वः न) ज्योतिर्मय सूर्यकी समान (विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः) सकल तेजोंसे श्रेष्ठ मनवाला तू (नः एभिः अर्कैः) हमारे इन स्तोत्रोंसे वा अन्नोस अथवा (नः अर्कैः एभिः) हमारे पूजनीय इन इन्द्रदि देवताओं सहित (नः अर्वाक् भव) हमारे सन्मुख होओ ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके विशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

अग्ने विवस्वदुपसश्चित्रं राधो अमर्त्य । आ

दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाः उपर्वुधः १

(अमर्त्य जानवेदः अग्ने) मरणधर्म रहित और प्राणिमात्रके जाना हे अग्निदेव ! (त्वम्) तुम (उपस) उपादेवतासे (दाशुषे) यजमानके अर्थ (विवस्वन् चित्रं राधः) विशेष स्थान सहित नानाप्रकार का धन (आचह) पहुँचाओ (अय उपर्वुधः देवान्) आजके दिन उपःकालमें चेतनायुक्त देवताओंको इस यज्ञमें पहुँचाओ ॥ १ ॥

जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीर-

ध्वराणाम् । सजूरद्विभ्यामुपसा सुवीर्यमस्मे

धेहि श्रवो बृहत ॥ २ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! तुम (जुष्टः दूतः) सेवा किये हुए और देव-
ताओंका सन्देश पहुँचानेवाले (हव्यवाहनः अध्वराणां रथीः अग्नि)
हविको पहुँचानेवाले और यज्ञोंके रथरूप हो (अश्विभ्यां उपसामजः)
अश्विनीकुमार और उपा देवताके साथ हाँकर (अस्मे सुवीर्यं बृहत्
श्रवः धेहि) हमारे विदं सुंदर वीरतायुक्त ब्रह्मसे अन्नको स्थापन
करो ॥ ३ ॥

विधुं दद्राणं, समने बहूनां, युवानं, सन्तं
पलितो जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वा,
ऽद्या ममार स ह्यः समान ॥ १ ॥

इस मंत्रमें कालात्मा इन्द्रकी स्तुति कीजाती है, कि—(विधुं समने
बहूनां दद्राणं) सकल कार्योंके कर्ता और संग्राममें अनेकों शत्रुओंको
विदीर्ण करनेवाले (युवानं सन्तं पलितः जगार) ऐसे युवा पुरुषको
भी इन्द्रकी आज्ञासे बुढ़ापा निगललेता है (देवस्य महित्वा काव्यं
पश्यत) हे पुरुषों ! ऐसे कालात्मा इन्द्रदेवकी महिमाभरी सामर्थ्यको
देखो (अद्य ममार) बुढ़ापेको प्राप्त हुआ जो पुरुष आज मरताहै (सः
ह्यः समान) वह दूसरे दिन फिर अन्य जन्म धारण करके प्रकट होता
है, इसप्रकार यह शरीरकी चार प्रकारकी वशायें कहीं ॥ १ ॥

शाकमना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः
शूरः सनादनीडः । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं
वसु स्पर्हमुत जेतोत दाता ॥ २ ॥

(शाकमना शाकः) अपने बलसे समर्थ (अरुणः सुपर्णः आ) अरुण वर्ण
का कोई श्रेष्ठ पक्षी आता है (यः महः शूरः सनात् अनीडः) जो महान्
पराक्रमी पुरातन और कहीं भी स्थान बनाकर न रहनेवाला है अर्थात्
इन्द्र किसी यज्ञमें अग्निकी समान स्थिति नहीं करता है, इसप्रकार
इन्द्रका पक्षीरूपसे वर्णन किया । वह पक्षी इन्द्र (यत् चिकेत) जिस
वातको कर्तव्यरूपसे जानलेता है (तत् सत्यं इत्) वह सफल ही
होती है (मोघं न) निष्फल नहीं होती है (उत स्पर्हं वसु जेता)
और वह स्पृहणीय धनको शत्रुओंसे जीतता है (उत दाता) और
स्तुति करनेवालों को देता है ॥ २ ॥

एभिर्ददे वृष्ण्या पौंस्यानि, येभिरौक्षद्दु-
त्रहत्याय वज्री । ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह
ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥ ३ ॥

वह इन्द्र (एभिः वृष्ण्या पौंस्यानि आददे) इन मरुतोंके साथ वर्षा करनेवाले बलोंको ग्रहण करता है (येभिः वृत्रहत्याय वज्री औक्षत्) जिन मरुतों के सहित प्राणियोंका उपद्रव शान्त करनेके लिये वज्र-धारी इन्द्र वर्षा करता है (ये देवाः) जो मरुत् देवता (मन्हः क्रिय-माणस्य कर्मणः) महान् इन्द्र करके कियेजाने हुए वर्षारूप कर्मकी सहायताके लिये (ऋतेकर्म उदजायन्त) वर्षारूप कर्म में उन्मुख होते हैं ॥ ३ ॥

अस्ति सोमो अयश्मुतः पिबन्त्यस्य मरुतः ।
उत स्वराजो अश्विना ॥ १ ॥

(अयं सोमः सुतः अस्ति) यह सोम हमने मरुतों के लिये अभि-पुन किया है (अस्य स्वराज मरुतः उत अश्विना पिबन्ति) इस सोमको अपने तेजसे दीप्यमान मरुत देवता और अश्विनीकुमार पीते हैं ॥ १ ॥

पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः ।
त्रिषधस्थस्य जावतः ॥ २ ॥

(मित्रः) सबको अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त करनेसे सस्वारूप मित्र देवता (अर्यमा वरुणः) अर्यमा और दुःखोंको दूर करनेवाला वरुण देवता यह तीनों (तना पूतस्य) दशापवित्र से शुद्ध हुए (त्रिषध-स्थस्य जावतः पिबन्ति) तीन पात्रोंमें स्थित स्तुति से प्रस्तुत हुए सोमको पीते हैं ॥ २ ॥

उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः ।
प्रातर्होतेव मत्सति ॥ ३ ॥

(उतो इन्द्रः) और इन्द्र (सुतस्य गोमतः अस्य जोषम्) अभि-पव किये गोघृतादिसे मिलेहुए इस सोमके पानरूप सेवनको (प्रातः

तु मत्सति) प्रातःसवनमें शीघ्र ही चाहता है (होता इव) जैसे कि होता देवताओंकी स्तुति करना चाहता है ॥ ३ ॥

वण्महाँ असि सूर्य, बडादित्य महाँ असि ।
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मद्वा देव महाँ
असि ॥ १ ॥

(सूर्य महान् असि वट्) हे सूर्य ! तू महान् है यह सत्य है (आदित्य महान् असि वट्) हे आदित्य ! तू अधिकवली है यह सत्य है (पनिष्टम महः सतः ते महिमा) हे परम स्तुतियोग्य ! गौरवसे रहने वाले तुम्हारी महिमाकी स्तोता प्रशंसा करते हैं (पनिष्टम मद्वा महान् अस्मि) हे स्तुतियोग्य सूर्य ! तुम महत्वके कारण सबके पूजनीय हो १

वट् सूर्य श्रवसा महाः असि, सत्रा देव महाः
असि । मद्वा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु
ज्योतिरदाभ्यम् ॥ २ ॥

(सूर्य श्रवसा महान् असि वट्) हे सूर्य ! तुम अन्नके द्वारा बड़े दाता हो यह वात सत्य है (देव देवानां मद्वा महान् असि सत्रा) हे श्रोतमान सूर्य तुम देवताओंमें महत्वके कारण सबसे बड़े हो यह सत्य ही है (असुर्यः पुरोहितः) असुरोंका नाशकर्ता और देवताओंका बड़ा हितकारी है (ज्योतिः विभु अदाभ्यम्) तुम्हारा तेज व्याप्त और किसीसे न दबनेवाला है ॥ २ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके विंशोऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ १ ॥

(मदानां पते) हे सोमोंके स्वामी इन्द्र ! (हरिभिः नः सुतं उप-याहि) संकड़ों सहस्रों विभूतियोंवाले अश्वोंके द्वारा हमारे यज्ञमें अभिषुत सोमको पीनेके लिये शीघ्र आओ (हरिभिः नः सुतं उप) अश्वोंके द्वारा हमारे यज्ञमें अभिषुत सोमको पीनेके लिये शीघ्र आओ १

द्विता यो वृत्रहन्तमा विद इन्द्रः शतक्रतुः ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ २ ॥

(वृत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इन्द्रः) वृत्रासुर वा पापका अत्यन्त नाशक और अनेकों प्रकारके पराक्रमवाला जो इन्द्र (द्विता विदे) वृत्रघ्न आदिमें उग्र और जगत् की रक्षाके समय शान्त इसप्रकार दो रूपवाला सबसे जानाजाता है (हरिभिः नः सुतं उप) अश्वोंके द्वारा हमारे यज्ञमें अभिषुत सोमके पीनेको शीघ्र आओ ॥ २ ॥

त्वँ हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ ३ ॥

(वृत्रहन् हि त्वं एषां सोमानां पाता असि) हे पापनाशक इन्द्र क्योंकि तुम इन सामोंको पीनेवाले हो इसकारण (हरिभिः नः सुतं उप) अश्वोंके द्वारा हमारे यज्ञमें अभिषुत सोमके पीनेको आओ ३

प्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं
कृणुध्वम् । विशः पूर्वीः प्रचर चर्षणिप्राः ॥

हे मेरे पुरुषों ! (वः महे वृधे) तुम बहुतसे धनोंको भी बढानेवाले (महे प्रभरध्वम्) महान् इन्द्रके अर्थ सोम अर्पण करो (प्रचेतसे सुमतिं कृणुध्वम्) श्रेष्ठ मतिवाले इन्द्रके अर्थ सुन्दर स्तोत्रको पढ़ो (चर्षणिप्राः पूर्वीः विशः प्रचर) हे मनुष्योंकी कामनाये पूर्ण करने वाले इन्द्र ! तुम्है हविसे पूर्ण करनेवाली प्रजाओंके समीप जाओ ॥१॥

उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जन-
यन्त विप्राः । तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः २

(विप्राः) ऋन्विज (उरुव्यचसे महिने इन्द्राय) जिसकी बड़ीभारी व्यापकता है ऐसे महान् इन्द्रके अर्थ श्रेष्ठ स्तुति और हविरूप अन्न अर्पण करने हैं (तस्य व्रतानि धीरा न मिनन्ति) उस इन्द्रके दक्षिणादि कर्मोंको देवता भी नहीं रोकते हैं ॥ २ ॥

इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे
सहध्वै । हर्यश्वाय वर्धया समापीन् ॥ ३ ॥

(सत्रा राजानं अनुत्तमन्युं इन्द्रं एव) सबोंके ईश्वर जिसके क्रोध को कोई भी वाधा न देसकै ऐसे इन्द्रको ही (वाणीः सहध्वै दधिरे)

स्तुतियें शत्रुओंका तिरस्कार करनेको आगे करती हैं इसकारण हे स्नानः ! तू भी (हर्यश्वाव आपीन् संवर्हष) इन्द्रकी स्तुति करनेको अपने बान्धवोंको उत्तेजना दो ॥ ३ ॥

यदिन्द्र याव तस्त्वमेतावदहमीशीय ।स्तोतार-
मिद्वधिषे रदावसो न पापत्वाय र११, सिषम् १

(इन्द्र याव यावतः) हे इन्द्र ! जब कि तुम जितने धनके स्वामी हो (एतावत् अहं ईशीय) उतने ही धनका मैं भी स्वामी होऊँ (रदवसो) हे धनोंके देनेवाले ! मैं (स्तोतारं इत् द्वधिषे) अपने स्नानाको धन देकर धारण करहीसकूँ (पापत्वाय न रसिषम्) धनहीन होनेके लिये न दूँ ॥ १ ॥

शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवे राय आ कुह-
चिद्विदे । न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो
अस्ति पिता च न ॥ २ ॥

(कुहचिद्विदे महयते) चाहे तहाँ गृहकर तुम्हारी पूजा करनेवाले पुरुषका (दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्) प्रतिदिन धनोंका दान अवश्य ही करता है । इस इन्द्रके वाक्यको सुनकर उपासक कहता है, कि (मघवन् त्वदन्यन् आप्यं नहि) हे इन्द्रतुम्हारे सिवाय हमारा और कोई बान्धव नहीं है (वस्यः पिता च न अस्ति) और प्रशंसा योग्य रत्नकाभी तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥

श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेर्बोधा विप्रस्यार्चतो
मनीषाम् । कृष्वा दुवा११,स्यन्तमा सचेमा १

हे इन्द्र ! (विपिपानस्य अद्रेः हवं श्रुधि) विशेष सोमपान करना चाहतेहुए मुझ दृढ़ उपासकके आह्वानको सुनो (अर्चतः विप्रस्य मनीषां बोध) स्तुति करनेवाले विप्रकी स्तुतिको स्वीकार करो (इमा दुवांसि अन्तमा सच्चा कृष्वा) इन सेवाओंको परम समीपस्थ सहायक होकर स्वीकार करो ॥ १ ॥

न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्य-
स्य विद्वान् । सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि २

हे इन्द्र ! (तुरस्य ते गिरः) शत्रुओंका नाश करनेवाले तेरी स्तुति योंको (असुर्यस्य विद्वान् न अपि मृत्ये) और बलको जानताहुआ मैं नहीं छोड़ता हूँ (सुष्टुतिं न) श्रेष्ठ स्तुतिको भी नहीं छोड़ता हूँ (स्वयशः ते नाम सदा विवक्तिम्) हे असाधारण कीर्तिवाले तेरे स्तोत्रको सदा उच्चारण करता हूँ ॥ २ ॥

भूरि हि ते सवना मानुषेषु, भूरि मनीषी हवते
त्वामित् । मारे अस्मन्मघवञ्ज्योक्कः ॥ ३ ॥

(मघवन् मोनुषेषु ते भूरि सवना) हे इन्द्र ! हम यजमानोंके यहां तुम्हारे बहुतसे सोमाभिषेक हैं (मनीषी त्वामित् भूरि हवते) स्तोत्रा तुमको ही अधिकतर आह्वान करता है, इसकारण (अस्मत् आरे ज्योक् मा कः) हमसे दूर चिरकालपर्यन्त मत रहो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिकं विशाध्यायस्य तृतीया खण्ड समाप्तः

प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । अभीके
चिदु लोककृत्सङ्गे समत्सु वृत्रहा । अस्माकं
बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि
धन्वसु ॥ १ ॥

हे स्तोत्राओं ! (अस्मै इन्द्राय पुरो रथम्) इस इन्द्रके रथके आगे (शूषं सुप्रोऽर्चत) बलको भलेप्रकार पूजो (समत्सु) संग्रामोंमें (सङ्गे अभीके चित्) शत्रुओंके बलके अत्यन्त निकट आनेपर भी (लोककृत्) लोकोंका पालनकर्ता (वृत्रहा) शत्रुओंका नाशक इन्द्र (अस्माकं चोदिता) हम स्तोत्राओंको धन देताहुआ (बोधि) हमारी सेवाओंको जानो (अन्यकेषां धन्वस अधि ज्याकाः नभन्ताम्) दुष्ट शत्रुओंकी धनुषों पर चढ़ीहुई खोटी प्रत्यञ्चापं नष्ट हों ॥ १ ॥

त्व षंसिन्धू षं रवासृजोऽधराचो अहन्न-
हिम् । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वा-
र्यम् । तं त्वा परिष्वजामहे । नभन्तामन्यकेषां
ज्याका अधि धन्वसु ॥ २ ॥

(इन्द्र त्वम्) हे इन्द्र ! तुम (सिधून् अधराचः) वहनेवाले जलके प्रवाहों से भरे नीचेको मुख हांकर जानवाले मेघोंको घरसाओ, क्योंकि तुमने (अहि अहन्) अन्तरिक्षमें जातेहुए मेघको तोड़ा है, इसकारण हे इन्द्र ! तुम (अशत्रु जज्ञिये) शत्रुरहित होते हो (विश्वं वार्यं पुष्यसि) तुम सकल वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करते हो (तं त्वा परिष्वजामहे) ऐसे आपको हम हवि और स्तुतियोंसे वशमें करते हैं (अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याकाः नभन्ताम्) दुष्ट शत्रुओंकी धनुषों पर चढ़ीहुई प्रत्यञ्चापं नष्ट हों ॥ २ ॥

वि षु विश्वा अरातयोर्यो नशन्त नो धियः ।
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति
या ते रातिर्ददिवसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका
अधि धन्वसु ॥ ३ ॥

(नः विश्वाः अरातयः अर्थः सुविनशन्त) हमारे सकल अन्न धनादिको न बढ़नेदेनेवाले और चढ़ाई करनेवाले शत्रु भलेप्रकार नष्ट होगए । हे इन्द्र ! तुम्हारे अर्थ (धियः) हमारे कर्म प्रवृत्त हों (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यः न जिघांसति) जो हमारा वध करना चाहता है (शत्रवे वधं अस्तासि) उस शत्रुके मारनेके लिये शस्त्र छोड़ते हो (ते या रातिः वसु ददिः) तुम्हारा जो धन देनेवाला हाथ है वह हमें धन देय (अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याकाः नभन्ताम्) शत्रुओंके धनुषों पर चढ़ीहुई प्रत्यञ्चापं नष्ट हों ॥ ३ ॥

रेवाँ इद्रेवतः स्तोता स्यात्त्वावतो मघोनः ।

प्रेदु हरिवः सुतस्य ॥ १ ॥

(हरिवः) हे पापहारी अश्वोंवाले इन्द्र (रेवतः स्तोता रेवान् स्यात् इत्) तुम धनवान् की स्तुति करनेवाला धनवान् अवश्य ही हो, कभी दरिद्र न हो (त्वावतः मघोनः सतस्य प्रेदुः) तुमसे धनवान् ऐश्वर्यवान् का स्तोता अवश्य ही ऐश्वर्यशाली ही ॥ १ ॥

उक्तं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत ।

न गायत्रं गीयमानम् ॥ २ ॥

हे इन्द्र (न) इस समय (अगोः गयि आचिकेत) स्तुति न करने वाले के धनको जानते हो (न) इस समय (शस्यमानं उक्थं च) पढ़ेजातेहुए स्तोत्रको भी जानते हो (न) इस समय (गीयमानं गायत्रम्) गायेजाते हुए गायत्र नामक सामको भी जानते हो, इसकारण हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

मा न इन्द्र पीयत्रवे मा शर्धते परादाः ।

शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥ ३ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र तुम (पीयन्नवे न मा परादाः) हिंसा करनेवाले शत्रुके अर्थ हमें न छोड़ो (शर्द्धते मा) तिरस्कार करनेवाले के लिये हमें न छोड़ो (शचीवः शचीभिः शिक्ष) हे शक्तिमान् इन्द्र ! अपने पराक्रमों से हमें अभीष्ट धन दो ॥ ३ ॥

एन्द्रयाहिहरिभिरुप कएवस्य सुष्टुतिम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (हरिभिः कएवस्य सुष्टुति उपायाहि) पापहारी अश्वोंके द्वारा यजमानकी श्रेष्ठ स्तुतिके समीप आओ (अमुष्य दिवः शासतः) इस इन्द्रके द्युलोकका शासन करने हुए हम बड़े सुखमें रहते हैं (दिवावसो दिव यय) हे दीप्त धनवाले इन्द्र तुम स्वर्गलोक को पधारो ॥ १ ॥

अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो २

(अत्र एषां नेमिः) इस यज्ञ में इस अभिषव के पापार्यों की धार (उरां वृकः न विधूनुते) जैसे भेड़को भेड़िया कम्पायान करता है तैसे विशेषरूपसे कम्पायमान करती है (अमुष्य दिवः शासतः) इस इन्द्रके द्युलोक का शासन करते समय हम बड़े सुख में रहते हैं (दिवावसो दिवं यय) हे दीप्त धनवाले इन्द्र तुम स्वर्ग लोक को पधारो ॥ २ ॥

आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ३

हे इन्द्र (इह सोमी वदन् आवा) इस यज्ञमें सोमवाला शब्द करता हुआ अभिषवका पापाण (घोषेण आवत्तु) ध्वनिके साथ तुम्है सोम पहुँचावै (अमुष्य दिवः शासतः) इस इन्द्रके द्युलोकका शासन करते समय हम बड़े सुखमें रहते हैं (दिवावसो दिवं यय) हे दीप्त धनवाले इन्द्र ! तुम स्वर्गलोकको पधारो ॥ १ ॥

पवस्व सोम मन्दयान्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥

(सोम मधुमत्तमः मन्दयन्) हे सोम ! अत्यन्त मधुर रसवाला तू हर्षदायक होता हुआ (इन्द्राय पवस्व) इन्द्रके निमित्त आओ ॥१॥

त सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृश्रत ॥२॥

(विपश्चितः सुतासः) विशेष बुद्धिवर्द्धक और अभिषव किये हुए (शुक्राः ते) निर्मल वह सोम (वायुं असृश्रत) वायुको प्रकट करते हुए २

असृग्रन्देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥३॥

यह अभिषुन सोम (वाजयन्तः देववीतये असृग्रन्) यजमानोंके लिये अन्न चाहते हुए देवताओंके पीनेके लिये ऋत्विजों करके दिये जाते हैं (रथा इव) जैसे कि—स्वामीके लिये शत्रुओंका धन और बल चाहते हुए रथ देवताओंके गमनके लिये विसर्जन कियेजाते हैं ॥३॥

सामवेदोत्तराचिके विशाध्यायस्य चतुर्थे खण्डे समाप्तः

**आग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं स-
हसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम् । य ऊ-
र्ध्वया स्वध्वरो देवाच्या कृपा । घृतस्य विश्रा-
ष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः १**

(दास्वन्त वसाः) परमदानी और निवासके हेतु (सहसः सूनुं जातवेदसम्) मन्थनकालमें बलसे उत्पन्न होनेवाले और प्राणिमात्र के ज्ञाता (विप्रं न जातवेदसम्) ब्राह्मणकी समान परममान्य (यः देवः स्वध्वरः) जो दिव्यस्वरूप यज्ञका सुन्दर निर्वाह करता हुआ (ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा) अत्युत्तम और देवताओंको पूजनेवाली सामर्थ्य से वा देवताओंको हवि पहुँचानेवाली शक्तिसे युक्त होकर (शुक्रशोचिषः आजुह्वानस्य) दीप्ततेज और चागेंओग्ने होमेजानेवाले (सर्पिषः घृतस्य विश्राष्टि अनु) वहनेवाले और विलेपनसे दीप्त हुए घृतकी

विशेष कान्तिको स्वयं भी चाहता है (अग्निं हातारं मन्ये) उस देव-सेनाओंके अग्रणी वा यज्ञोंमें आगे लियेजानेवाले अग्निको अपने यज्ञोंमें देवताओंका आह्वान करनेवाला वा होमका साधक मानता हूँ ॥ १ ॥

यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां
विप्र मन्मभिर्विप्रभिः शुक्र मन्मभिः । परि
ज्मानमिव द्याष्टं हातारं चर्षणीनाम् । शोचि-
ष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः

(विप्र शुक्र) हे मेधावी और प्रज्वलित ज्वालाओंवाले अग्निदेव ! (वयं यजमानाः) हम यजन करना चाहते हैं इसकारण (मन्मभिः विप्रैभिः मन्मभिः) मनन है साधन जिनका ऐसे ऋत्विजोंसे और मंत्रोंसे युक्त हुए (अङ्गिरसां ज्येष्ठम्) अङ्गारोंमें ज्वालायुक्त (यजिष्ठं त्वा हुवेम) परमपूजनीय तुम्हारा आह्वान करते हैं। तदनंतर (द्यां इष परिज्मानम्) सूर्यकी समान चारों ओरको जानेवाले (चर्षणीनां हातारम्) पहिले मनुष्य और पीछे यज्ञादि करनेसे देवभाव को प्राप्त होने वालोंका आह्वान करनेवाले (शोचिष्केशं वृषणं यम्) केशोंकी समान लंबी लपटोंवाले और अभीष्टफल वरसाने वाले आपकी ओरको (विशः इमाः) प्रवेश करनेवाली यह प्रजायें (जूतये प्रभवन्तु) स्वर्ग आदि इच्छितफल पानेकेलिये आपको तृप्त करें ॥ २ ॥

स हि पुरु चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भ-
वति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तरः । वीडु चिद्य-
स्य समृतौ श्रुवद्वनव यत्स्थिरम् । निष्पह-
माणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥ ३ ॥

(सः हि) वह स्तुति क्रियाहुआ अग्नि अवश्य ही (विरुक्मता ओजसा) विशेष दिपतेहुए ज्वालारूप बलकरके (पुरुचित् दीप्यमानः) अन्यन्त अधिक दीप्त होताहुआ (द्रुहन्तरः परशुः न) द्रोह करनेवालो को काटनेवाले फरसे की समान (द्रुहन्तरः भवति) हमसे द्रोह करने वाले शत्रुओंका नाशक होता है (यस्य समृतौ वीडुचित् श्रुवत्) जिसका संग होने पर दृढ़ पाषाण आदि भी टूटजाता है (यत् स्थिरम्

वनेव) जो अविचल पर्वत आदि हैं वह भी जलकी समान छिन्न भिन्न होजाता है, इस कारण यह अग्नि (निःपहमाणः यमते) शत्रुओं को निःशेष करताहुआ क्रीड़ा करता है (न अयते) पलायन नहीं करताहै (धन्वस-हान अयते) धनुषधारी की समान शत्रुओंके सामने से नहीं भागता है ३

अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो
विभावसो । बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां ३
दधासि दाशुष कवे ॥ १ ॥

(अग्ने तव वयः श्रवः) हे अग्ने ! तुम्हारा अन्न प्रशंसनीय है (वि-भावसो अर्चयः महि भ्राजन्ते) हे दीप्तिरूप धनवाले ! तुम्हारी दीप्तियें बड़ी शोभा पाती हैं (बृहद्भानो कवे) हे बड़ी दीप्तिवाले अनुभवी अग्निदेव ! (शवसा उक्थ्यं वाजं दाशुषे दधासि) बलकरके युक्त प्रश-सनीय अन्न तुम हवि अर्पण करनेवाले यजमानको देते हो ॥ १ ॥

पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि
भानुना । पुत्रो मातरा विचरन्नु पावसि पृणाक्षि
रोदसी उभे ॥ २ ॥

हे अग्ने (पावकवर्चाः) शुद्ध करनेवाली है दीप्ति जिसकी ऐसा (शुक्रवर्चाः) निर्मल है तेज जिसका ऐसा (अनूनवर्चाः) पूर्णतेजस्वी तू (भानुना उदियर्षि) तेजके साथ प्रकट होता है, ऐसा तू (पुत्रः) पुत्ररूप से (मातरा विचरन्) यज्ञमें मातृरूपा अग्णियोंमें प्राप्त होता हुआ (उपावसि) समीपके यजमानोंकी रक्षा करता है (उभे रोदसी पृणाक्षि) दोनों आया पृथिवीको स्वयुक्त करता है अर्थात् हविसे चुलेक को और वृष्टिसे इसलोकको पूर्ण करता है ॥ २ ॥

ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धी-
तिभिर्हितः । त्वे इपः संदधुर्भूरिवर्षसश्चित्रा-
तयो वामजाताः ॥ ३ ॥

(ऊर्जः नपात्) हे पार्थिव अन्नरूप अग्णियोंके पुत्र ! (जानवेदः) हे प्राणिमात्रके ज्ञाता अग्निदेव ! (सुशस्तिभिः मन्दस्व) श्रेष्ठ स्तुति

करनेवाले हमारे किये हुएको स्वीकार करो (धीनिभिः हित)हमारे किये हुए अग्निहोत्रादि कर्मोंसे तुम होओ (भृश्विर्षसः चित्रोतयः) अनेकों = पवाले और जिनसे बड़ी तृप्ति होती है ऐसे(वामजाताः इषः) श्रेष्ठ जन्मवाले अन्नोको (त्वे सन्दधुः) यजमान तुम्हारे विषे ही होमते हैं ॥ ३ ॥

इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अ-
मर्त्य । स दर्शतस्य वपुषो विराजसि पृक्षसि
दर्शतं क्रतुम् ॥ ४ ॥

(अमर्ये अग्ने) हे मरणधर्म रहित अग्निदेव (जन्तुभिः इरज्यन्) उत्पन्न हुए शत्रुओं से स्वर्धा करता हुआ अथवा उत्पन्न हुए अपने तेजोंसे ईश्वर होता हुआ (अस्मे रायः प्रथयस्व) हमारे धनको बढ़ा (सः दर्शतस्य वपुषः विराजसि) ऐसा तू तेजोंमें शरीरमें विशेष दीप्त होता है, इसकारण (दर्शतं क्रतु पूर्णात्) दर्शनीय कर्मको फल से युक्त करता है ॥ ४ ॥

इष्कर्त्तारमध्वरस्य प्रचेतसं श्यन्तश्चराधसो
महः । रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि
सानसिच्छंरयिम् ॥ ५ ॥

(अध्वरस्य इष्कर्त्तारम्) यज्ञका स्स्कार करनेवाले (प्रचेतसं महः राधसः क्ष्यन्तम्) श्रेष्ठ ज्ञानवाले और बहुतसे धनके ईश्वर (वामस्य रातिम्) और धन देनेवाले तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, ऐसे तुम (सुभगां मही इषं सानसि रयि दधासि) सौभाग्य युक्त बहुतसा धन और भोगनेयोग्य धन स्तुति करनेवालोंको देते हो ॥ ५ ॥

ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं च सु-
म्नाय दधिरे पुरो जनाः । श्रुत्कर्णं च सप्रथ-
स्तमंत्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥ ६ ॥

(जनाः) ऋत्विज यजमान आदि (ऋतावानं माहेपम्) यज्ञके सम्बंधी और पूजनीय (विश्वदर्शतं अग्निम्) विश्वभरके दर्शनीय अग्निको सुम्नाय पुरः दधिरे) सुखके लिये सब कर्मोंमें प्रथम पूर्व

दिशामें स्थापन करते हैं और हे अग्ने ! (श्रुत्कर्णं सप्रधस्तमं) स्तुतियों को भलेप्रकार सुननेवाला है कान जिनका ऐसे और अत्यन्त प्रसिद्ध (दैव्यं त्वा युगा मानुषा गिरा) देवताओंके सम्बन्धी तुम्है पतिपत्नी युगलरूप यजमान वेदवाणी से स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥

सामवेदोत्तराचिकं विशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वा-
जकर्मभिः । यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (त्वं यस्य सख्यं आविथ) तुम जिस यज-
मानके मित्रभावको प्राप्त होतेहो (सः) वह यजमान (सुवीराभिः
वाजकर्मभिः तव ऊतिभिः प्रतरति) जिनमें वीरपुत्रोंकी प्राप्ति होती है
और अन्न तथा बलकी प्राप्ति होती है ऐसी तुम्हारी रक्षाओंसे वृद्धि
को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विज इन्धानः
सिष्णवाद्दे । त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्ष-
पो वस्तुषु राजसि ॥ २ ॥

(सिष्णो द्रप्सः नीलवान्) हे सोमसे सीचेजानेवाले अग्निदेव !
वहनेवाला शकटरूपी स्थानमें स्थित हुआ (वाशः ऋत्विजः) शब्दा-
यमान और वसन्त आदि ऋतुविशेषमें उत्पन्न हुआ (इन्धानः आद्दे)
दिपतहुआ सोम तुम्हारे विषे होमनेके लिये अभ्यर्च्युमें चरण किया
जाता है (त्वं महीनां उपसो प्रियः अग्नि) तू वउर उपःकालोंकी मित्र
है, क्योंकि—उपःकालमें अग्निये होमके लिये पचालन कीजाता है,
(क्षपः वस्तुषु राजसि) राजसिम्बन्धी टकनेवाली वस्तुओंके होने पर
तू प्रकाशित होता है ॥ २ ॥

तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्विजं तमापो अग्निं
जनयन्त मातरः । तमित्समानं वनिश्च वीरु-
धोऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ॥ १ ॥

(ऋत्विजं गर्भं तं ओषधीः दधिरे) ऋतुमें प्राप्त हुए गर्भरूप तिस
अग्निकी ओषधि धारण करती है (तं अग्निं मातरः आपः जनयन्त)

उस अग्नि को धारण कर्त्ता होनेसे माताकी समान जल उत्पन्न करते हैं (वनिनः च समानं तमित्) वनस्पति भी गर्भभावसे प्रवेश करने के कारण अपने तुल्य तिस अग्निको ही उत्पन्न करते हैं (अन्तर्वतीः वीरुधः च विश्वहा सुवने) गर्भवती ओपधियें भी विश्वदाहक तिस अग्निको ही उत्पन्न करती हैं ॥ ३ ॥

**अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो विराजति ।
महिषीव विजायते ॥ १ ॥**

(अग्निः इन्द्राय पवते) यज्ञमें अग्रणी अग्नि इन्द्रके लिये हमारेदिये हुए पुरोडाशसे अधिक दिपता है (शुक्रः दिवि विराजति) दीम हो कर अन्तरिक्षमें विशेष प्रकाशित होता है (महिषी इव विजायते) जैसे महिषी तृणादिसे दूध घी आदि उत्पन्न करता है तैसे ही देवताओंके अर्थ अनेकों अन्न उत्पन्न करता है ॥ १ ॥

**यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु
सामानि यन्ति । यो जागार तमयः सोम
आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १ ॥**

(यः जागार) जो सदा जागृत रहता है (तं ऋचः कामयन्ते) उसको ऋचाएं चाहती हैं (यः जागार तं उ सामानि यन्ति) जो जागृत रहता है उसको ही स्तोत्ररूप साम प्राप्त होते हैं (यः जागार तं अयं सोमः आह) जो जागृत रहता है उससे यह सोम कहता है कि मुझे स्वीकार करो, हे अग्ने ! (तव सख्ये) ऐसे आपके मित्रभाव को प्राप्त होनेपर (अहं न्योकाः अस्मि) मैं नियत स्थानवाला होऊँ १

**आग्नर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार
तमु सामानि यन्ति । अग्निर्जागार तमयः
साम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १ ॥**

(अग्निः जागार) अग्नि जागृत रहता है (तं ऋचः कामयन्ते) उसको ऋचा चाहती है (अग्निः जागार तं उ सामानि यन्ति) अग्नि जागृत रहता है उसको ही स्तोत्ररूप साम प्राप्त होते हैं (अग्नि जागार तं अयं सोमः आह) अग्नि जागृत रहता है उससे यह सोम कहता है कि—मुझे स्वीकार करो, हे अग्ने (तव सख्ये) ऐसे आपका

मित्रभाव प्राप्त होनेपर (अहं न्योकाः अस्मि) मैं अवश्य ही किसी स्थानका अधिपति होऊँ ॥ १ ॥

नमः सखिभ्यः पूर्वसद्भ्यो नमः साकंनिषेभ्य ।

युञ्जे वाचः शतपदीम् ॥ १ ॥

(पूर्वसद्भ्यः सखिभ्यः नमः) जो यज्ञमें प्रारम्भकालसे पूर्व स्थित होते हैं उन मित्रकी समान हितकारी देवताओंके अर्थ नमस्कार करते हैं (साकंनिषेभ्यः नमः) जो यज्ञमें साथस्थित रहते हैं उन देवताओंके अर्थ नमस्कार करते हैं (शतपदी वाच युञ्जे) हमें अभीष्ट फल देने के लिये असंख्यो मार्गवाली स्तुतिरूप ऋचाका प्रयोग करता हूँ ॥१॥

युञ्जे वाचः शतपदीं गाय सहस्रवर्तनि ।

गायत्रं त्रैष्टुभं जगत् ॥ २ ॥

(शतपदी वाच युञ्जे) असंख्यो मार्गवाला स्तोत्र प्रस्तुत और वक्ष्यमाण देवताओंके अर्थ प्रयोग करता हूँ (गायत्रं त्रैष्टुभं जगत् सहस्रवर्तनि गाये) गायत्र नामक त्रैष्टुभ नामक और जागत् नामक साम की ऋचाको जिसप्रकार कि—वह अनेकों मार्गोंसे हमें अभीष्ट फल देय जिसप्रकार उनका गान करता हूँ ॥ २ ॥

गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्विश्वा रूपाणि संभृता ।

देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ३ ॥

(गायत्रं त्रैष्टुभं जगत्) गायत्री त्रिष्टुप् और जगती छन्दवाली ऋचाओंके समूहरूप (सम्भृता) उद्घाता करके नियत क्रियेष्टुप् (विश्वा रूपाणि) अनेकों स्वरूपवाले (ओकांसि) स्थानोंको (देवाः चक्रिरे) अग्नि आदि देवता करते हैं ॥ ३ ॥

अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योति-

रिन्द्रः । सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः ॥ १ ॥

(अग्निः ज्योतिः) अग्नि ज्योति है (ज्योतिः अग्निः) ज्योति अग्नि है (इन्द्रः ज्योतिः) इन्द्र ज्योति है (ज्योतिः इन्द्र) ज्योति इन्द्र है (सूर्यः ज्योतिः) सूर्य ज्योति है (ज्योतिः सूर्यः) ज्योति सूर्य है ॥१॥

पुनरूर्जानिवर्त्तस्व पुनरग्न इषायुषा ।

पुनर्नः पाह्य अंहसः ॥ २ ॥

(अग्ने ऊर्ता पुनः निवर्त्तस्व) हे अग्निदेव वलमहित हमें फिर प्राप्त होओ (इया आयुषा पुनः) अन्न और आयुसहित फिर प्राप्त होओ (नः अंहसः पुनः पाहि) हमें पापसे फिररक्षा करो ॥ २ ॥

सह रथ्या निवर्त्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया ।

विश्वप्स्व्या विश्वतस्परि ॥ ३ ॥

(अग्ने रथ्या सह निवर्त्तस्व) हे अग्निदेव ! रमणीय धनसहित हमें प्राप्त होओ (विश्वतः परि) सबोंके ऊपर (विश्वप्स्व्या धारया पिन्वस्व) विश्वभरका उपभोग करनेवाली धारासे हमें सींचो ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तरार्चिके विशाध्यायस्य षष्ठे खण्डे समाप्तः

यदिन्द्राऽहं यथा त्वमीशीय वरव एक इत् ।

स्तोता मे गोसखा स्यात् ॥ १ ॥

(इन्द्र यथा स्व वम्बः एकः इत्) हे इन्द्र ! जैसे तुम धनके अकेले ही स्वामी हो (यत् अहं ईशीय) ऐसे ही यदि मैं ऐश्वर्ययुक्त हो जाऊँ तो (मे स्तोता गोसखा स्यात्) मेरा स्तोता गौओंवाला होजाय फिर आप ईश्वरका स्तुति कर्ता गौओंवाला क्यों न होगा ? ॥ १ ॥

शिक्षेयमस्मै दित्सेय अं, शचीपते मनीषिण ।

यदहं गोपतिः स्याम् ॥ २ ॥

(शचीपते यत् अहं गोपतिः स्याम्) हे शक्तिमान इन्द्र ! यदि मैं गौओंका स्वामी होजाऊँ तो (अस्मै मनीषिण दित्सेय शिक्षेयम्) इस मनीषी स्तोताको देना चाहूँ और फिर धनदूँ ॥ २ ॥

धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते ।

गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ ३ ॥

(इन्द्र ते सूनृता धेनुः) हे इन्द्र ! तेरी सत्य मधुर स्तुतिरूपा वाणी गौरूप होकर (पिप्युषी) यजमानकी वृद्धि करना चाहती हुई (सुन्वते यजमानाय गां अश्वं दुहे) सोमका अभिपव करनेवाले यजमानके अर्थ गौं घोड़ों आदि सकल अभीष्ट पदार्थोंको दुह देती है ॥ ३ ॥

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

(हि आपः मयोभुवः स्थ) क्योंकि जो तुम जल सुखको उत्पन्न करनेवाले हो (नाः नः ऊर्जे दधातन) वह तुम हमको अन्नकी प्राप्ति के लिये समर्थ करो (महे रणाय चक्षसे) महान् रमणीय ज्ञानको पाने के योग्य करो ॥ १ ॥

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ।

उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥

हे जलों ! (इह वः यः रसः शिवतमः) इस लोकमें तुम्हारा जो रस परम सुखरूप है (तस्य नः भाजयत) वह रस हमें सेवन कराओ (उशतीः मातरः इव) जैसे कि पुत्रोंकी वृद्धि चाहतवाली मातायें अपने स्तनोंके रसका सेवन कराती हैं ॥ २ ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।

आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥

(आपः यस्य क्षयाय जिन्वथ) हे जलों ! तुम जिस पापके विनाश के लिये हमें प्रेरणा करते हो (तस्मै अरं वः गमाम) उस पापक्षयके लिये शीघ्र ही तुम्हें हम अपने शिर पर डालते हैं, हे जलों ! (नः जनयथा च) हम पुत्र पौत्रादिको उत्पन्न करनेमें प्रयुक्त करो ॥ ३ ॥

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।

प्र न आयुःपि प्रतारिषत् ॥ १ ॥

(वातः नः हृदं शम्भु मयोभु भेषजं आ वातु) वायु हमारे हृदयके लिये रोगोंको शान्त करनेवाला और सुखको उत्पन्न करनेवाला औषधरूप होकर बहै (नः आयुःपि प्रतारिषत्) हमारे आयुकारो अन्नो को बढ़ावे ॥ १ ॥

उत वात पिनाऽसि न उत भ्रातोत नः सखा ।

स नो जीवातवे कृधि ॥ २ ॥

(उत वात नः पिना असि) और हे वायो ! तुम हमारे पिताकी

समान उत्पन्न करनेवाले और रक्षा करनेवाले हो (उन भ्राता) और भ्राताकी समान प्रेम करनेवाले हो (उन नः सखा) और हमारे हितकारी मित्र हो (सः नः जीवातवे कृधि) वह तुम हमें जीवनके हेतु यज्ञके करनेमें समर्थ करो ॥ २ ॥

यद्दो वात ते गृहेऽऽमृतं निहितं गुहा ।
तस्य नो धेहि जीवसे ॥ ३ ॥

(वात ते गृहे) हे वायो ! तुम्हारे स्थानमें (यन् अद् अमृतं गुहा निहितम्) जो यह अविनाशि धन गुहामें स्थित है (विभावसो नस्य नः धेहि) हे विशेष प्रकाशयुक्त धनवाले वायो ! वह धन हमें दो ३

अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्यं वि-
भ्रदत्कं सुपर्णः । सूर्यस्य भानुमृतुथा वसानः
परि स्वयं मेधमृजो जजान ॥ १ ॥

(सुपर्णः वाजी) गरुड़की समान बग वा बलवाला (विश्वरूपः ऋजः) अनेकों प्रकारके प्रकाशवाला पाककारी अग्नि (जनित्रं अन्कम्) अपने उत्पत्तिस्थान अग्निके विलको अपने तेजसे व्याप्त और इसी कारण (हिरण्यं अभि विभ्रत्) मानो सुपर्णकी समान दमकताहुआ पूर्णरूपसे पुष्ट करके (सूर्यस्य भानुम्) सूर्यके प्रकाशको (ऋतुथा वसानः) समय समय पर रात्रिमें यज्ञकी समान ढकताहुआ वा धारण करताहुआ (मेधं परि जजान) यज्ञके निमित्त स्वयं प्रकट होताहै ॥ १ ॥

अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्या-
मधि यत्संबभूव । अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मि-
मानः कनिक्रन्ति (वृष्णो अश्वस्य रेतः) ॥ २ ॥

(रेतः विश्वरूपं यत् तेजः अप्सु शिश्रिये) सारभूत नानाप्रकारका अन्नरूप तेज जलोंका आश्रय करके रहताहै (यत् पृथिव्यां अग्नि संबभूव) जो भूतल पर स्थित है, वह (अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः) आकाशमें अपनी किरणोंके समूहको फैलाताहुआ (वृष्णः अश्वस्य रेतः कनिक्रन्ति) सोमकी आहुतिका आह्वान करताहुआ अत्यन्त शब्द करता है ॥ २ ॥

अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः (सूर्यस्य भानुं)
यज्ञो दधार । सहस्रदाः शतदा भूरिदावा, ध-
र्त्ता दिवो भुवनस्य विश्वपतिः ॥ ३ ॥

(दिवः भुवनस्य धर्त्ता) स्वर्गका और सकल भुवनोका धारण करने वाला (विश्वपतिः) प्रजाओंका पालन करनेवाला (सहस्रदा शतदा वा भूरिदा) याचकोंको उनकी इच्छानुसार सहस्र सौ वा असंख्य धन देनेवाला (यज्ञः अयम्) यजन करनेवाला यह अग्नि (युक्ता सहस्रा परिवसानः) अपने से मिलीहुई सहस्रों किरणों को चारों ओर फैलता हुआ रात्रि में (सूर्यस्य भानुं दधार) सूर्यके भी प्रकाश को स्वयं ही धारण करता है ॥ ३ ॥

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तः हृदा वेनन्तो अ-
भयचक्षत त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं य-
मस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥ १ ॥

हे वेन ! (सुपर्ण पतन्तम्) सुन्दर पतनवाले और अन्तरिक्षमें जाते हुए (हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतम्) सुवर्णमय पक्षोंवाले और जलके अभिमानी वरुणदेवताके दूत (यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्) निसामक विजलीरूप अग्निके स्थान अन्तरिक्षमें पक्षीरूपसे वर्त्तमान और वर्णोंके द्वारा सब जगत् के पोषक (त्वा हृदा वेनन्तः) तुम्है मनसे चाहतेहुए स्तोता (नाके यत् अभिचक्षत) अन्तरिक्षमें जब देखते हैं तब (उप) तुम प्राप्त होते हो ॥ १ ॥

ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात् प्रत्यङ्
चित्रा विभ्रदस्यायुधानि । वसानो अत्कः
सुरभिं दृशे कः स्वाऽऽर्ण नाम जनत प्रि-
याणि ॥ २ ॥

(ऊर्ध्वः गन्धर्वः प्रत्यङ्) ऊपर वर्त्तमान जलोंका धारण करनेवाला वेन हमारे अभिमुख होता हुआ (नाके अधि अस्थात्) अन्तरिक्ष में स्थित होता है । क्या करता हुआ ? (अस्य चित्रा आयुधानि विभ्रत्)

अपने आश्चर्यभूत आयुधोंको धारण करता हुआ (दृशे सुरभिं कं अत्कं वमानः) दर्शनके लिये सुन्दर और फैलनेवाले अपने रूपको सर्वत्र आच्छादन करता हुआ (स्वः न नाम प्रियाणि जनत) उसे सूर्य अपने रूपको दिखाने के लिये सर्वत्र व्यापजता है जैसे । तदनन्तर जलोंको सबके अनुकूल करता है अर्थात् वर्षा करता है ॥ २ ॥

**द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृध्रस्य च-
क्षसा विधर्मन् । भानुः शुक्रेण शोचिषा च-
कानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ३ ॥**

(विधर्मन् द्रप्सः) अन्तरिक्ष में स्थित और जलकी बिन्दुओंवाला (गृध्रस्य चक्षसा पश्यन्) रसोंको चाहनेवाले सूर्यके तेजसे प्रकाशित हुआ घन (यद् समुद्रं अभिजिगाति) जब मेघ की ओरको जाता है तब (ज्ञानुः शुक्रेण शोचिषा) सूर्य स्वच्छ तेजसे (तृतीये रजसि नपात्) तीसरे लोकमें दाँव होता हुआ (प्रियाणि चक्रे) सबके प्यारे जलोंकी वर्षा करता है ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिक विश्वध्यायस्य सप्तमं खण्डः विश्वध्यायश्च समाप्तः

एकविंश अध्याय

**आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः
क्षोभणश्चपणीनाम् । संक्रन्दनोऽनिमिषि एक-
वीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १ ॥**

(आशुः शीघ्रः वृषभः न शिशानः) शीघ्रता करनेवाला वा व्यापक और भयानक वृषभको स्वप्नान शत्रुओंको भय देनेवाला (घनाघनः चर्दमानं नाशकः) पापियोंका नाशक और द्वेषियोंको लोभित करने वाला । स्वप्नानः अविमिषः) देवद्वेषियोंको रुलानेवाला और अपने यज्ञमें जीवित तथा युद्धदिमें आत्तस्य रहित (एकवीरः इन्द्र) अद्वितीय वीर इन्द्र (शतं गताः साकं अजयत्) सैंकड़ों सेनाओंको एक ही उद्योगसे जीतनेवा है ॥ १ ॥

**संक्रन्दनेनाऽनिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दु-
श्च्यवनेन वृष्णुना । तदिन्द्रेण जयत तत्स-**

हृध्वं युधोनर इपुहस्तेन वृष्णा ॥ २ ॥

(युधः नरः) हे योद्धा मनुष्यों! (सक्रन्दनेन अनिमिषेण) देवद्वेषियों को रक्तानवाले और निरालम्ब (जिष्णुना युन्कारेण) जयशील और युद्ध करनेवाले (दुश्कृपवतेन धृष्णुना इपुहस्तेन वृष्णा इन्द्रेण) कुल-गोत्रों में विचलित न होनेवाले शत्रुओंको तर्जना देनेवाले हाथ में धारण-लिये और वर्षा करनेवाले इन्द्रके द्वारा (तन् जयत) उभय युद्धका जीतो (तन् सहध्वम्) उस शत्रुओं के बलका निरस्कार करो ॥ २ ॥

स इपुहस्तैः स निपद्भिर्भिर्वशी सः सृष्टा स
युध इन्द्रो गणेन । सः सृष्टजित्सोमपा वाहुश-
र्ध्युः प्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥

(सः इपुहस्तैः यज्ञीः) वह इन्द्र वाणधारी मरुत् आदि योद्धाओंको वशमें रखता है (सः निपद्भिः) वह खड्गधारी योद्धाओंको वशमें रखता है (सः इन्द्रः युधः गणेन संसृष्टा) वह इन्द्र युद्ध करता हुआ शत्रुसमूहके साथ भिड़जाता है (संसृष्टजित् सोमपाः) इकट्ठे होकर युद्ध करनेवालोंको जीतनेवाला और सोमपान करनेवाला है (वाहुशर्ध्या प्रथन्वा) मज्जनों बलवाला है और अनुपको उद्यत ररता है (प्रतिहिताभिः अस्ता) छोट्टे हुए वाणोंसे अवश्य ही मार डालनेवाला है ३

वृहस्पते परिदीपा रथेन रक्षोहाऽमित्राँ अप-
वाधमानः । प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणो युधा जय-
न्तस्माकमेधविता रथानाम् ॥ १ ॥

(वृहस्पते) हे बहुतोंके रक्षक इन्द्र (रथेन परिदीप) रथपर चढ़-कर आओ, आकर (रक्षोहाऽमित्रान् अपवाधमानः) राजसोंका नाशकर्ता और शत्रुओंको पीड़ा देनाहुआ (सेनाः प्रभञ्जन् प्रमृण) शत्रुओंकी सेनाओंको विघ्न भिन्न करताहुआ नष्ट कर (युधा जयन्) युद्धमें सर्वत्र विजय पानाहुआ (अस्माकं रथानां अधिता एधि) हमारे रथोंका रक्षक हो ॥ १ ॥

वलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी
सहमान उग्रः । अभिर्वारो अभिसत्वा सहौजा

जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित् ॥ २ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र (बलविज्ञायः स्थविरः) सबके बलोंको जानने-वाला और महान् (प्रवीरः सहस्वान्) परमवीर और दूसगोंको दवानेकी शक्ति रखनेवाला (वाजी सहमानः) अन्नवान् और शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाला (उग्रः अभिवीर) तीक्ष्णबली और चारों ओर हैं वीर सेवक जिसके ऐसी (अभिसत्वा सहोजाः) सार्वान् और बलसे उत्पन्नहुआ (गोवित्) स्तुतिको प्राप्त होनेवाला तू (जैत्रं रथं आतिष्ठ) हमारी सहायता करनेको दिजय देनेवाले रथपर चढ़ ॥ २ ॥

गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृ-
णन्तमोजसा । इमंश्च सजाता अनुवीरयध्व-
मिन्द्रश्च सखायो अनुसश्च रभध्वम् ॥ ३ ॥

(सजाताः) हे साथ उत्पन्न हुए वीरों ! (गोत्रभिदं गोविदम्) पर्वतोंके तोड़नेवाले और स्तुतिको प्राप्त होनेवाले (वज्रबाहुं अज्म जयन्तम्) वज्रधारी और संग्रामको जीतनेवाले (ओजसा प्रमृणन्तम्) बलसे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले (इमं इन्द्रं अनुवीरयध्वम्) इस इन्द्रको आगे करके वीरकर्म युद्धको करो (सखायः अनु संरभध्वम्) हे मित्रों! इस इन्द्रके शत्रुओं पर क्रोध करनेपर तुम भी क्रोधमें भरजाओ॥

अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः
शतमन्युरिन्द्रः । दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो
ऽऽस्माकञ्च सेना अवतु प्रयुत्सु ॥ १ ॥

(गोत्राणि सहसा अभिगाहमानः) मेघोंमें बलात्कारसे प्रवेश कर-ताहुआ (अदयः वीरः) शत्रुओं पर दया न करनेवाला और पराक्रमी (शतमन्युः दुश्च्यवनः) सौ यज्ञोंवाला वा बहुत क्रोधवाला और कि-सीसे चलायमान न होनेवाला (पृतनाषाट् अयुध्यः इन्द्रः) शत्रु सेना-ओंका तिरस्कार करनेवाला और जिसके ऊपर कोई प्रहार न करसके ऐसा इन्द्र (युत्सु अस्माकं सेनाः प्रावतु) संग्राममें हमारी सेनाओं की रक्षा करै ॥ १ ॥

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर

एतु सोमः । देवसेनानामभिभञ्जतीनां जय-
यन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् ॥ २ ॥

(आसां इन्द्रः नेता) हमारी सहायताको आई हुई इन सेनाओंका इन्द्र नायक हो (बृहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः सोमः पुरः एतु) बृहस्पति दक्षिणा यज्ञ और सोम आगै हों (मरुतः अभिभञ्जतीनां जययन्तीनां देवसेनानां अग्रं यन्तु) मरुत् देवता मदन करनेवालीं और विजय पानेवालीं देवसेनाओंके आगै चलें ॥ २ ॥

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां
मरुतांशुशर्ध उग्रम् । महामनसां भुवनच्य-
वानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् ॥ ३ ॥

(वृष्णः इन्द्रस्य) अभीष्टफलदाता इन्द्रका (राज्ञः वरुणस्य) राजा वरुणका (आदित्यानां मरुतां उग्रं शर्धः) आदित्य और मरुतोंका उग्रबल हमारा हो (महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः उदस्थात्) उद्धारचित्त और लोकोंको सींचनेवाले विजयी देवताओंका जयशब्द उठता है ॥ ३ ॥

उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामकानां
मनांशुसि । उद्बृत्रहन् वाजिनां वाजिना-
न्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १ ॥

(मघवन् आयुधानि उद्धर्षय) हे इन्द्र ! हमारे आयुधोंको उत्तम हर्षयुक्त करो (मामकानां सत्त्वनां मनांसि उत्) हमारे सैनिकों के मनोंको हर्षयुक्त करो (उद्बृत्रहन् वाजिनां वाजिनानि उत्) हे इन्द्र ! अश्वोंके वेगोंको प्रकट करो (जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु) विजय पानेवाले रथोंके शब्द प्रकट हों ॥ १ ॥

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष-
वस्ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्व-
स्माँ उ देवा अवता हवेषु ॥ २ ॥

(अस्माकं समृतेषु ध्वजेषु इन्द्रः) हमारे शत्रु सेनाओं में पहुँचे हुए ध्वजाधारी सैनिकों में इन्द्र रक्षा करे (अस्माकं याः इषधः ताः जयन्तु) हमारे जो वाण हैं वह शत्रुओं को जीते (अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु) हमारे वीर सबसे ऊपर हों (देवाः अस्मान् उ हवेषु अवत) हे देवताओं ! हमारी ही सग्रामों में रक्षा करो ॥ २ ॥

असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा
स्पर्धमाना । तां गूहत तमसाऽपव्रतेन यथैते-
षामन्यो अन्यं न जानात् ॥ ३ ॥

(मरुतः या असौ ओजसा स्पर्धमाना परेषां सेनानः अभ्येति) हे मरुतों ! जो यह बलसे स्पर्धा करती हुई शत्रुओं की सेना हमारी ओर को चढ़कर आती है (तां अपव्रतेन तमसा गूहत) उस को जिस में कुछ काम न होसकै ऐसे अन्धकारसे छुड़ो (यथा एतेषां अन्यः अन्यं न जानात्) जैसे इनमें एक दूसरे को जान भी न सकै ॥ ३ ॥

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्य-
धे परेहि । अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शाकैरन्धे-
नाऽमित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥ १ ॥

(अघे परेहि) हे पापकी अभिमानीनी देवते ! हमसे दृग् हो (अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती अङ्गानि गृहाण) इन हमारे शत्रु योधाओं के चित्त को मोहित करती हुई उनके अङ्गों को पकड़ (अभिप्रेहि) उनके ऊपर चढ़ाई करके जा और (हृत्सु शाकैः निर्दह) उनके हृदयों में शाकोंके द्वारा दाह डाल (अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्) हमारे शत्रु घोर अन्धकारसे युक्त हों ॥ १ ॥

प्रेता जयता नर इन्दो वः शर्म यच्छतु ।

उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ २

(नरः) हे हमारे योधाओं ! (प्रेत जयत) चढ़ाई करके जाओ और जीतो (इन्द्रः वः शर्म यच्छतु) इन्द्र तुम्हें सुख देय (वः बाहवः उग्राः सन्तु) तुम्हारे भुजदण्ड उग्र हों (यथा अनाधृष्याः असथ) जिसमें कि—तुम किसीसे तिरस्कार न पाओ ॥ २ ॥

अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंश्रिते । ग-
च्छाऽमित्रान्प्रपद्यस्व माऽमीषां कश्चनोच्छिषः

(ब्रह्मसंश्रिते शरव्ये) वेदमंत्रोंसे तीक्ष्ण करे हुए हे हिंसा करनेवाले
वाण ! (अवसृष्टा परापत) छोड़ा हुआ तू दूर चला जा और जाकर
(अमित्रान् प्रपद्यस्व) हमारे शत्रुओंको प्राप्त हो (अमीषां कश्चन मां
उच्छिषः) इन शत्रुओं में से किसीको भी शेष न छोड़ ॥ ३ ॥

कङ्काः सुपर्णा अनुयन्त्वेनान् गृध्राणामन्तम-
सावन्तु सेना । मैषां मोचयवहारश्च नेन्द्र वया-
स्येनाननु संयन्तु सर्वान् ॥ १ ॥

(सुपर्णाः कङ्काः एनान् अनुयन्तु) सुन्दरपरोंवाले मांस मन्त्री पक्षी
इन शत्रुओंके पीछे लगें (असौ सेना गृध्राणां अन्नं अस्तु) यह शत्रु
सेना गृध्रपक्षियोंकी भोजन रूप हो (एषां मां अमोचि) इन गणेशोंमें
से कोई भी न बचै (इन्द्र अवहारश्च न) हे इन्द्र ! जो अधिक पापी
न हो वह भी न छूटे (वयांसि एनान् सर्वान् अनुसंयन्तु) पक्षीरूप
मांसमन्त्री राजस इन सबोंका पीछाले ॥ १ ॥

अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रयतीमभि ।

उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥ २ ॥

(मघवन् वृत्रहन् इन्द्र) हे धनवान् शत्रुनाशक इन्द्र तुम (अग्निः च)
अग्नि भी (उभौ) तुम दोनों (अस्मान् अभि शत्रुयताम्) हमारे प्रति शत्रुता
करनेवाली (अमित्रसेनां प्रति दहतम्) शत्रुसेनाको भस्म करदो ॥ २ ॥

यत्रवाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव ।

तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ।

विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ ३ ॥

(यत्र) जिस संग्राम में (विशिखाः कुमाराः इव) बड़ी शिखा-
वाले कुमारों की समान (वाणाः संपतन्ति) वाण पड़ने हैं (तत्र नः)

तहां हमै (ब्रह्मणस्पतिः अदितिः शर्म यच्छतु) ब्रह्मस्पति अदिति
देवता सुख देय (विश्वाहा शर्म यच्छतु) सर्वदा सुख देय ॥ ३ ॥

वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज ।

वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याऽभिदासतः १

(इन्द्र रक्षः विजहि) हे इन्द्र राक्षसजातिका विनाश करो (मृधः
वि) संग्राम करनेवाले शत्रुओंका विनाश करो (वृत्रस्य हन् विरुज)
हमारी उन्नतिको रोकनेवाले असुरके कपोलोंको ताड़ो (वृत्रहन्
अभिदासतः अमित्रस्य मन्युं) हे इन्द्र ! हमारी भारी हानि करनेवाले
शत्रुके क्रोध को भी विनष्ट करो ॥ १ ॥

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्माः अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥ २ ॥

(इन्द्र नः मृधः विजहि) हे इन्द्र ! हमारे संग्रामकारी शत्रुओं का
विनाश करो (पृतन्यतः नीचा यच्छ) युद्ध करनेके लिये अपनी सेनाओं
को चाहते हुए शत्रुओंको भी नीचा मुख करके लौटाओ (यः अस्मान्
अभिदासति) जो शत्रु हमें चारों ओरसे क्षीण करना चाहता है
उसको (अधरं तमः गमय) निकृष्ट अन्धकार अर्थात् मरणदशामें
पहुँचाओ ॥ २ ॥

इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवनावनाधृष्यौ सुप्रती-

कावसह्यौ । तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते

याभ्यां जितमसुराणां सहो महत् ॥ ३ ॥

(याभ्यां असुराणां महत् सहः जितम्) जिन्होंने असुरोंके बड़ेभारी
बलको जीता (तौ इन्द्रस्य) उन इन्द्रके (स्थाविरौ युवानौ) स्थूल
तरुण (अनाधृष्यौ सुप्रतीकौ) किसीके वशमें न आनेवाले और हाथी
की सूंडकी समान (असह्यौ बाहू) असह्य भुजदण्डोंको (योगे आगते
प्रथमौ युञ्जीत) संग्रामका अवसर आनेपर सबसे पहिले नियुक्त करै ३

मर्माणि ते वर्मणा द्यादयामि सोमस्त्वा राजा-

ऽमृतेनानुवस्ताम् । उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु

जयन्तं त्वाऽनु देवा मदन्तु ॥ १ ॥

हे राजन् ! (ते मर्माणि वर्मणा ह्याद्यामि) तेरे मर्मस्थानोंको कि जिनमें विधने पर मनुष्य शीघ्र मरजाता है उन अङ्गोंको कवचसे ढकता हूँ, तदनन्तर (सोमः राजा त्वा अमृतेन अनु वस्ताम्) सोमराजा तुझै अमृतसे आच्छादन करै (वरुणः ते उरोः धरीयः कृणोतु) वरुण भी तेरे अर्थ बड़ेसे बड़ा सुख करै (देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु) सकल देवता विजय पातेहुए तुझै आनन्द दें ॥ १ ॥

अन्धा अमित्रा भवताऽशीर्षाणोऽहय इव ।

तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरं वरम्

(अमित्राः अशीर्षाणः अहयः इव अन्धाः भवत) हे शत्रुओं ! तुम शिर कटेहुए सपोंकी समान अन्धे होजाओ (तेषां अग्निनुन्नानां वः) उन अग्निके भस्मीभूत कियेहुए तुम शत्रुओंमेंसे (वरं वरं इन्द्रः हन्तु) श्रेष्ठ श्रेष्ठको इन्द्र नष्ट करै ॥ २ ॥

यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्टयो जिघांसति ।

देवास्त॰ सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तर॰ शर्म

वर्म ममान्तरम् ॥ ३ ॥

(यः स्वः अरणः) जो ज्ञातिवाला हमसे प्रेमभाव नहीं रखता है (यः च निष्टयः नः जिघांसति) और जो छुपकर दूरसे ही हमारी हिंसा करना चाहता है (त सर्वे देवाः धूर्वन्तु) उसको सकल देवता नष्ट करै (ब्रह्म मम अन्तरं वर्म) मन्त्र मेरो वाणोंको रोकनेवाला कवच है (शर्म वर्म मम अन्तरं अस्तु) कतयाणमय कवच मेरा रक्षक हो ३

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आज-

गन्था परस्याः । सक॰ स॰शाय पविमिन्द्र

तिगमं वि शत्रूँस्ताडि वि मृधो नुदस्व ॥ १ ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र तू (कुचर गिरिष्ठाः मृगः न भीमः) हिंसक चरण वाले पर्वतनिवासी सिंहकी समान भयदायक है बह तू (परस्याः परा-

वतः आजगन्ध) दूरसे भी दूर द्युलोकसे आओ, और आकर (सूक्तं तिग्मं पविं संशाय) दूरतक पहुँचानेवाले तीक्ष्ण वज्रको तीक्ष्ण करके (शत्रून् विताडि) हमारे वैरियोंको विशेषरूपसे नष्ट करो (विमृथः नुदस्व) संग्राम करनेको उद्यत हुए अन्य शत्रुओंका भी विशेष रूपसे तिरस्कार करो ॥ १ ॥

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभि-
र्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मस्तनूभिर्व्यशे-
महि देवहितं यदायुः ॥ २ ॥

(देवाः कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम) हे सकल देवताओं ! आपके अनु-
ग्रहसे हम अपने कानोंसे सेवन करनेयोग्य कल्याणरूप वचनको सुन
नेमें समर्थ हों अर्थात् हम कभी भी बहिरे न हों (यजत्राः) यज्ञोंमें
चरु पुरोडाश आदिके द्वारा यजन करनेयोग्य हे देवताओं ! (अक्षि-
भिः भद्रं पश्येम) अपने नेत्रोंसे कल्याणरूपको देखसकें अर्थात् हमारी
दृष्टिमें कभी कभी न आध (स्थिरैः अङ्गैः तनूभिः) दृढ़ हाथ पैर
आदि अवयव और शरीरोंको प्राप्तहुए हम (तुष्टुवाग्मः) तुम्हारी
स्तुति करनेहुए (यत् आयुः देवहितम्) जो एक सौ सोलह वर्षकी
वा एक सौ बीस वर्षकी आयु प्रजापति देवताने नियत की है (व्यशे-
महि) उसको हम पावें ॥ २ ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्प-
तिर्दधातु ॥ ३ ॥

(वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति) बहुत है स्तोत्र वा हविरूप अन्न
जिसका ऐसा इन्द्र देवता हमारा अविनाशरूप स्वस्ति करे (विश्व-
वेदाः पूषा नः स्वस्ति) सबोंको जाननेवाला वा सकल ज्ञान ही जिस
के धन हैं ऐसा पृथि देनेवाला पूषानामक देवता हमारा अविनाशरूप
स्वस्ति करे (अरिष्टनेमिः ताक्षर्यः नः स्वस्ति) अहिंसित आयुध-

वाला तत्तुपुत्र गरुत्मान् देवता हमारा अविनाशरूप स्वस्ति करै (बृह-
स्पतिः नः स्वस्ति विद्महे) वडे २ देवताओंका स्वामी महादेव हमारा
अविनाशरूप स्वस्ति करै ॥ ३ ॥

सामवेदोत्तराचिके एकविंशोऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः

इति श्रीसामवेदसंहिताया युक्तप्रान्तान्तर्गत—मुरादाबादनगर-
निवासिना—काशीस्थसस्कृतमहाविद्यालय, पण्डितश्रीनाथ्यायक-
महामहोपाध्यायनिखिलतंत्रस्वतन्त्रस्वर्गीयस्वामिराममिश्र-
शास्त्रिभ्योऽभिगतविद्येन-भागद्वैजगोत्रगौडवंश्यपरिडित-
भालानाथात्मजेन-सनातनधर्मपताकासम्पादकेन
ऋषिकुमारोपनामधारिणा-रामस्वरूपशर्मणा
विरचितः श्रीमत्सायणाचार्यकृत-
भाष्यानुगः सान्वयभाषानु-
वादः समाप्तः ।



श्रीविक्रमाब्दः १९६९ ईशवीयाब्दः १९१२ ।



मिलने का पता—

प० रामस्वरूप शर्मा

मैनेजर-सनातनधर्म प्रेस मुरादाबाद इ.

